

मेघनाद-वध



श्रीमाइकेल मधुसूदनदत्त

मित्राक्षर

मैं तो उसे भाषे, क्रूर मानता हूँ सर्वथा:
दुःख तुम्हें देने के लिए है गर्दा जिसने
मित्राक्षर-बेड़ी। हा ! पहनने से इसने
दो है सदा कामल पदों में कितनी व्यथा !

जल छठता है यह सोच मेरा जी प्रिये,
भाव-रत्न-हीन था क्या दोन उसका हिया,
झूठे ही सुहाग में मुलाने भर के लिये
बसने तुम्हें जो यह तुच्छ गहना दिया ?

रँगने से लाभ क्या है फुलज शतदल के ?
चन्द्रकला उज्वला है आप नोलाकाश में ।
मन्त्रपूत करने से लाभ गङ्गा-जल के ?
गन्ध डालना है व्यर्थ पारिजात-वास में ।

प्रतिमा प्रकृति की-सी कविता असल के
चीना बधू-सुल्य पद क्यों हों लौह-पाश में ?

चतुर्दश पदावली से अनूदित *

* * *

“माव कुमाव अनख आलसहूँ ।
नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥”

* * *

“हरि अनंत हरि-कथा अनंता ।
कहहि सुनहि बहुविधि श्रुति संता ।”

* * *

सूची

				६६
निवेदन
जीवनचरित	२८
बङ्गभूमि के प्रति	७२
आत्म-विलाप	७४
मेघनाद-वध और माइकेल		७५
परिचय और आलोचना		८०
सतामत्त		१५०—१९०
मूलग्रन्थ		१ से २९०
शब्द-कोष		१ से १३



निवेदन

माइकेल मधुसूदन दत्त के “ब्रजाङ्गना” और “वीराङ्गना” नामक दो प्रसिद्ध काव्यों का पद्यानुवाद राष्ट्रभाषा में उपस्थित किया जा चुका है। आज उन्हीं तुर्बल हाथों से उक्त महाकवि के सबसे बड़े और प्रसिद्ध काव्य “मेघनाद-वध” का पद्यानुवाद प्रस्तुत किया जाता है।

मनुष्य का मन कुछ विचित्र ही होता है। वह बहुधा अपनी योग्यता का विचार भी भुला देता है। जिस वस्तु पर वह जितना मुग्ध होता है उसे अपनाने के लिए उतना ही आग्रही भी होता है। इसी कारण मनुष्य कभी कभी साहस कर बैठता है। प्रस्तुत पुस्तक के अनुवाद के विषय में भी यही बात हुई।

नहीं तो कहाँ मेघनाद-वध काव्य और कहाँ अनुवादक की योग्यता ? यही वह ग्रन्थ है, जिसकी रचना से मधुसूदनदत्त उन्नीसवीं शताब्दी के सबसे बड़े प्रतिभाशाली और युग-प्रवर्तक पुरुष माने गये हैं ! ऐसे ग्रन्थ—और वह भी काव्यग्रन्थ—का अनुवाद करके यश की आशा करना अनुवादक जैसे जन के लिए पागलपन है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु यश के लिए यह साहस नहीं किया गया, पाठक विश्वास रखें। मेघनाद-वध-सदृश काव्य एक प्रान्त का ही ध्वन न रहे, राष्ट्रभाषा के द्वारा वह राष्ट्रीयसम्पत्ति बन जाय; इतना न हो सके तो अन्ततः उस रत्न की एक झलक हिन्दीभाषाभाषियों को भी देखने को मिल जाय। इसीके लिए यह साहस कहेिए, प्रयत्न कहेिए या परिश्रम कहेिए, किया।

गया है। इस उद्देश की सफलता पर ही उसकी सार्थकता अबलम्बित है। परन्तु इसके विचार करने का अधिकार आप लोगों को है, अनुवादक को नहीं।

हिन्दी में अनुकान्त कविता का कुछ कुछ प्रचार हो चला है; परन्तु शायद अब भी एक बड़ा समुदाय उसे पढ़ने के लिए प्रस्तुत नहीं। अभ्यास से ही उसकी ओर लोगों की रुचि बढ़ेगी। बङ्गभाषा-भाषियों ने भी पहले इस काव्य का आदर न किया था। बात यह है कि एक प्रकार की कविता सुनते सुनते जिनके कान अभ्यस्त हो रहे हैं, उन्हें तद्विपरीत रचना अवश्य खटकेंगी। यह स्वाभाविक है। बङ्गाल की बात ही क्या, जिस मिल्टन कवि के आदर्श पर मधुसूदन ने इस तरह की कविता लिखी है, सुना है, पहले पहल अँगरेजी के साहित्यसेवियों ने उसका भी विरोध किया था।

वह खटक दूर कैसे हुई? अभ्यास से,—इस तरह की कविता की वार वार आवृत्ति करने से। इस विषय में माइकेल मधुसूदन दत्त का यही कहना था। एक वार उनके मित्र बाबू राजनारायण वसु ने उन्हें अपने छन्द की गठनप्रणाली के विषय में पूछा। मधुसूदन ने कहा—“इसमें पूछने और बताने की कोई बात नहीं। इसकी आवृत्ति ही सब बातें बता देगी। जो इसे हृदयङ्गम करना चाहें वे वार वार पढ़ें। वार वार आवृत्ति करने पर जब उनके कान दुरुस्त हो जायेंगे तब वे समझेंगे कि अमित्राणर क्या वस्तु है।” यति के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ अर्थ की पूर्णता और श्वास का पतन हो वही वहाँ इसकी यति समझनी चाहिए।

साधारण जनों की तो बात ही क्या, पढ़े बड़े विद्वान भी पहले इस काव्य के पक्षराती न थे। प्रसिद्ध बङ्गीय पण्डित श्रीश्वन्द्रे

विचारलन ने भी इसके विपक्ष में अपना मत प्रकट किया था। एक दिन प्रख्यात नाटककार दीनबन्धु मित्र ने उनसे कहा—अच्छा, आप सुनिए, देखिए, मैं मेघनाद-बध पढ़ता हूँ। यह कह कर दीनबन्धु मित्र पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में पण्डित श्रीश्रचन्द्र उनके मुँह की ओर देखकर बोले—आप कौन-सा काव्य पढ़ रहे हैं ? यह तो बहुत ही सुन्दर है। यह पुस्तक तो वह पुरतक नहीं जान पड़ती।

स्वयं पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर पहले अमित्राक्षर छन्द के पक्षपाती न थे। किन्तु मेघनाद-बध पढ़ कर उन्होंने अपनी राय बदल दी थी और वे मधुसूदन के एकान्त पक्षपाती हो गये थे।

हिन्दी के एक विद्वान ने लिखा है कि “जिन लोगोंको अनुप्रास का प्रतिबन्ध बाधा देता है उन्हें पद्य लिखने का साहस ही क्यों करना चाहिए ? वे गद्य ही क्यों न लिखें। अर्थ और भाव को बिगाड़ना तो दूर, अनुप्रास उल्टा उसे बनाते हैं और नई सूझ पैदा करते हैं।” इत्यदि।

एक दूसरे विद्वान ने अपनी वक्तृता में कहा है—“अच्छा साहब, बेतुकी ही कहिए, पर उसमें कुछ सार भी तो हो।” वक्ता के कहने का ढग स्पष्ट बता रहा है कि वह ऐसी कविता से भड़कता है। यदि उसमें कुछ सार हो तो उसे सुनना ही पड़ेगा। मतलब यह कि मीठे के लिए जूठा खाना पड़ेगा। अमित्राक्षर छन्द के विषय में हिन्दी के कुछ विद्वानों की ऐसी ही राय है।

जो लोग यह कहते हैं कि अनुप्रास नई सूझ पैदा करते हैं, वे कृपा कर इस विषय में फिर विचार करें। अनुप्रास नई सूझ पैदा करते हैं, यह कहना किसी कवि का अपमान करना है। वे यह कहते कि अनुप्रास का बन्धन कवि को बाधा नहीं दे सकता, तब भी एक बात थी।

परन्तु क्या वास्तव में ऐसा ही है ? इसे अकृतभोगी ही जान सकते हैं कि कभी तुक के कारण कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है। जिनका काफ़िया तग नहीं होता, निस्सन्देह वे भाग्यवान हैं; परन्तु वे भी यह मानने के लिए तैयार न होंगे कि अनुप्रास के कारण हमें नई सूझ होती है। जो लोग ऐसा मानते हों वे दया के पात्र हैं। क्यों कि अनुप्रास की कृपा से उन बेचारों को भाव सूझ जाता है !

सम्भव है, कभी कभी, अनुप्रास से कोई बात ध्यान में आजाय ; परन्तु कौन कह सकता है कि अनुप्रास के कारण जो भाव सूझा है, उसके बिना उससे भी बढ़ कर भाव न सूझता ? बहुधा ऐसा होता है कि अनुप्रास के लिए भाव भी बदल देना पड़ता है। शब्दों के तोड़-मरोड़ की तो कोई बात ही नहीं। कभी कभी अनावश्यक और अनर्थाक पद का प्रयोग करने के लिए भी विवश होना पड़ता है। यह कविता के लिए ठीक प्रति-कूल होता है। जो बात गौण होती है उसे प्रधानता देनी पड़ती है और जो प्रधान होती है उसे गौण बनाना पड़ता है। कवि के स्वाभाविक धारा-प्रवाह को ऐसा धक्का लगाता है कि सारा रस चल-विचल हो जाता है। कवि जिस शब्द का प्रयोग करना चाहता है उसके बदले, लाचार होकर, उसे दूसरा शब्द रखना पड़ता है।

सच तो यह है कि तुक एक कृत्रिमता है। जहाँ तक कानों का सम्बन्ध है, वह भले ही अच्छी मालूम हो; किन्तु हृदय हिला देने वाली वस्तु दूसरी ही होती है। जो अतुकान्त कविता को 'बेतुकी' कह कर उसकी हँसी उड़ते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वाल्मीकि, व्यास और कालिदास ने तुकबन्दी नहीं की। जब से शब्दालङ्कारों की ओर लोग झुक पड़े तब से कविता में कृत्रिमता और आडम्बर का समावेश हुआ। महाकवि मिल्टन ने भी तुकबन्दी नहीं की। माइकेल मथुसूदन दत्त के

सामने आदर्श थे ही; फिर वे क्यों 'झूठे सुहाग' में अपनी कविता-कामिनी को मुलाते ? उन्होंने देखा कि मित्राक्षर छन्द के कारण कविता के स्वाभाविक प्रवाह को धक्का लगाता है। प्रत्येक चरण के अन्त में श्वासपतन के साथ सुथ भाव पूरा करना पड़ता है। इससे एक ओर जिस तरह भाव को सङ्कीर्ण करना पड़ता है, उसी तरह दूसरी ओर भाषा के गाम्भीर्य और कल्पना की उन्मुक्त गति में भी बाधा पड़ती है। इसी लिए उन्होंने इस शृङ्खला को तोड़ कर अपनी भाषा में अमित्राक्षर छन्द की अवतारणा की। उन्होंने छन्द की अधीनता न करके छन्द को ही अपने अधीन बनाया। आरम्भ में लोगों ने उनकी अवज्ञा की; परन्तु आज बङ्गाली उनके नाम पर गर्व करते हैं। वङ्गिम बाबू ने लिखा है—

“यदि कोई आधुनिक ऐश्वर्यगर्हित यूरोपीय हमसे कहे—
‘तुम लोगों के लिए कौनसा भरोसा है ? बङ्गालियों में मनुष्य कहलाने लायक कौन उत्पन्न हुआ है ?’ तो हम कहेंगे—धर्मोपदेशकों में श्रीचैतन्यदेव, दार्शनिकों में रघुनाथ, कवियों में जयदेव और मधुसूदन।

“भिन्न भिन्न देशों में जातीय उन्नति के भिन्न भिन्न सोपान होते हैं। विद्यालोचना के कारण ही प्राचीन भारत उन्नत हुआ था। उसी मार्ग से चलो, फिर उन्नति होगी। * * * * *
अपनी जातीय पताका उड़ा दो और उस पर अङ्कित करो—
“श्रीमधुसूदन !”

सुप्रसिद्ध महात्मा परमहंस रामकृष्ण देव ने मधुसूदन के विपत्तियों को लक्ष्य करके जो कुछ कहा था, उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है—

“तुम्हारे देश में यह एक अद्भुत प्रतिभाशाली पुरुष उत्पन्न हुआ था। मेघनाद-ब्रध जैसा काव्य तुम्हारी वङ्गभाषा में तो है ही नहीं, भारतवर्ष में भी इस समय ऐसा काव्य दुर्लभ है। तुम्हारे देश में यदि

कोई कुछ नया काम करता है तो तुम उसकी हँसी उड़ा कर उसका अपमान करते हो, यह नहीं देखते कि वह क्या कहता है और क्या करता है । जिस किसीने पहले की तरह कुछ न किया, लोग उसीके पीछे पड़ जाते हैं । इसी मेघनाद-वध काव्य को, जो वङ्गभाषा का मुकुटमणि है, अपदस्थ कराने के लिए 'छह्रदर-वध' काव्य लिखा गया ! तुम जो कर सको, करो । परन्तु इससे क्या होता है ? इस समय यही मेघनाद-वध काव्य हिमालय पर्वत की तरह आकाश भेद कर खड़ा है । जो लोग इसके दोष दिखाने में ही व्यस्त थे, उनके आक्षेप कहीं उड़ गये ? जिस नूतन छन्द में और जिस ओजस्विनी भाषा में मधुसूदन अपना काव्य लिख गये हैं, उसे साधारण जन क्या समझेंगे ?”

परमहंस देव ने जिस छह्रदर-वध काव्य का उल्लेख किया है, उसके प्रारम्भिक अंश का पद्यानुवाद पाठको की कौतूहल-निवृत्ति के लिए नीचे दिया जाता है—

छह्रदर-वध

“साधु, विधि-वाहन, सुपुच्छ कृपा करके
 मुझको प्रदान करो, चित्रित करूँ जो मैं,
 हनन किष्ठा था किस कौशल या बल से
 आशुगति युक्त आके (भूपर गगन से)
 वज्रगल, आमिषाशी दुर्जय शकुन्त ने
 साध्वी, पद्मलौरभा, छह्रदर छबीली का !
 कम्पित हुई थी वह कैसे नखाघात से—
 नीरनिधि-तीर मानों तरल तरङ्गों से ।”

“अर्कवर वृक्ष तले, विद्रुत गमन से,
 (अन्तरीक्ष-पथ में ज्यों लाञ्छित कलम्ब से

आशुग इरम्मद है सन सन चलता)
 एकदा चतुष्पदी छल्लेंदर थी घूमती
 पत्ते खड़काती हुई । पीछे पुष्प-गुच्छ-सी
 पुच्छ हिलती थी अहा ! सुन्यामाङ्ग वङ्ग मे
 विश्वप्रसू, विश्वम्भरा, दशभुजा देवी पै
 (पुत्री है नगेन्द्र की जो माता गजेन्द्रास्य की)
 ऋत्तिको की मण्डली ज्यो चामर डुलाती है
 शोभन शरद मे । या घटिका सुथन्त्र वा
 दिव्य दोलदण्ड डोलता है वार वार ज्यो ।”

मञ्जुसूदन दत्त ने इस कविता पर रोष न कर के लेखक की रचना की प्रशंसा करते हुए तोष ही प्रकट किया था ।

अब इस विषय मे अधिक लिखने की जरूरत नहीं जान पड़ती ।

अनुवाद के छन्द के विषय मे “वीराङ्गना” काव्य के अनुवाद की भूमिका में लिखा जा चुका है । मूल बँगला छन्द १४ अक्षरों का है । यह १५ या १६ अक्षरों का होता है । परन्तु इसमे १५ अक्षरों वाला ही प्रयुक्त हुआ है । अतएव मूल के छन्द से इसमें एक ही अक्षर अधिक है । बँगला मे मे, से आदि विभक्तियों के लिए अलग अक्षर नहीं होते । किसी अकारान्त शब्द को एकारान्त कर देने से ही वह विभक्ति-युक्त हो जाता है । जैसे “सम्मुख समर” पद मे ‘समर’ को ‘समरे’ कर देने से ही “समर मे” का अर्थ निकलने लगता है । इसलिए अनुवाद वाले छन्द में एक अक्षर का अधिक होना मूल छन्द से अधिक होना नहीं कहा जा सकता ।

अनुवाद में इसकी परवा नहीं की गई कि एक एक पंक्ति का अनुवाद एक ही एक पंक्ति में किया जाय । तथापि अधिकांश स्थलों में

सूळ और अनुवाद की पक्तियों की संख्या एक-ही ही है। जहाँ कहीं अन्तर हुआ है, वहाँ थोड़ा ही।

हिंदी में अनुकान्त कविता के लिए लोगो ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न छन्द चुने हैं। लेखक ने इसी छन्द को पसन्द किया है। वर्णात्मक होने पर भी लघु, गुरु के नियमों से विशेष बद्ध न होने के कारण अनुवादक को यही उपयुक्त जान पड़ा। हिन्दी के कवियों ने तो अभी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है; परन्तु हर्ष की बात है कि गुजराती भाषा के प्रसिद्ध विद्वान और कविताकार श्रीयुक्त केशवलाळ हर्षदराय ध्रुव ने भी अमित्राक्षर छन्द के रूप में इसीको ग्रहण किया है। इसे हिन्दी में प्रयुक्त देख कर उन्होंने ऐसा नहीं किया; वरन स्वयं चिन्तना करके उन्होंने इसे ही इस तरह की कविता के लिए चुना है। यह दूसरी बात है कि अनुवादक ने उनसे पहले हिन्दी में इसका प्रयोग किया है। परन्तु उनको इसकी खबर न थी। कुछ दिन हुए, कतिपय मित्रों के साथ, अनुवादक को अहमदाबाद में, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस छन्द के सम्बन्ध में, गुजराती में, एक छोटी-सी पुस्तक भी लिखी है। इन पक्तियों के लेखक को प्रायः अपने ही परिणाम पर, पहले से ही, पहुँचा हुआ देख कर ध्रुव महाशय ने प्रसन्नता प्रकट की थी।

अनुवादक की राय में १५ या १६ अक्षरों के रूप में इस छन्द का प्रयोग वैसा ही होना चाहिए जैसा घनाक्षरी या रूपघनाक्षरी के किसी चरण का उत्तरार्द्ध होता है। पूर्वार्द्ध के अन्त में कहीं कहीं जो दो गुरु अक्षर आते हैं, उनसे कुछ टूट-सी पड़ती है। घनाक्षरी या रूप-घनाक्षरी में तो यह टूट मालूम नहीं पड़ती; क्योंकि वहाँ चरण पूरा नहीं होता। किन्तु इस नये प्रयोग में चरण वहीं पूरा हो जाता है। जैसे—

“सॉफ़ समै भौन सँफ़वाती क्यो न देत आली,”
 यहाँ अन्त में दो गुरु अक्षरो वाला ‘आली’ शब्द है, इस लिए लेखक की राय में यहाँ चरण का अन्त मान लेने में झङ्कार ठीक नहीं रहती; मालूम होता है, आगे कुछ और कहना चाहिए। इसी कारण बहुधा कवियों ने चरणान्त में ऐसा रूप नहीं रक्खा है। जब उन्होंने चरण का उत्तरार्द्ध १६ अक्षरों का रक्खा है तब या तो अन्त में दो अक्षर लघु रक्खे हैं या एक गुरु और एक लघु। जैसे—

“वारिये नगर और औरछे नगर पर।”

और—

“ऐसे गजराज राजे राजा रामचन्द्र पौरि।”

केशवदास।

“मोर वारी बेसर सु-केसर की आड़ वह।”

और—

“भौरन की ओर भीरु देखै मुख मोरि मोरि।”

देव।

अनुवादक ने जहाँ १६ अक्षरों के रूप में नये ढंग से इसका प्रयोग किया है, वहाँ ऐसा ही किया है। नीचे “पलासी के युद्ध” से दो उदाहरण दिये जाते हैं—

“अबला-प्रगल्भता जमा हो देव, जो हो फिर;

भीति होती हो तो मैं दिखाऊँगी कि—ओ हो फिर !”

और—

“होंगे यदि पापी के शरीर में सहस्र प्राण,

तो भी नहीं पा सकेगा मुझसे कदापि प्राण।”

परन्तु ध्रुव महाशय ने इस नियम की अपेक्षा नहीं की। उन्होंने

१६ अक्षरों के रूप में इसका प्रयोग करके अन्त में दो गुरु भी रखे हैं ।
उदाहरण—

“ठीक, मित्रो, तो हूँ कहुँ तेम करो ने अमारो ।”

और—

“अहो भाई, जेभो मारुँ सौँभलवा इच्छता हो ।”

हिन्दी में भी लेखक को एक आध ऐसा उदाहरण मिला है, जहाँ घनाक्षरी के चरणान्त में दो गुरु अक्षरों का प्रयोग हुआ है । श्रीयुक्त पण्डित पद्मसिंह जी शर्मा ने अपनी “विहारी की सतसई” के पहले भाग में सुन्दर कवि का एक कवित्त उद्धृत किया है । वह इस प्रकार है—

“कहुँ वन माल कहुँ गुंजन की माल कहुँ
संग सखा ग्वाल ऐसे हास [ल] भूलि गये हैं ।
कहुँ मोरचन्द्रिका लकुट कहुँ पीत पट
मुरली मुकुट कहुँ न्यारे डारि दये है ।
कुंडल अडोल कहुँ “सुंदर” न बोले बोल
लोचन अलोल मानों कहुँ हर लये हैं ।
घूँ घट की ओट ह्वै कै चितयो कि चोट करी
लालन तो लोटपोट तब ही तें भये है ॥”

इस कवित्त के प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु के बाद दो गुरु आये हैं । परंतु ऐसे उदाहरणों की विरलता ही इस बात को सिद्ध करती है कि कविजन अंत में ऐसा रूप रखना पसंद नहीं करते । पण्डित पद्मसिंह जी की राय में इस कवित्त की रचना अनुप्रास-पूर्ण होने पर भी शिथिल है । लेखक की राय में उस शिथिलता का यह भी एक कारण हो सकता है ।

परन्तु ध्रुव महाशय के प्रयोग में एक विशेषता है। छन्द की गति के अनुसार पढ़ने में यद्यपि कहीं कहीं कुछ कठिनाई पड़ती है, पर उनकी रचना में बहुधा अन्वय करने की आवश्यकता नहीं होती। यही उनके प्रयोग की विशेषता है। आशा है, हिन्दी के कोई समर्थ कवि उद्योग करके देखेंगे कि हिन्दो में भी ऐसा हो सकता या नहीं।

इस छन्द की यति का जो नियम प्राचीनों ने निर्धारित किया है, नये प्रयोग में भी उसका पालन करने से गति बहुत सुन्दर रहती है। साधारणतया कहीं ८ अक्षरों पर यति होती है और कहीं ७ पर। जैसे—

“सुनते न अधमउधारन तिहारो नाम,
और की न जानें पाप हम तो न करते।”

पञ्चाकर ।

पहले टुकड़े में ७ अक्षरों पर और दूसरे में ८ अक्षरों पर यति है। परन्तु कवियों ने इस नियम की प्रायः उपेक्षा की है। उदाहरण—

१—“नेह उरक्षे से नैन देखिबे कौं बिरुक्षे से,
बिष्णुकी सी भौंहे उभ्रके से उरजात है।”

२—“तिमिर वियोग मूले लोचन चकोर फूले,
आई ब्रजचन्द्र चन्द्रावलि चलि चन्द ज्यो।”

ये दोनों उदाहरण आचार्य केशवदास के हैं। कविरत्न देव का भी एक कवित्त दिया जाता है—

“टटकी लगन चटकीली उमँगनि गौन,
लटकी लटक नट की सी कंला लटक्यो;
त्रिवली पलोटन सलोट लटपटी सारी,
चोट चटपटी, अटपटी चाल चटक्यो।

चुकुटी चटक त्रिकुटीतट मटक मन

भृकुटी कुटिल कोटि भावन में भटक्यो;

टटल बटल बोल पाटल कपोल देव

दीपति पटल मे अटल ह्वै के अटक्यो ॥”

इन उदाहरणों में रेखाङ्कित पदों पर दृष्टि डालिए। उन्हें देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि कवियों ने यति के नियम की परवा नहीं की। माइकेल मधुसूदन दत्त ने भी, मूल छन्द मे, अपनी स्वाभाविक गति के लिए ऐसी ही स्वतन्त्रता से काम लिया है। अनुवाद में भी ऐसा ही किया गया है। परन्तु अपनी तुच्छ मति के अनुसार यह देख लिया गया है कि यथा-सम्भव छन्द की गति में बाधा न आने पावे।

अनुवाद में यथाशक्ति मूल का अनुसरण किया गया है। इस कारण इसमें, स्थान स्थान पर, दूरान्वय, कष्टकल्पना आदि दोष दिखाई देंगे; अनुपयुक्त उपमाएँ मिलेंगी और व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग सामने आवेंगे। मेघनाद-वध के कवि बहुत ही उच्छृङ्खल प्रकृति के थे। वरुणानी के बदले उन्हें वारुणी पद अच्छा मालूम हुआ। उन्होंने वरुण की पत्नी के अर्थ में उसीका प्रयोग कर दिया। जो शब्द कन्या के अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए उसे पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त करना उच्छृङ्खलता की चरम सीमा है। अनुवादक की इतनी हिम्मत न हो सकी। इसके लिये ग्रन्थकार की आत्मा के निकट वह क्षमा-प्रार्थी है। क्योंकि कवि ने हठ-पूर्वक उसका प्रयोग किया है और उसके लिए निम्नलिखित कैफियत दी है—

“The name is वरुणानी but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as वारुणी and I don't know why I should

bother myself about Sanskrit rule.” मतलब यह कि हमने वरुणानी को इसलिए वारुणी से बदल दिया है कि यह हमारे कानों को अच्छा लगता है। हम नहीं समझते कि हम क्यों संस्कृत के नियमों को बाधा माने।

इसी प्रकार ‘कार्तिकेय’ को कवि ने ‘कृत्तिकाकुलवल्लभ’ कहा है। किन्तु वल्लभ’ शब्द प्रिय वाचक होने पर भी प्रणयी के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ‘जानकीवल्लभ’ इत्यादि। इसलिए अनुवाद में ‘कार्तिकेय’ पद का ही प्रयोग किया गया है ?

कवि ने शायद इसी स्वतन्त्र प्रकृति के कारण ‘गुण’ के स्थान में ‘शोभा’ और ‘बहुत’ या ‘समूह’ के स्थान में ‘कुल’ शब्द का प्रयोग किया है। ‘अन्तरस्थ’ के स्थान में ‘अन्तरित’ और ‘निरर्थक’ के स्थान में ‘निरर्थ’ आदि शब्दों का सममाना व्यवहार किया है। अनुवाद में भी, कही कही, ऐसे शब्दों का प्रयोग दृष्टिगोचर होगा। ‘रजत’ शब्द के बदले कवि ने ‘रजः’ शब्द का प्रयोग किया है। यथा—

सफरी, देखाते धनी रजःकान्ति छटा

और—

उज्वलिल सुख-धाम रजोमय तेजे ।

अनुवाद में कही ‘रजत’ या उसका पर्याय और कही कवि का मूल शब्द ही रहने दिया गया है। जैसे—

रौप्यकान्ति विभ्रम दिखाने को दिनेश को

और—

चारु चन्द्रिका ने रजोदीप्ति वहाँ फैलाई ।

‘निषादी’ असल में महावत को कहते हैं। परन्तु कवि ने सादी (अश्वरोही सैनिक) के जोड़ में, गजारोही योद्धा के अर्थ में उसका

प्रयोग किया है। अनुवाद में भी वह वैसा ही रक्खा गया है।

कवि के स्वभाव की उच्छृङ्खलता का उसके काव्य में विलक्षण परिचय मिलता है। महत् के साथ तुच्छ की तुलना करते हुए भी उसने सङ्कोच नहीं किया है। इसके कई उदाहरण इस काव्य में हैं। एक देखिए—
प्रमीला की स्त्री-सेना जिस समय घोड़ों पर सवार हुई, कवि ने लिखा है—

—हृषिक अश्व मगन हरषे,
दानव-दलिनी-पद पद्म युग धरि
वचे, विरूपाक्ष सुखे नादेन येमति ।

अर्थात्—

—मग्न हय हींस उठे हर्ष से,
दैन्य-दलिनी के पद-पद्म रख वक्ष पै,
नाद करते हैं विरूपाक्ष यथा हर्ष से ।

कवि की प्रयुक्त की हुई उपमाएँ बड़ी सुंदर हैं, इतने सदेह न हो; पर सब कहीं वे उपयुक्त नहीं हुईं। विभीषण के साथ जाते हुए लक्ष्मण के विषय में कवि ने लिखा है—

—हुरपति सह
तारकसूदन येन शोभितः दुजने;
किं वा त्वषाम्पति सह इन्दु लुधानिधि

अर्थात्—

—मानों इंद्र अग्निभू के साथ में,
अथवा सुधाकर के साथ मानों सविता ।

कुछ समालोचक मधुसूदन के इस 'किं वा' या 'अथवा' से बहुत घबराते हैं। क्रम-से-क्रम इस स्थल पर उनका घबराना ठीक ही मान्य

होता है। क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा की शोभा हो नहीं सकती।
सुतराम् यह उपमा निरर्थक है।

मेघनाद के लिए कवि ने एक आध जगह 'असुरारिपु' लिखा है। यह कूट नहीं तो क्लिष्ट अवश्य है। परंतु एक आध स्थान पर ही होने के कारण अनुवाद में भी ऐसा ही रहने दिया गया है।

षष्ठ सर्ग में, मेघनाद-वध के समय, कवि ने लिखा है—

—शङ्ख, चक्र, गदा,

चतुर्भुजे चतुर्भुज,—

इसमें न्यूनपद दोष है। पद्य छूट गया है। किन्तु अनुवाद में वह जोड़ दिया गया है—

शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज को

ऊपर जैसे न्यूनपद दोष है, वैसे ही कही कही अधिकपद दोष भी आगया है। यथा—

अश्रुमय आँखि, पुनः कहिला रावण,

मन्दोदरीमनोहर,—कह रे सन्देशवह !

इसमें 'रावण' के रहते हुए 'मन्दोदरीमनोहर' की कोई सार्थकता नहीं। इस लिए अनुवाद में यह दोष दूर कर दिया गया है। परन्तु वहाँ रावण के बदले मन्दोदरीमनोहर रक्खा गया है। कारण, उसके साथ सन्देशवह पदने में जच्छा लगता है।

साश्रुमुख मन्दोदरीमोहन ने आशा दी,—

कह हे सन्देशवह !

कहीं कहीं अर्द्धान्तरैकपद दोष भी इसमें पाया जाता है। जैसे—

—कह रे सन्देश—

कह !—

और—

शुद्धला फूल शयने सौरकर राशि—

रूपिणी सुर-सुन्दरी—

कहने की आवश्यकता नहीं कि 'सन्देशवह' का 'वह' दूसरी पंक्ति में चला गया है और 'सौरकरराशिरूपिणी' का 'रूपिणी' पद भी * अनुवाद में यथा-सम्भव ऐसा नहीं होने दिया गया है। हाँ, कहीं कहीं पहली पंक्ति का 'है' या 'है' पद जो दूसरी पंक्ति में चला गया है तो उसकी परवा नहीं की गई।

कवि ने कहीं कहीं प्रसिद्धि का त्याग भी किया है। जैसे—

कैलासाद्रिवासी व्योमकेश-मुनती हूँ मैं—

शक्ति-सङ्ग बैठ कर श्रेष्ठ स्वर्णासन पै,—

यहाँ शिव के लिए 'स्वर्णासन' प्रसिद्धि-विरुद्ध है। इसी प्रकार प्रमीला के विषय में लिखा है—

मर्त्ये रति मृत काम-सह सहगामी

अनुवाद—

रति मृत काम सहगामिनी-सी मर्त्य मे

परन्तु वस्तुतः मृत काम के साथ रति सती नहीं हुई थी।

कहीं कहीं अवाचकता दोष भी इस काव्य में पाया जाता है।

उदाहरण—

—वाञ्छि वाञ्छि लइते सत्त्वरे

तीक्ष्णतर प्रहरण नश्वर सङ्ग्रामे

यहाँ सङ्ग्राम के लिए नृश्वर विशेषण ठीक नहीं जान पड़ता। नश्वर का अर्थ होता है— नाशवान। किन्तु कवि ने नाशक के अर्थ में उसका प्रयोग किया है। अनुवाद में वह इस तरह बदल दिया गया है—

चुन चुन तीक्ष्ण शर लेने को तुरन्त ही
जो हों प्राणनाशी नाशकारी रणक्षेत्र में ।

एक जगह कवि ने लिखा है—

प्रतारित रोष आभि नारिन् ब्रूफते

रोष का प्रतारित-विशेषण उपयुक्त नहीं । प्रतारित का अर्थ है वञ्चित,
और कवि का अभिप्राय है बनावटी क्रोध से । इसलिए अनुवाद में
प्रतारित के स्थान में कृत्रिम कर दिया गया है—

समझ सकी न कोप कृत्रिम मैं उसका ।

मेघनाद-वध में गर्भित वाक्य बहुत पाये जाते हैं । एक वाक्य के
बीच में एक और वाक्य कह देना कवि के वर्णन करने का ढंग-सा
है । इसलिए उसे बदलना ठीक नहीं समझा गया । उससे एक तरह
का कौतूहल ही होता है । उदाहरण—

और किस कुचण मे, (तेरे दुख से दुखी,)

लाया था कृशानुशिखा-रूपी जानकी को मैं ।

इसमें 'तेरे दुख से दुखी' गर्भित वाक्य है । कहते हैं, वर्णन करने
का यह ढंग कवि ने अँगरेज़ी से लिया है ।

एक स्थल पर कवि ने लिखा है—

कह केमन रेखेऊ,

काङ्गालिनी आमि, राजा आमार से धने ।

इसमें 'काङ्गालिनी आमि' से दूरान्वय ज़रूर हो गया; पर कवि
के कहने का यह भी एक ढंग है । इसलिये अनुवाद में भी ऐसा ही
रक्खा गया है । यथा—

रक्खा कहो, तुमने,

कैसे मैं अकिञ्चना हूँ, मेरे उस धन को ।

ऊपर एक स्थान पर उपमा के अनौचित्य के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है। इसी सम्बन्ध में ख्याति-विरुद्धता का एक उदाहरण और देखिए—

सोही स्निग्ध कवरी में मोतियों की पंक्ति यों—

मेघावली-मध्य इन्दुलेखा ज्यो शरद में ।

शरद के बादल सफेद होते हैं। किन्तु कवि ने काले केशों से उनकी तुलना कर डाली है।

व्याहतत्व दोष का एक उदाहरण देखिए—

डरती हूँ क्या मैं सखि, राघव भिखारी को ?

लङ्का में प्रविष्ट आज हूँगी भुजबल से;

कैसे नर-रत्न मुझे रोकते हैं, देखूँगी ।

पहले राघव को भिखारी कहकर फिर नररत्न कहना उपहासा-स्पद मालूम होता है।

रसदोष भी इस काव्य में जहाँ तहाँ दिखाई पड़ता है। तीसरे सर्ग में लङ्का को प्रस्थान करते समय प्रमीला की वीर रसात्मक उक्तियों बड़ी सुन्दर हैं। किन्तु उनमें—

मधु अधरों में, विष रखती हैं आँखों में

हम; बल है क्या नहीं इन भुजनालों में ?

देखें, चलो, राघव की वीरता समर में;

देखूँगी ज़रा मैं वह रूप जिसे देखके

मोही बुआ शूर्पणखा पञ्चवटी-वन में ।

यह शृङ्गार रस की झलक होने से, प्राचीनों के मत से, रसबिभावपरिग्रह दोष हो गया है। नवम सर्ग में, स्मशानयात्रा के समय, बड़वा की पीठ पर रक्खे हुए प्रमीला के सारसन और कवच के विषय में कवि ने लिखा है—

मणिमय सारसन, कवच सुवर्ण का
दोनों है मनोहृत-से,—सारसन सोच के,
हाय ! वह सूक्ष्म कटि ! कवच विचार के,
उन्नत-उरोज युग वे हा ! गिरि-शृङ्ग-से !

यह अकाल-रस-व्यञ्जना बहुत खटकती है । यदि एक आध शब्द की बात होती तो अनुवाद में फेरफार किया जा सकता था, परन्तु कवि का सारा का सारा आशय बदलने या छोड़ देने का साहस अनुवादक नहीं कर सका ।

इसी कारण हर-गौरी का अनुचित शृङ्गारवर्णन भी वैसा ही रहने दिया गया है, अष्टम सर्ग में कामुक-कामुकी प्रेतों का वर्णन भी अश्लील भावापन्न होते हुए भी वैसा ही रहने दिया गया है, नरक-वर्णन जो बहुत चिस्तृत है, उसमें काठ-छोटा नहीं की गई और दूसरे सर्ग में जगदम्बा के सामने काम का शृङ्गाररसात्मक मोहिनी-वर्णन भी वैसा ही रहने दिया गया है । सारांश, कवि ने जो बात जिस तरह वर्णन की है, उसे उसी तरह अनुवाद में रहने दिया गया है ।

लक्ष्मी के लिए 'केशव-वासना' और सीता के लिए 'राघव-वाञ्छा' पदों का प्रयोग कवि ने किया है । अनुवाद में इनकी जगह 'केशव की कामना' और 'राम-कामना' कर दिया गया है । छन्द की गति की रचा के लिए ही ऐसा किया गया, कहना उचित है । जिस कवि के कान इतने सङ्गीतमय (Musical) हैं कि नियम-विरुद्ध होने पर भी वह 'वल्गु-गान्त्री' के बदले 'वाष्णी' का निस्सङ्कोच प्रयोग करना है, उसके सामने, उसीके प्रयुक्त किये हुए 'केशव-वासना' और 'राघव-वाञ्छा' पदों के बदले 'केशव की कामना' और 'राम-कामना' के विषय में और कुछ कहना शक्यता के सिवा और क्या हो सकता है ? इस विषय में इतना ही

कहना पर्याप्त होगा कि कवि की 'वासना' अनुवादक के लिए उपेक्षणीय नहीं। लङ्का को कवि ने जहाँ 'जगत की वासना' कहा है वहाँ अनुवाद में भी उसे 'विश्व की वासना' कहा गया है।

अनुकान्त होने पर भी मेघनाद-वध की रचना प्राप्त-पूर्ण है। वर्णावृत्ति से कवि ने उसे खूब ही सजाया है। अनुवाद में भी जहाँ तक हो सका, इस बात की चेष्टा की गई है कि अनुवाद की रचना भी वैसा ही प्राप्तपूर्ण रहे। छन्द के अनुरोध से यदि कवि के ही प्रयुक्त किये हुए शब्द नहीं आ सके हैं तो उनके बदले ऐसे पर्याय रखे गये हैं जिनसे रचना का सौन्दर्य न बिगाड़ने पावे। जैसे कवि ने यदि लक्ष्मी को 'पुण्डरीकाक्षवचोनिवासिनी' कहा और वह वैसा का वैसा अनुवाद के छन्द में न आ सका तो उसके बदले 'विष्णुवचो वासिनी' कहकर तीनों वकारादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन कारणों से सम्भव है, अनुवाद की भाषा कुछ क्लिष्ट समझी जाय। मधुसूदन ने सैकड़ों नये नये शब्द निस्सङ्कोच अपनी कविता में प्रयुक्त किये हैं। इस पर वङ्गभाषा के प्रेमियों ने उन्हें उन शब्दों को पुनरुज्जीवित करने और अपनी भाषा की शब्द-सम्पत्ति बढ़ानेवाला कहकर उनका अभिनन्दन ही किया है। मालूम नहीं, हिन्दी-प्रेमी इस बात को किस दृष्टि से देखेंगे। अनुवादक का यही कहना है कि जो लोग भाषा को सरल रखने के ही पक्षपाती हों उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि यह टीका नहीं, भाषान्तर है—और एक काव्य-ग्रन्थ का भाषान्तर। इस कारण अनुवादक को सरलता की अपेक्षा मूल ग्रन्थ की ओजस्विता पर अधिक ध्यान रखना पड़ा है। इसीलिए मेघनाद-वध की—

बाजिल्लि राक्षस-वाद्य, नादिल राक्षस

इस प्रसिद्ध पंक्ति का अनुवाद—

रक्षोरण-वाद्य बजे, रक्षोराण गरजे

किया गया है। यह शायद मूल की अपेक्षा छिष्ट समझा जाय। परन्तु पाठक इस अनुवाद में इससे भी कठिन भाषा पायेंगे। तथापि “कुल मिला कर” अनुवाद की भाषा मूल की भाषा से कठिन न होगी।

जहाँ तक हो सका है, मूल के भावों की रक्षा करने की कोशिश की गई है; परन्तु अज्ञता के कारण अनेक त्रुटियाँ रह गई होंगी, सम्भव है, कहीं कहीं भाव भी भङ्ग हो गये हों। परन्तु ज्ञानतः ऐसा नहीं होने दिया गया।

कवि की भाषा की छटा और वर्णन की घटा का भी एक छोटो-सा उदाहरण देखिए—मेघनाद के वध का बदला लेने के लिए रावण निकलता है—

“बाहरिला रघोराम पुष्पक आरोही;
घर्घरिल रथचक्र निर्घोषे, उगारि
विस्फुल्लिङ्ग; तुरङ्गम ह्येषिल उछाले।
रतनसम्भवा विभा, नयन धौंधिया,
धाय क्षत्रे, ऊषा यथा, एक चक्र रथे
उदेन आदित्य जने उदय अचले !
नादिल गम्भीरे रथः हेरि रघोनाथे।”

इसका अनुवाद इस तरह किया गया है—

“पुष्पक में बैठा हुआ रघोराम निकला,
धूमें रथ-चक्र घोर घर्घर-निनाद से,
गल कृशानु-कण; हँसि हृथ हर्ष से।
धौंधा कर आगे चली रत्नसम्भवा विभा,
या चलती है यथा आगे उष्णरश्मि के,
व उदयाद्रि पर, एकचक्रस्थ में,

होता है उदित वह ! देख रघोराज को
रघोगण गरजा गभीर धीर नाद से ।”

कहीं कहीं, सुभीते के अनुसार, कोई बात कुछ फेरफार करके भी
कह दी गई है। परन्तु मूल का भाव बिगाड़ने न पावे, इसका ध्यान
रक्खा गया है। जैसे—

“उत्तर करि ला इन्द्र—हे वारीन्द्र सुते,
विश्वरमे, ए विश्वे ओ राँगा पा दुखानि
विश्वेर आकाँचा मा गो ! जार प्रति तुमि
कृपा करि, कृपादृष्टि कर, कृपामयि,
सफल जनम तार; कोन पुण्य बले
लभिल ए सुख दास, कह ता दासरे ?”

इन पंक्तियों का अनुवाद इस तरह किया गया है—

“बोला तब वासव—हे सृष्टिशोभे, सिन्धुजे,
लक्ष्मि, लोकलालिनि, तुम्हारे पद लाल ये
लोक-लालसा के लक्ष्य हैं इस त्रिलोकी में ।
जिस पै कृपामयि, तुम्हारी कृपाकोर हो,
होता है सफल जन्म उसका तनिक में ।
हे माँ, सुख-लाभ यह आज इस दास ने
पाया किस पुण्यबल से है, कहो, दास से ?”

मूल और अनुवाद में कुछ अन्तर रहने पर भी आशा है, भावों में कोई
अन्तर न समझा जायगा ।

“बड़ आलबासेन विरूपाक्ष लक्ष्मी रे ।”

इसका शब्दार्थ होता है कि—विरूपाक्ष लक्ष्मी को बहुत प्यार करते हैं ।
परन्तु अनुवाद किया गया है—

“लक्ष्मी पर लाड़ है बड़ा ही विरूपाक्ष का।”
कहीं कहीं दो एक पद अपनी ओर से भी जोड़ दिये गये हैं। जैसे—

“मूल गये भोलानाथ कैसे उसे सहसा !”

‘भोलानाथ’ पद मूल का न होने पर भी कवि की वर्णन-शैली के प्रतिकूल नहीं ।

ए कथा सुनिले

रुचिषे लङ्कार नाथ पडिब सङ्कटे ।

अनुवाद—

रावण सुनेगा, क्रुद्ध होगा, मैं विपत्ति में
पड़के न दर्शन तुम्हारे फिर पाऊँगी ।

अनुवाद में दर्शन न पाने की बात जुड़ जाने से अनुवादक की
राय में सरमा के चरित का उत्कर्ष साधन हुआ है। अर्थात् यदि तुम्हारे
दर्शन करने को मिलते तो मैं सङ्कट की भी परवा न करती ।

नारिषे रजनी, मूढ़, आवरिते तोरे ।

इसका अनुवाद—

रात्रि-तम भी तुझे

ढँक न सकेगा अरे, रात्रिञ्जर-रोष से ।

कहने की ज़रूरत नहीं कि अनुवाद का “रात्रिञ्जर-रोष से” मूल में नहीं।
परन्तु उसकी सार्थकता स्वयं सिद्ध है। जैसे समुद्र के सम्बन्ध में
बड़वाग्नि और वन के सम्बन्ध में द्वाग्नि अपेक्षित है उसी प्रकार
‘रात्रि-तम’ के लिए ‘रात्रिञ्जर रोष’ आवश्यक समझ कर जोड़
दिया गया ।

* बहुत डरते डरते एक आध जगह कोई कोई शब्द बदल भी दिया
गया है। जैसे—तीसरे सर्ग में नृमुण्डमालिनी के यह कहने पर कि

मेघनाद की पतिव्रता पत्नी प्रमीला लङ्का में प्रवेश करना चाहती है, आप या तो युद्ध करें या मार्ग छोड़ दें; तब

“बोले रघुनाथ—सुनो तुम हे सुभाषिते,
करता अकारण विवाद नहीं मैं कभी ।”

यहाँ मूल में ‘सुभाषिते’ के स्थान में ‘सुकेशिनी’ पद व्यवहृत हुआ है। पाठक चाहे तो ‘सुभाषिते’ के बदले ‘सुकेशिनी’ ही पद सकते हैं।

इसी प्रकार मेघनाद के अर्धों के विषय में कवि की उक्ति है—

‘पशुपति-त्रास अस्त्र पाशुपत-सम’

इसका अनुवाद होगा—

पशुपति त्रास अस्त्र पाशुपत-तुल्य है।

परन्तु अनुवादक ने उसे इस प्रकार लिखा है—

पाशुपत से भी घोर आशुगति अस्त्र है।

मधुसूदन जब कोई नया पैराग्राफ़ शुरू करते हैं तब किसी चरण के प्रारम्भ से ही करते हैं। चरण के अन्त में ही उसे पूरा भी करते हैं। उनके बाद रवीन्द्र बाबू प्रभृति लेखकों ने यह बन्धन भी नहीं रक्खा। आवश्यकतानुसार किसी चरण के बीच से भी नया पैरा शुरू कर देने की चाल उन्होंने चला दी है। नष्ट होने के तौर पर इस अनुवाद में भी दोन्धर जगह ऐसा कर दिया गया है। उदाहरण—

“जितने धनुर्धर है, सब चतुरङ्ग से
सज्जित हों एक सङ्ग ! घोर रणरङ्ग में
आज यह ज्वाला—यह घोर ज्वाला भूखूँगा,—
भूल जो सखूँगा मैं !”

“सभा में हुआ शीघ्र ही
दुन्दुभिनिनाद घोर”— (इत्यादि)

जहाँ तक राक्षसों के साथ कवि की सहायुभूति है वहाँ तक फिर भी सहन किया जा सकता है । परन्तु कवि ने कहीं कहीं भगवान रामचन्द्र और लक्ष्मण को उनके आदर्श से गिरा दिया है । यह बात वास्तव में बहुत ही खलती है । थोड़े ही हेरफेर से यह दोष दूर किया जा सकता था । जैसे तीसरे सर्ग में नृमुण्डमालिनी के चले जाने पर श्रीरामचन्द्र ने विभीषण से यह कहा है—

“ॐ ॐ ॐ मित्र, देख इस दूती की
आकृति मैं भीत हुआ मन में, विसार के
तत्क्षण ही युद्धसाज ! मूढ़ वह जन है
छेड़ने चले जो इन सिंघियों को सेना को;
देखूँ चलो, मैं तुम्हारी भ्रातृ-पुत्र-पत्नी को ।”

इसके स्थान में यह कहा जा सकता था—

“ॐ ॐ ॐ मित्र, देख इस दूती का
साहस प्रसन्नता हुई है मुझे मन में;
निश्चय ही सिंघिनी-सी वीर-नारियाँ हैं ये ।
देखूँ चलो, मैं तुम्हारी भ्रातृ-पुत्र-पत्नी को ।”

श्रीरामचन्द्र फिर कहते हैं—

“क्या ही विस्मय है, कभी ऐसा तीन लोक में
देखा-सुना मैं ने नहीं ! जागते ही रात का
क्या मैं स्वप्न देखता हूँ ? सत्य कहो मुझसे
मित्ररत्न, जानता नहीं मैं भेद कुछ भी;
चञ्चल हुआ हूँ मैं प्रपन्न यह देख के !”

इन पंक्तियों के बदले निम्न लिखित पंक्तियाँ लिखी जा सकती थीं—

“सचमुच दृश्य यह अद्भुत अपूर्व है ।

मित्र, अबलाएँ प्रबलाएँ दीखती हैं ये,
 मानों शत मूर्तियों से शूरता है प्रकटी !
 मेरे वीर-जीवन का बढ़ता विनोद है;
 देखता है मानों वह स्वप्न एक जागता !”

इसी प्रकार कुछ कुछ परिवर्तन कर देने से मर्यादापुरुषोत्तम की मर्यादा की रक्षा की जा सकती थी। परन्तु मान्य मित्रों की राय हुई कि परिवर्तन करने से कवि का प्रकृत परिचय प्राप्त न हो सकेगा। कवि को उसके प्रकृत रूप में ही हिन्दी प्रेमियों के सामने उपस्थित करना चाहिए। इस लिए यह प्रयत्न नहीं किया गया।

पारपी राक्षसों के प्रति कवि का इतना पक्षपात देखकर जान पड़ता है, लङ्का का राजकवि भी मेघनाद-वध में वर्णित घटनाओं का ऐसा ही वर्णन करता। हम लोगों ने भारतवर्षीय कवियों द्वारा वर्णित “राम-चरित” बहुत पढ़ा-सुना है। राक्षसों के कवि की कृति भी तो हमें देखनी चाहिए ! रामभक्तों को इससे विरक्त होने की आवश्यकता नहीं। उनके लिए तो पहले से ही सन्तोष का कारण मौजूद है—

“भाव, कुभाव, अनख, आलस हू,
 नाम जपत मङ्गल दिसि दस हू।”

पर्यवसान में एक बात ध्यान में आती है। वह यह कि अनेक दोष रहने पर भी मेघनाद-वध काव्य अपनी विचित्र वर्णनच्छटा के कारण उत्तरोत्तर आदरणीय हो रहा है। इससे सूचित होता है कि अन्त में सर्वसाधारण गुण के ही पक्षपाती होते हैं। दोषों की ओर उनका आग्रह नहीं होता। बस, अनुवादक के लिए यही एक भरोसे की बात है।

मधुसूदन के जीवनचरित-लेखक श्रीयुत योगीन्द्रनाथ वसु, बी. ए., मधु-स्मृति नामक ग्रन्थ के प्रणेता श्रीयुत नगेन्द्रनाथ सोम एवं मेघनाद-

वध काव्य के उभय टीका कार श्रीयुत दीनानाथ सन्याल, बी. ए. और श्रीयुत ज्ञानेन्द्रमोहन दास के निकट अनुवादक बहुत श्रेणी है। उन्हीं के ग्रन्थों की सहायता से यह पुस्तक इस रूप में प्रकाशित हो रही है। अतएव अनुवादक ही क्यों, समस्त हिन्दीसंसार उनका आभार स्वीकार करेगा।

निवेदन समाप्त करने के पूर्व अनुवादक अपनी घुटियों के लिए, नम्र भाव से, वार वार क्षमा-प्रार्थी है।

—अनुवादक।

माइकेल मधुसूदन दत्त का जीवनचरित

[लेखक—श्रीमान् पण्डित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी]

अभ्रं कपोन्मिषितकीर्तिसितातपत्रः

स्तुत्यः स एव कविमण्डलचक्रवर्ती ।

यस्यैच्छयैव पुरतः स्वयमुज्जिहीते

द्राग्व्याच्यवाचकमयः पृतनानिवेशः ॥

—श्रीकण्ठचरित ।

(अर्थात्—भाकाशगामिनी कीर्ति को, अपने ऊपर, छत्र के समान धारण करने वाला वही चक्रवर्ति कवि स्तुति के योग्य है, जिसकी इच्छा मात्र ही से शब्द और अर्थ रूपी सेना, आप ही आप, तत्काल उसके सम्मुख उपस्थित हो जाती है ।)

वङ्ग भाषा के विख्यात ग्रन्थकार बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है—

“कवि की कविता को जानने में लाभ है; परन्तु कविता की अपेक्षा कवि को जानने से और भी अधिक लाभ है । इसमें सन्देह नहीं । कविता कवि की कीर्ति है; वह हमारे हाथ ही में है; उसे पढ़ने ही से उसका मर्म विदित हो जाता है । परन्तु जानना चाहिए कि

जो इस कीर्ति को छोड़ गया है उसने इसे किन गुणों के द्वारा, किस प्रकार छोड़ा है।

“जिस देश में किसी सुकवि का जन्म होता है उस देश का सौभाग्य है। जिस देश में किसी सुकवि को यश प्राप्त होता है उस देश का और भी अधिक सौभाग्य है। जिनका शरीर अब नहीं है, यश ही उनका पुरस्कार है। जिनका शरीर बना है, जो जीवित हैं, उनको यश कहाँ ? प्रायः देखा जाता है कि जो यश के पात्र होते हैं उनको जीते जी यश नहीं मिलता। जो यश के पात्र नहीं होते, वही जीते जी यशस्वी होते हैं। साक्रेटिस, कोपर्निकस, गैलीलिओ, दान्ते इत्यादि को जीवित दशा में कितना क्लेश उठाना पड़ा ! वे यशस्वी हुए, परन्तु कब ? मरने के अनन्तर !”

वर्द्धिम बाबू की उक्ति से हम सहमत हैं। मनुष्य के गुणों का विकास प्रायः मरने के अनन्तर ही होता है। जीवित दशा में ईर्ष्या, द्वेष और मत्सर आदि के कारण मनुष्य औरों के गुण बहुधा नहीं प्रकाशित होने देते। परन्तु मरने के अनन्तर रागद्वेष अथवा मत्सर करना वे छोड़ देते हैं। इसीलिए मरणोत्तर ही प्रायः मनुष्यों की कीर्ति फैलती है। यदि जीते ही कोई यशस्वी हो तो उसे विशेष भाग्यशाली समझना चाहिए। जीवित दशा में किसी के गुणों पर लुब्ध होकर उसका सम्मान जिस देश में होता है उस देश की गिनती बदार और उन्नत देशों में की जाती है। आनन्द का विषय है कि मधुसूदन दत्त के सम्बन्ध में ये दोनों बातें पाई जाती हैं। उनकी जीवित दशा ही में उनके देशवासियों ने उनका बहुल-बहुल आदर करके अपनी गुणग्राहकता दिखाई। और मरने पर तो उनका जितना आदर हुआ वतना आज तक और किसी बङ्ग-कवि का नहीं हुआ।

मधुसूदन वाल्यावस्था ही से कविता करने लगे थे। परन्तु, उस समय, वे अँगरेज़ी में कविता करते थे; बँगला में नहीं। वे लड़कपन ही से विलास-प्रिय और शृङ्गारिक काव्यों के प्रेमी थे। अँगरेज़ी कवि बाइरन की कविता उनको बहुत पसन्द थी। उसका जीवनचरित भी वे बड़े प्रेम से पाठ करते थे। उनका स्वभाव भी बाइरन ही का-सा उच्छृङ्खल था। स्वभाव में यद्यपि वे बाइरन से समता रखते थे, तथापि बँगला काव्य में उन्होंने मिल्टन को आदर्श माना है। अँगरेज़ लोग मिल्टन को जिस दृष्टि से देखते हैं, बङ्गाली भी मधुसूदन को उसी दृष्टि से देखते हैं। मधुसूदन के “मेघनाद-वध” की तुलना मिल्टन के “पारांदाइज़ लास्ट” से की जाती है।

मधुसूदन के समय तक बँगला में अमित्राचर छन्द नहीं लिखे जाते थे। हमारे दोहा, चौपाई, छप्पय और घनाचरी आदि के समान उसमें विशेष करके पयार, त्रिपदी और चतुष्पदी आदिक ही छन्द प्रयोग किये जाते थे। लोगों का यह अनुमान था कि बँगला में अमित्राचर छन्द हो ही नहीं सकते। इस बात को माइकेल ने निर्मूल सिद्ध कर दिया। वे कहते थे कि बँगला भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है, अतएव संस्कृत में यदि इतने सरस और हृदयग्राही अमित्राचर छन्द लिखे जाते हैं तो बँगला में भी वे अवश्य लिखे जा सकते हैं। इसको उन्होंने मेघनाद-वध लिख कर प्रमाणित कर दिया। इस प्रकार के छन्दों में इस अपूर्व वीर रसात्मक काव्य को लिख कर मधुसूदन ने वग भाषा के काव्यजगत में एक नये युग का आविर्भाव कर दिया। तब से लोग उनका अनुकरण करने लगे और आज तक बँगला में अनेक अमित्राचर छन्दोवद्ध काव्य हो गये। जब इस प्रकार के छन्द बँगला में लिखे जा सकते हैं, और बड़ी योग्यता से लिखे जा सकते हैं, तब उनका हिन्दी में

भी लिखा जाना सम्भव है। लिखने वाला अच्छा और योग्य होना चाहिए। अभित्राक्षर लिखने में किसी विशेष नियम के पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। इन छन्दों में भी यति अर्थात् विराम के अनुसार ही पद-विन्यास होता है। वर्णस्थान और मात्राएँ भी नियत होती हैं। भेद केवल इतना ही होता है कि पादान्त में अनुप्रास नहीं आता। बँगला में पयार आदि मित्राक्षर छन्दों के अन्त में शब्दों का जैसा मेल होता है, वैसा अभित्राक्षर छन्दों में नहीं होता। एक बात और यह है कि मित्राक्षर छन्दों में जब जिस छन्द का आरम्भ होता है तब उसमें अन्त तक समसख्यक मात्राओं के अनुसार, सब कहीं, एक ही सा विराम रहता है। परन्तु मधुसूदन के अभित्राक्षर छन्दों में यह बात नहीं है। वहाँ सब छन्दों का भङ्ग हो कर सब के यति विषयक नियम यथेच्छ स्थान में रखे गये हैं—यति के स्थानों की एकता नहीं है। किसी पंक्ति में पयार छन्द के अनुसार आठ और चौदह मात्राओं के अनन्तर यति है और किसी में त्रिपदी छन्द के अनुसार छः और आठ मात्राओं के अनन्तर यति है। इत्यादि।

मधुसूदन दत्त की मृत्यु के २० वर्ष पीछे बाबू योगेन्द्रनाथ वसु, बी. ए. ने उनका जीवनचरित बँगला में लिख कर १८९४ ईसवी में प्रकाशित किया। उस समय तक साइकल का इतना नाम हो गया था और उनके ग्रन्थों का इतना अधिक आदर होने लगा था कि एक ही वर्ष में इस जीवनचरित की १००० प्रतियाँ बिक गईं। अतएव दूसरी आवृत्ति निकालनी पड़ी। यह आवृत्ति १८९५ ई० में निकली। इस समय यही हमारे पास है। शायद शीघ्र ही एक और आवृत्ति निकलने वाली है। यह कोई ५०० पृष्ठ की पुस्तक है। इस पुस्तक की चिकी का विचार करके बँगला भाषा के पढ़ने वालों का विद्यानुराग और

उनकी मधुसूदन पर प्रीति का अनुमान करना चाहिये ॐ। इसी पुस्तक की सहायता से हम मधुसूदन का संक्षिप्त जीवनचरित लिखना आरम्भ करते हैं।

बङ्गाल में एक यशोहर (जेसोर) नामक ज़िला है। इस ज़िले के अन्तर्गत कपोताच नदी के किनारे सागरदौड़ी नामक एक गाँव है। यही गाँव मधुसूदन की जन्मभूमि है। उनके पिता का नाम राजनारायण दत्त था। वे जाति के कायस्थ थे। राजनारायण दत्त कलकत्ते में एक प्रसिद्ध वकील थे। वे धन और जन इत्यादि सब वस्तुओं से सम्पन्न थे। उन्होंने चार विवाह किये थे। उनकी पहली पत्नी के जीते ही उन्होंने तीन बार और विवाह किया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। बहु विवाह की रीति बङ्गाल में प्रचीन समय से चली आई है। अब तक कुलीन गृहस्थ दो दो, चार चार विवाह करते हैं। इस कुरीति के विषय में पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने एक बड़ी-सी पुस्तक लिख डाली है। मधुसूदन राजनारायण दत्त की पहली स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनकी माता का नाम जाह्नवीदासी था। वे खुलनियाँ ज़िले के कटि-पाड़ा निवासी बाबू गौरीचरण घोष की कन्या थीं। यह घोष घराना भी दत्त घराने के समान सम्पन्न और सम्माननीय था। मधुसूदन की माता जाह्नवी पर्वी लिखी थीं। उनके गर्भ से, १८२४ ईसवी की २५ वीं जनवरी को मधुसूदन ने जन्म लिया।

मधुसूदन के पिता राजनारायण दत्त चार भाई थे। राजनारायण

ॐ थोड़े दिन हुए हैं कि माइकेल मधुसूदन दत्त के विषय में मधुस्मृति नाम का बंगाल में और भी एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। यह कोई १०० पृष्ठों में समाप्त हुआ है।

सब भाइयों में छोटे थे। मधुसूदन के पीछे दो भाई और हुए; परन्तु वे पाँच वर्ष के भीतर ही मर गये। उनके और कोई बहन-भाई नहीं हुए। जिस समय मधुसूदन का जन्म हुआ, उस समय दत्त-वंश विशेष सौभाग्यशाली था। चार भाइयों में सब से छोटे राजनारायण के मधुसूदन ही एक पुत्र थे। अतएव बड़े ही लाड़-प्यार से इनका पालन होता था। जो कुछ ये कहते थे वही होता था और जो कुछ ये माँगते थे वही मिलता था। यदि ये कोई बुरा काम भी करते अथवा करना चाहते थे तो भी कोई कुछ न कहता था। मधुसूदन की उच्छृङ्खलता का आरम्भ यहीं से—उनकी शैशवावस्था ही से—हुआ।

मधुसूदन सात वर्ष के थे जब उनके पिता ने कलकत्ते की सद्ग-दीवानी अदालत में वकालत करना आरम्भ किया। मधुसूदन ने सहृदयता और बुद्धिमत्ता आदिक गुण अपने पिता की प्रकृति से और सरलता, उदारता, प्रेमपरायणता आदि अपनी माता की प्रकृति से सीखे। उनके माता-पिता बड़े दानशील थे। दुःखित और दरिद्रियों के लिए वे सदा मुक्त-हस्त रहते थे। यह गुण उनसे उनके पुत्र ने भी सीखा। मधुसूदन जब कभी, किसी को, कुछ देते थे तब गिन कर न देते थे। हाथ में जितने रुपये-पैसे आ जाते, उतने सब, बिना गिने, वे दे डालते थे।

राजनारायण बाबू मधुसूदन को अपने साथ कलकत्ते नहीं ले गये। उन्हें वे घर ही पर छोड़ गये। वहाँ, अर्थात् सागरदाँड़ी की ग्राम-पाठशाला में मधुसूदन बड़े प्रेम से पढ़ने लगे। धनियों के लड़के प्रायः पढ़ने-लिखने में मन नहीं लगाते; परन्तु मधुसूदन में यह बात न थी। वे बड़े परिश्रम, बड़े प्रेम और बड़े मनोयोग से विद्याध्ययन करते थे। उनकी माता ने विवाह के अनन्तर लिखना-पढ़ना सीखा था।

वे बँगला में रामायण और महाभारत प्रेम से पढ़ा करती थीं और अच्छे अच्छे स्थलों को कण्ठ कर लेती थीं। मधुसूदन जब बँगला पढ़ लेने लगे तब वे उनसे भी इन पुस्तकों को पढ़वातीं और उत्तम उत्तम स्थलों की कविता को कण्ठ करवाती थीं। मधुसूदन की काव्यप्रियता का यही से सूत्रपात हुआ समझना चाहिए। उनमें काव्य की वासना को उत्तेजित करने का मूल कारण उनकी माता ही है। क्रम क्रम से मधुसूदन का प्रेम इन पुस्तकों पर बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि जब वे संस्कृत, फ़ारसी, लैटिन, ग्रीक, अँगरेज़ी, फ्रेंच जर्मन और इटालियन आदि भाषाओं में बहुत कुछ प्रवीण हो गये, तब भी उन्होंने रामायण और महाभारत का पढ़ना न छोड़ा। जब वे क्रिश्चियन हो गये और उन्होंने सब प्रकार अँगरेज़ी वेश-भूषा स्वीकार कर ली तब, उनके मदरास से लौट आने पर, एक वार उनके एक मित्र ने उनको काशिदास कृत बँगला महाभारत पढ़ते देखा। यह देख कर उसने मधुसूदन से व्यङ्ग्य पूर्वक कहा—“यह क्या ? साहब लोगो के हाथ में महाभारत ?” मधुसूदन ने हँसकर उत्तर दिया—“साहब हैं, इसलिए क्या किताब भी न पढ़ने दोगे ? रामायण और महाभारत हमको इतने पसन्द हैं कि उनको बिना पढ़े हमसे रहा ही नहीं जाता।”

मधुसूदन के गाँव में जो पाठशाला थी, उसके जो अध्यापक थे वे भी कविता-प्रेमी थे। उनको फ़ारसी की कविता में अच्छा अभ्यास था। वे फ़ारसी की अच्छी अच्छी कविताएँ अपने विद्यार्थियों से कण्ठ कराकर सुनते थे। मधुसूदन ने फ़ारसी की अनेक कविताएँ कण्ठ की थीं। उनके काव्यानुराग का एक यह भी कारण है।

मधुसूदन की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य ने भी उनका काव्यानुराग बढ़ाया था। हरे भरे खेत, सुन्दर कपोताच नदी और नैसर्गिक सौंदर्य

ने उनके हृदय के कवित्व बीज को पल्लवित करने में सहायता पहुँचाई थी। सृष्टि सौन्दर्य की भाँति उनकी सङ्गीत प्रियता ने भी उनके हृदय पर अपना यथेष्ट प्रभाव डाला था। दुर्गा-पूजा के अवसर, पर उनके यहाँ खूब गाना-बजाना हुआ करता था। उसे सुन कर वे बहुधा गद्गद हो जाते थे।

जब मधुसूदन कोई १२-१३ वर्ष के हुए, तब उनके पिता उन्हें कलकत्ते ले गये। वहाँ खिदिरपुर में उन्होंने एक अच्छा मकान बनवाया था। कलकत्ते में मधुसूदन पिता के पास रहने लगे। पहले कुछ दिन खिदिरपुर की किसी पाठशाला में उन्होंने पढ़ा, फिर १८३७ ईसवी में उन्होंने हिन्दू कॉलेज में प्रवेश किया। इस कॉलेज में वे १८४२ ईसवी तक रहे। जिस समय उन्होंने इसे छोड़ा, उस समय उनको अँगरेज़ी में इतनी व्युत्पत्ति होगई थी जितनी बी. ए. परीक्षा में पास हुए विद्यार्थी को होती है। अँगरेज़ी-साहित्य में तो उन्होंने बी. ए. क्लास के विद्यार्थी से भी बहुत अधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। ६ वर्ष में वर्णमाला से लेकर बी. ए. तक की शिक्षा प्राप्त कर लेना कोई साधारण बात नहीं है। आज कल ६ वर्ष अँगरेज़ी पढ़ कर लड़को को बहुधा एक शुद्ध वाक्य भी अँगरेज़ी में लिखना नहीं आता। इन छ. वर्षों में मधुसूदन ने अपने से अधिक अवस्था वाले और ऊँची क्लासों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी अतिक्रम करके प्रशंसा और उसके साथ ही छात्रवृत्ति भी पाई। कालेज में अनेक ग्रन्थ पढ़ने के लिए उनका जैसा नाम था वैसा ही उत्तम अँगरेज़ी लिखने के लिए भी उनका नाम था। उनके बराबर अच्छी अँगरेज़ी और कोई लड़का नहीं लिख सकता था। वे पहले गणित में प्रवीण न थे। उनको गणित अच्छा न लगता था। इस लिए उनको गणित-शास्त्र के अध्यापक समय समय पर, गणित में परिश्रम करनेके

लिए उपदेश दिया करते थे। एक वार उनके सहपाठियों में न्यूटन और शेक्सपियर के सम्बन्ध में वाद-विवाद होने लगा; और लोगों ने न्यूटन का पक्ष लिया, परन्तु काव्य-प्रेमी मधुसूदन ने शेक्सपियर ही को श्रेष्ठता दी। उन्होंने कहा कि—“इच्छा करने से शेक्सपियर न्यूटन हो सकता है; परन्तु न्यूटन शेक्सपियर नहीं हो सकता।” उस दिन से वे गणित में परिश्रम करने लगे और थोड़े ही दिनों में गणित के अध्यापक के दिये हुए एक महा कठिन प्रश्न का उत्तर, जिसे क्लास में और कोई लड़का न दे सका, देकर अपने कथन को यह कह कर पुष्ट किया कि “क्यों, चेष्टा करने से शेक्सपियर न्यूटन हो सकता है अथवा नहीं?”

मधुसूदन अपने पिता के अकेले पुत्र थे। घर में अतुल सम्पत्ति थी। अतएव लड़कपन ही से उनको व्ययशीलता के दोष में घेर लिया। जैसे जैसे वे तरुण होने लगे वैसे ही वैसे उनको वेष-भूषा बनाने, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने, अखाद्य खाने और अपेय पीने की अभि लाषाने अपने अधीन कर लिया। वे मनमानी करने लगे। अपने सहपाठियों के साथ वे मांस-मदिरा का स्वाद लेने लगे, एक एक मोहर देकर अँगरेज़ी नाइयों से बाल कटाने लगे और अपरिपक्व अवस्था ही में गौराङ्ग नारियों के प्रेम की अभिलाषा करने लगे। अँगरेज़ी कवि लार्ड बाइरन के समान युवा होते ही अतृप्त प्रेमपिपासा के साथ भोगासक्ति और रूप-लालसा में मधुसूदन को ग्रास कर लिया। उस समय हिन्दू-कॉलेज के विद्यार्थी शराब और कबाब को सम्भ्रता में गिनते थे। इस आचरण के लिए उनके अध्यापक भी बहुत कुछ उत्तरदाता थे। कॉलेज के अध्यापकों में डिरोज़िओ और रिचार्डसन साहब आदि अध्यापक यद्यपि विद्या और बुद्धि में असाधारण थे, तथापि नीतिपरायण न थे। उनकी दुर्नीति, उनकी उच्छृङ्खलता और उनकी संयमहीन वृत्ति का बहुत कुछ प्रभाव उनके छात्रों पर पड़ा।

मधुसूदन को जो कष्ट पीछे से भोगने पड़े, उनका अङ्कुर कॉलेज ही से उनके हृदय में उगने लगा था । स्वभाव ही से वे तरल-हृदय और प्रेमपिपासू थे । बाहरन की उन्मादकारिणी शृङ्गारिक कविता ने, जिसे वे बड़े आग्रह और आदर से पाठ करते थे, उनके मस्तक को और भी घूर्णित कर दिया । बाहरन के जीवनचरित को पढ़ पढ़ कर मधुसूदन ने सुनीति और मिताचार की ओर पाठशाला ही से अवज्ञा करना सीख लिया ।

सागरदाँड़ी में काशीदास और कृत्तिवास को पढ़ने, ग्राम-पाठशाला में फ़ारसी के अनेक शेरों को कण्ठ करने और हिन्दू-कॉलेज में रहने के समय बाहरन आदि अँगरेज़ी कवियों की कविता का आस्वादन करने से मधुसूदन को कविता लिखने की स्फूर्ति होने लगी ।

बहुत ही थोड़ी अवस्था में उन्होंने कविता लिखना आरम्भ किया, परन्तु अँगरेज़ी में; बँगला में नहीं । अपने सहपाठी लड़कों के साथ बातचीत करने के समय भी वे कविता में बोलने लगे, पत्र भी कविता में, कभी कभी, लिखने लगे, और बाहरन का अनुकरण करके अनेक छोटी छोटी शृङ्गारिक कविताएँ भी वे लिखने लगे । कॉलेज में उनके एक परम मित्र थे; उनका नाम था गौरदास वैशाख । उनको अपनी कविताएँ मधुसूदन प्रायः भेंट करते थे । उनसे कोई किताब माँगते अथवा उनको कोई किताब लौटाते समय जो वे पत्र लिखते थे वे भी कभी कभी वे पद्य ही में लिखते थे । एक नमूना छीजिए,—

Gour, excuse me that in verse
 My muse desireth to rehearse
 The gratitude she oweth thee,
 I thank you and most heartily.

The notion that my friend thou art,
 Makes me reject the flatterer's art.
 Here is your book;—my thanks too here,
 That as it was, and these sincere.
 Believe me, most amiable sir,
 your most devoted Servant,

Kidderpore. }

THE POET.

इस अँगरेज़ी पद्य के नीचे मधुसूदन अपने को अपने ही हाथ से 'कवि' लिखते हैं। इससे यह सिद्ध है कि बाल्यावस्था ही से उनको यह धारणा हो गई थी कि वे कवि हैं। उनकी अँगरेज़ी श्रृङ्गारिक कविता का भी एक उदाहरण पाठकों के मनोविनोदार्थ हम यहाँ पर देते हैं:—

MY FOND SWEET BLUE-EYED MAID.

—*—
 When widely comes the tempest on,
 When patience with a sigh
 The dreadful thunder-storm does shun
 And leave me O' love to die;
 I dream and see my bonny maid;
 Sudden smiling in my heart;
 And Oh ! she receives my spirit dead
 And bids the tempest part !
 I smile—I'gin to live again
 And wonder that I live;

O' tho' flung in an ocean of pain
 I' ve moments to cease to grieve !
 Dear one ! tho' time shall run his race,
 Tho' life decay and fade,
 Yet I shall love, nor love thee less,
 "My fond sweet Blue-eyed Maid"!

Kadderpore } M. S. D.
26th March 1841. }

युवावस्था में प्रवेश करने वाले १७ वर्ष के नवयुवक को यह श्रद्धासिद्ध कविता है। इसे मधुसूदन ने "एक अरविन्दलोचनी" को उद्देश्य करके लिखा है। इसी छोटी अवस्था में वे उस समय के सँगरेजी समाचार-पत्र और पत्रिकाओं में भी अपनी कविताएँ प्रकाशित कराते थे। यहाँ तक कि विलायत की पत्रिकाओं तक में छपने के लिए वे कविता भेजते थे। इस उत्साह को तो देखिए; इस योग्यता को तो देखिए; अँगरेजी में कविता करने की इस प्रवीणता को तो देखिए। हिन्दू-कॉलेज की छात्रावस्था में मधुसूदन ने लन्दन की एक प्रसिद्ध पत्रिका के सम्पादक को कुछ कविताएँ, छपने के लिए, भेजी थी। भेजते समय सम्पादक को जो पत्र उन्होंने लिखा था वह पढ़ने योग्य है। अतएव हम उसे यहाँ पर उद्धृत करते हैं। वह इस प्रकार है—

To

The Editor of Bentley's Miscellany,
London.

SIR,

It is not without much fear that I send you

the accompanying productions of my Juvenile muse, as contribution to your Periodical. The magnanimity with which you always encourage aspirants to 'Literary Fame', induces me to commit myself to you 'Fame' Sir, is not my object at present, for I am really conscious I do not deserve it; all that I require is encouragement. I have a strong conviction that a public like the British—discerning, generous and magnanimous—will not damp the spirit of a poor foreigner. I am a Hindu—a native of Bengal—and study English at the Hindu college of Calcutta. I am now in my eighteenth year,—'a child'—to use the language of a poet of your land, Cowley, "in learning but not in age."

Calcutta Kidderpore, } I REMAIN, ETC.
October, 1842. }

मधुसूदन की अँगरेज़ी में अशुद्धियाँ हों; उनकी कविता निर्दोष न हो, परन्तु यह सभी स्वीकार करेंगे कि १८ वर्ष के नवयुवक के लिए अँगरेज़ी में इतनी पारदर्शिता होना आश्चर्य की बात है। आज कल इलाहाबाद के विश्वविद्यालय की सर्वोच्च परीक्षा पास करने वालों को भी, बहुत प्रयत्न करने पर भी, और कवित्व शक्ति का बीज उनके हृदय में विद्यमान होने पर भी, शायद ही मधुसूदन की ऐसी अँगरेज़ी

कविता लिखना आवे। जब से मथुसूदन ने पाठशाला में प्रवेश किया तब से अन्त तक उन्होंने बहुत ही मनोयोग से विद्याध्ययन किया। उनकी बुद्धि और धारणाशक्ति विलक्षण थी। उनको अपने सहपाठियों का उत्कर्ष कभी सहन न होता था। क्लास में वे सब से अच्छे रहने का यत्न करते थे और उनका स्थान प्रायः सदैव ही ऊँचा रहता था। कॉलेज की पुस्तकों के सिवा वे बाहर की पुस्तकें भी पढ़ते थे; कविता भी करते थे; लेख भी लिखते थे; और साथ ही अपनी विलासप्रियता के लिए भी समय निकाल लेते थे। ये सब बातें उनकी असाधारण प्रतिभा और असाधारण बुद्धि का परिचय देती हैं।

कवित्वशक्ति मनुष्य के लिए अति दुर्लभ गुण है। कठिन परिश्रम अथवा देवानुग्रह के बिना वह प्राप्त नहीं होती। किन्तु प्रकृति ने यह दुर्लभ शक्ति मथुसूदन का मुक्तहस्त होकर दी थी। वे जिस समय जो भाषा पढ़ते थे, उस समय उसमें, थोड़े ही परिश्रम से, वे कविता कर लेते थे। उनको इस बात का विश्वास था कि वे यदि विलायत जावें तो वे अँगरेज़ी भाषा के महा कवि हुए बिना न रहें। यह बात उन्होंने अपने मित्र गौरदास को एक बार लिखी भी थी; यथा—

“I am reading Tom Moor's life of my favourite Byron. A splendid book upon my word. Oh ! how should I like to see you write my life, if I happen to be a great poet, which I am almost sure, I should be if I can go to England !”

उनकी इच्छा थी कि गौरदास बाबू उनका जीवनचरित लिखें; परन्तु इस इच्छा को एक दूसरे ही सज्जन ने, उनके मरने के २० वर्ष पीछे,

पूर्ण किया। इंग्लैड जाने की उन्हें लड़कपन ही से अभिलाषा थी। यह अभिलाषा सफल भी हुई; परन्तु वहाँ जाने से उनको महाकवि का पद नहीं मिला। इसी देश में रह कर उनको महाकवि की पदवी मिली—यह पदवी अँगरेज़ी कविता के कारण नहीं, किन्तु बँगला कविता के कारण मिली। विदेशी भाषा में कविता करके महाकवि होने की अपेक्षा मातृभाषा ही में इस जगन्मान्य पदवी का पाना विशेष आदर और प्रतिष्ठा की बात है।

१८४३ ईसवी के आरम्भ में, मधुसूदन के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण उनको, पीछे से, अनेक आपदाएँ भोगनी पड़ीं। जिस समय वे हिन्दू-कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय उनके माता-पिता ने उनका विवाह करना स्थिर किया। उनके लिये जो कन्या निश्चय हुई वह बहुत सुस्वरूप और गुणवती थी। वह एक धनसम्पन्न ज़मींदार की कन्या थी। यह बात जब मधुसूदन को विदित हुई तब उन्होंने अपनी माता से साफ़ कह दिया कि वे विवाह न करेंगे; परन्तु उनकी बात पर किसी ने ध्यान न दिया। उनके पिता राजनारायण ने समझा, लड़के ऐसा कहा ही करते हैं। जब विवाह के कोई २०-२२ दिन रह गये, तब मधुसूदन ने एक बड़ा ही अनुचित काम करना विचारा। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की दीक्षा लेने का सङ्कल्प इद किया। यह करके उन्होंने अपने मित्र गौरदास बाबू को लिखा—

“बाबा ने हमारा विवाह एक काले पहाड़ के साथ करना स्थिर किया है; परन्तु हम किसी प्रकार विवाह न करेंगे। हम ऐसा काम करेंगे जिसमें बाबा को चिन्नाकाल दुःखित होना पड़ेगा।” इसी समय, अर्थात् २७ नवम्बर १८४२ की आधी रात को खिदिरपुर से उन्होंने गौरदास बाबू को एक और पत्र अँगरेज़ी में लिखा, जिसमें उन्होंने

अपने हूँ गलेंड जाने का भी सङ्कल्प बड़ी दृढ़ता से स्थिर किया;
यथा—

You know my desire for leaving this country is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it, in the course of a year or two more, I must either be in E—D or cease “to be” at all;—*One of these must be done !*

“सूर्य चाहे उदय होना भूल जावें; परन्तु इस देश को छोड़ने की इच्छा हमारे हृदय से अस्त नहीं हो सकती। वर्ष, दो वर्ष में या तो हम ई—ड ही में होंगे या कहीं भी न होंगे।” मधुसूदन ने इस दृढ़ सङ्कल्प को पूरा किया; परन्तु वर्ष-दो वर्ष में नहीं; कई वर्षों में।

मधुसूदन को विलायत जाने और एक गौराङ्ग रमणों का पाणि-ग्रहण करने की प्रबल इच्छा थी। क्रिश्चियन होने से उन्होंने इस इच्छा का पूर्ण होना सहज समझा। इस लिए अपनी परम स्नेहवती माता और पुत्रवत्सल पिता का घर सहसा परित्याग करके उन्होंने क्रिश्चियन धर्मोपदेशकों का आश्रय लिया। उन्होंने मधुसूदन को कुछ दिन फोर्ट-बिलियम के किले में बन्द रक्खा, जिसमें उनसे बातचीत करके कोई उनको उनके सङ्कल्प से विचलित न कर दे। सब बातें यथास्थित हो जाने पर, १८४३ ईसवी की ९ वीं फेब्रुअरी को उन्होंने, अपने अविचार की पराकाष्ठा करके, क्रिश्चियन धर्म की दीक्षा ले ली। उस समय से वे मधुसूदन दत्त के माइकेल मधुसूदन दत्त हुए। दीक्षा लेते समय उन्होंने अपना ही रचा हुआ यह पद गाया—

I

Long sunk in superstitious nights,
By sin and Satan driven,—
I saw not,—care not for the light
That leads the Blind to Heaven.

II

I sat in darkness,—Reason's eye
was shut,—was closed in me;
I hasten'd to Eternity,
O'er Error's dreadful sea !

III

But now, at length, thy grace, O Lord !
Bids all around me shine:
I drink thy sweet—thy precious word—
I kneel before thy shrine !

IV

I've broke Affection's tenderest ties
For my blessed Savior's sake;
All, all I love beneath the skies,
Lord ! I for thee forsake !

यह कविता पथार्थ ही धार्मिक भावों से पूर्ण है। परन्तु हृदय का जो उच्छ्वास उन्होंने इसमें निकाला है, वही उच्छ्वास यदि उनमें स्थायी बना रहता तो क्या ही अच्छा होता। उनकी यह धम्मभीरुता और ईश्वरप्रीति केवल शक्ति थी।

क्रिश्चियन होने के अनन्तर मधुसूदन ने विशाप्स कॉलेज में प्रवेश किया। वहाँ वे कोई ४ वर्ष तक रहे। इन चार वर्षों में उन्होने भाषा-शिक्षा और कविताशुशीलन में अधिक उन्नति लाभ की। परन्तु उनकी विद्या और बुद्धि, की उन्नति के साथ साथ उनकी उच्छृङ्खलता भी वहाँ बढ़ती गई। हम यह नहीं कह सकते कि क्रिश्चियन होने ही से उनमें दुर्गुणों की अधिकता होगई और इसी लिए उनको आगे अनेक आप-दाएँ भोग करनी पड़ी। किसी धर्म की हम निन्दा नहीं करते। बात यह है कि मधुसूदन के समान तरल-मति, अपरिणामदर्शी और असयत चित्त मनुष्य चाहे जिस समाज में रहे और चाहे जिस धर्म से सम्बन्ध रखे, वह कभी शान्तिपूर्वक जीवन निर्वाह न कर सकेगा।

मधुसूदन के क्रिश्चियन होने से उनके माता-पित को अनन्त दुःख हुआ। उनकी माता तो जीते ही मृतक-सी हो गई। उसने भोजन-पान तक बन्द कर दिया। इस लिए राजनारायण बाबू मधुसूदन को कभी कभी अपने घर बुलाने लगे। उन्हें देख कर उनकी माता को कुछ शान्ति मिलने लगी और वह किसी भाँति अन्न-जल ग्रहण करके अपने दिन काटने लगी। मधुसूदन के धर्मच्युत होने पर भी उनके माता-पिता ने उनको धन की सहायता से मुँह नहीं मोड़ा। वे उन्हें यथेच्छ धन देते रहे और उसे मधुसूदन पानी के समान उड़ते रहे। कभी कभी घर आने पर मधुसूदन और उनके पिता से धर्मसम्बन्धी वाद-विवाद भी होता था। इस विवाद में मधुसूदन अनुचित और कट्टकपूर्ण उत्तर देकर पिता को कभी कभी दुःखित करते थे। इस कारण सन्तप्त होकर पिता ने धन से उनकी सहायता करना बन्द कर दिया। बिना पैसे के मधुसूदन की दुर्दशा होने लगी। उनके इष्ट मित्र, अध्यापक और धर्माध्यक्ष, कोई भी उनके दुःखों को दूर न कर सके। कलकत्ता में उनको

सब कहीं अन्धकार दिखलाई देने लगा। उनके मन की कोई अभिलाषा भी पूरी न हुई। न वे बिलायत ही जा सके और जिस अँगरेज़ रमणी पर वे लुब्ध थे न वही उनको मिली। सब ओर से उनको निराशा ने आ घेरा।

मधुसूदन के साथ विशप्स कॉलेज में मदरास के भी कई विद्यार्थी पढ़ते थे। उनकी सलाह से उन्होंने मदरास जाना निश्चय किया। कलकत्ता छोड़ जाने ही में उन्होंने अपना कल्याण समझा। अतएव १८४८ ईसवी में उन्होंने मदरास के लिए प्रस्थान किया। वहाँ जाकर धनाभाव के कारण उनको अपने नूतन धर्म के अवलम्बियों से सहायता के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। उन्होंने उनकी सहायता की। माता-पिता-हीन, दरिद्र, क्रिश्चियन लड़कों के लिए वहाँ एक पाठशाला थी, उसमें मधुसूदन शिक्षक नियत किये गये। इस प्रकार धनाभाव सम्बन्धी उनका क्लेश कुछ कुछ दूर हो गया।

जब मधुसूदन हिन्दू-कॉलेज में थे तभी से उनको कविता लिखने और समाचार पत्रों में उसे छपाने का अनुराग था। मदरास में यह अनुराग और भी बढ़ा। वहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्र और पत्रिकाओं में उनकी कविताएँ प्रकाशित होने लगीं। इस निमित्त समाचार पत्रों वाले उनकी सहायता भी करने लगे। मदरास ही से मधुसूदन की गिनती ग्रन्थकारों में हुई। उनकी दो अँगरेज़ी कविताएँ, जो पहले समाचार पत्रों में छपी थीं, यहीं पहले पहल पुस्तकाकार प्रकाशित हुईं। इनमें से एक का नाम “कैप्टिव लेडी” (Captive Lady) और दूसरी का “विज़न्स आफ दि पास्ट” (Visions of the Past) है। इन पुस्तकों के प्रकाशित होने पर मधुसूदन की गिनती अँगरेज़ी कवियों में होने लगी। केवल मदरास ही में नहीं, किन्तु बिलायत तक के विद्वानों

ने उनकी कविता की प्रशंसा की। परन्तु कलकत्ते के किसी किसी समाचारपत्र ने उनकी कविता की कड़ी आलोचना की। जैसा उत्साह उनको और और स्थानों से मिला वैसा कलकत्ते से नहीं मिला। कई लोगो ने तो उनकी पुस्तकों की समालोचना करते समय उनकी दिखुगी भी उड़ाई।

मद्रास में मधुसूदन की एक इच्छा पूरी हुई। वहाँ, नील का व्यापार करने वाले एक साहब की लड़की ने उनसे विवाह किया। परन्तु इस विवाह से उन्हें सुख नहीं मिला। विवाह हो जाने पर, कई वर्ष पीछे, उनका सम्बन्ध उनकी पत्नी से छूट गया। गृहस्थाश्रम में रहकर जो सहिष्णुता, जो आत्मसंयम और जो स्वार्थत्याग आवश्यक होता है वह मधुसूदन से होना असम्भव था। इसलिए इतना शीघ्र पति-पत्नी में विच्छेद हो गया। इसके अनन्तर मद्रास के प्रेसीडेन्सी कॉलेज के एक अध्यक्ष की लड़की से मधुसूदन का स्नेह हुआ और यथा समय उससे उनका विवाह भी हो गया। यही पत्नी अन्त तक उनके सुख-दुःख की साथी रही।

मद्रास में मधुसूदन वहाँ के एक मात्र दैनिक पत्र “स्पेक्टेटर” (Spectator) के सहकारी सम्पादक हो गये। पीछे से वहाँ के प्रेसीडेन्सी कॉलेज में उनको शिक्षक का पद मिला। सुलेखको और सुकवियों में उनका नाम हो गया। सब कहीं उनका आदर होने लगा। परन्तु इतना होने पर भी उनको शान्ति और निश्चिन्तता न थी। उनका अनस्थिर चित्त, अयोग्य व्यवहार और अपरिमित व्यय उनको सदा क्लेशित रखता था। रुपये की उनको सदा ही कमी बनी रहती थी। मधुसूदन ने अँगरेज़ी में यद्यपि बड़ी दक्षता प्राप्त की थी, तथापि उनको बँगला में एक साधारण पत्र तक लिखना न आता था।

१८ आगस्ट १८४९ को उन्होंने अपने मित्र गौरदास को मद्रास से एक पत्र भेजा । उसमें आप लिखते हैं—

“As soon as you get this letter write off to father to say that I have got a daughter. I do not know how to do the thing in Bengali.”

“इस पत्र को पाते ही पिता को लिख भेजना कि हमारे एक छड़की हुई है । इस बात को हम बँगला में लिखना नहीं जानते ।” सो मेघनाद-वध काव्य के कर्ता को १८४९ में, अर्थात् कोई २५ वर्ष की उम्र में, बँगला पत्र तक लिखना नङ्गी आता था ।

मधुसूदन की वे दोनों अँगरेज़ी पुस्तकें, जिनके नाम हमने ऊपर लिखे हैं, यद्यपि अनेक विद्वानों को पसन्द आईं और उनके कारण यद्यपि मधुसूदन का बड़ा नाम हुआ, तथापि कलकत्ते में कहीं कहीं उनकी तीव्र समालोचना भी हुई । उनको देखकर मधुसूदन के मित्र ने उन्हें बँगला में कविता करने की सलाह दी । उस समय कलकत्ते में शिक्षा समाज (Education Council) के सभापति बेथून साहब थे । ये वही बेथून साहब थे जिनके नाम का कॉलेज अब भी कलकत्ते में वर्तमान है । उन्होंने मधुसूदन को एक पत्र लिखा । उसमें उन्होंने बँगला काव्य की हीनदशा की समालोचना की; और मधुसूदन को यह सलाह दी कि उनके समान उत्साही कवि को अपनी ही भाषा में कविता करके, उसे उन्नत करना चाहिए । यह शिक्षा कि वा उपदेश मधुसूदन को पसन्द आया; और वे मातृभाषा के अनुशीलन के लिए तैयार हुए । उन्होंने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इत्यादि भाषाएँ सीखना आरम्भ कर दिया । यह उन्होंने इस लिए किया जिसमें उनकी सहायता से वे वङ्गभाषा को परिमार्जित कर सकें । यह बात उन्होंने

अगने एक पत्र में, जो उन्होंने गौरदास बाबू को लिखा था, स्पष्ट स्वीकार की है। उन्होंने अपनी उस समय की दिनचर्या इस प्रकार रक्खी थी—

६ से ८ बजे तक	हेबू
८ से १२	” स्कूल
१२ से २	” ग्रीक
२ से ५	” तिलैगू और संस्कृत
५ से ७	” लैटिन
७ से १०	” अँगरेज़ी

भोजन शायद वे स्कूल ही में करते थे; क्योंकि उसके लिए उन्होंने कोई समय नहीं रक्खा। दिन-रात में १२ घंटे अध्ययन, ४ घंटे स्कूल और ८ घंटे विश्राम ! ऐसा कठिन अध्ययन तो स्कूल के लड़कों में भी बिरला ही करता होगा।

मधुसूदन के मद्रास जाने के ३ वर्ष पीछे उनकी माता का परलोक हुआ और ७ वर्ष पीछे पिता का। पिता के मरने पर मधुसूदन की पैत्रिक सम्पत्ति उनके आत्मीयो ने अपने अधिकार में कर ली। यह सम्पत्ति मधुसूदन के कलकत्ते लौट आने पर और न्यायालय में कई अभियोग चलाने पर उनको मिली। उनके माता-पिता की मृत्यु और उनकी स्थावर-जङ्गम सम्पत्ति की अवस्था का समाचार गौरदास बाबू ने उनको लिख भेजा। अतः मधुसूदन महाशय, महाशय क्यों साहब, कोई ८ वर्ष मद्रास में रह कर १८५६ की जनवरी में कलकत्ते लौट आये।

मधुसूदन के कलकत्ता लौट आने पर थोड़े ही दिनों में उन्होने श्रीहर्ष रचित रत्नावली नाटक का अँगरेज़ी अनुवाद करना पड़ा। उस

समय कलकत्ते के सभ्य समाज को पहले ही पहल नाटक देखने का चाव हुआ। इस लिए पाइकपाड़ा के राजा प्रतापचन्द्रसिंह और ईश्वरचन्द्रसिंह ने बेलगछिया में एक नाट्यशाला बनवाई। उसमें खेलने के लिए इन दोनों राजाओं की आज्ञा से पण्डित रामनारायण ने रत्नावली का बँगला अनुवाद किया। परन्तु यह समझ कर कि बँगला में खेल होने से अँगरेज़ दर्शकों को बहुत ही कम आनन्द आवेगा; उन्होंने इस नाटक का अनुवाद अँगरेज़ी में किये जाने की इच्छा प्रकट की। उस समय के सभ्य समाज में गौरदास बाबू भी थे। उनकी सलाह से यह काम मधुसूदन को दिया गया। मधुसूदन ने इस काम को बड़ी योग्यता से किया। थोड़े ही दिनों में उन्होंने रत्नावली का अँगरेज़ी अनुवाद समाप्त करके पूर्वोक्त राजयुग्म को दिखलाया। उन्होंने तथा महाराजा यतीन्द्रमोहन ठाकुर आदि और भी कृतविद्य लोगों ने उसे बहुत पसन्द किया। राजाओं ने उसे अपने व्यय से छपाया और मधुसूदन को उनके परिश्रम के बदले ५००) रुपये पुरस्कार दिया।

इस प्रकार सब तैयारी हो जाने पर १८५८ ई० की ३१ जुलाई को बेलगछिया की नाट्यशाला में रत्नावली का खेल हुआ। खेल के समय और और धनी, मानी, अधिकारी और राजपुरुषों के सिवा बङ्गाल के छोटे लाल भी उपस्थित थे। नाटक का अभिनय बहुत ही उत्तम हुआ। वह इतना सुन्दर और हृदयग्राही हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसे देख कर सब सामाजिक मोहित हो गये। तब से मधुसूदन की प्रतिष्ठा का कलकत्ते में सूत्रपात हुआ। वे प्रसिद्ध कवि और प्रसिद्ध नाटककार गिने जाने लगे।

एक बार मधुसूदन के मित्रों ने यह कहा कि बँगला में कोई समयानुकूल अच्छा नाटक नहीं है; यदि होता तो रत्नावली के खेलने

की आवश्यकता न थी। इस पर मधुसूदन ने एक बँगला नाटक लिखने की इच्छा प्रदर्शित की, जिसे सुन कर सब को आश्चर्य और कुतूहल, दोनों हुए। यह वे जानते थे कि बँगला में एक पत्र लिखते जिसका सिर दर्द करने लगता था वह कहाँ तक बँगला नाटक लिखने में समर्थ होगा ! परन्तु उस समय उन्होंने इतना ही कहा कि “प्रयत्न कीजिए”। मधुसूदन ने जान लिया कि उनके मित्रों को इस बात का विश्वास नहीं है कि वे बँगला में नाटक लिख सकेंगे। अतएव उनके संशय को निवृत्त करने के लिए वे चुपचाप “शर्मिष्ठा नाटक” नाम की एक पुस्तक लिखने लगे। इस पुस्तक को उन्होंने थोड़े ही दिनों में समाप्त करके अपने मित्रों को दिखलाया। उसे देख कर सब चकित हो गये। जो मधुसूदन ‘पृथ्वी’ को ‘प्र—थि—वी’ लिखते थे, उनके इस रचना-कौशल को देख कर सब ने दाँतों के नीचे उँगली दबाई। ‘शर्मिष्ठा नाटक’ में पण्डित रामनारायण इत्यादि प्राचीन नाटक-प्रणाली के अनुयायियों ने अनेक दोष दिखलाये। उन्होंने उसे नाटक ही में नहीं गिना। परन्तु नवीन प्रथा वालों ने उसे बहुत पसन्द किया। पाइकपाड़ा के राजयुग्म और महाराजा यतीन्द्रमोहन ने उसे अभिनय के बहुत ही योग्य समझा। महाराजा यतीन्द्रमोहन ने तो उसमें अभिनय के समय गाने के लिए कई गीत स्वयं बनाये। पाइकपाड़ा के दोनो राजपुरुषो ने इसे भी अपने व्यय से छपाया और इस वार भी उन्होंने मधुसूदन को योग्य पुरस्कार दिया। १८५८ ई० में शर्मिष्ठा नाटक प्रकाशित हुआ और १८५९ के सेप्टेम्बर में वह बेलगछिया-नाट्यशाला में खेला गया। इसका भी अभिनय देख कर दर्शक वृन्द मोहित हुए और उन्होंने मधुसूदन की सहस्रमुख से प्रशंसा की।

मधुसूदन की ‘शर्मिष्ठा’ पण्डित रामनारायण के पास समालोचना

के लिए भेजी गई थी। रामनारायण ने उसमें बहुत कुछ फेरफार करना चाहा। इस विषय में मधुसूदन गौरदास बाबू को लिखते हैं:—

I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—the Devil ! I would sooner burn the thing .

“यदि दो चार फेर फार किये जावें तो कोई चिन्ता नहीं; परन्तु हमारे सभी वाक्यों को नये सिरे से लिखना ! कदापि नहीं; ऐसा होने देने की अपेक्षा हम उसे जला देना ही अच्छा समझते हैं।” मधुसूदन के समान उद्दण्ड और स्वतन्त्र स्वभाव वाले को दूसरे की की हुई काटकूट भला कब पसन्द आने लगी !

मधुसूदन का दूसरा नाटक “पद्मावती” है। यह नाटक उन्होने ग्रीक लोगों के पौराणिक इतिहास के आधार पर लिखा है। घटना-वैचित्र्य में “शर्मिष्ठा” की अपेक्षा “पद्मावती” श्रेष्ठ है। परन्तु नाटकीय चरित-चित्रण-सम्बन्ध में शर्मिष्ठा की अपेक्षा इसमें मधुसूदन अधिक तर निपुणता दिखलाने में कृतकार्य नहीं हुए। ‘पद्मावती’ ही में पहले पहल उन्होंने अमित्राचर ङ्गों का प्रयोग किया।

पाइकपाड़ा के राजा प्रतापचन्द्र और ईश्वरचन्द्र जिस प्रकार मधुसूदन के गुणों पर मोहित थे, उसी प्रकार महाराजा यतीन्द्रमोहन ठाकुर भी मोहित थे। इन तीनों सत्पुरुषों ने मधुसूदन को अनेक प्रकार से सहायता और उत्साह दिया। एक दिन महाराजा यतीन्द्र-मोहन और मधुसूदन में परस्पर इस प्रकार साहित्य-सम्बन्धी बातचीत हुई—

मधुसूदन—जब तक बँगला में अमित्राचर ङ्गों का प्रयोग न होगा, तब तक काव्य और नाटक-ग्रन्थों की विशेष उन्नति न होगी।

महाराजा—बँगला की जैसी अवस्था है उसे देखने से उसमें ऐसे छन्दों के होने की बहुत कम सम्भावना है।

मधुसूदन—हमारा मत आपके मत से नहीं मिलता। चेष्टा करने से हमारी भाषा में भी अमित्राचर छन्द लाये जा सकते हैं।

महाराजा—फ्रेंच भाषा बँगला की अपेक्षा अधिक उन्नत है; उसमें भी जब ऐसे छन्द नहीं हैं तब बँगला में उनका होना प्रायः असम्भव है।

मधुसूदन—यह सत्य है; परन्तु बँगला भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है, संस्कृत में अमित्राचर छन्द हैं, तब वे बँगला में भी हो सकते हैं।

इस प्रकार कुछ देर तक वाद-विवाद हुआ। अन्त में मधुसूदन ने कहा—“यदि हम स्वयं एक ग्रन्थ अमित्राचर छन्दों में लिख कर आपको बतलावें तो आप क्या करेंगे?” इस पर महाराजा ने उत्तर दिया—“यदि ऐसा होगा तो हम पराजय स्वीकार करेंगे और अमित्राचर छन्दों में रचित आपके ग्रन्थ को हम अपने व्यय से छपवावेंगे।” यह बात मधुसूदन ने स्वीकार की और वे अपने घर आये।

मधुसूदन ने अपने ‘पद्मावती नाटक’ में ऐसे छन्दों का प्रयोग किया ही था; अब वे एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ऐसे छन्दों में लिखने लगे। इसका नाम उन्होंने “तिलोत्तमा सम्भव काव्य” रक्खा। थोड़े ही दिनों में मधुसूदन ने इसे समाप्त करके महाराजा यतीन्द्रमोहन ठाकुर, डाक्टर राजेन्द्रलाल मिश्र और बाबू राजनरायण बसु आदि को दिखलाया। देखते ही सब लोग चकित हो गये; मधुसूदन की सहर्ष धन्यवाद देने लगे; और सबने एक वाक्य से स्वीकार किया कि इस काव्य में अमित्राचर छन्दों की योजना करके मधुसूदन पूर्णरीति से कृतकार्य हुए

हैं। महाराजा यतीन्द्रमोहन ने अपने वचन का पालन किया और १८६० ईसवी के मे महीने में उन्होंने 'तिलोत्तमा सम्भव' को अपने व्यय से प्रकाशित कराया। इस काव्य को मधुसूदन ने महाराजा यतीन्द्रमोहन ही को अर्पण किया। अर्पण करने के समय का एक फोटो (चित्र) भी लिया गया। मधुसूदन के हाथ का लिखा हुआ यह काव्य अब तक महाराजा के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसी समय से, मधुसूदन के द्वारा, बँगला में एक नवीन छन्द का प्रचार हुआ। इसी समय से बँगला भाषा का कवितास्रोत एक नवीन मार्ग से प्रवाहित होने लगा।

तिलोत्तमासम्भव काव्य सुन्द-उपसुन्द के पौराणिक आख्यान का अवलम्बन करके रचा गया है। इसके कुछ अंश का अनुवाद मधुसूदन ने अँगरेज़ी में भी किया है। किसी नई बात को होते देख लोग प्रायः कुचेष्टाएँ करने लगते हैं और भौंति भौंति से, भली-बुरी उक्तियों के द्वारा, अपने मन की मलिनता प्रकट करते हैं। मधुसूदन भी इससे नहीं बचे। अमित्राक्षर छन्दोबद्ध तिलोत्तमासम्भव के प्रकाशित होने पर उनको अनेक कट्टकृतियाँ सुननी पड़ीं। लोगों ने उन पर हास्य रस मयी कविताएँ तक बनाईं। परन्तु मधुसूदन ने इन नीच अन्तःकरण वालों की ओर झूंपे तक नहीं किया। उनके काव्य की डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र और बाबू राजनारायण वसु आदि ने बहुत प्रशंसा की; जिसे पढ़ कर अनेक रसिक जनों का चित्त उसकी ओर आकृष्ट हो गया।

शर्मिष्ठा नाटक की रचना के अनन्तर और तिलोत्तमासम्भव के प्रकाशित होने के पहले मधुसूदन ने दो प्रहसन भी लिखे। इनकी रचना उन्होंने १८५९ और १८६० ईसवी में की। इन प्रहसनों में एक का नाम "एकेई कि बले सभ्यता"— (क्या इसी को सभ्यता कहते हैं)

और दूसरे का “बूढ़ शालिकेर घाड़े रोया”— (बूढ़े शालिक पचीकै की गरदन मे रोयें) है । पहले मे एक धनी वैष्णव के अंगरेजी-शिक्षित पुत्र की उपहासास्पद सभ्यता का वर्णन है; और दूसरे मे भक्तप्रसाद नामक एक तिलक और मालाधारी वृद्ध वक-धार्मिक का एक मुसलमान तरुणी पर अनुराग और तज्जनित उसका उपहास वर्णन किया गया है ।

इन दोनों प्रहसनो का अनुवाद हिन्दी मे हो गया है । मधुसूदन के दो नाटकों का भी अनुवाद हिन्दी मे हुआ है । उनकी और पुस्तकों का भी चाहे अनुवाद हुआ हो; परन्तु हमने इतना ही को देखा है । जिन नाटकों का अनुवाद हमने देखा है उनके नाम है—“कृष्णकुमारी” और “पद्मावती” । कृष्णकुमारी के विषय मे हम आगे चल कर कुछ और कहेंगे । पद्मावती का उल्लेख पहले ही हो चुका है । इन नाटकों और प्रहसनो के अनुवाद बनारस के भारत जीवन प्रेस मे छपे हैं । कृष्णकुमारी के अनुवादक ने पुस्तक के नाम-निर्देशपत्र (Title Page) पर मधुसूदन का नाम नहीं दिया; केवल इतना ही लिखा है कि “वङ्ग भाषा से शुद्ध आर्य्य भाषा मे अनुवाद” । परन्तु भीतर, भूमिका और नाटक की प्रस्तावना मे, मधुसूदन का नाम उन्होंने दिया है । पद्मावती नाटक के अनुवादक वही है जो कृष्णकुमारी के है; परन्तु पद्मावती की प्रस्तावना मे मधुसूदन का नाम उन्होंने नहीं लिखा और न टाइटिल पेज ही पर लिखा । टाइटिल पेज पर वही पूर्वोक्त वाक्य हैं—“वङ्ग भाषा से शुद्ध आर्य्य भाषा मे अनुवाद ।” यह नाटकों के अनुवाद की बात हुई ।

“क्या इसी को सभ्यता कहते है” इस नाम के प्रहसन मे भी पद्मावती नाटक के समान मधुसूदन का कहीं भी नाम नहीं है । उसके

नाम-निर्देश-पत्र पर अनुवादक महाशय ने केवल—“बङ्ग भाषा से अनुवाद किया” इतना ही लिखा है। पात्रों के नाम जो मूल बँगला पुस्तक में हैं वही उन्होंने अनुवाद में भी रक्खे हैं। “बुड्डे शालिक की गरदन में रोयें” नामक प्रहसन के अनुवाद में विशेषता है। उसका नाम रक्खा गया है—“बूढे मुँह मुँहासे लोग देखे तमाशे।” इस अनुवाद में न कहीं मधुसूदन ही का नाम है और न कहीं यही लिखा है कि वह बँगला से अनुवादित हुआ है। नाम-निर्देश-पत्र पर उलटा यह लिखा है कि अमुक अमुक की “हास्यमयी लेखनी से लिखित।” इसमें मूल पुस्तक के पात्रों के नाम भी बदल दिये गये हैं। भक्तप्रसाद के स्थान में नारायणदास, हनीफ़ गाज़ी के स्थान में मौला; ग़दाधर के स्थान में कलुआ आदि इस प्रान्त के अनुकूल नाम रक्खे गये हैं। जान पड़ता है, ये सब बातें मूल से अथवा अम से हुई हैं; क्योंकि जिनको सब लोग हिन्दी लेखकों में आचार्य्य समझते हैं; और दूसरो को धर्मोपदेश देना ही जिनके घर का बनिज है; वे जान-बूझ कर दूसरे का वस्तु को कदापि अपनी न कहेंगे।

१८६१ ईसवी के लगभग मधुसूदन ने चार ग्रन्थ लिखे। मेघनाद-वध, कृष्णकुमारी, ब्रजाङ्गना और वीराङ्गना। इस समय मधुसूदन की प्रतिभा का पूर्ण विकाश समझना चाहिए। भाषा का लालित्य, भाव का उत्कर्ष और गाम्भीर्य तथा ग्रन्थगत चरित्र-समूह की पूर्णता आदि गुणों का विचार करने पर यही कहना पड़ता है कि मधुसूदन के लिखे हुए इसी समय के ग्रन्थ उनकी ग्रन्थावली में सब से श्रेष्ठ हैं। ब्रजाङ्गना, कृष्णकुमारी और मेघनाद-वध ये तीनों ग्रन्थ मधुसूदन ने प्रायः एक ही साथ आरम्भ किये और प्रायः एक ही साथ समाप्त भी किये।

मधुसूदन के ग्रन्थों में मेघनाद-वध सब से श्रेष्ठ है। यह काव्य रामायण की पौराणिक कथा के आधार पर लिखा गया है। इसमें वीर-केसरी मेघनाद की मृत्यु का प्रतिपादन हुआ है। इस काव्य के रचस प्राचीन रचसों के-से नहीं हैं। वे हमारे ही समान मनुष्य हैं। भेद इतना ही है कि मनुष्यों की अपेक्षा वीरत्व, गौरव, ऐश्वर्य्य और शारीरिक बल आदि में वे कुछ अधिक हैं। मेघनाद-वध के कपि भी लम्बी लम्बी पूँछ और बड़े बड़े बालों वाले पशु नहीं हैं; वे भी साधारण मनुष्य ही हैं। राम और सीता भी ईश्वरावतार नहीं माने गये; वे भी साधारण नर-नारी-गण के समान सुख-दुःख-भागी और कर्मानुसार फल के भोग करने वाले कल्पित किये गये हैं। उनमें और मनुष्य में इतना ही अन्तर रक्खा गया है कि वे अपने तपोबल से देवताओं को प्रत्यक्ष कर सकते थे।

मेघनाद-वध में मधुसूदन ने अपनी कविता-शक्ति की चरम सीमा दिखलाई है। इसमें उन्होंने अमित्राक्षर छन्दों की योजना की है। इस काव्य में सब ९ सर्ग हैं; और उनमें तीन दिन-दो रात की घटनाओं का वर्णन है। यह वीर रस प्रधान काव्य है। इसकी कविता में कहीं कहीं वीर रस का इतना उत्कर्ष हुआ है कि पढ़ते पढ़ते भीरुओं के भी मन में उस रस का सञ्चार हो आता है। ऐसी विलक्षण रचना, ऐसा उद्वेग भाव और ऐसा रस-परिपाक शायद ही और किसी अर्वाचीन काव्य में हो। इस काव्य में मेघनाद की पत्नी प्रमिला का चरित बड़ा ही मनोहर है। मधुसूदन के कल्पना-कानन का वह सर्वोत्कृष्ट कुसुम है। प्रमिला की कुलबधूचित कोमलता; पति के लिए उसका आत्मत्याग और वीरनारी को शोभा देने वाला उसका शौर्य्य अप्रतिम रीति से चित्रित किया गया है। इस काव्य के नवम सर्ग में मधुसूदन ने करुण

रस की भी पराकाष्ठा दिखाई है। जिस प्रकार उनके वीर रसात्मक वर्णन में पढ़ते समय पढ़ने वालों की मुजा फड़कने लगती है, उसी प्रकार उनकी करुणरसात्मक उक्तियों को पढ़ते समय आँसू निकलने लगते हैं। अशोक-वन में बैठी हुई मूर्तिमती विरह-न्यथा-रूपिणी जानकी का और श्मशान-शय्या के ऊपर, स्वामी के पैरों के पास बैठी हुई, नवीन विधवा प्रमिला का चित्र देख कर कौन ऐसा पावाग हृदय है जिसके नेत्रों से अश्रुधारा न निकलने लगे। बाबू रमेशचन्द्र दत्त ने इस काव्य के सम्बन्ध में मधुसूदन की जो प्रशंसा की है, वह यथार्थ है। वे कहते हैं—

The reader, who can feel and appreciate the Sublime, will rise from a study of this great work with mixed sensation of veneration and awe, with which few poets can inspire him, and will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and greatest that have ever lived, like Vyasa, Valmiki or Kalidas Homer Dante or Shakespeare.

Literature of Bengal, Page 176.

रमेश बाबू कहते हैं कि स्वदेशियों में व्यास, वाल्मीकि अथवा कालिदास और विदेशियों में होमर, दान्ते अथवा शेक्सपियर ही के समान विख्यात ग्रन्थकारों का स्थान मधुसूदन से ऊँचा है, अर्थात् और कवि उनकी बराबरी नहीं कर सकते; सब उनके नीचे हैं।

संसार का नियम है कि प्रायः कोई वस्तु निर्दोष नहीं होता;

सब मे कोई न कोई दोष होता हो है। कालिदास ने 'कुमारसम्भव' में ठीक कहा है—

✓“प्रायेण सामग्र्य विधौ गुणानां,

• पराङ्मुखी विश्वसृजः प्रवृत्तिः ।”

अर्थात्—गुणों की सम्पूर्णता प्रायः कहीं नहीं पाई जाती ।

मेघनाद-वध भी निर्दोष नहीं है। उसमे यह दोष है कि रामचन्द्र और लक्ष्मण के चरित की अपेक्षा मेघनाद के चरित का अधिक उत्कर्ष वर्णन किया गया है। राम और लक्ष्मण के कथन और कार्य्य मे कहीं कहीं भीरुता तक का उदाहरण पाया जाता है। मधुसूदन ने आर्य्यवंशियों की अपेक्षा अनार्य्य राजसों का कई स्थलों में पक्षपात किया है। उनके साथ उन्होंने अधिक सहायुभूति दिखलाई है। सम्भव है, आज कल के समय का विचार करके उन्होंने बुद्धिपुरःसर ऐसा किया हो।

प्रकाशित होते ही मेघनाद-वध का वङ्गदेश में बड़ा आदर हुआ। बाबू कालीप्रसन्नसिंह, राजा प्रतापचन्द्र, राजा ईश्वरचन्द्र, राजा दिगम्बर मित्र, महाराजा यतीन्द्रमोहन आदि ने मिल कर मधुसूदन का अभिनन्दन करने के लिए उनकी अभ्यर्थना की। नियत समय पर एक सभा हुई, जिसमें मधुसूदन को एक अभिनन्दन पत्र और एक चाँदी का मूल्यवान पत्र उपहार दिया गया। अभी तक मधुसूदन का प्रकाश रूप में सम्मान नहीं हुआ था; परन्तु आज वह भी उन्हें प्राप्त हुआ।

मेघनाद-वध की पहली आवृत्ति एक ही वर्ष में बिक गई। उसे लोगो ने इतना पसन्द किया कि शीघ्र ही उसकी दूसरी आवृत्ति निकालनी पड़ी। इस आवृत्ति मे, कविवर बाबू हेमचन्द्र बन्धोपाध्याय ने एक सुदीर्घ समालोचना लिख कर प्रकाशित की। उसके अतिरिक्त बाबू राजनारायण वसु और डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र आदि ने उसकी

समालोचना समाचारपत्रों में प्रकाशित करके मधुसूदन का बहुत कुछ गौरव किया। इस लिए मधुसूदन, उस समय से, परम प्रतिष्ठित कवि हुए।

मधुसूदन का व्रजाङ्गना-काव्य शृङ्गाररस-प्रधान है। उसमें अठारह कविताएँ हैं। इन कविताओं में प्रायः राधिका का विरह वर्णन है। कृष्णकुमारी नाटक की कथा मधुसूदन ने टाड साहब के राजस्थान से ली है। इस नाटक में कवि की शोकोद्दीपक शक्ति का अच्छा परिचय मिलता है। यह बँगला भाषा में पहला विषादान्त नाटक है। संस्कृत के नाट्याचार्यों ने इस प्रकार के नाटक की रचना का निषेध किया है। परन्तु मधुसूदन किसी विधि-निषेध के अनुसार चलने वाले कवि न थे। और, कोई कारण भी नहीं कि विषादान्त नाटक क्यों न हों ? यदि प्रकृति-विशेष का चित्र दिखलाना ही नाटक का मुख्य उद्देश्य है तो उसका अन्त सुख में भी हो सकता है और दुःख में भी। तुरी प्रकृति वालों को अन्त में अवश्य ही दुःख मिलता है। अतएव नाटको की रचना विषादान्त भी हो सकती है।

मदरास से कलकत्ते लौट आने पर मधुसूदन पुलिस की कचहरी में एक पद पर नियुक्त हो गये थे। वहीं वे अब तक काम करते थे। उनके परिवार में कोई लिखने योग्य घटना नहीं हुई। उनकी दूसरी स्त्री से उनको एक पुत्र था और एक कन्या। राजकार्य से, पुस्तको की प्राप्ति से, और उनकी पैत्रिक सम्पत्ति से जो कुछ अर्थागम होता था उससे, एक मध्यवित्त गृहस्थ के समान, उनके दिन व्यतीत होते थे। इस समय वे बँगला भाषा के अद्वितीय लेखक समझे जाते थे। यद्यपि पारिवारिक जीवन सुख से बिताने के लिए उनको किसी बात का अभाव न था; परन्तु तिस पर भी, अभाग्य-वशा, वे सुखी न थे। सुख, सांसारिक

सामग्री पर अवलम्बित नहीं रहता। वह मन और आत्म-संयम ही पर विशेष करके अवलम्बित रहता है; परन्तु मन को संयत करना—उसे अपने अधीन रखना—मधुसूदन जानते ही न थे।/अतएव मन को उच्छृङ्खलता के कारण धन, जन और यश इत्यादि किसी बात ने उनको भानन्दित नहीं किया। उनका जीवन अशान्ति ही में बीतता रहा। उनकी “आत्मविलाप” ❀ नामक कविता इस बात की गवाही देती है कि उनका जीवन गम्भीर यन्त्रणाओं में पड़ कर चक्कर खाता रहता था। ग्रन्थ-रचना में लगे रहने से मधुसूदन को उनकी मर्म-कृन्तक व्यथाएँ कम सताती थीं।

“वीराङ्गना” काव्य को यद्यपि मधुसूदन ने “मेघनाद-वध” इत्यादि पहले के तीन ग्रन्थों के साथ ही लिखना आरम्भ किया था; परन्तु उसकी समाप्ति उन्होंने १८६२ ई० में की। “वीराङ्गना” गीतिकाव्य है। प्रसिद्ध रोमन कवि ओविद (Ovid) रचित वीरपत्रावली (Heroic Epistles) को आदर्श मान कर मधुसूदन ने यह काव्य लिखा है। इसमें प्रसिद्ध पौराणिक महिलाओं के पत्र हैं; अर्थात् यह पुस्तक मधुसूदन की पत्राकार काव्यरचना है। इसमें इतने पत्र अथवा विषय हैं—

- १—दुष्यन्त के प्रति शकुन्तला।
- २—चन्द्र के प्रति तारा।
- ३—कृष्ण के प्रति रुक्मिणी।
- ४—दशरथ के प्रति कैकेयी।
- ५—लक्ष्मण के प्रति शूर्पानखा।

❀ इस कविता का पद्यानुवाद इसी पुस्तक में अन्यत्र दिया गया है।

- ६—अर्जुन के प्रति द्रौपदी ।
 ७—दुर्योधन के प्रति भानुमती ।
 ८—जयद्रथ के प्रति दुःशला ।
 ९—शान्तनु के प्रति जाह्नवी ।
 १०—पुरूरवा के प्रति उर्वशी ।
 ११—नीलध्वज के प्रति जना ।

यही इस काव्य के ग्यारह सर्ग हैं। इनमें से कोई सर्ग प्रेम-पत्रिका मय है; कोई प्रत्याख्यान-पत्रिकामय है; कोई स्मरणार्थ-पत्रिकामय है; और कोई अनुयोग-पत्रिकामय है। इस पुस्तक में तारा और शूर्पनखा आदि की प्रेम-भित्ता जैसी हृदयद्रावक है, जाह्नवी की प्रत्याख्यान-पत्रिका भी वैसी ही कठोर है। “वीराङ्गना” में भी मधुसूदन की प्रतिभा का पूर्ण विकास देखा जाता है; यह काव्य भी उनके उत्कृष्ट ग्रन्थों में है। परन्तु इसके आगे मधुसूदन की प्रतिभा का हास आरम्भ हुआ। इसके बाद वे कोई अच्छा ग्रन्थ लिखने में समर्थ नहीं हुए। बाबू राज-नारायण वसु के अनुरोध से मधुसूदन सिंहल-विजय नामक एक और काव्य लिखने लगे थे; परन्तु उसका आरम्भ ही करके वे रह गये।

अपने मित्रों की सलाह से मधुसूदन ने पहले ही से कानून की किताबें देखना आरम्भ कर दिया था। अब, अर्थात् जून १८६२ ईसवी में उन्होंने—वैरिस्टर होने की इच्छा से—विलायत जाना निश्चय किया। एक विश्वस्त पुरुष को उन्होंने अपनी पैत्रिक सम्पत्ति का प्रबन्ध-कर्ता नियत किया। उससे उन्होंने यह स्थिर कर लिया कि कुछ रुपया वह प्रति मास उनकी पत्नी को दे और कुछ उनके खर्च के लिए वह विलायत भेजे। यह सब प्रबन्ध ठीक करके ९ जून, १८६२ को उन्होंने कलकत्ते से प्रस्थान किया। चलने के पहले, ४ जून को, उन्होंने अपने

मित्र राजनारायण बाबू को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने यह वचन दिया कि बिलायत जाकर भी वे अपनी स्वदेशीय कविता को न भूलेगे; और प्रमाण की सौति चलते चलते, पत्र के साथ ही, उन्होंने एक कविता भी भेजी। यह कविता उन्होंने अंगरेज़ी कवि लार्ड बाइरन की—“My Native Land Good-Night” इस पक्ति को सूत्र मान कर रची। इसका नाम है—“वङ्ग भूमि के प्रति।” यह बहुत ही ललित और हृदयग्राहिणी कविता है। यह लिख कर पत्र को समाप्त करने के पहले राजनारायण बाबू को मधुसूदन लिखते है—

Here you are, old Raj' —All that I can say is—
Forget me Not.

“मधुहीन करो ना गो तव मनः कोकनदे”

Praying God to bless you and yours and wishing you all success in life.

I remain,

Ever your affectionate friend,

MICHAEL M. S. DUTTA.

इस अवतरण में बँगला की जो एक उक्ति उद्धृत है, वह बहुत ही मनोरम और सामयिक है। उसके द्वारा मधुसूदन अपने मित्र राजनारायण से कहते हैं कि अपने मनोरूपी कमल में मधु की हीनता न होने देना; अथवा अपने मनोमय कमल को मधुहीन न करना। इस उक्ति में ‘मधु’ शब्द के दो अर्थ हैं। मधु = पुष्परस तथा, मधुसूदन के नाम का पूर्वार्द्ध। इसके द्वारा मधुसूदन ने राजनारायण से यह प्रार्थना की कि “तुम हमें भूल मत जाना।”

१८६२ ईसवी के जुलाई महीने के अन्त में मधुसूदन हूंगलैंड में उपस्थित हुए और वैरिस्टरी का व्यवसाय सीखने के लिए “ग्रेज इन” (Grey’s Inn) नामक सस्था में उन्होंने प्रवेश किया। जिस व्यवसाय में वे प्रवृत्त हुए वह उनके योग्य न था। उसमें उनका आन्तरिक अनुराग न था। बिना अनुराग किसी काम में प्रवृत्त होने से जो फल होता है, वही फल मधुसूदन को भी मिला। किसी प्रकार वैरिस्टर होकर, दो वर्ष के स्थान में चार-पाँच वर्ष बिलायत रह कर, वे कलकत्ते लौट आये; परन्तु वैरिस्टरी के व्यवसाय में उनको सफलता नहीं हुई। बिलायत जाने में मधुसूदन का एक और उद्देश यह था कि वहाँ कुछ काल रह कर वे विदेशी भाषाएँ सीखें। यह उद्देश उनका बहुत कुछ सफल हुआ। अंगरेज़ी तो उनकी मातृभाषा के समान हो गई थी; उसके अतिरिक्त उन्होंने फ्रेंच, इटालियन, लैटिन, ग्रीक और पोर्तुगीज़ भाषाओं में विशेष विज्ञता प्राप्त की। इनमें वे बिना किसी क्लेश के बातचीत करने और पत्र आदि लिख सकने लगे। फ्रेंच और इटालियन में तो वे कविता तक करने लगे। इन छः भाषाओं के सिवा सस्कृत, फ़ारसी, हेब्रू, तामिल, तिलैगू और हिन्दी में भी उनको अल्पाधिक विज्ञता थी। बँगला तो उनकी मातृभाषा ही थी। इस प्रकार हूंगलैंड जाने से उनकी बहुभाषा-विज्ञता बढ़ गई। अनेक विदेशी भाषाओं में उन्होंने लिखने-पढ़ने की योग्यता प्राप्त कर ली। इस देश के विद्वानों में, जहाँ तक हम जानते हैं, किसी दूसरे ने इतनी भाषाएँ नहीं सीखीं।

हूंगलैंड जाने से उनका भाषा-ज्ञान अवश्य बढ़ गया; परन्तु उसके साथ ही उनकी आपदाएँ भी बढ़ गईं। उनके ग्रन्थों के समान उभका जीवन भी एक विषादान्त काव्य समझना चाहिए। कलकत्ते में,

मदरास में, बिलायत में, सब कहीं, उनको दुःख और परिताप के सिवा सुख और समाधान नहीं मिले ।

मधुसूदन का इंग्लैंड जाना ही उनकी भावी आपत्तियों का मूल कारण हुआ । जिन लोगों पर उन्होंने अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध आदि का भार अर्पण किया था, वे महीने-दो महीने में ही अपने कर्तव्य पालन से पराङ्मुख हो गये । न उन्होंने मधुसूदन ही को कुछ रंजा और न उनके कुटुम्ब के पालने के लिए उनकी स्त्री ही को कुछ दिया । अतएव उनकी स्त्री की बुरी दशा होने लगी, निरन्न रहने तक की उसे नौबत आगई । जब उसने पेट पालने का और कोई उपाय न देखा तब लाचार होकर वह भी मधुसूदन के पास इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हुई । किसी प्रकार मार्ग के खर्च का प्रबन्ध करके, अपने पुत्र और अपनी कन्या को लेकर, मधुसूदन के जाने के एक वर्ष पीछे, वह भी उन्हीं की अनुगामिनी हुई । वह भी इंग्लैंड में मधुसूदन के पास जा पहुँची । मधुसूदन पहले ही से रुपये-पैसे से तंग थे; स्त्री के जाने से उनकी दुर्दशा का ठिकाना न रहा । वह दुर्दशा प्रति दिन बढ़ने लगी; बढ़ने क्या लगी, “पाञ्चाली को चीर” होगई । बिलायत का वास, चार मनुष्यों का खर्च, प्राप्ति एक पैसे की नहीं ! मधुसूदन ने कुछ रुपये बाबू मनोमोहन घोष से उधार लिये । ये भी उस समय वैरिस्टरी सीखने इंग्लैंड गये थे । कुछ “प्रेज़ इन” के अधिकारियों से लिये; कुछ किसी-से, कुछ किसीसे । किसी प्रकार कुछ दिन उन्होंने वहाँ और काटे । कलकत्ते को उन्होंने अनेक कसगोत्पादक पत्र लिखे; परन्तु वहाँ से एक पैसा भी न आया । उस समय उनको कोई ४०००) रुपये अपने प्रबन्धकर्ताओं से पाने थे; और उनकी पत्रिक सम्पत्ति से कोई १५००) रुपये साल की प्राप्ति थी । तिस पर भी मधुसूदन को बिलायत में “भिधां देहि” करना

फ़डा ! “प्रेज़इन” के अधिकारियों ने उनको, उनके ऋण और निर्धनता के कारण, अपनी संस्था में आने से रोक दिया । कुछ काल के लिए मधुसूदन फ़्रांस चले गये; वहाँ उनको जेल तक की हवा खानी पड़ी और उनकी स्त्री लड़को को अनायालय का आश्रय लेना पड़ा ! ! !

जब मधुसूदन को सब ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देने लगा और जब उन्होंने अपने और अपने कुटुम्ब के बचने का और कोई मार्ग न देखा तब उन्होंने विद्यासागर का स्मरण किया । उनको उन्होंने एक बड़ा ही हृदयद्रावक पत्र लिख कर अपने ऊपर दया उत्पन्न करने की उनसे प्रार्थना की और धन की सहायता माँगी । अपनी सब सम्पत्ति को बँच कर १५०००) रुपये भेजने के लिए पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को उन्होंने लिखा और अपने पत्र को इस प्रकार समाप्त किया—

“I hope you will write to me in France and that I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagar but Karunasagar also.”

मधुसूदन की प्रार्थना सफल हुई । विद्यासागर ने करुणासागर होने का परिचय दिया । उन्होंने मधुसूदन को यथेच्छ द्रव्य भेज कर उनकी अकाल मृत्यु को टाला । मधुसूदन ने किसी प्रकार वैरिस्टरी के व्यवसाय का आज्ञापत्र लेकर, स्वदेश के लिए प्रस्थान किया ।

१८६७ ईसवी के मार्च महीने में मधुसूदन कलकत्ते लौट आये और हाईकोर्ट में वैरिस्टरी करने लगे । परन्तु इस व्यवसाय से उनको सफलता नहीं हुई । “शुष्क कानूनी वाद-प्रतिवाद में उनका चित्त नहीं लगा । न्यायाधीशों को उनके भाषण से सन्तोष नहीं हुआ । उनके कण्ठ का स्वर भी अच्छा न था । इन्हीं कारणों से वे वैरिस्टरी में कृत-

साथ उनके क्लेश की सीमा भी बढ़ती गई । जब ऋण देने वालों ने उनको बहुत तंग करना आरम्भ किया तब मानसिक यन्त्रणाओं से बचने के लिए मधुसूदन मद्य पीने लगे । क्रम क्रम से मद्य की मात्रा बढ़ने लगी । वह यहाँ तक बढ़ी कि उनको अनेक रोग हो गये । उनके मित्रों ने यथासम्भव उनकी सहायता की; परन्तु दूसरों के दान पर मधुसूदन का काम कितने दिन चल सकता था । उनको भोजन-वस्त्र तक का कष्ट होने लगा । किसी किसी दिन निराहार रहने तक का नौबत आने लगी । इस अवस्था को पहुँच कर भी मधुसूदन ने अपनी उदारता और व्ययशीलता नहीं छोड़ी । एक दिन उनका एक मित्र अपने एक परिचित को उनके पास कुछ कानूनी राय पूछने के लिए लाया । मधुसूदन ने राय दी; परन्तु फीस लेने से इनकार किया । मित्र के मित्र से फीस कैसी ! इस समय मधुसूदन के घर में एक पैसा भी न था । उन्होंने उस मनुष्य से फीस तो न ली; परन्तु अपने मित्र से पाँच रुपये अपनी स्त्री के लिये उधार माँगे ! यह उनकी उदारता का जाज्वल्यमान प्रमाण है !!! उदार तो वे इतने थे; परन्तु किसीसे ऋण लेकर उसे देना नहीं जानते थे; और ऋण लेकर भी रुपये को पानी के समान बहाते थे ! जब उनके नौकर और ऋणदाता पैसे के लिए उनके द्वार पर, और कभी कभी घर के भीतर भी, कुलाहल करते थे, तब वे अपने कमरे में जाकर जर्मन और इटालियन कवियों की कविता का स्वाद लेते थे !


कुछ काल में मधुसूदन के रोग ने असाध्य रूप धारण किया । उनकी स्त्री भी, घर की विपन्न अवस्था और रोग आदि कारणों से, निर्बल और व्यथित हो चली । पथ्य-पानी का मिलना भी कठिन हो गया । जिस मधुसूदन ने लड़कपन में राजसोटाठ से अपने दिन काटे, 'उसका वस्त्र-आभूषण और वर्तन आदि गृहस्थी का सामान सब धीरे धीरे बिक

गया। मधुसूदन की स्त्री का भी रोग बढ़ चला और उनका तो पहले ही से बढ़ा हुआ था। जब मधुसूदन के मित्रों ने देखा कि उनके पास एक पाई भी नहीं है और घर में उनके मुँह में पानी ढालने वाला भी कोई नहीं है; तब उन्होंने उनको अलीपुर के अस्पताल में पहुँचाया। वहाँ पहुँचने के दो-तीन दिन पीछे मधुसूदन की स्त्री ने इस लोक से प्रस्थान किया। उसकी मृत्यु का संवाद सुनकर मधुसूदन को जो कष्ट हुआ उसका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी जो दुर्दशा हो रही थी वह मानों उनकी अविवेकता का पूरा प्रायश्चित्त न थी; इसी लिए ईश्वर ने शायद उनको यह पत्नी-त्रियोग रूपी दारुण दुःख मरने के समय दिया। इस दुःख को उन्हें बहुत दिन नहीं सहना पड़ा। १८७३ ईसवी की २९ वीं जून को मधुसूदन ने भी प्राण परित्याग किया। ऐसे अद्वितीय बंगला कवि का विषादान्त जीवन समाप्त हो गया !

जिस समय मधुसूदन की मृत्यु हुई, उनके दो पुत्र और एक कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्र मिल्टन और कन्या शर्मिष्ठा ने परलोक-गमन किया। परन्तु उनके कनिष्ठ पुत्र अलवर्ट नपोलियन इस समय अफीम के मोहकमे में कहीं काम करते हैं। मधुसूदन के अनन्तर उनके मित्रों ने उनकी सतान के पालन-पोषण तथा शिक्षण इत्यादि का यथोचित प्रबन्ध किया। उसमें कोई त्रुटि नहीं होने पाई।

मधुसूदन के मरने पर, १५ वर्ष तक, उनकी समाधि इत्यादि का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं हुआ; परन्तु १८८८ की पहली दिसम्बर को उनकी समाधि का सस्कार होकर उस पर एक स्तम्भ खड़ा किया गया। इस कार्य के लिए बंगदेश के अनेक कृतविद्य लोगों ने सहायता की। उस स्तम्भ पर मधुसूदन ही की रची हुई कविता खोदी गई। यह कविता, मरने के दो तीन वर्ष पहले, मधुसूदन ने लिखी थी। उसे

हम ना गरी अक्षरों मे नीचे उद्धृत करते हैं:—



माइकेल का समाधिस्तम्भ

इसका शब्दार्थ हिन्दी में, पंक्ति प्रति पंक्ति इस प्रकार होगा—

“खड़े हो, पथिक-वर, जन्म यदि तव
वङ्ग में, ठहरो थोड़ी देर ! इस समाधिस्थल पर
(माता की गोद में शिशु प्राप्त करता है जिस प्रकार
विश्राम) पृथ्वी के पद में (है) महानिद्रावृत्त—
दत्त कुलोद्भव कवि श्रीमधुसूदन !
यशोर में सागरदाँड़ी कवतच-तीर
जन्मभूमि, जन्मदाता दत्त महामति
राजनारायण नाम, जननी जाह्नवी !”

मधुसूदन का समाधिस्तम्भ स्थापन करके उनके देशवासियों ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। जिसने वङ्गभाषा को अपनी अप्रतिम कविता से इतना अलंकृत किया, उसका, इस प्रकार, मरणोत्तर आदर होना, बहुत ही उचित हुआ। यों तो, जब तक बँगला भाषा का अस्तित्व है तब तक मधुसूदन की यश-पताका, सब काल, वङ्ग देश में फहराती रहेगी। उनके लिए समाधिस्तम्भ आदि की विशेष आवश्यकता नहीं। उनका समाधि-स्तम्भ और उनकी प्रतिमा (Statue) उनके ग्रन्थ ही है।

[जुलाई, अगस्त १९०३ की सरस्वती से उद्धृत]

वंग भूमि के प्रति

“My Native Land Good night !”

Byron.

रहे दाय की याद, पदों मे यही विनय है मात !
साधन करने मे अनुकूल,
हो जावे यदि मुझसे भूल,
मधु-विहीन हांने मत देना निज मानस-जलजात ॥

जो प्रवास मे गात्र-गगन से जीव रूप नक्षत्र ।
खस जावे तो खेद नहीं,
जहाँ जन्म है मृत्यु वहीं;
जीवन-नद का नीर अनस्थिर रहता है सर्वत्र ॥

पर धम का भय मुझे नहीं है रक्खो यदि तुम याद ।
चींटी भी कब गलती है—
अमृत-कुण्ड में, पलती है
वही धन्य है जो नर-कुल का पावे स्मृति-मसाद ॥

पर किस गुण से, माँगूँ तुम से, मैं ऐसा अमरत्व ?
तो भी यदि तुम कृपा करो,
दोष भूल गुण हृदय धरो,
तो श्यामा, जन्मदे, सुवरदे, दो बस यही महत्व—

विकसित रहूँ सदा स्मृति-जल में, हो वह मेरा सपना ।
क्या वसन्त, क्या शरत्समय,
रह कर सदा सरस मधुमय,
रहता है प्रफुल्ल मानस में जैसे प्यारा पद्म ॥

आत्म-विलाप

आशा की झुलना मे पड़ कर
मैंने क्या फल पाया हाय !
काल-सिन्धु की ओर जा रहा
जीवन का प्रवाह निरुपाय !
दिन दिन दूर जा रहे दीनों
आयुर्वृक्ष का है यह हाल,
तो भी नहीं मिटा आशा का
नशा, अहो, कैसा जंजाल !

रे प्रमत्त मन, कब जागेगा ?
कब बीतेगी तेरी रात ?
यौवन-सुमन रहेगा कब तक
जीवन के उपवन में तात ?
दूर्वा-दल पर जल-कण कब तक
'मलमल होकर लिखता है ?
क्षण में जल-बुद्बुद जल में ही
देख, निरन्तर मिलता है ॥

निश्चा-स्वप्न से सुखी सुखी है ?
 जगता है वह रोने को,
 तड़िता है तम मात्र बढ़ाती
 पथिक-दृष्टि ही खोने को ।
 महस्थली में तृषा बढ़ा कर
 मृगतृष्णा लेती है प्राण,
 यो ही आशा की झूलना से
 हो सकता है किसका त्राण ?

पहनी आप प्रेम की बेड़ी
 तुझे कौन फल मिला भला ?
 हा ! ज्वलन्त ज्वाला पर मर कर
 तू पतङ्ग-सा कूद जला ।
 काल-जाल में फँसा आप ही
 कुच्छ भी देखा-सुना नहीं;
 रोता है अबोध, अब, फिर भी
 मिल सकती है शान्ति कहीं ?

व्यर्थ अर्थ के अन्वेषण में
 तू ने क्या बाकी छोड़ा ?
 उलटे काँटे लगे नाल के
 जब तू ने अम्बुज तोड़ा !
 हर न सका मणि हाथ बढ़ा कर
 काल फणी से डँसा गया,

भूलेगा कैसे उस विष की
ज्वाला ? मन, तू हँसा गया !

यशो-लाभ-छोभी हो बैठा
कितना वयस वृथा खोकर,
कुसुम काटने जाय कीट ज्यों
अन्ध गन्ध रस से होकर ।
काट रहा है हाथ ! अनुत्तण
वह मात्सर्य-गरल-दंशन,
यही अनिद्रा, अनाहार का
कष्ट सहन कर पाया मन !

मुक्ता फल लेने को धीवर
दूबा करता है जल में,
मुक्ताधिक वय फेकी तू ने
काल-पयोनिधि के तल में !
खोया धन फिर से अबोध मन,
लौटा देगा कौन तुझे ?
आशा की माया में कितना
भूलेगा तू, बता मुझे ?

मेघनाद-वध और माइकेल

रामायण के एक अंश को लेकर इस काव्य की रचना की गई है। पर, कवि ने अपनी उच्च कल्पना से और भी कितनी ही बातों का इसमें समावेश किया है। उनसे यह एक स्वतन्त्र काव्य बन गया है।

एक बात और भी है जो इसकी स्वतन्त्रता और नव्यता की सहायक है। पाठक देखेंगे कि इसमें रावण का चरित्र यथेष्ट उज्वल भावों के साथ चित्रित किया गया है। कवि की उसके साथ हार्दिक सहानुभूति है; परन्तु इतना होने पर भी, रावण के उस अनाचार का निराकरण कैसे हो सकता था जिसके कारण उसका सर्वश विध्वंस हुआ। कवि ने, आरम्भ में ही, एक छोटे से वाक्य में कैफ़ियत देने का प्रयत्न किया है। रावण सारा दोष शूर्पणखा के मृत्यु मढ़ता हुआ कहता है कि—“किस कुसाइत में तेरे दुःख से दुःखी होकर पापक-शिखा-रूपिणी जानकी को मैं अपने सोने के घर में लाया था ?” रावण किस प्रकार सीता को अपने सोने के घर में लाया था, इसे सब जानते हैं। ख़ैर, यह वाक्य शूर्पणखा को सम्बोधन करके कहा गया है; पर शूर्पणखा वहाँ उपस्थित न थी। मालूम नहीं, वह इसका क्या उत्तर देती। जान पड़ता है, कवि भी इस बात का निश्चय नहीं कर सका। क्यों कि आगे चल कर जब चित्राङ्गदा ने रावण को उपालम्भ देते हुए कहा कि—“राम को तुम देश-वैरी क्यों कहते हो ? क्या वह तुम्हारे सिंहासन के

लिए लड़ रहा है ? तुम अपने ही कर्म-फल से अपने को हुवा रहे हो,” तब रावण इसका कुछ उत्तर नहीं देता और इसी जगह इस दृश्य पर परदा गिर जाता है। रावण ने सीताजी के लिए जो पावक-शिखा की उपमा दी है, वह ठीक ही है—

प्रज्वलित वह्नि पर-दार हुई,
सोने की लझा छार हुई ।

जो हो, कवि के साथ हमको भी रावण से सहानुभूति है। इतना भेद अवश्य है कि उसमें प्रेम और आत्मीयता की जगह खेद और क्रोध के भाव विद्यमान हैं। इसका कारण चित्राङ्गदा के शब्दों में, ऊपर प्रकट हो चुका है।

शत्रु का कितना ही बड़ा वैभव और विक्रम हो, वह उसके विजेता के ही गौरव का बढ़ाने वाला होता है। रावण के वैभव और विक्रम का कहना ही क्या ? कवि ने उसका वर्णन भी खूब किया है। खेद इतना ही है कि राजस-परिवार के ऊपर अत्यधिक आकर्षित हो जाने के कारण वह भगवान् रामचन्द्र के आदर्श की रक्षा न कर सका। कहीं कहीं वह उच्चादर्श हीन होगया है। जिन्हें हिन्दू लोग ईश्वर का अवतार अथवा आदर्श वीर, आदर्श राजा और आदर्श गृहस्थ मानते और जानते हैं उनमें भीरुता, दीनता और दुर्बलता का आरोप करना अनुचित है। किसी कथानक में आवश्यकतानुसार फेर-फार करने का अधिकार कवियों को है, पर आदर्श को विकृत करने का अधिकार किसी को नहीं। किन्तु माइकेल मधुसूदन दत्त का जीवन ही अनियमित और असंयत था। कवियों के स्वभाव में कुछ न कुछ उच्छृङ्खलता होती ही है। माइकेल का स्वभाव तो मानों उसीमें बनाया गया था। उन्होंने अपना कुटुम्ब छोड़ा, समाज छोड़ा, धर्म छोड़ा और धनी पिता के पुत्र

होने पर भी बङ्गाल के इस अनुपम कवि को अन्त में, दातव्यचिकित्सा-ल्य में अपना शरीर छोड़ना पड़ा। मधुसूदन के जीवन में सर्वत्र एक आवेग भरा हुआ था। यही आवेग, ओज के रूप में, उनकी कविता के लिए सब दोषों को छिपा देने वाला विशेष गुण बन गया। इसी के कारण 'मेघनाद-वध' सश्लेष होने पर भी परम मनोहर काव्य है।

कवि ने जहाँ जिस विषय का वर्णन किया है, वहाँ उसका चित्र-सा खींच दिया है। एक के ऊपर एक कल्पना-तरङ्ग का चमत्कार देखते ही बन पड़ता है। उपमाएँ यद्यपि सभी उपयुक्त नहीं हुई हैं पर उनकी कमी नहीं। उनमें नवीनता और विशेषता भी है। वर्णनशैली अविच्छिन्न धारा की तरह बहती हुई जान पड़ती है। वह पढ़ने वाले को आकण्ठ मग्न करके बरबस अपनी गति के साथ खींच ले जाती है। इस काव्य को पढ़ते पढ़ते कभी कौतूहल बढ़ता है, कभी आश्चर्य होता है, कभी क्रोध हो जाता है और कभी करुणा से हृदय द्रवित हो उठता है। कभी आकाश की सैर करने को मिलती है, कभी पाताल की। कवि की पृथ्वी भी सोने की है। फिर कौन ऐसा सहृदय है जो मेघनाद-वध को पढ़कर मुग्ध न हो जाय ? सचमुच वङ्ग-भाषा भाग्यशालिनी है जिसमें माइकेल मधुसूदन दत्त जैसा कवि उत्पन्न हुआ है।

—मैथिलीशरण गुप्त.

परिचय और आलोचना

[मूल लेखक—श्रीयुत योगीन्द्रनाथ वसु, बी. ए.]

मेघनाद-वध काव्य माइकेल मधुसूदन दत्त की प्रतिभा के पूर्ण विकास के समय की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रचना है।

रामायण की एक घटना लेकर इस काव्य की रचना की गई है। परन्तु फिर भी इसमें बहुत-सी नई बातें हैं। इस काव्य के राक्षस वीभत्स प्रकृतिमय नर-भोजी नहीं। वीरत्व, गौरव, ऐश्वर्य और शरीर-सम्पत्ति में साधारण मनुष्यो से श्रेष्ठ होने पर भी वे मनुष्य ही हैं। आचार-व्यवहार और पूजा-पाठ में आर्यों से उनमें विशेष भिन्नता नहीं। वे शिव और शक्ति के उपासक हैं। सहगमन की रीति भी उनमें प्रचलित है।

राक्षसों की तरह मेघनाद-वध काव्य के वानर भी मनुष्य हैं, बड़ी पूँछ और रोम वाले पशु नहीं। कवि ने राम और सीता को भी इसमें अवतार रूप में नहीं दिखाया; वे भी मनुष्य ही माने गये हैं। परन्तु साधारण मनुष्यों की अपेक्षा उनमें कुछ विशेषताएँ हैं।

इस काव्य में कुछ घटनाएँ रामायण के विरुद्ध भी मिलेंगीं। पाश्चात्य कवियों—विशेष कर मिल्टन और होमर—का इसमें स्थान स्थान पर अनुसरण किया गया है। रामायण के आदर्श से इसका

आदर्श भी भिन्न है। राम-लक्ष्मण की अपेक्षा राक्षसों पर कवि की अधिक सहानुभूति पाई जाती है।

यह काव्य ९ सर्गों में विभक्त है और तीन दिन तथा दो रातों की घटनाएँ इसमें वर्णन की गई हैं। परन्तु कवि की अनुपम कल्पना-शक्ति के गुण से वे घटनाएँ दीर्घकालव्यापिनी जान पड़ती हैं।

प्रथम सर्ग

ग्रन्थ के आरम्भ में कवि ने मिलटन के आदर्श पर सरस्वती देवी की वन्दना करके अपने काव्य के वर्णनीय विषय का निर्देश किया है। इसके बाद राक्षसराज की सभा का मनोहर दृश्य पाठकों के सामने आता है। रावण के ऐश्वर्य का क्या कहना? परन्तु तो भी उसे शान्ति नहीं। दूत के मुख से पुत्र की मृत्यु का हाल सुन कर वह कातर हो रहा है। उसी के दोष से सोने की लङ्का छार-छार हो रही है। मधुसूदन ने बहुत निपुणता के साथ उसकी वेदना व्यक्त की है।

वीरबाहु की वीरगति का वर्णन अतीव उत्तेजना-पूर्ण है। उसे सुन कर रावण भी क्षण भर के लिए पुत्र-शोक भूल कर गौरवानुभव करने लगता है।

पुत्र को देखने के लिए उसका प्रासाद पर जाना एक सुन्दर चित्रपट-सा मालूम होता है। रणक्षेत्र में पड़े हुए पुत्र को देख कर जो उद्गार उसने प्रकट किये हैं वे मर्मस्पर्शी और वीर पितृत्व के परिचायक हैं।

समुद्र-सेतु देख कर उसने जो उसके सम्बन्ध में तीव्र कटाक्ष किये हैं उनसे प्रकट होता है कि किस यत्नणा से उसका हृदय जल रहा था। उनसे उसके हार्दिक भावों और विचारों का भी पूरा पता चलता है।

इसके बाद वह फिर सभा में आकर बैठता है। इसी समय वीरबाहु की माता चित्राङ्गदा सभा में प्रवेश करती है। वीर रस की तरह करुण रस का वर्णन करने की भी कवि की क्षमता अद्भुत है। इस स्थल पर आरम्भ में ही उसका परिचय मिल जाता है। चित्राङ्गदा का एक मात्र रत्न चला गया। उसके रक्षण का भार रावण पर था, पर वह उसकी रक्षा न कर सका। अब चित्राङ्गदा को क्या उत्तर दे ? जिस दारुण यन्त्रणा से उसका हृदय जलता था उसीका उल्लेख करके वह रह जाता है—

“एक पुत्र-शोक से हो व्यग्र तुम छलने,
शत सुत-शोक से है मेरा हिया फटता !”

इत्यादि।

चित्राङ्गदा पुत्रशोकातुरा होने पर भी वीरमाता और वीरपत्नी है। रावण उसे सान्त्वना देता है कि वीरो की तरह तुम्हारा पुत्र देशवैरियों को मार कर वीरगति को प्राप्त हुआ है; तुम्हें उसके लिये शोक करना उचित नहीं। सान्त्वना बहुत सुन्दर है, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु उससे चित्राङ्गदा को सन्तोष नहीं होता। क्यों ? इस लिए कि क्या रामचन्द्र ने उसके देश को छीनने के लिए चढ़ाई की थी। या रावण ने जो उनकी पतिव्रता पत्नी का हरण किया था उसका बदला लेने के लिए। फिर राम देश-वैरी कैसे ? चित्राङ्गदा कहती है—

“हाय ! निज कर्मदोष से ही नाथ तुमने
कुल को डुबाया और डूबे तुम आप भी !”

सुशीतल वाग्धारा हृदय में धारण करके भी कादम्बिनी जिस प्रकार वज्र निक्षेप करती है, पतिपरायणा स्त्री का हृदय स्नेहप्रवण होने पर भी अवस्था विशेष में उससे उसी प्रकार प्रदीप्त अग्नि-शिखा

निकलती है। चित्राङ्गदा के चरित से इसका प्रमाण मिलता है। उसका चरित वाल्मीकि रामायण में नहीं है; वह कवि की निज की सृष्टि है। इसी के द्वारा कवि ने रावण की अवस्था पर प्रकाश डाला है।

आत्मसंयम के प्रतिकूल ही रावण ने सीता का हरण किया था। परन्तु यथेष्ट दण्ड पाने पर भी उसे होश नहीं आता। पाप छिपाने की प्रवृत्ति के समान पापाचार के समर्थन करने की प्रवृत्ति भी मनुष्य में बहुत पाई जाती है। इस अवस्था में औरों की तो बात ही क्या, वह अपनी आत्मा से भी वञ्चना करने लगता है। घोर पापाचारी होने पर भी रावण विधाता से पूछता है—

“दारुण रे दैव, देख दोष मेरा कौन सा
तू ने यह रत्न हरा—”

जिस अशुभ घड़ी में वह सीता को हर कर ले आया था उसका स्मरण करके अपने को धिक्कार न देकर दैव पर आरोप करता है। अपनी भूल स्वीकार करने का साहस उसमें न था। अपने हृदय को वह दूसरे प्रकार से ही प्रबोध देता है। सारा दोष शूर्पणखा के सिर मढ़ कर उसी को अपने सर्वनाश का कारण समझने लगता है। किन्तु उसे उसकी शान्ति बता देने की आवश्यकता थी। चित्राङ्गदा ने वही किया है।

शोक में समदुःखभागिनी पत्नी के साथ रोकर मनुष्य बहुधा सान्त्वना प्राप्त करता है। किन्तु अभागे रावण के भाग्य में वह भी न था। सहानुभूति के बदले उसे तिरस्कार ही मिलता था। उसके समान अनाचारी को शान्ति दे भी कौन सकता था। इसी लिए कंहा गया है कि चित्राङ्गदा के चरित ने उसकी अवस्था परिष्कृत की है।

चित्राङ्गदा के अन्तःपुर में जाने पर शोक और अभिमान से उत्तेजित रावण रण-सज्जा की आज्ञा देता है। वीरपुरी लङ्का वीरशून्य हो चुकी है, इसलिए वह स्वयं ही युद्ध की तैयारी करता है। कवि युद्ध के आयोजन का सुन्दर वर्णन और उसी के साथ एक नये दृश्य की अवतारणा करके अपनी उद्गाविनी शक्ति का परिचय देता है।

वह दृश्य समुद्र-तल में कवरी-रचना कराती हुई वरुणानी का है। कवि का यह वरुणानी-चरित पुराणानुमोदित नहीं, होमर के थेटिस (Thetis) से मिस्टन ने अपने कोमस (Comus) को साब्रिना (Sabrina) का आदर्श ग्रहण किया है। उसीसे कवि ने वरुणानी-चरित की कल्पना की। समुद्र के साथ वायु के युद्ध का विषय ग्रीक-पुराण के Acoius and winds से और मुरला नाम सम्भवतः उत्तररामचरित से लिया गया है। लङ्कापुरी का ऐश्वर्य एवं राक्षसों का रणप्रयाण राजलक्ष्मी और मुरला की बातचीत में अच्छी तरह विवृत किया गया है। मेघनाद को वहाँ न देख कर मुरला उसके विषय में पूछती है और लक्ष्मी उत्तर देती है कि जान पड़ता है, वह पुरी के बाहर, प्रमोद उद्यान में, प्रमीला के साथ विहार कर रहा है। इसके बाद वह मुरला को बिदा करके मेघनाद के पास उसकी धाय का रूप धारण करके पहुँचती है। उसके मुँह से वीरबाहु को मृत्यु और रावण की रण-सज्जा का हाल सुन कर मेघनाद को आश्चर्य होता है। क्यों कि वह अपने प्रचण्ड बाणों से, रात्रि-रण में, शत्रुओं का मार चुका था। किन्तु धाय के शब्दों में “मायावी राम” मर कर अच गया, यह सुन कर वह अपने को धिक्कारता है—

“धिक है मुझे हा ! शत्रु घेरे स्वर्णलङ्का हैं,
और बैठे हूँ मैं यहाँ नारियों के बीच में।”

इसके बाद वह अपना रथ लाने की आज्ञा देकर वीर-वेश से सज्जित होता है। जिस समय वह वीरदर्प से रथ पर सवार होने लगता है, उसकी प्रेयसी पतिव्रता पत्नी प्रमीला आकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। भावी अमङ्गल का जो भेद्य भेद्यनाद के अदृष्टाकाश में घिर रहा था मानो साध्वी के हृदय में पहले से ही उसकी छाया पड़ रही थी। इसी से वीर-पत्नी और वीराङ्गना होने पर भी वह होमर के हेक्टर नामक वीर की पत्नी एन्ड्रोमेकी (Andromache) के समान कातर होकर स्वामी से कहती है—

“* * * प्राणनाथ, इस दासी को
झोड़ कहाँ जाते हो ? तुम्हारे बिना प्राण ये
धारण करूँगी किस भाँति मैं अभागिनी ?”

परन्तु सच्चा वीर मेघनाद उसके आँसुओं की ओर इकूपत भी नहीं करता। जिसने युद्ध में इन्द्र को भी हरा दिया है, तुच्छ मानव राम के साथ सङ्ग्राम करना उसके लिए खेल-सा है। इसी भाव से प्रेरित होकर वह प्रमीला को सान्त्वना देकर चला जाता है। आकाश-मार्ग से उसे आते देख कर राक्षस-सेना आनन्द-नाद करती है। पुत्र पिता के चरणों में प्रणाम करके कहता है—

“* * * * तात, मैंने है सुना—
रण में मर के भी है राघव नहीं मरा ?
जानता नहीं मैं यह माया; किन्तु आज्ञा दो,
कर दूँ निर्मूल मैं समूल उसे आज ही।”

इत्यादि

किन्तु राघव को उसे आज्ञा देने का साहस नहीं होता। अवस्था विशेष से मनुष्यों की प्रकृति भी बदल जाती है। नई आज्ञा

और नये उत्साह से अनुप्राणित मेघनाद और शोक-जर्जर एवं निराशा-प्रस्त रावण के व्यवहार में इसी से बहुत भिन्नता दिखाई देती है। बङ्गाल के कविवर हेमचन्द्र ने “वृत्रसंहार” नामका एक महाकाव्य लिखा है। उसमें वृत्रासुर का पुत्र रुद्रपीड जब युद्ध में जाने की आकांक्षा प्रकट करता है तब वृत्रासुर उससे कहता है—

“रुद्रपीड, जो हो अभिलाषा तुम्हें यश की पूर्ण करो, बाँध यशोरश्मियाँ किरिट में; चाहता नहीं हूँ मैं तुम्हारी यशोदीप्ति को हरना, यशस्वि पुत्र, जाके आप युद्ध में। धन्य हुए तीनों लोक में हो तुम, और भी धन्य हो बढाके वत्स, कीर्ति निज कुल की।”

किन्तु मर्मपीडित राक्षसराज अपने पुत्र से कहता है—

“* * * इस काल-रण में तुम्हें वार वार भेजने को चित्त नहीं चाहता। मुझ पर वाम है विधाता। कब, किसने पानी में शिलाएँ पुत्र, उतराती हैं सुनी? किसने सुना है, लोग मर कर जीते हैं?”

वृत्र और रावण दोनों ही त्रिलोक विजयी हैं। किन्तु अवस्था के पार्थक्य से दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न हो रही है। वृत्र सौभाग्य-लक्ष्मी की गोद में प्रतिपालित हो रहा है। शोक या निराशा का उसे कभी अनुभव ही नहीं हुआ। जिस उत्साह से वह पुत्र को युद्ध में जाने की आज्ञा देता है, निराशापीडित रावण को वह उत्साह नहीं। इसी से वह सामान्य मनुष्य की तरह पुत्र को युद्ध में जाने की आज्ञा देता

हुआ डरता है। किन्तु मेघनाद का भाव स्वतन्त्र है। वह वीर्यपूर्ण से कहता है—

“ क्या है वह बुद्ध नर, डरते हो उसको
तुम हे नृपेन्द्र ? इस विह्वल के रहते
जाओगे समर मे जो, फैलेगा जगत मे
तो यह कलङ्क पिता, वृत्रहा हूँसेगा हा !
रुष्ट होंगे अग्निदेव । राघव को रण में
मैं दो वार पहले हरा चुका हूँ हे पितः,
एक वार और मुझे आज्ञा दो कि देखूँ मैं,
बचता है वीर इस वार किस यत्न से ?”

जिस बल से मदमत्त मातङ्ग गुण्ड द्वारा विशालकाय वनस्पति को पकड़ कर लीचता है, मेघनाद के हृदय का यह उत्साह उसी पाशव बल से उत्पन्न है। किन्तु राक्षसराज समझ चुका है कि जिस दशा में वह पड़ा है उसमें पाशवबल से विजय की आशा नहीं। होती तो पहले ही विजय हो चुकी होती। ऐसा होता तो कुम्भकर्ण जैसा वीर क्या युद्ध में मारा जाता ? वह मन ही मन समझ रहा है कि उसके पापाचार से क्रुद्ध होकर विधाता ने लङ्कापुरी के विनाश करने को हाथ बढ़ाया है। ऐसी दशा में देवानुग्रह के बिना और गति नहीं। इसीसे वह मेघनाद से कहता है कि यदि तुम्हें लड़ने की नितान्त इच्छा हो तो पहले इष्ट देवता का पूजन करके तब राघव से लड़ना। अब संध्या भी होगई है। मैं तुम्हें सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित करता हूँ।

इसके बाद वह यथाविधि मेघनाद का अभिषेक करता है। वन्दीजन आनन्द-गीत गाते हैं। वह गीत बहुत ही समयोचित और आशा-पूर्ण है। इसी स्थान पर पहला सर्ग समाप्त होता है।

द्वितीय सर्ग

द्वितीय सर्ग का अभिनयक्षेत्र गुरलोक है और देव एवं देवीगण उसके अभिनेता हैं। रामायण में श्रीरामचन्द्र ईश्वरावतार होने पर भी लङ्कायुद्ध मे देवताओं ने उनकी प्रशंसा सप्तयता कि वा सहकारिता नहीं की। होमर के इलियड काव्य का अनुकरण करके मधुसूदन ने मेघनाद-वध में देवताओं से अभिनय कराया है। महादेव और पार्वती के अनुग्रह से लक्ष्मण के लिए इन्द्र कर्तृक अजेयास्त्र लाभ द्वितीय सर्ग का पर्जन्य विषय है। मधुसूदन की प्रतिभा इस सर्ग में वाल्मीकि की अपेक्षा होमर द्वारा ही विशेष अनुप्राणित है। ग्रीक पुराणों के जूपिटर और उनकी पत्नी इसमें महादेव-पार्वती के रूप में परिकल्पित हुए हैं और सौन्दर्य की अधिष्ठात्री देवी आफ्रोदिति (Aphrodite) एवं निद्रा-देव समनस (Somnus) यथाक्रम से रति और कामदेव का स्थान अधिकृत किये हुए हैं।

आरम्भ में सन्ध्या का मनोहर वर्णन है। उसके बाद स्वर्ग का सुन्दर दृश्य सामने आता है। उसमें भी ग्रीक स्वर्ग की छाया पड़ रही है। इन्द्र देवताओं के साथ आनन्द-सभा में विराजमान है। ऐसे ही समय में रत्न-कुल राजलक्ष्मी वहाँ आकर मेघनाद के अभिषेक की सूचना देती है। यदि मेघनाद निकुम्भला-यज्ञ पूरा करके युद्ध में प्रवृत्त होगा तो रामचन्द्र की रक्षा असम्भव हो जायगी। इसे सुनकर इन्द्र बहुत उद्विग्न होता है और इन्द्राणी को साथ लेकर हर-पार्वती के पास कैलास पर्वत पर जाता है। यहाँ मधुसूदन ने कैलास का अच्छा वर्णन किया है। परन्तु देव-चरित चित्रित करने में टैसो और मिक्टन प्रभृति पाश्चात्य कवियों ने जो भूल की है, मधुसूदन भी उसी प्रमाद में पड़ गये। देव और मानवीय भावों के एकत्र समावेश से उनकी देव-प्रकृति-वर्णना स्थान

स्थान पर विरुद्ध गुण वाली हो गई है। देवराज और शची देवी दोनों ने पार्वती से रामचन्द्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। किन्तु पार्वती ने कहा कि राक्षसकुल देवादिदेव महादेव से रक्षित है। वे इस समय तपस्या में मग्न हैं। इसी से लङ्का की यह दुर्दशा है। मैं कैसे रावण का अनिष्ट कर सकती हूँ। इसी समय वहाँ सुगन्ध फैल जाती हैं, शङ्ख, घंटा आदि की ध्वनि झा जाती है और दुर्गा का आसन डोल उठता है। पार्वती विस्मित होती हैं। विजया सखी गणना करके उन्हें बताती है कि रामचन्द्र लङ्का में तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। भक्तवत्सला का हृदय द्रवित हो जाता है। वे योगासन शृङ्ग पर महादेव के पास जाने के लिए तैयार होती है। सौन्दर्य की अधिष्ठात्री देवी रति उनका शृङ्गार कर देती है। मोहिनी रूप धारण कर और महादेव की समाधि भङ्ग करने के लिए कामदेव को साथ लेकर वे महादेव के पास जाती हैं।

द्वितीय सर्ग की यह सब घटना रामायण में नहीं पाई जाती। इलियड के चौदहवें सर्ग के साथ कुमारसम्भव के तीसरे सर्ग का संमिश्रण करके मधुसूदन ने यह कल्पना की है। इलियड के चौदहवें सर्ग में होमर ने लिखा है कि ट्रायवासियों पर जूपिटर का अनुग्रह देख कर एकान्त ईश्वर परायणा जूनो कौशल पूर्वक कार्यसाधनार्थ मनोहर वेष-भूषा और वीनिस का विश्वविमोहन कटिबन्ध धारण करके आइडा (Ida) पर्वत पर जूपिटर के पास गई। जूपिटर पत्नी का मोहन रूप और वेष-भूषा देख कर उसके आलिङ्गन-पाश में बद्ध होकर उसी दशा में निद्रित हो गया। क्रुद्ध स्वभाव वाली जूनो ने यही उपयुक्त अवसर समझ कर अभागे ट्राय वासियों का सर्वनाश संघटित किया था। इलियड की इसी घटना के साथ कुमारसम्भव के मदन-दहन वृत्तान्त को परिवर्तित रूप

में मिला कर मधुसूदन ने मेघनाद-वध के दूसरे सर्ग की रचना की है। किन्तु खेद की बात है कि वे कुमार-सम्भव के गौरी-शंकर की मर्यादा की उपलब्धि न कर सके। मेघनाद-वध के गौरीशंकर ग्रीक पुराण के कामुक जूपिटर और जूनो की अपेक्षा उच्चतर होने पर भी कालिदास ने कुमार-सम्भव में उनका जो महान चित्र अङ्कित किया है, मधुसूदन के ग्रन्थ में उसकी छाया भी नहीं पाई जाती। महादेव जिस समय ध्यान-मग्न होते हैं उस समय सहस्र कामदेव भी उनकी तपस्या में विन्न नहीं डाल सकते। कुमारसम्भवकार ने, ध्यानावस्था में, काम के द्वारा उनका तपोभङ्ग नहीं कराया। उनके कथनानुसार उस समय शिवजी ध्यान से निवृत्त हो चुके थे। उसी समय पार्वती उनकी पूजा के लिए वहाँ आईं और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया—

“पावे तू ऐसा पति जिसने
देखी नहीं अन्य नारी।”

(—कुमारसम्भव सार)

उसी समय कामदेव ने उन पर बाण छोड़ा। कालिदास का अङ्कित शिवजी का चित्र जैसा महान है वैसा ही स्वाभाविक है। कामदेव के प्रहार करने पर उनकी अवस्था जो कालिदास ने लिखी है उसका अनुवाद नीचे कुमारसम्भवसार से उद्धृत किया जाता है—

“राकापति को उदित देख कर
बुद्ध हुए सलिलेश-समान,
कुब्ज कुब्ज धैर्य-हीन हो कर के
संयमशील शम्भु भगवान—
लगे देखने निज नयनो से
सादर, साभिलाष, सस्नेह;

गिरिजा का विम्बाधरधारी

मुखमण्डल शोभा का गेह ॥”

किन्तु—

“महाजितेन्द्रिय थे इस कारण
महादेव ने तदनन्तर,
अपने इस इन्द्रिय-क्षोभ को
बल पूर्वक विनिवारण कर ।
मनोविकार हुआ क्यों, इसका
हेतु जानने को सत्वर,
चारों ओर सघन कानन में
प्रेरित किये विलोचन वर ॥”

कुछ कुछ धैर्यहीन होकर और बल पूर्वक विनिवारण कर मे कितना कठोर आत्मसंयम भरा हुआ है ! मधुसूदन के हर-ध्यान-भङ्ग में इसका अंश भी नहीं। क्षण भर पहले जो महादेव 'मग्न तपःसागर में बाह्यज्ञानशून्य थे' वे कामदेव के बाण छोड़ते ही 'निहिर उठे' और 'हो गये अधीर !'

मधुसूदन ने केवल महादेव के ही चरित के महत्त्व को नष्ट नहीं किया, पार्वती के चरित को भी उन्होंने हीन कर डाला है। कुमार-सम्भव में महादेव के तपोभङ्ग के सम्बन्ध में पार्वती सर्वादा निर्दोष है। बहुत ही पवित्र भाव से महादेव की पूजा करने वे आई थीं। उन्हें कामदेव की खबर तक न थी। किन्तु मेघनाद-वध की पार्वती ने अपना उद्देश सिद्ध करने के लिए पृथ्वी में सर्वापेक्षा जवन्य और अस्वाभाविक उपाय से स्वामी का ध्यान भङ्ग किया है। जो स्वयं तप-स्विनी स्त्रियों मे अग्रगण्य और संसार में सहस्रमिगणी नाम की आदर्श

स्वरूपा हैं उनका इस रूप में चित्रित करना मधुसूदन को उचित न था । ग्रीक पुराणों की जूनो को आदर्श मानने से ही उनसे ऐसी भूल हुई है ।

जो हो, ग्रीक देवी जूनो के समान उनकी अभिलाषा भी पूरी हुई । महादेव ने प्रसन्न होकर मेघनाद को मारने के लिए अपने रुद्रतेज से निर्मित शस्त्रास्त्र लक्ष्मण के पास भेजने की आज्ञा दी । उनकी आज्ञा से माया के यहाँ से इन्द्र उन्हें ले आया और चित्ररथ के द्वारा उसने उन्हें लक्ष्मण के पास भेज दिया । यहीं दूसरा सर्ग समाप्त होता है । कल्पना की छटा और वर्णन शक्ति के गुण से यह सर्ग अन्यान्य सर्गों की अपेक्षा निकृष्ट नहीं । किन्तु जिस उद्देश से कवि ने नाना देशीय कवियों के काव्य-समूह से उपादान सङ्ग्रह करके अपना काव्य लिखा है वह उद्देश इससे सिद्ध नहीं होता । शैव कुलोत्तम रावण का नाश करने के लिए महादेव की कृपा की आवश्यकता है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु इन्द्र का माया देवी के यहाँ जाना वहाँ से अस्त्र लाना और उन्हें चित्ररथ के द्वारा भिजवाना आदि घटनाएँ नितान्त आडम्बर पूर्ण और अस्वाभाविक हैं । जिस अवस्था में लक्ष्मण से मेघनाद का वध कराया गया है उसके लिए रुद्रतेज से निर्मित अस्त्रों की आवश्यकता ही क्या थी ? युद्ध के लिए ही देवास्त्रों का प्रयोजन हो सकता है, हत्या के लिए नहीं । लक्ष्मण को जब नरहन्ता के रूप में ही चित्रित करने की कवि की इच्छा थी तब उन्हें रुद्रतेज से बने हुए अस्त्र न दिलाना ही अच्छा था । सच तो यह है कि देव और देवियों में से किसी भी प्रधान पात्र का चरित इस सर्ग में ऊँचे आदर्श पर चित्रित नहीं किया गया । महादेव और महादेवी के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है । इन्द्र और इन्द्राणी का चरित भी निर्दोष नहीं । इन्द्र के चरित में कापुरुषता

और शची देवी के चरित मे जिवांसा और भक्तद्रोहिता दिखाई देती है। अप्रधान पात्रों के चरितों में कोई विशेष बात नहीं। इस लिए उनके विषय मे कुछ लिखना व्यर्थ है।

तृतीय सर्ग

तीसरे सर्ग में इन्द्रजित की पत्नी प्रमीला का लङ्का-प्रवेश वर्णित है। प्रमीला का चरित ही मेघनाद-वध मे नूतन है और उसी से मधुसूदन की मेघनाद-वध-रचना का उद्देश सफल हुआ है। महर्षि वाल्मीकि ने राक्षसों को जिस रूप में चित्रित किया है उससे उन पर हमारी सहानुभूति उत्पन्न नहीं होती। किन्तु उनके चरित का एक मधुर अंश भी है। राक्षसराज सीतापहारक होने पर भी गृहस्थ है। पति, पिता, ससुर और राजा है। इन रूपों में उसके चरित से जिन कोमल भावों के प्रकट होने की सम्भावना हो सकती है, रामायण में उनका उल्लेख नहीं है, यह भी कहा जा सकता है। इसी कारण हम उसके गुणों की कल्पना ही नहीं करते। किन्तु मधुसूदन ने उसके पारिवारिक जीवन की झलक भी हमें दिखाई है। मेघनाद-वध का रावण अतुल ऐश्वर्यशाली, परम प्रतापी और विलक्षण वीर है। वह सीतापहारक भी है, मधुसूदन इसका उल्लेख नहीं भूले है। किन्तु इसी के साथ वह स्नेहवान पिता, गौरवशाली सम्राट और निष्ठावान भक्त भी बतलाया गया है। चित्राङ्गदा का चित्र शोकाकुला जवनी और अभिमानिनी पत्नी का उत्कृष्ट उदाहरण है। मन्दोदरी स्नेहप्रवणहृदया माता एवं सास तथा स्वामी और पुत्र के गौरव से गौरवान्विता महारानी की आदर्श मूर्ति है। किन्तु इनकी अपेक्षा ग्रन्थ के नायक मेघनाद और उसकी पत्नी प्रमीला के चरित्र से ही मधुसूदन राक्षस-परिवार पर पाठकों की

अनुकम्पा का उद्रेक प्रकट कराने में अधिक समर्थ हुए हैं। उनका मेघनाद स्वदेशवत्सल वीर हैं, स्नेहशील भाई हैं, माता-पिता का भक्त पुत्र हैं, निष्ठावान् भक्त हैं और हैं पत्नीगतप्राण निष्कपट प्रेमी। प्रमीला उसके ही अनुरूप पत्नी है। वह वीरत्व में भैरवी है; किन्तु कोमलता में आदर्श कुलबधू। मृदुल लता की तरह स्वामी का अवलम्बन करके ही वह जीती है। किन्तु समय पड़ने पर स्वामी की उपयुक्त सहधर्मिणी होने का प्रमाण भी वह देती है। मेघनाद-वध लिखते समय मधुसूदन ध्यान पूर्वक टैसो काव्य का अध्ययन करते थे। सम्भवतः प्रमीला-चरित को कल्पना करने के लिए वे उसीसे प्रेरित हुए थे। हम देखते हैं, पहले अङ्क में प्रमीला वन-देवी की तरह पति के साथ प्रमोदोद्यान में क्रीड़ा करती है। उसका वह चित्र सौन्दर्य में अतुलनीय है। टैसो के काव्य के सोलहवें सर्ग से कवि ने उसे ग्रहण किया है। पहले सर्ग में प्रमीला और मेघनाद को प्रमोदोद्यान में देख कर आर्मिडा (Armida) और राइनाल्डो (Rinaldo) की याद आती है। आर्मिडा की प्रमोदपुरी की तरह प्रमीला को पुरी भी माया-निर्मित जान पड़ती है। महावीर राइनाल्डो जिस तरह आत्मविस्मृत होकर आर्मिडा के साथ उसके उद्यान में वास करता था, वीर वर मेघनाद भी उसी प्रकार इन्द्रिय-सुख-मग्न होकर प्रमीला के विहार-वन में वास करता था, पहले इसी भाव से मधुसूदन दूसरे अङ्क की रचना करना चाहते थे। किन्तु उससे प्रमीला के चरित्र के उत्कर्ष की हानि होगी, यह सोच कर उन्होंने वह विचार छोड़ दिया।

टैसो के काव्य से मधुसूदन प्रमीलाचरित-निर्माण करने के लिए प्रणोदित हुए थे; तथापि उसकी गठन-प्रणाली उनकी बिल्कुल निज की है। इसी कारण प्रमीला उनकी कल्पना का मौलिक चित्र है। प्रथम

सर्ग में प्रमोला अश्रुपूर्णलोचना और पति को विदा देने में अनिच्छा रखने वाली है। उसके चरित्र के इस अंश में कोई नूतनता नहीं। कोमला कुलबधू के लिए जो स्वाभाविक बात है उसीको कवि ने दिखाया है। किन्तु कुलबधूसुलभ कोमलता के साथ वीराङ्गना के शौर्य का सम्मिलन ही प्रमोला के चरित्र का नयापन है। तृतीय सर्ग में कवि ने उसी का प्रतिपादन किया है। मेघनाद विषादिनी पत्नी से शीघ्र लौट आने को कह कर गया था। किन्तु घटना-क्रम से वह शीघ्र न लौट सका। उसके आने में विलम्ब होता देख कर पतिप्राणा पत्नी के प्राण व्याकुल होने लगे। जिस युद्ध में प्रमोला के सहस्र सहस्र आत्मीय मारे जा चुके हैं, उसी कारण मे उसका स्वामी गया है। उसके लौटने में देर होती देख कर वह कैसे स्थिर रह सकती है? हेमचन्द्र ने ठीक कहा है—

“जिसका पति योद्धा होता है

उसका हृदय धैर्य खोता है;

कह सकता है कौन कि कितना वह सदैव रोता है।

इसे जानते हैं कितने जन,

और सोचते हैं कितने मन,

कि इस विश्व मे वीर-उर-त्रधू होना कैसा होता है ?”

अश्रुसिकाप्रमोला—

“जाती कभी मन्दिर के भीतर है सुन्दरी.

भाती फिर बाहर है व्याकुल वियोगिनी;

होती कातरा है ज्यो कपोती शून्य नीड़ में !

चढ़ कर उच्च गृह-चूड़ा पर चञ्चला

दूर लङ्का ओर कभी एक दृष्टि लाती है

अविरल अश्रु-जल भञ्जल से पोंछ के।”

इसी दशा में दिन बीत जाता है और कालभुजङ्गिनी-सी रात उसे डसने के लिए आती है। सखिया के समझाने से उसे सान्त्वना नहीं मिलती। उपवन के फूलों पर ओस की बूँदा की तरह उसके अश्रु-शोभा पाते हैं। भावी विपत्ति की छाया प्रगाढ़ रूप में उसके हृदय पर पड़ रही है। सूर्यमुखी के सामने जाकर वह निराशा पूर्वक उससे पूछती है—

“देख के मैं रात-दिन इति जिस रवि की
जीती हूँ, छिपा है आज अस्ताचल में वही;
क्या मैं फिर पाऊँगी, उषा के अनुग्रह से
पावेगी सती, तू यथा, प्राणाधार स्वामी को ?”

पति के विषय में विपत्ति की आशङ्का होने पर पृथ्वी में ऐसी कोई विपत्ति नहीं जिससे कि पतिव्रता पत्नी के प्राणों को भय हो। स्वामी की विपत्ति से भीता होकर वह वासन्ती सखी से कहती है—

“चलो सखि, हम सब लङ्कापुर को चले।”

वासन्ती क्या जाने कि स्निग्ध वारि-धारा के साथ कादम्बिनी अपने हृदय में वज्र भी धारण करती है और कलनादिनी निर्मरणी गिरिशृङ्ग को भी उत्पाटित करके ले जाती है। इसी लिए वह विस्मय पूर्वक कहती है—लङ्का में हमें घुसने कौन देगा ? अलंघ्य जलराशि-सी राघव की सेना उसे चारों ओर घेरे हुए है।

वासन्ती की बात सुन कर तेजस्विनी प्रमीला कहती है—

“क्या कहा सहेली, जब गिरि-गृह छोड़ के
सरिता सबेग जाती सागर की ओर है
शक्ति किसकी है तब रोके गति उसकी ?
मैं हूँ दैत्य-बाला और रघुःकुल की बधू

रावण ससुर मेरे, मेघनाद स्वामी है;
 डरती हूँ क्या मैं सखि, राघव भित्तारी को ?
 लङ्का में प्रविष्ट हूँगा, आज भुज-ब्रह्म से,
 कैसे नर-रत्न मुझे रोकते है, देखूँगी ।”

प्रमीला का जो उद्यान वेणु और वीणादि के ऋक्षारों से मुखरित रहता था वह मुहूर्त ही मात्र में समर-मोलाहल से परिपूर्ण हो गया ! प्रमीला की सङ्गिनी दैत्य बालाएँ वीर-वेश से सज्जित होकर घोड़ों पर सवार हो गईं । प्रमीला का कोमल शरीर भी कठिन वीर-वेश से सुशोभित होने लगा । पीठ पर बाण-पूर्ण तूण, उरु देश में खर-शाण लङ्ग और हाथ में तीक्ष्ण त्रिशूल धारण करके वह घोड़े पर सवार हुईं । अमरमात शत वज्रावात की भीति शत शरासन-टङ्कार और शत शङ्ख-ध्वनि से लङ्का का पश्चिम-द्वार काँप उठा । और वी बात ही क्या, महावीर हनुमान भी प्रमीला की वीर सजा देखकर स्तम्भित हो गये । वे उग्र भाव छोड़कर प्रमीला की दूती को रामचन्द्र के समीप ले गये । दूती ने उनसे युद्ध करने या लङ्का का मार्ग छोड़ देने के लिए कहा । रघुवंशियों के लिए पतिदर्शनोत्सुका पतिव्रता के साथ युद्ध करना क्या सम्भव है ? रामचन्द्र ने हनुमान को शिष्टाचार पूर्वक मार्ग छोड़ देने की आज्ञा दी । साध्वी की मनस्कामना सिद्ध हो गईं । तेज की प्रभा से चारों ओर उजेला और युद्ध के बाजों के नाद से रात्रि की निस्तब्धता भङ्ग करती हुई अन्यों सखियों की सेना के साथ प्रमीला ने लङ्का में प्रवेश किया । रामचन्द्र की सेना चित्र में लिखी-सी होकर विस्मय पूर्वक वह दृश्य देखती ही रह गईं । स्वयं रामचन्द्र के मन में आया कि यह स्वप्न है अथवा इन्द्रजाल ? लक्ष्मण की सहायता के लिए माया देवी आने वाली थी, क्या यह उन्हीं की माया है ? कैलास-धाम में

भगवती आश्चर्य के साथ प्रमीला की वीरता देखने लगीं। लङ्कावासी वह अद्भुत दृश्य देखने के लिए चारों ओर से दौड़ कर आने लगे। सबने उसका जयजयकार किया।

“प्रेमानन्द पूर्ण प्रिय-मन्दिर में सुन्दरी
दैत्यनन्दिनी यों हुई प्राप्त कुछ देर में,
खोया हुआ रत्न पा के मारों बची फणिनी।”

प्रमीला का लङ्का-प्रवेश मेघनाद-वध का एक बहुत ही उत्कृष्ट अंश है। सूक्ष्मभाव से प्रत्यालोचना करने पर इसमें कोई कोई त्रुटि लक्षित होगी। वीर रस के साथ उसके “व्यभिचारी” शृङ्गार रस का सम्मिलन कर देने से स्थान स्थान पर इसके सौन्दर्य की हानि हुई है। किन्तु ऐसा होने पर भी यह अतुलनीय है।

प्रमीला-चरित ही मेघनाद-वध में एक नूतन और मधुसूदन के कल्पना-कानन का सर्वोत्तम पुष्प है। जो देश शताब्दियों से पराधीनता से पीस रहा है उसके किसी कवि की कल्पना से प्रमीला के समान वीराङ्गना का उद्भव होना अत्यन्त आश्चर्य की बात है। सप्तराज में कितने ही कवियों की कल्पना वीर रमणी की महिमा वर्णन करने के लिए उद्दीपित हुई है; किन्तु अन्य किसी कवि ने ऐसा अपूर्व चित्र नहीं बना पाया। वज्रिल की कैमिला (Cdmilla) ट्रेसो की क्लोरिन्डा (Clorinda) गिल्डिप (Guildippe) और एरमिनिया (Erminia) एवं वाइरन की मेड ऑफ सारागोसा (Maid of Saragosa) ये सब प्रमीला से स्वतन्त्र हैं। कुलबधू की कोमलता ने, पतिप्राणा के आत्म-विसर्जन ने और वीराङ्गना के वीरत्व ने एक सङ्ग मिलकर प्रमीला के चरित्र को साहित्य-संसार में अतुलनीय बना दिया है। हनुमान से प्रमीला की बातचीत सुनकर जान पड़ता है, सौन्दर्य और ज्योति के

सम्मिलन से उद्भूत हुई बिजला के साथ उसकी तुलना की जानी चाहिए, और किसी चीज़ से नहीं। अन्य देशों में यह चित्र उद्भवनीय नहीं। प्रमीला की कोमलता, पतिपरायणता और वीरता अलग अलग पाई जा सकती है; किन्तु इकट्ठे रूप में ये सब बातें भारत-रमणी को छोड़ अन्यत्र नहीं मिल सकतीं। पद्मिनी और दुर्गावती का क्षेत्र भारत ही प्रमीला के उत्पन्न होने के लिए उपयुक्त हो सकता है। जिस प्रमीला ने राघव की सेना को व्रत करके लङ्का में प्रवेश किया था वही सास के भय से तटस्थ होकर स्वामी से कहती है—

“हाथ नाथ, * * * सोचा था कि आज मैं
जाऊँगी तुम्हारे सङ्ग पुण्य यज्ञशाला में,
तुमको सजाऊँगी वहाँ मैं शूर-सजा से;
क्या करूँ परन्तु निज मन्दिर में वन्दिनी
करके रक्खा है मुझे सास ने यों। फिर भी
रह न सकी मैं बिना देखे पद युग्म ये।”

इसीलिए कहना पड़ता है कि वीराङ्गना के शौर्य के साथ कुलबधू की ऐसी कोमलता अन्य देश में अलभ्य है। वोडिसिया और जोन ऑफ आर्क के देश में कैमिला और क्लोरिडा ही आदर्श हैं। पद्मिनी और दुर्गावती के देश में प्रमीला ही आदर्श हो सकती है।

पाश्चात्य कवियों के काव्यों से मधुसूदन को प्रमीला-चरित चित्रित करने की प्रेरणा हुई है; किन्तु उसका आदर्श कल्पित करने में उन्हें अपने देश के कवियों से ही सहायता मिल सकती थी। प्रमीला नाम भी उन्होंने वङ्गीय कवि काशीरामदास कृत महाभारत के अश्वमेध पर्व से लिया है। काशीरामदास की प्रमीला ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। उसके साथ हज़ारों स्त्रियों की सेना थी। रामचन्द्र के

वाक्यों से मेघनाद-वध की प्रमीला की तरह अर्जुन के वाक्यों से महा-भारत की प्रमीला भी युद्ध से विरत हुई थी। उसने अर्जुन को अपना परिचय देते हुए कहा था—मुझे कोई नहीं जीत सकता। देवता भी मेरे भय से काँपते हैं। पार्वती के वरदान से मैं किसी को नहीं डरती। शस्त्र धारण करके कोई मेरी पुरी में नहीं आ सकता।

इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि काशीरामदास की प्रमीला ही मेघनाद-वध की प्रमीला की मूल आदर्श-प्रतिमा है। मेघनाद-वध में मधुसूदन ने इस बात का सङ्केत भी कर दिया है—

“जैसे नारि-देश में परन्तप महाबली
यज्ञ के तुरङ्ग सङ्ग पार्थ जब आये थे
देवदत्त शङ्ख का निनाद तब सुनके
ऋद्ध होके वीर वनिताएँ रण-रङ्ग से
सज्जित हुई थीं, सजी वैसे ही यहाँ भी वे।”

प्रमीला-चरित के विषय में काशीरामदास की तरह अपने बाल्य-बन्धु, पद्मिनी उपाख्यान के लेखक, बाबू रङ्गलाल वन्द्योपाध्याय के निकट भी मधुसूदन ऋणी है। पद्मिनी के चरित से उन्हें प्रमीला का चरित-चित्रण करने में यथेष्ट सहायता मिली है। किन्तु उन्होंने उस चित्र को और भी मनोहारी बना दिया है।

देश, काल और अवस्था ने भी उनके प्रमीला-चरित का विकास करने में यथेष्ट सहायता दी है। मेघनाद-वध की रचना के थोड़े ही दिन पहले सिपाही-विद्रोह की अभिनेत्री झाँसी की लक्ष्मीबाई के वीरत्व ने भारत-सन्तानों को चमत्कृत कर दिया था। जिस समय मधुसूदन के हृदय में प्रमीला के चरित की छाया पड़ रही थी उस समय लक्ष्मीबाई का चरित भी हम लोगों की आलोचना का विषय हो रहा था।

सारांश, मधुसूदन ने देवशिल्पी विश्वकर्मा की तरह अपने काव्य की नायिका की प्रतिमा देसी और विदेशी कवियों की कल्पना का तिल तिल अंश लेकर बनाई है। जिस प्रकार तिलोत्तमा सुराङ्गनाओं में अभ्रगण्वा हुई थी, उसी प्रकार प्रमीला शूराङ्गनाओं में शिरोमणि है।

प्रमीला का लङ्का-प्रवेश इस प्रकार आढम्बर और विस्तार के साथ वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी, इस विषय में कुछ कहना आवश्यक है। कहा जा सकता है कि प्रमीला के लङ्का-प्रवेश से और इस काव्य के मूल उपाख्यान से क्या सम्बन्ध ? यह एक शरद का बादल आया और उड़ गया, इसका क्या अर्थ हुआ ? इसे जानने के लिए पाठकों को एक वार नवें सर्ग की ओर दृष्टि डालनी पड़ेगी। वह सागरतीरवर्ती महाश्मशान की चिता, वह फुल्ल किञ्चुक तुल्य रक्ताक्त मेघनाद का शवशरीर, वह विशदवक्रधारी राक्षसराज और वह अभ्रुसिक्त रक्षोवंश बालागण, एक वार स्मरण कीजिए और इसीके साथ उस आलुलायितकुन्तला, पुष्पमाल्याभरणा, अभ्रुपूर्णनयना, दीना विधवा की ओर एक दृष्टि डालिए। क्या यही वह विद्युच्छतारूपिणी प्रमीला है, जिसने एक दिन रघुसैन्य को त्रस्त करके पतिपददर्शनार्थ लङ्का में प्रवेश किया था ? यह अभ्रुमुखी विधवा क्या वही प्रमीला है ? उस मूर्तिमती समर-लक्ष्मी का अन्त में क्या यही परिणाम हुआ ? उसकी समर-सजा, उसकी सङ्गिनी वीर-बालाएँ और उसकी वामीवरी बड़वा इस समय भी मौजूद है। परन्तु हाय ! नियतिचक्र का कैसा भयानक आवर्तन हो गया है। पाठक, तृतीय सर्ग की प्रमीला की वह रण-सजा आपने देखी है, उस भैरवीमूर्ति का दर्शन आपने किया है और सखियों के सामने उसका उत्साहपूर्ण भाषण सुना है। अब एक वार नवम सर्ग की प्रमीला की यह अवस्था भी देखिए। फिर

सोचकर बताइए कि तृतीय सर्ग की प्रमीला का दृश्य शरद के बादल की तरह आपके हृदय से उड़ जाता है या नहीं। मध्याह्न के आकाश की उज्वलता देखे विना सार्यकाल की घन-घटा का रूप कैसे समझ में आ सकता है ? पूर्णिमा के सौन्दर्य का अनुभव किये विना अभावस्था के घने अन्धकार की उपलब्धि कैसे हो सकती है ? मेघनाद-वध के नवम सर्ग का विषादभाव अनुभव करने के लिए तृतीय सर्ग की बड़ी आवश्यकता है। यदि प्रमीला साधारण स्त्री की तरह चित्रित की जाती तो पाठक हृदय का जो भाव लेकर मेघनाद-वध समाप्त करते, तृतीय सर्ग-वर्णिता प्रमीला को देखकर उन्हें तदपेक्षा सौगुने अधिक विषाद के साथ ग्रन्थ पूरा करना पड़ता है। पहले ही कहा जा चुका है कि राजस-परिवार के साथ सहानुभूति का उद्रेक करना मेघनाद-वध का अन्यतम उद्देश था। राजसराज के असंयम रूप दावानल से कितनी कोमल कुलाङ्गनाएँ, कितने सुरभित और सुन्दर सुमन भस्मीभूत हुए थे, कवि ने प्रमीला के धरित से उसी-का एक दृष्टान्त दिया है। संसार में केवल आत्मकृत कार्य के लिए ही मनुष्य दण्ड और पुरस्कार नहीं पाता; सामाजिक जीवन में औरों के किये हुए कार्य के फल भी उसे भोगने पड़ते हैं। लङ्का-युद्ध के लिए रावण ही अपराधी है। किन्तु उसके साथ सम्बन्ध होने के कारण कितने निर्दोष नर-नारियों को दारुण यन्त्रणा भोगनी पड़ी, प्रमीला उसका उदाहरण है। जिस गम्भीर भँवर में लङ्का की नाव पड़ी थी उससे रूप, यौवन, बाहुबल और निर्दोषिता, किसी की भी अभ्यासिता न थी। प्रमीला निरपराधिनी कुल-बधू, गुरुजनो में भक्ति रखने वाली रमणी के श्रेष्ठ धर्म पातिव्रत्य में अग्रगण्या थी और थी भगवती की प्रिय उपासिका। किन्तु उस दावानल से कोई भी उसे न बचा सका !

शौर्य्य मे, कहा जा सकता है कि, वह स्वामी की मृत्यु का बदला भी ले सकती थी; किन्तु नियति ने उसे कुलबधू करके उसके हाथ-पैर ऐसे कठिन बन्धन से बाँध दिये थे कि स्वामी के लिए भी वह एक अँगुली तक न उठा सकती थी। प्रमीला की बड़ी इच्छा थी कि स्वामी के साथ यज्ञागार में जाकर वह उसे युद्ध-सजा से सज्जित करे। वीराङ्गना के लिए ऐसी इच्छा स्वाभाविक है। प्रमीला वहाँ उपस्थित रहती तो सम्भवतः लक्ष्मण मेघनाद को न मार पाते। किन्तु उसकी इच्छा पूर्ण न हुई। उसकी स्नेहमयी सास ने उसे रोक लिया—

“* * * रह मेरे साथ बेटी, तू,
प्राण ये जुड़ाऊँगी निहार यह तेरा मैं—
चन्द्रमुख । * * * ”

सुशीला कुलबधू के लिए सास का अनुरोध कि वा आदेश अमान्य नहीं हो सकता। प्रमीला को वीर्य्यशालिनी अथवा कुलबधू के रूप में चित्रित करने के लिए कवि ने नाना विषयों से उसके चरित्र की मनोहारिता प्रकट करने का सुयोग पाया है। टैसो के काव्य की क्लोरिंडा एवं गिल्डिप की भौति उसे स्वाधीना और रामचन्द्र के साथ युद्धपरायणा करने से कवि कभी वह सुयोग न पाता। ऐसी दशा में तेजस्विता के साथ प्रमीला के चरित्र में कोमलता के सम्मिलन से जो अपूर्व मनोहारिता आ गई है वह कभी न आ सकती। भुवनविजयी ससुर और वासवविजयी पति के रहते हुए शत्रु-संहार करने के लिए प्रमीला का अस्त्र धारण करना सर्वथा लज्जाकर और अस्वाभाविक होता। इसीलिए कवि ने उसे पति-पद-दर्शनोत्सुका वीराङ्गना के रूप में चित्रित किया है, रण-रङ्गिणी के रूप में नहीं।

बहुतों की राय में मेघनाद-वध काव्य में तीसरा सर्ग ही सर्वोत्कृष्ट है। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि मेघनाद-वध का सर्वप्रधान दोष भी इसी सर्ग से आरम्भ होता है। राक्षसों के साथ एकात्मत सहानुभूति के कारण कवि ने इसमें रामचन्द्र के चरित को हीन कर दिया है। दूसरे सर्ग से रामचन्द्र का आविर्भाव होता है। द्वितीय सर्ग के रामचन्द्र विनीत, धर्मानुरागी और देवपरायण हैं। चित्ररथ के साथ बातचीत करने में उनके चरित की कोमलता और मधुरता का स्पष्ट परिचय मिलता है। तीसरे सर्ग में कवि ने उन गुणों के साथ उनमें भीरुता दोष का आरोप किया है। आर्य्यरामायण के रामचन्द्र विनय और कोमलता की मूर्ति होने पर भी भीरु न थे। महापुरुषों के लिए भीरुता की अपेक्षा गुरुतर दोष दूसरा नहीं होता। रोग, शोक, विपत्ति, चाहे जो हो, पर्वत की भाँति अटल निर्भीक भाव धारण करना ही उनका लक्षण होता है। भवभूति ने अपने नाटको में रामचन्द्र के चरित्र का यही प्रधान लक्षण प्रकट करके दिखाया है। परन्तु मधुसूदन ने उन्हें विनयी, धर्मपरायण और उदार स्वभावसम्पन्न करके भी भीरुता के दोष से दूषित कर दिया है। नृसुब्दमालिनी की शरण-प्रार्थना किं वा मार्गमुक्तिकरण की प्रार्थना पर रामचन्द्र ने जो उत्तर दिया है उसका प्रथम अंश बहुत सुन्दर है। वे कहते हैं—

“* * * सुनो तुम हे सुभाषिते,
करता अकारण विवाद नहीं मैं कभी।
मेरा शत्रु रावण है; तुम कुल बालाएँ,
कुलबधुएँ हो; फिर किस अपराध से
वैर-भाव रखूँगा तुम्हारे साथ मैं, कहो ?
लज्जा में प्रविष्ट हो सहर्ष बिना शङ्का के।”

चतुर्थ सर्ग

मध्याह्न के तेजोपरान्त सन्ध्या की सुस्निग्ध झ्रया जैसी तृप्ति-दायिनी होती है, मेघनाद-वध के तीसरे सर्ग के अनन्तर चौथे सर्ग की कथा भी वैसी ही प्रीतिदायिनी है। चिरकाल से जिनका अनुपम चरित हिन्दू नर-नारियों के प्राणों को अमृताभिषिक्त कर रहा है, चौथे सर्ग में उन्हीं देवी अथवा मूर्तिमती पवित्रता के दर्शन हमे पहले पहल होते हैं। महायुद्ध के समय सीता देवी कारागार में बन्द थी। किन्तु उस दशा में भी मधुसूदन ने उनकी शोकमलिन मुखश्री में जिस मधुरता का सन्निवेश किया है, वह भूलने की चीज़ नहीं। चतुर्थ सर्ग में हम लङ्कापुरी को आनन्द में मग्न पाते हैं। जिसके पराक्रम से इन्द्र भी डरता है उसी मेघनाद को राक्षसराज ने फिर सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया है; फिर आशामुग्ध लङ्कावासी क्यों न आनन्द में निमग्न हो ? कवि ने अपने स्वाभाविक नैपुण्य से आनन्दोत्सव-पूर्ण लङ्कापुरी का चित्र खींचा है। उस आनन्दमयी पुरी के केवल एक उपवन में उत्सव न था। शोक की घनी झ्रया ने मानों रात के अँधेरे को दुगना करके उसे आवृत कर रक्खा था। उस स्थान में मानों सभी निस्तब्ध थे। पक्षियों के कण्ठ में भी मानों शब्द न था। घन निविड़ पत्र-पुञ्ज को भेद कर चन्द्रमा की किरणें भी वहाँ पहुँचने में असमर्थ थीं। किन्तु जैसे अन्धकारमय वन में एक मात्र फूल प्रस्फुटित होकर उसे सुशोभित करता है वैसे ही उस आलोक-शून्य उद्यान में एक स्निग्धोज्वल देवी-मूर्ति चारों ओर उजेला करके विराजमान थी। राशि राशि कुसुम वृन्तच्युत होकर उसके चारों ओर गिर रहे थे, पवन उसके दुःख से दुःखित होकर बीच बीच में उच्छ्वसित हो उठता था और दूरस्थिता प्रवाहिणी उसकी दुःख-कथा वीचि-रव से कहती हुई समुद्र की ओर

दौड़ी जा रही थी । देवी का मुख मलिन था । अँसुओं की धारा चुपचाप उसके कपोलद्वय भिंगो रही थी । किन्तु उसी मुख-मण्डल से एक ऐसी अपूर्व ज्योति निकल कर उस स्थान को समुज्वल कर रही थी कि वह कहने में नहीं आती ।

उस वन की यह अधिष्ठात्री देवी कौन थी, क्या इसके कहने की आवश्यकता है ? दुरन्त चेरी-वृन्द अशोक वनस्थिता सीता-देवी को छोड़कर मेघनाद का अभिषेकोत्सव देखने अन्यत्र चला गया था, तो भी सीता देवी अकेली न थीं । उस शत्रुपुरी में भी उनकी दुःख-भागिनी एक सङ्गिनी भी थी । विभीषण की पत्नी सरमा उन्हें सान्त्वना देने के लिए बीच बीच में उनके पास आ जाती थी । वह उनके ललाट में सिन्दूर की बिन्दी लगा देती थी और उनके मुख से उनकी अतीत-कथा सुन कर परितुल्य हुआ करती थी ।

रामायण में भी सीता और सरमा का कथोपकथन पाया जाता है किन्तु छाया और शरीर में जो अन्तर है वही उसमें और इसमें कहने से भी अत्युक्ति न होगी । मेघनाद-वध का सीता-सरमा-संवाद सम्पूर्ण मौलिक है । जिस वृत्तान्त की छाया लेकर भवभूति ने अपने अमर ग्रन्थ के सर्वोत्तम अंश की रचना की है, मेघनाद-वध के सीता-सरमा-संवाद में उसी का वर्णन है । उत्तर रामचरित के सिवा रामचन्द्र के दण्डकारण्य-वास का ऐसा गार्हस्थ्यचित्र अन्यत्र देखने को नहीं मिलता । सरमा के अनुरोध से सीता देवी उसे अपने सुख-दुःख-पूर्ण पूर्व-जीवन का हाल सुनाती हैं । कहते कहते उनका हृदय अधीर हो जाता है । किन्तु वर्षा-जल-पूर्ण नदी जैसे दोनों किनारों को प्लावित करके शान्ति लाभ करती है, समदुःखभागिनी से अपने अतीत की कथा वर्णन करके वे भी शान्ति प्राप्त करती हैं । हाय ! जैसे वृक्ष-शाखा पर नीड़ बना

कर कपोत-कपोती सुख पूर्वक रहते हैं, वैसे ही रामचन्द्र के साथ सीता देवी भी पञ्चवटी में वास करती थीं। राज-कन्या और राज-बधू होने पर भी वे दण्डक वन में राजप्रासाद की अपेक्षा अधिक सुख पाती थीं। अरण्य प्रदेश को राज्य और अरण्यचारी जीवों को प्रजा रूप में प्राप्त करके वे परितृप्त थीं। वनदेवी की भाँति उनके दिन आनन्द में बीत रहे थे। दण्डक जिसका भाण्डार है उसे अभाव किस दात का ? वन-रत्न-पुष्प-समूह उनकी कुटी के चारों ओर खिले रहते थे। वन-वैतालिक पिकवर प्राभातिक गान से नित्य उन्हें जगाते थे और वन-नर्तक मयूर उनके द्वार पर नित्य आनन्द-नृत्य करते थे। वे अपने हाथों से कितने वन-विहङ्गों को आहार प्रदान करती थीं। कितने मृगशावकों का प्रतिपालन करती थीं। राजगृह के विलासों में अभ्यस्ता राज-बधू सरला वन-बाला के समान अकृत्रिम वन्य विभूषणों से विभूषित होकर क्या ही आनन्द पाती थीं। सरसी उनकी आरसी और कुवल शिरोभूषण न हो रहे थे। जिस समय वे वन के कुसुमों से सजती थीं, रामचन्द्र आदर पूर्वक उन्हें वनदेवी कहा करते थे। ये सब बातें क्या भूलने की हैं ? वे कभी छाया को सखीभाव से सम्बोधन, कभी कोकिल के गान की प्रतिध्वनि और मृगियों के साथ खेला करती थीं। उनके पाले हुए लता और वृक्ष जब मञ्जरित होते थे तब उनका आनन्दोत्सव होता था। अरण्यचारिणी होने पर भी लता-वृक्षों का विवाह करके वे गार्हस्थ्य सुख का अनुभव किया करती थीं। कुसुमित वन-भूमि में, जोत्सनाधौत नदी किनारे और सहकारच्छायाशीतल पर्वत-शिखर पर रामचन्द्र के साथ घूमने में उन्हें कितना आनन्द आता था ! कैलासपुरी में महादेव की बाईं ओर बैठी हुई पार्वती के समान रामचन्द्र के मुख से वे कितनी मञ्जुर कथाएँ सुना करती थीं। वह अमृतमयी वाणी शशुपुरी के अशोकवन

मे भो मानो उनके कानो मे गूँज रही है। निष्ठुर विधाताः, सीता क्या वह सङ्गीत फिर न सुन सकेगी ?

किन्तु विधाता ने सुख-भोग करने के लिए उन्हें नहीं सिरजा। उनके सुग-चन्द्रमा के लिए राहुच्छायारूपिणी शूर्पणखा ने दण्डक वन मे आकर उनका सर्वनाश किया। राजकन्या और राज-बधू होने पर भी उन्हे वनवास देकर ही विधाता को मानो सन्तोष नहीं हुआ। बुरी घडी में उन्होने स्वामी से माथामृग माँगा। बुरी घड़ी मे मारीच का आर्तनाद सुनकर उन्होने लक्ष्मण को तिरस्कार पूर्वक वहाँ भेजा। रावण ने गुयोग समझकर उनका हरण कर लिया। वे बहुत रोई-चिछाईं परन्तु कोई रचा न कर सका। केवल जटायु ने उनके लिए प्राणदान करके अपना वीर-जन्म सार्थक किया। राक्षसराज का विमान उन्हें लेकर लङ्का की ओर क्रो चला। देखते देखते नीलजलधि उनके सामने आ गया। राक्षसराज ने उन्हें लाकर अशोक वन में बन्दिनी कर रक्खा।

हाय ! राजकन्या और राजबधू होकर उनके समान दुःख किसने भोगा है ? दैव, क्या उनके कारागार का द्वार कभी न खुलेगा ?

सीता और सरसा के संवादरूप मे कवि ने इसी प्रकार रामायण की कितनी ही घटनाओ का संक्षेप में वर्णन किया है। जटायु के साथ राक्षसराज के युद्ध के समय भूर्च्छिता सीता देवी के स्वप्नदर्शन मे भावी घटनाओ का बड़ी सुन्दरता और कुशलता से आभास दिया गया है। धार्मिक जटायु जब रावण को वज्रगम्भीर स्वर से ललकारता है तब उसे पढकर रोमाञ्च हो आता है एव शैल-वृष्ट पर कालमेघ के समान जटायु की भीमभूति मानों सामने आ जाती है। मेघनाद-वध का प्रफू

देखते देखते मधुसूदन ने अपने मित्र राजनारायण से कहा था—
 “राजनारायण, क्या मेघनाद-वध हमें अमर न कर देगा ?” मधुसूदन
 की वह आशा निष्फल नहीं हुई । मेघनाद-वध ने निस्सन्देह उन्हें
 अमर कर दिया ।

केवल वर्णना के माधुर्य्य और गाम्भीर्य्य के लिए ही सरमा
 और सीता का संवाद प्रशंसनीय नहीं । उसके साथ साथ सीता-चरित
 के उत्कर्ष-साधन के लिए ही इसकी अधिक प्रशंसा है । महर्षि वाल्मीकि
 ने सीता का जो चरित-चित्रण किया है उसे सर्वाङ्ग पूर्ण कह सकते हैं ।
 किन्तु उनके सीता-चरित्र में भी एक त्रुटि दिखाई देती है, उसे मेघनाद-
 वध के सीता-चरित में मधुसूदन ने दूर करने की चेष्टा की है । मारीच
 का आर्तनाद सुन कर लक्ष्मण के प्रति सीता का जो अनुयोग रामायण
 में वर्णित है, उसे पढ़कर हृदय व्यथित होने लगता है । जो भाई के
 प्रेम के कारण राज-सुख-भोग और पतिप्राणा पत्नी को छोड़ने में भी कुण्ठित
 नहीं हुए और उनके पीछे पीछे घोर वन में चले आये, जिनकी इष्टि
 आतृजाया के चरण-नूपुरों से ऊपर की ओर कभी नहीं गई, उन पवित्र-
 जीवन ब्रह्मचारी लक्ष्मण के विषय में क्या ऐसा विचार करना सीतादेवी
 के लिए कभी उचित कहा जा सकता है कि वे पाप-कामना करके
 उनके अनुगामी हुए हैं—

“सुदुष्टस्त्वं वने राम मेक मेकोनु गच्छसि ।

मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरते न वा ॥”

वाल्मीकि ।

लक्ष्मण के समान देवर क्या भाभी के समीप इस प्रकार की आ-
 शङ्का का कारण हो सकता है ? सीता के लिए उस दशा में लक्ष्मण का
 तिरस्कार करना अस्वाभाविक नहीं । किन्तु बहुत दिनों का विश्वास

एक दिन के व्यवहार से अकस्मात् इस प्रकार सन्देह में बदल जाय, यह बात स्वाभाविक नहीं कही जा सकती। जो लोग कहते हैं कि देवकार्य-सम्पादन करने के लिए सरस्वती से प्रेरित हो कर ही सीता देवी ने लक्ष्मण से ऐसी बातें कही थीं, उनसे हमें कुछ नहीं कहना है। मेघनाद-वध के राम और सीता को मानव और मानवी भाव में देखकर उनकी प्रकृति के विषय में जो कुछ कहना युक्तिसङ्गत जान पड़ता है, वही कहा गया है। मधुसूदन ने सीता के मुँह से ऐसी अनुचित कोई बात नहीं कहालाई। उनकी भर्त्सना कठोर होने पर भी सीता की उच्च प्रकृति के अयोग्य नहीं होने पाई। सीता-चरित के सम्बन्ध में केवल शिष्टता और सुशुचि के लिए ही मधुसूदन की प्रशंसा नहीं है। शाण पर चढ़ कर जिस प्रकार मणि और भी उज्वल हो जाती है, उसी प्रकार मधुसूदन के हाथ से सीता का चरित और भी उज्वल हो गया है। मेघनाद-वध में केवल दो बार हमें सीता देवी के दर्शन होते हैं। पहली बार मेघनाद के अभिषेक और दूसरी बार उसकी मृत्यु के बाद। पहली बार की अपेक्षा दूसरी बार का चित्र और भी उज्वलतर है। पहली बार सरमा उनके शरीर को आभरण-हीन देख कर आभरण छीन लेने के लिए जब रावण की निन्दा करती है तब सीता देवी सरमा से कहती है—

“कोसती हो व्यर्थ तुम लङ्कापति को सती,
आभूषण आप ही उतार मैं ने फेंके थे
जब था वनाश्रम में पापो ने हरा मुझे।”

आततायी शत्रु को भी व्यर्थ निन्दा से बचाने की यह चेष्टा सीता देवी के चरित्र के योग्य ही है। दूसरी बार सरमा ने आकर उन्हें मेघनाद की मृत्यु और प्रमीला के सती होने का समाचार सुनाया। दैव के अनुग्रह से अपने कारागार के द्वार खुलने का उपक्रम देख कर उन्होंने—

ने उसे धन्यवाद भी दिया; किन्तु साथ ही साथ राक्षस-परिवार की दुर्दशा देख कर उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे स्वयं निरपराधिनी है। फिर भी विधाता ने उन्हें राक्षस-वंश की काल रात्रि स्वरूपिणी क्यों किया ? उन्हीं के पीछे मेघनाद और निरपराधा प्रमीला चितानल में जलते हैं, यह देख कर उनका मन अधीर हो उठा। वे सजलनेत्रों से सरमा से कहती है—

“कुक्षण मे जन्म हुआ मेरा सखि सरमे,
सुख का प्रदीप मैं बुझाती हूँ सदैव ही
जाती जिस गेह में हूँ हाय ! मैं अमङ्गला !
मेरे दग्ध भाल में लिखा है यही विधि ने
* * * सखी, यहाँ
देखो, मरा इन्द्रजित दोष से अभागी के
और मरे रक्षोरथी कौन जाने कितने ?
मरती है आज दैत्यबाला, विश्व मे है जो
अद्वितीया तेजस्विनी, अद्वितीया सुन्दरी;
हायरे, वसन्तारम्भ में ही यह कलिका
खिलती हुई ही सखि, शुष्क हुई सहसा !”

अत्याचारी राक्षस-कुल पर इस प्रकार की अनुकम्पा आर्य्य रामायण की सीता देवी के स्वभाव में नहीं देखी जाती। यह मधुसूदन की ही कल्पना है। मेघनाद-वध की सीता और सरमा का सम्वाद साधारण पाठकों के निकट प्रायः उपेक्षित रहता है; किन्तु मेघनाद-वध की रचना का यह एक उत्कृष्ट अंश है। जिस देवी के चरित से अङ्कित होने के कारण ही रामायण का इतना गौरव है, मेघनाद-वध में उसकी कथा न रहने से वह अङ्गहीन रहता। मधुसूदन के लिए सीता देवी के सम्बन्ध

में इससे अधिक कहना सम्भव न था। सीता देवी उस समय कारागार में बन्द थीं। किन्तु उस अवस्था में भी मधुसूदन ने उनकी प्रकृति में गुणों का जितना समावेश किया है वह बहुत ही सुन्दर है। मेघनाद-वध के राम और लक्ष्मण के चरित्रों का अच्छा चित्रण उनसे न हो सका, परन्तु उनके सीता-चरित ने उनके काव्य का गौरव रख लिया है। जो कहते हैं कि प्रकृत गौरव का अनुभव करने में अक्षम होने के कारण ही मधुसूदन ने राम-लक्ष्मण को ऐसे रूप में चित्रित किया है, उनका कहना सब सच नहीं। यदि ऐसा होता तो हम लोग मेघनाद-वध में सीता देवी को और वीराङ्गना मे रुक्मिणी देवी को उस रूप में न देख सकते जिसमें वे दिखाई गई हैं।

पञ्चम सर्ग

मेघनाद-वध के पाँचवें सर्ग में पृथ्वी और स्वर्ग, दोनों स्थानों के दृश्य दिखाई देते हैं। माया देवी के कौशल से लक्ष्मण ने स्वप्न देखा कि उनकी माँ सुमित्रा देवी उन्हें लङ्का के उत्तर की ओर वाले वन में जाकर लङ्का की अधिष्ठात्री महामाया की पूजा करने का आदेश दे रही है। देवानुग्रह-लाभ करने में अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है, यह विश्वास सभी समाजों में बद्धमूल है। मधुसूदन ने इसी विश्वास के कारण देवी-पूजा को जाते हुए लक्ष्मण को अनेक प्रलोभनों और विभीषिकाओं में डाला है। पहले ही उन्हें महादेव का सामना करना पडा है। मेघनाद-वध में गम्भीर भावोद्दीपक जितने दृश्य हैं उनमें से यह अन्यतम है। लक्ष्मण के वीरोचित भाव देख कर महादेव ने उनका मार्ग झोड़ दिया। इसके अनन्तर उन्हें डराने के लिए कभी मायामय सिंह का और कभी दावानल का आविर्भाव किया गया है। किन्तु वे

निर्भीक वीर विचलित नहीं हुए । अकस्मात् कुञ्जवन-विहारिणी देवाङ्गनाओं की कण्ठ-ध्वनि उन्हें सुन पड़ी और भूपतित तारकाओं के समान वे ज्योतिर्मयी जल-क्रीड़ा करती हुई दिखाई दीं । उन्होंने चारों ओर से आकर लक्ष्मण को घेर लिया । इस अंश को पढ़ कर टैसो के जेरुजालम-उद्धार का पन्द्रहवाँ सर्ग याद आता है । वीर वर राइनाल्डो को खोजने के लिए गये हुए दूतों को जल-क्रीड़ा-परायणा अप्सराओं ने जो कुछ कहा था, उसी के आदर्श पर मधुसूदन ने लक्ष्मण के प्रति कहलाया है—

“* * * स्वागत है रघुकुलरत्न का,

* * * * *

अमरी हैं देव, हम; सब मिल तुमको
वरती है, चल के हमारे साथ नाथ हे !
हमको कृतार्थ करो और क्या कहें भला ?
युग युग मानव कठोर तप करके
पाते सुख-भोग है जो, देंगी वही तुमको
गुणमणि, रोग, शोक आदि कीट जितने
काटते हैं जीवन-कुसुम को जगत में,
घुस नहीं सकते हैं वे हमारे देश में
रहती जहाँ है चिरकाल हम हर्ष से ।”

किन्तु वीर ब्रह्मचारी के मातृ सम्बोधन से लज्जित होकर वे क्षण मात्र में अदृश्य हो गईं । इसी प्रकार सारे विघ्नों को अतिक्रम करके महावीर लक्ष्मण ने यथा विधि देवी की पूजा की । उनकी कामना सफल हुई । कठोर साधना से प्रसन्न होकर महामाया ने आकाशवाणी द्वारा उन्हें यथेष्ट वरप्रदान किया । पत्नियों ने प्रभातिक सङ्गीत के मिस से इस आनन्द की सर्वत्र घोषणा की ।

वीर वर मेघनाद साध्वी प्रमीला के साथ जहाँ फूल-शय्या पर सो रहा था, उस स्थान पर भी पवित्रियों का यह आनन्दगीत गूँझने लगा। वे दोनों भी जाग पड़े। उनकी निद्रामङ्ग-वर्णना बहुत मनोहारीणी हैं। पाराडाइज़ लास्ट के पाँचवें सर्ग में आदम और इव के निद्रा-मङ्ग को आदर्श मान कर कवि ने इसे लिखा है। किन्तु रचना-सौन्दर्य के कारण यह मौलिक जान पड़ती है। पाश्चात्य कवियों का आदर्श अपने देशवासियों के सामने उपस्थित करने के लिए ही मधुसूदन विदेशीय भावों का इस प्रकार अनुकरण किं वा स्वाङ्गीकरण (assimilation) करते थे। भाषापहरण करना उनका उद्देश्य न था। उनको इस अनुकरण-दृष्टता के सम्बन्ध में बाबू राजनारायण बसु और महाराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर ने ठीक कहा है—

“Whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape.”

लेखक के रासायनिक मस्तिष्क से जो ऊड़ भी निर्गत होता है वह मौलिक रूप धारण कर लेता है।

वास्तव में गृहीत विषयों को उन्होंने ऐसा नया आकार दिया है कि वे सब उनकी निज की सृष्टि जान पड़ते हैं। मधुसूदन ने जिन जिन स्थानों पर दूसरे काव्यों से भाव ग्रहण किये हैं, उनका हमने उल्लेख किया है। यदि किसी को दूसरे के भावापहारक समझकर उन पर अप्रसन्न हो तो मेघनाद-वच-के उन स्थलों को मूल काव्यों से मिलाकर देख लेना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें ज्ञात हो जायगा कि अनेक स्थलों पर कितने अस्पष्ट आदर्शों से मधुसूदन की कल्पना ने कैसे सुन्दर चित्र अंकित किये हैं।

सुसोत्थित मेघनाद युद्ध में जाने के पूर्व जननी से विदा और आज्ञा लेने प्रमीला के साथ गया। पुत्रवत्सला माता एवं पतिप्राणा

पत्नी से मेघनाद का विदा माँगने वाला दृश्य बहुत सुन्दर है। पहले ही कहा जा चुका है कि रामायण में राक्षसपरिवार के कोमल भाव सम्पन्न अंश का उल्लेख नहीं, मधुसूदन ने ही उसे अपने काव्य में प्रकट किया है। पुत्र की कल्याण-कामना से जननी का आहार-निद्रा छोड़ कर शिवाराधन करना, मातृभक्त पुत्र का उससे विदा माँगने के लिए पत्नी-सहित आना और प्रगाढ़ स्नेहशील दम्पति का परस्पर गद्गद भाव से विदा होना, राक्षसोचित भाव नहीं, मानवहृदय की कोमलता इसमें भरी हुई है। प्रमीला के प्रति मन्दोदरी का व्यवहार एवं मेघनाद और प्रमीला का परस्पर विदा होना इस काव्य में सर्वापेक्षा मधुर गार्हस्थ्य भावों से परिपूर्ण है। पहले प्रमीला के चरित की आलोचना करते समय इसके तत्कालीन भावों की चर्चा की जा चुकी है। यह विदा अन्तिम विदा है, इसे मेघनाद और प्रमीला कोई नहीं जानता था। प्रमीला ने उस समय पति के कल्याण के लिए भगवती से प्रार्थना की—

“रक्षा करो रत्नोवर की माँ, इस युद्ध में
 आवृत अभेद्य वर्म-तुल्य करो वीर को।
 आश्रिता तुम्हारी यह लतिका है हे सती,
 जीवन है इसका माँ. इस तरुण में,
 जिसमें कुठार इसे छू न सके, देखना।”

साध्वी का अपना कुछ नहीं, स्वामी के गौरव से ही वह गौरवान्विता है और उसी के तेज से तेजस्विनी। मेघनाद से उसने कहा था—

“सुनती हूँ, चन्द्रकला उज्वला है रवि का
 तेज पाके, वैसे ही निशाचर रवे, सुनो,
 दीखता अँधेरा है तुम्हारे बिना दासो को।”

इन बातों से मधुसूदन ने साध्वीचरित के आत्मविसर्जन का जो सुन्दर परिचय प्रदान किया है, उसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती।

दूसरे सर्ग की आलोचना करते समय कहा जा चुका है कि देव और मानवीय भावों का एकत्र समावेश करने में वर्जिल, टैसो और मिडलन प्रभृति कवियों ने जो भूल की है मधुसूदन भी उसी क्रम में पड़ गये हैं। प्रमीला की प्रार्थना से देवराज को डरा हुआ देख कर मधुसूदन ने उसे वायु के द्वारा विपरीत दशा में उड़ा दिया है। प्रार्थना स्थूल, इन्द्रियग्राह्य सामग्री नहीं, इसका उन्होंने विचार नहीं किया। करते भी तो क्या होता। सत्य-रक्षा करने में पुराणों की रक्षा न थी और पुराणों की रक्षा करने में सत्य की रक्षा न थी! सब देशों के पौराणिक काव्यों में यह त्रुटि पाई जाती है।

मेघनाद-वध काव्य में कवि ने मेघनाद के चरित्र के सम्बन्ध में कुछ विशेषत्व प्रदर्शित किया है। अतएव उस विषय में दो-एक बातें कहने की आवश्यकता है। मेघनाद की प्रकृति का प्रधान लक्ष्य है उसको भयशून्यता। पिता, माता और पत्नी सब के साथ बातचीत करने में उस का यह गुण प्रकाशित हो रहा है। लङ्का के युद्ध में सहस्र सहस्र वीर मारे जा रहे थे किन्तु उसके हृदय में कुछ भी उद्वेग न था। वीर वर वीरबाहु के मरने पर स्वयं राक्षसराजविस्मित हो गया था किन्तु मेघनाद के हृदय में विस्मय का भाव भी न आया था। वीरबाहु उसके निकट एक बालक मात्र था। राम ने उसी बालक को मारा है, इसमें विस्मय की कौन-सी बात है? इसी लिए हम उसके मुँह से सुनते हैं—

“मेरा शिशु बन्धु वीरबाहु, उसे दुष्ट ने
मार डाला, देखूंगा कि कैसे वह मुझको
करता निवारित है? माता, पद-धूलि दो।”

जिन राम को उसने रात्रि-रण में मारा था, वे फिर जीवित हो गये और उसका अनिष्ट साधन कर रहे हैं, यह सुनकर उसने पिता से जो कुछ कहा था वह पहले सर्ग की आलोचना में उद्धृत किया जा चुका है। जननी से विदा माँगने के समय भी उसकी वही भीति-शून्यता व्यक्त होती है—

“क्या है वह तुच्छ राम ? डरती हो उसको ?

* * * * *

* * * * * देवि, तुम अपने
मन्दिर में लौट जाओ; आके फिर शीघ्र ही
रणविजयी हो पद-पद्म ये मैं पूजूँगा ।
पा चुका हूँ तात का निदेश, तुम आज्ञा दो,
जननि, तुम्हारा शुभाशीष प्राप्त होने से
रोक सकता है कौन किङ्कर को रण में ?”

पत्नी के निकट उसके सान्त्वना-वाक्य और भी निर्भीकता-व्यञ्जक हैं। रामचन्द्र के साथ युद्ध करना उसके निकट बालकों की फ्रीडा मात्र है ! वह प्रमीला से कहता है—

“* * * * * अभी लौट यहाँ आऊँगा
लङ्काअलङ्कारिणि, मैं राघव को मारके।”

जब तक निराशा अथवा दुःख का अनुभव मनुष्य को नहीं होता तब तक उसके चित्त में चिन्ता अथवा भय का सञ्चार नहीं होता। मेघनाद के जीवन में निराशा और चिन्ता कभी हुई ही न थी। इस लिए वह निर्भय, आत्मशक्ति में अटल प्रत्यक्षशील था। त्रिभुवनविजयी रामराजेश्वर पिता, स्नेहप्रवणहृदया राज्ञी माता, पतिगतप्राणा वीर्यवती पत्नी, अतुल ऐश्वर्यसम्पन्न लङ्का का यौवराज्य एवं सर्वोपरि इष्टदेव का

प्रसाद प्राप्त करके मेघनाद शालवृक्ष की तरह उन्नत मस्तक था । रामचन्द्र के युद्ध ने बवण्डर रूप में उपस्थित होकर उसे भूमिसात कर दिया, किन्तु चिनत नहीं कर पाया । राक्षसराज भी वीर था, मेघनाद भी वीर था । अवस्था-भेद से ही दोनों में तादृश पार्थक्य उत्पन्न हुआ था । परन्तु वीरोचित भयशून्यता के लिए ही मेघनाद की प्रशंसा नहीं । उसका हृदय जैसे एक ओर पाषाण की तरह कठोर था वैसे ही दूसरी ओर कुसुमवत् कोमल भी था । वह स्वदेशवत्सल, मातृ-पितृ-भक्त, अनुजों के प्रति स्नेहवान, यहाँ तक कि आततायी शत्रु के प्रति भी शिष्टाचारपरायण था । लक्ष्मण ने जब उसे मारने के लिए तलवार उठाई तब उसने उनसे कहा था—

“लो आतिथ्य सेवा तुम शूर-सिंह पहले
मेरे इस धाम में जो आ गये हो, ठहरो !
रक्षोरिषु तुम हो, अतिथि तो भी आज हो ।”

मेघनाद की यह निर्भीकता और महाप्राणता षष्ठ सर्ग में बहुत अच्छी तरह प्रकाशित हुई है । यज्ञागार में तपोनिष्ठ मेघनाद आदर्श त्रिभुज वीर-सा दिखाई देता है । मधुसूदन ने ट्राय-राजकुमार हेक्टर को मेघनाद के आदर्श रूप में ग्रहण किया है, इसी लिए उसका चरित इतना उन्नत हुआ है ।

षष्ठ सर्ग

मेघनाद-वध की मूल घटना षष्ठ सर्ग का वर्णनीय विषय है । विभीषण और माया देवी की सहायता से लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का वध इस सर्ग में वर्णन किया गया है । काव्य के नायक और प्रतिनायक इसी सर्ग में एक साथ दिखाई देते हैं । दोनों ही परस्पर सम्बन्ध और

प्रतिद्वन्द्वी है। जिसने भुज-बल से वृत्र-विनाशी देवराज को भी युद्ध में पराजित किया है, वह काव्य का नायक है; एवं जो त्रिपुरान्तकारी साक्षात् रुद्रदेव को भी युद्ध के लिए ललकारने में आगा-पीछा नहीं करते, वे काव्य के प्रतिनायक है। इन दोनों, अतुलपराक्रम, वीरो को इकट्ठा करके कवि ने उनके चरित-सामञ्जस्य की किस प्रकार रक्षा की है, यह जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है, किन्तु दुर्भाग्य-वश रत्नोवरा की ओर अधिक अनुराग रखने के कारण कवि ने इस सर्ग में राम-लक्ष्मण को इस भाव से चित्रित किया है कि उसे देख कर मर्माहत होना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेघनाद-वध का षष्ठ सर्ग ही सब से अधिक अपकृष्ट है। कवि अपने काव्य के इस अंश का संशोधन करने के लिए जोवित नहीं, यह और भी परिताप की बात है।

षष्ठ सर्ग के आरम्भ में लक्ष्मण देवी की पूजा करके शिविर में लौट आये है। भगवती का प्रसाद प्राप्त करके उनका हृदय आनन्द से उल्लसित हो रहा है। अग्रज के सामने देवीपूजन का उन्होंने जो विवरण दिया है, उससे अच्छी तरह उसका परिचय मिलता है। हृदय का उत्साह रोकने में असमर्थ-से होकर इस सिंह-शावक की भाँति सगर्व वे श्रीरामचन्द्र से कहते हैं—

“आज्ञा है तुम्हारी अब क्या हे प्रभो, दास को ?

बीत रही रात देव, काम नहीं देर का ।

आज्ञा दो कि जाऊँ अभी, मारूँ मेघनाद को ।”

लक्ष्मण का यह वीरत्व-पूर्ण उत्साह सर्वथा प्रशंसनीय है। किन्तु इसी के साथ कवि ने रामचन्द्र से बहुत कापुरुषता का व्यवहार कराया है। और की तो बात ही क्या, स्वयं सीता के उद्धार की आज्ञा छोड़ कर वे वन को लौट जाने के लिए तैयार हैं; किन्तु मेघनाद के साथ

लड़ने की लक्ष्मण को आज्ञा देने के लिए नहीं। लक्ष्मण और विभीषण उन्हे सम्झाते हैं तो भी उन्हे साहस नहीं होता। विभीषण अपने स्वप्न की बात सुना कर कहता है कि राजलक्ष्मी ने प्रत्यक्ष होकर उसे लङ्का का राजसिंहासन देने का वर प्रदान किया है, तो भी उनका डर नहीं छूटता, वे स्त्रियों की तरह विलाप करने लगते हैं और कभी वन को आते समय अयोध्या के राजमहल में रोती हुई कर्मिन्ना की याद करते हैं, कभी इस बात का उल्लेख करते हैं कि सुमित्रा ने किस प्रकार लक्ष्मण को उन्हें सौंपा था। अन्त में आकाश-वाणी होती है कि हे रामचन्द्र, तुम्हें क्या देववाक्य में अविश्वास करना उचित है ? तुम देवकुलप्रिय हो। शायद इतने से भी उन्हें सन्तोष न होता, इस लिए देववाणी उन्हें शून्य की ओर देखने के लिए कहती है। आकाश में दिखाई पड़ता है कि एक मोर और सौंप का युद्ध हो रहा है। किन्तु उसमें विजय सौंप की ही होती है। मयूर मारा जाता है। कवि ने यह मयूर और सौंप का युद्ध इलियड काव्य के बारहवें सर्ग से परिवर्तित रूप में ग्रहण किया है। विभीषण फिर रामचन्द्र से कहता है कि यह देख सुन कर भी क्या आपका भय नहीं छूटता ? तब कहीं वे लक्ष्मण को उसके साथ जाने देने के लिए राजी होते हैं और देव-अर्क्षों से उन्हें अपने हाथों सजाते हैं। किन्तु इतना होने पर भी उनका मन आश्चर्य नहीं होता। वे भाई को विभीषण के हाथ सौंपते हुए कहते हैं—

“जाओ मित्र, देखो, किन्तु सावधान रहना,
सौंपता है राघव भिखारी तुम्हें अपना
एक ही अमूल्य रत्न। रथिवर, बातों का
काम नहीं, बस, यही कहता हूँ आज मैं—
जीवन-मरण मेरा है तुम्हारे हाथ ही।”

इस प्रकार, किसी तरह अग्रज की आज्ञा पाकर, गुल्मावृत व्याघ्र या नदी-गर्भस्थ नरक की तरह, लक्ष्मण मेघनाद को मारने के लिए, विभीषण के साथ चले। उनके स्पर्श से लङ्का का दुर्भेद्य सिंहद्वार खुल गया। कवि ने अपने स्वाभाविक नैपुण्य से लङ्का का प्रातःकालीन दृश्य, नागरिक लोगों का कथोपकथन एवं मेघनाद के यज्ञागार का शोभापूर्ण वर्णन किया है। लक्ष्मण के उस मन्दिर में प्रवेश करते ही उनके अस्त्रों की कनकनाद और पैरों की आदट से मेघनाद का ध्यान टूट गया। उसने आँखें खोल कर और उन्हें इष्टदेव समझ कर उनके चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण ने अपना परिचय देकर उसे युद्ध के लिए ललकारा। किन्तु विस्मित मेघनाद को उनके लक्ष्मण होने का किसी प्रकार विश्वास न हुआ। विश्वास न होने की बात ही थी। लङ्का के उन अजेय वीरो के व्यूह को और दुर्लभ्य प्राचीर को अतिक्रम करके किसकी मजाल है जो उसके यज्ञागार में प्रवेश करे? मेघनाद ने फिर भी उन्हें इष्टदेव समझा और पुनर्वार प्रणाम करके अभीष्ट वर माँगा। किन्तु जब लक्ष्मण ने उसे मारने के लिए खड्गोत्तोलन किया तब उसका भ्रम दूर हो गया। क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित और उद्विग्न होकर उसने उनकी ओर देखा। भय-शून्यता मेघनाद के चरित का मुख्य लक्षण है, यह पहले कहा जा चुका है। उसके इस समय के व्यवहार से उसका स्पष्ट परिचय पाया जाता है। रामायण का मेघनाद मायावी योद्धा है। माया-युद्ध में ही उसका वीरत्व है। माया की सीता का छेदन करके उसने रामचन्द्र पर विजय पाने की चेष्टा की थी। किन्तु मधुसूदन के मेघनाद के पास माया नहीं, कपट नहीं। लक्ष्मण को तलवार उठाये देख कर वह प्रकृत क्षत्रिय वीर की तरह कहता है—

“रामानुज लक्ष्मण हो यदि तुम सत्य ही
तो हे महाबाहो, मैं तुम्हारी रण-लाञ्छना
मेढ़ूँगा अवश्य घोर युद्ध में । मला कभी
होता है विरत इन्द्रजित रण-रङ्ग से ?
लो आतिथ्य सेवा तुम शूर-सिंह पहले
मेरे इस धाम में जो आगये हो, ठहरो ।
रघोरिपु तुम हो, अतिथि तो भी आजहो,
सज लूँ ज़रा मैं वीर-साज से । निरख जो
वैरी हो, प्रथा है नहीं शूरवीर-वंश में
मारने की उसको; इसे हो तुम जानते,
सत्रिय हो तुम, मैं कहूँ क्या और तुमसे ?”

यहाँ तक कवि ने लक्ष्मण को मेघनाद का उपयुक्त प्रतिद्वन्द्वी
दिखाया है । किन्तु यहाँ से उनके चरित में कालिमा-लेपन करना
आरम्भ कर दिया है । इसके बाद महाप्राण मेघनाद की उदारता और
निर्भीकता जैसी प्रशंसनीय है, “शुद्धमति” लक्ष्मण की कापुरुषता और
नृशंसता वैसी ही निन्दनीय । लक्ष्मण ने प्रतिपत्नी की वीरोचित और
न्याय्यप्रार्थना स्वीकार नहीं की । उन्होंने निरख दश मे ही उसकी
हत्या की । कवि ने केवल वीरोचित औदार्य और महत्त्व मे ही लक्ष्मण
को कापुरुष के समान चित्रित नहीं किया है, वरन् शारीरिक बल मे भी
उन्हे शिष्य की अपेक्षा निकृष्ट कर दिया है । क्रुद्ध मेघनाद के द्वारा फेंके
गये शङ्ख-धंटा आदि पूजोपकरणों से भी आत्सरचा करने का सामर्थ्य
उनमें न था । इसी लिए—

“* * * * महाभाया ने

सब को हटाया दूर, फैला कर हाथ यो-

सोते हुए बालक के ऊपर से जननी

मच्छड़ हटाती है हिला के कर-कक्ष ज्यों ।”

इससे भी कवि को सन्तोष नहीं हुआ । जिस समय रिक्तहस्त मेघनाद लक्ष्मण पर झपटा उस समय भी देवास्त्र धारी लक्ष्मण का रक्षण करने के लिए देव-माया का प्रयोजन हुआ । मायादेवी के कौशल से मेघनाद ने देखा कि कालदण्डधारी यम, शूलपाणि महाकाल और गदाचक्रधारी विष्णु प्रभृति देव-गण उसके चारों ओर खड़े हैं । मन्त्रमुग्ध की भाँति वह निश्चल भाव से खड़ा होगया और उसी दश में लक्ष्मण ने खड्गाघात करके उसे धराशायी कर दिया । जिस दुर्जय दर्प से वह राम-लक्ष्मण को तृण-तुल्य समझता था, उसके अन्तकालीन आर्तनाद से भी वह व्यक्त होता है । एक ओर इलियड के मुमूर्षु वीर हेक्टर का अभिसम्पात और दूसरी ओर रामायण के मेघनाद की भर्त्सना सम्मिलित करके कवि ने लक्ष्मण और विभीषण के प्रति मेघनाद की अन्तिम वाक्यावली की रचना की है । अन्त में जनक-जननी के चरणों का स्मरण करके मेघनाद ने आँखें मूँद लीं । राक्षसराज के पाप का प्रायश्चित्त रूप “लङ्का का सरोजरवि” अकाल में ही अस्त होगया ।

इस प्रकार इन्द्रजित का वध किं वा उसकी हत्या करके लक्ष्मण श्रीरामचन्द्र के समीप लौट आए । वर्णनीय विषय परिस्फुट करने के लिए ही ऋविज्ज्ज उपमा-अलङ्कारों का प्रयोग करते हैं । दुर्भाग्य-वश मञ्जुसूदन ने यहाँ पर जिन दो उपमाओं का प्रयोग किया है, उनसे लक्ष्मण का नर-हन्तापन और भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाता है । पहले उन्होंने ब्याघ्री की अनुपस्थिति में व्याघ्र-शिशु को मारने वाले किरात से लक्ष्मण की उपमा दी है । उससे भी परितुष्ट न होकर निद्रितपाण्डवशिशुहन्ता, ब्राह्मण कुलाङ्गार, कापुरुष अभत्यामा के साथ उनकी तुलना की है ।

किन्तु इसके बाद हम देखते हैं कि रामचन्द्र उस नरघाती का अभिनन्दन करते हैं—

“पाया आज सीता को तुम्हारे भुजबल से
हे भुजबलेन्द्र, तुम धन्यवीर-बुल्ल मे ।”

इत्यादि ।

अभिनन्दन बहुत सुन्दर है; किन्तु लक्ष्मण ने जो अनुपम वीरत्व प्रदर्शित किया था, वह उन्हे अविदित न था । रामचन्द्र के इस अत्याधिक अभिनन्दन किये जाने पर, यदि उन्हे आत्मसम्मान का कुण्ड भी ज्ञान होता तो वे समझते कि बड़े भाई उन पर व्यङ्ग्यवृष्टि कर रहे हैं । जो हो, लक्ष्मण के हाथ से मेघनाद का वध कराना कवि को अभीष्ट था सो पूरा हो गया । रामचन्द्र की सेना जयोछास करने लगी और सुसोस्थित लङ्कापुरी वह विकट शब्द सुन कर चौंक उठी ।

मेघनाद-वध का षष्ठ सर्ग ही सारे काव्य में सबसे निकृष्ट है । मधुसूदन जिस कारण से इस सर्ग की इस प्रकार रचना करने के भ्रम में पड़े है, उसके विषय में दो एक बातें लिखी जाती हैं । पहला कारण राक्षस-वश पर उनकी अत्यधिक सहानुभूति है और दूसरा कारण वाल्मीकि को छोड़कर होमर को आदर्श रूप मान कर उसके अनुकरण की चेष्टा है । राक्षस वीरों के वीरत्व ने मधुसूदन को ऐसा मुग्ध कर दिया था कि उनके प्रतिपत्नी भी वीर है, इसे वे एक वार ही भूल गये थे । उनका धार्मिक विश्वास भी उनके भ्रम का एक कारण था । जातीय धर्म में विश्वास रहने से जो महापुरुषद्वय चिरकाल से हिन्दुओं के हृदयाराध्य हो रहे हैं उन्हें वे इस रूप में चित्रित न करते । किन्तु होमर का अनुकरण ही इस भ्रम का सबसे मुख्य कारण है । महर्षि वाल्मीकि का चरित सन्निवेश ऐसा सुन्दर है कि श्रीरामलक्ष्मण को

अतुल्य पराक्रमी वीर जानकर भी हम राक्षसराज और मेघनाद को उनके अयोग्य प्रतिद्वन्द्वी नहीं मानते । किन्तु होमर का आदर्श भिन्न है । ग्लैडस्टन ने होमर के विषय में कहा है कि ग्रीकों पर उनका इतना पक्षपात था कि उन्होंने एक भी प्रसिद्ध ग्रीक वीर का ट्रायवासियो से नाय्य युद्ध में वध नहीं कराया । पैट्रोक्लस को हेक्टर अवश्य मारता है; किन्तु विजय का प्रधान निदर्शन रूप उसके शव पर अधिकार करने में कोई समर्थ नहीं होता । ग्लैडस्टन ने लिखा है—

“It is a cardinal rule with Homer, that no considerable Greek Chieftain is ever slain in fair fight by a Trojan. The most noteworthy Greek, who falls in battle, is Tlepolemos, and sarpedon, who kills him, is leader of the Lycians, a race with whom Homer betrays peculiar sympathy. The threadbare victory of Hector is further reduced by the success of the Greeks in recovering the body of Patroclus.”

क्षुद्रमति ट्रायनिवासी ग्रीक वीरों को न्याय्य युद्ध में मारें अथवा अतिक्रम करें, इलियड का कवि इसे किसी तरह सहन नहीं कर सकता । जो हेक्टर अन्यान्य स्थलों पर महावीर के रूप में चित्रित किया गया है, वही जिस समय अपने प्रतिद्वन्द्वी आखिलस के सामने आता है उस समय कवि उसे विकलाङ्ग-सा चित्रित करता है । मधुसूदन के लिए होमर का अविकल अनुसरण करना सम्भव न था किन्तु जहाँ तक उनसे हो सका लक्ष्मण और मेघनाद के सम्बन्ध में उन्होंने पक्षपात किया । “क्षुद्रनर” लक्ष्मण उनके इन्द्रविजयी महावीर को न्याय्य युद्ध

में वध करें, कवि के लिए यह मानों असह्य था। इसी से उन्होंने लक्ष्मण को एक बालिका की अपेक्षा भी दुर्बल बना डाला। और सब स्थानों में लक्ष्मण भय-शून्य रहे साक्षात् रुद्रदेव को भी युद्ध के लिए आह्वान करने में द्विधा न करें, किन्तु मेघनाद को देखते ही एक साथ मन्त्रमुग्ध की भाँति अवसन्न हो जाते हैं। मेघनाद के अन्नप्रहार की तो बात ही जाने दीजिए, उसके फेंके हुए शङ्ख, घंटा प्रभृति पूजा के सामान्य पदार्थों से, नहीं नहीं, उसके खाली हाथ के वार से भी आत्मरक्षा करने में वे असमर्थ हैं ! नायक का गौरव बढ़ाने के लिए प्रतिनायक को भी गौरवयुक्त रखना पड़ता है, जान पड़ता है, मेघनाद-वध के कवि को इस बात का भी स्मरण नहीं रहा है। आर्य रामायण का अनुसरण करने से उसे इस अम में न पड़ना पड़ता। आर्य रामायण के लक्ष्मण ने तस्कर की तरह घर में घुस कर निरन्न शत्रु की हत्या करना तो दूर, इन्द्रजित को अपने साथ प्रच्छन्न रूप से युद्ध करते देख कर उसे इसके लिए धिक्कार देते हुए कहा था—

“अन्तर्धान गतेनाजौ यत्स्वयाचरितस्तदा,
तस्कराचरितो मार्गौ नैव वीर निवेदितः ।

यथा बाणपथप्राप्य स्थितास्मि तव राक्षस,
दर्शयस्वाद्यतं तेजो वाचात्वं क्विकथ्यसे ॥”

अर्थात् रणक्षेत्र में अन्तर्हित होकर तू जो कुञ्ज करता है वह चोरों के योग्य है, वीरों के योग्य नहीं। जैसे मैं तेरे बाण-पथ में स्थित हूँ वैसे ही तू भी वैसा ही तेज दिखला; अनर्थक बक्ता क्यों है ?

रामायण में वर्णित लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध वर्णन पढ़कर शरीर रोमाञ्चित हो उठता है। किन्तु मधुसूदन की पक्षपातिता और अनुकरणेच्छा ने ही उन्हें अपने अम के सम्बन्ध में अन्ध रक्सा

इन्होंने बाबू राजनारायण वसु को लिखा था कि—“मैं ऐसी कठोर सावधानता से मेघनाद-वध की रचना कर रहा हूँ कि कोई फूँच समालोचक भी उसमें दोष न निकाल सकेगा।” सुतराम् उनका यह दोष स्वेच्छाकृत नहीं। किन्तु स्वेच्छाकृत हो, या अनिच्छाकृत हो, यह सर्ग उनके काव्य का सदैव फलक होकर वर्तमान रहेगा।

सप्तम सर्ग

अति मनोहर प्रभात वर्णन के साथ मेघनाद-वध का सप्तम सर्ग आरम्भ होता है। लङ्का का गौरव-रवि सदा के लिए अस्त हो गया है; किन्तु प्रकृति का झूठेप भी उधर नहीं। दिनमणि सदा की भाँति उज्वल आलोक से संसार को उद्भासित करके उदित हुए है। कुसुम-कुन्तला पृथ्वी मोतियों की माला पहन कर पूर्व की ही भाँति हर्ष से हँसने लगी है। निकुञ्ज-समूह भी पहले की तरह विहङ्ग-कुल के कूजन से मुखरित हो उठा है। प्रकृति के सङ्गीत, हास्य और उल्लास में कभी परिवर्तन नहीं होता। पुत्रशोककातरा मन्दोदरी एवं पतिविरहविधुरा पतिव्रता प्रमीला किसी के दुःख में प्रकृति की सहानुभूति नहीं; प्रकृति का नियम ही ऐसा है। मेघनाद की मृत्यु का समाद उस समय भी लङ्का में प्रचारित नहीं हुआ था। साध्वी प्रमीला अन्य दिवस की भाँति उस दिन भी सबेरे स्नान करके वेशविन्यास करने में प्रवृत्त हो रही थी। किन्तु क्या जानें, साध्वी के हाथ का कङ्कण उसे कड़ा मालूम होता था। कण्ठमाला पहनते समय कण्ठ में भी पीड़ा होने लगी। न जानें, कैसी एक अस्फुट रोदनध्वनि उसके कानों में प्रवेश करके प्राणों को व्याकुल करने लगी। अधीर होकर वह वासन्ती सखी से—

“बोली—क्यों पहन नहीं सकती हूँ सखि, मैं
 आभूषण ? और नगरी मे सुनती हूँ क्यों
 रोदन-निनाद दूर हाहाकार शब्द हा !
 वामेतर नेत्र वार वार नाचता है क्यों ?
 रोये उठते है प्राण ! आलि, नहीं जानती
 आज मै पढ़ूँगी हाथ ! कौन-सी विपत्ति मे ?
 यज्ञागार में है प्राणनाथ, तुम उनके
 पास जाओ, रोको उन्हें, युद्ध मे न जावें वे
 शूरशिरोरत्न इस दुर्दिन में । स्वामी से
 कहना कि पैरो पड़ रोकती है किङ्करी ।”

प्रमीला के चरित की मधुरता के लिए मधुसूदन की हमने यथेष्ट
 प्रशंसा की है । सारे ग्रन्थ मे, सर्वत्र ही, वे इस माधुरी की रक्षा करने मे
 समर्थ हुए है । जो प्रमीला राघव के सैन्य समुद्र में कूदने से नहीं डरती,
 वही दौड़ें आँख फड़कने से डर जाती है । भारतीय रमणी के लिए ये दोनों
 ही बातें स्वाभाविक हैं । प्रमीला की तरह अतुल वीर्यवती के मुहँ से—

“कहना कि पैरो पड़ रोकती है किङ्करी ।”

यह पंक्ति कहला कर कवि ने उसके स्वभाव का त्रिनयमधुर भाव क्या
 ही सुन्दरता से परिस्फुट किया है । आधुनिक भारत में प्रमीला के समान
 रमणी के पाये जाने की सम्भावना नहीं; किन्तु भविष्य मे यदि कोई
 वैसी कोमलतामयी वीराङ्गना उत्पन्न होगी तभी इस देश के नारी-
 हितैषियां की आशा सार्थक होगी । पद्मिनी और दुर्गावती के देश के
 कवि ने अपने देश के लिए उपयुक्त और अति मनोहर चित्र अङ्कित किया है ।

मेघनाद की मृत्यु का संवाद धीरे धीरे लङ्का में फैल रहा था;
 किन्तु इसे राजसराज को सुनाने का किसी को साहस न होता था । कैलास-

धाम में महादेव मेघनाद की मृत्यु से विषण्ण हो रहे थे। भक्त की विपत्ति से भक्तवत्सल का हृदय व्यथित हो रहा था। उन्होंने भगवती से कहा—

“ * * * * * शूल यह जो शुभे,
देखती हो तुम इस हाथ में, हा ! इसके
घोराघात से भी घोर होता पुत्र शोक है ।
रहती सदैव वह वेदना है, उसको
हर नहीं सकता है सर्वहर काल भी ।
रावण कहेगा क्या स्वपुत्र-नाश सुन के
महसा मरेगा यदि रुद्रतेजो दान से
रक्षा मैं करूँगा नहीं सर्वशुभे, उसकी ।”

इसके बाद महादेव ने वीरभद्र को लङ्का में जाकर राक्षसराज को रुद्र-तेज प्रदान करने की आज्ञा दी। वीरभद्र का लङ्का में आना और रावण के साथ साक्षात् करना अत्यन्त गम्भीर भावादीपक है। महादेव के आदेश से—

“भीमबली वीरभद्र व्योम-पथ से चला,
प्रणत समीत हुए व्योमचर देख के
चारो ओर; निष्प्रभ दिनेश हुआ दीप्ति से
होता है सुधांशु ज्यों निरंश उस रवि को
आभा से। भयङ्करी त्रिशूल-झाया पृथ्वी पै
आ के पड़ी। करके गभीर नाद सिन्धु ने
चन्दना की भीम भव-दूत की। महारथी
राक्षसपुरी में अवतीर्ण हुआ शीघ्र ही,
थर थर काँपी हेमलङ्का पद-भार से,

काँपती है जैसे वृक्ष-शाखा जब उस पै
बैठता है पक्षिराज वैनतेय उड़के।”

महर्षि प्रणीत रामायण में इन्द्रजित के मरने पर सीता देवी को हननोधत राक्षसराज जिस प्रकार उन्मत्त और नृशंस की तरह चित्रित हुआ है, मेघनाद-वध में उसका चिन्ह भी नहीं। वीरभद्र के अविर्भाव से लंकेकर का हृदय आशा और उत्साह से परिपूर्ण हो गया। संयतचित्त से उसने राक्षस सैनिकों को युद्ध के लिए सज्जित होने की आज्ञा दी। कवि ने अपने स्वाभाविक नैपुण्य से राक्षस वीरों की रणसज्जा का वर्णन किया है। प्रथम सर्ग में चित्राङ्गदा के साथ बातचीत करने में मधुसूदन ने राक्षसराज के चरित का एक अंश मात्र प्रदर्शित किया है। सातवें सर्ग में मन्दोदरी के साथ बातचीत करने में उसका दूसरा अंश प्रदर्शित किया है। पहले सर्ग में राक्षसराज अनुत्तम और आत्मग्लानि से ज्ञानशून्य है। किन्तु सातवें सर्ग में उसका व्यवहार दूसरे प्रकार का है। मेघनाद-जैसे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भी वह स्थिर और संयत है। पुत्रशोककातरा मन्दोदरी को सान्त्वना देने के लिए वह कहता है—

“ * * * रक्ष, कुलेन्द्राणि, हुआ वाम है
आज हम दोनों पर दैव ! किन्तु फिर भी
जीवित हूँ अब भी जो मैं, सो बस उसका
बदला चुकाने के लिए ही ! शून्य गृह में
लौट जाओ देवि, तुम, मैं अनीकयात्री हूँ,
रोकती हो मुझ को क्यों ? राने के लिए हमें
गृहणि, पड़ा है चिरकाल * * * *
* * लौट जाओ, जाऊँ मैं समर में,
क्रोधानल क्यों यह बुझाऊँ अश्रुजल से ?”

इस कथन से उसके हार्दिक भावों का अनुमान किया जा सकता है। राक्षसों के प्रति उसके उत्साह वाक्य भी इसके बहुत उपयुक्त हैं। प्रथम सर्ग में युद्ध-वर्णन के साथ कवि ने एक नई घटना की उद्घाटना की है। लङ्का-युद्ध में देव-गण की प्रत्यक्ष सहकारिता आर्य्य रामायण में नहीं। इलियड के इक्कीसवें सर्ग के अनुकरण पर कवि ने उसे मेघनाद-वध में सम्मिलित किया है। रामचन्द्र की सहायता के लिए देवराज इन्द्र, कार्तिकेय प्रभृति देवसेनानायकों को साथ लेकर पृथ्वी पर आया है। इस ओर राक्षसराज और रघुराज दोनों ही तुमुल युद्ध का आयोजन कर रहे हैं। इससे पृथ्वी देवी डर कर विष्णु की शरण में गई। भक्तवत्सल भगवान ने पृथ्वी को रसातल जाने से बचाने के लिए गरुड़ को देव-तेज हरण करने की आज्ञा दी। महारुद्र ने रावण को इसके पहले ही अपने तेज से पूर्ण कर दिया था। सुतराम् उसकी विजय अनिवार्य्य थी। बुभुक्षा हुआ दीपक जैसे क्षण भर के लिए पूर्ण प्रभा से प्रज्वलित हो कर अन्धकार-सागर में डूब जाता है, रावण का भाग्य-प्रदोष भी चिरनिर्वापित होने के लिये वैसे ही, मुहूर्त भर के लिए, प्रज्वलित हो उठा।

मेघनाद-वध के एक मात्र इसी सर्ग में युद्ध का चित्र अङ्कित पाया जाता है। रामायण में वर्णित शक्तिशैल का वृत्तान्त इलियड में वर्णित घटनाओं से मिला कर मधुसूदन ने इस सर्ग की रचना की है। षष्ठ सर्ग में लक्ष्मण जैसे कापुरुष के रूप में चित्रित किये गये हैं, सप्तम सर्ग में उसका निदर्शन भी नहीं। इस सर्ग में नवयौवनदत्त सिंह-शावक के समान रण-क्षेत्र में स्थित लक्ष्मण का विक्रम देख कर विस्मित होना पड़ता है। लङ्केश्वर तुमुल युद्ध में, कार्तिकेय, इन्द्र, हनुमान और सुभीव प्रभृति को पराजित करके लक्ष्मण के समाने पहुँच कर वज्रगम्भीर स्वर से कहता है—

“* * * * अरे, इतनी
 देर में तू लक्ष्मण, क्या मेरे हाथ आया है
 रण में रे पामर ? कहाँ है अब वृत्रहा
 वज्री ? कहाँ वहिध्वज तारकारि स्कन्द है
 शक्तिधर ? और कहाँ तेरा वह भाई है
 राघव ? सुकंठ कहाँ ? पामर, बता मुझे
 कौन बचावेगा इस कालासन्न रण में ?
 जननी सुमित्रा और जर्मिला बधू को तू
 याद करले रे अब मरने के पहले !
 मांस तेरा दूँगा अभी मांसलोभी जीवों को;
 रक्त-स्रोत सोख लेगी पृथ्वी इस देश की ।
 कुक्षण में दुर्मति, हुआ था सिन्धु-पार तू,
 चोर-तुल्य होकर प्रविष्ट रचोगेह में
 रक्षोरत्न तू ने हरा—जग में अमूल्य जो !”
 चत्रिय वीर लक्ष्मण का प्रत्युत्तर भी इसके उपयुक्त है—
 “चत्रकुल में है जन्म मेरा, कभी रण में
 रचोराज, काल से भी डरता नहीं हूँ मैं,
 फिर किस कारण डरूँगा भला तुझ से ?
 करले जो साध्य हो सो, पुत्रशोक से है तू
 व्याकुल विशेष आज, तेरा शोक मेढ़ूँगा
 भेज तुझे तेरे इस पुत्र के ही पास मैं ।”

इसके बाद रावण के साथ लक्ष्मण का युद्ध-वर्णन पढ़कर, उन्होंने
 अचत्रिय के समान मेघनाद की हत्या की है, इसका स्मरण भी हमें नहीं
 रहता । उनके अनुपम वीरत्व से हम मुग्ध हो जाते हैं । किन्तु वीरत्व,

विक्रम, कुछ भी आज उनकी रक्षा न कर सका । देवबल से बलवान रावण की शक्ति के आघात से लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े । महादेव के आदेश से लक्ष्मण का मृत शरीर छोड़ कर उल्लास पूर्वक राक्षसराज ने लङ्कापुरी में प्रवेश किया ।

सप्तम सर्ग की भाषा, उसका वर्णनीय विषय एवं उसकी आनुषङ्गिक घटनाएँ, सभी सुन्दर है । बाबू रमेशचन्द्र दत्त ने इसी सर्ग को इस काव्य में सर्वोत्तम* कहा है । किन्तु वीर रस के वर्णन के लिए यह प्रशंसनीय होने पर भी रामचन्द्र के चरित के सम्बन्ध में कवि ने पहले की ही तरह इसमें भी भूल की है । रामचन्द्र को रण क्षेत्र में देखकर रावण ने कहा है—

“चाहता नहीं मैं आज सीतानाथ, तुमको,
एक दिन और तुम इस भव-धाम में
जीते रहो, निर्भय, निरापद हो ! है कहाँ
अनुज तुम्हारा वद नीच, झञ्झसमरी ?
मारूँगा उसे मैं, तुम अपने शिविर मे
लौट रघुश्रेष्ठ, जाओ । * * * *”

आततायी शत्रु के इन गर्वित और व्यङ्ग्यपूर्ण वचनों पर द्विरुक्ति मात्र न करके रामचन्द्र वहाँ से हट गये । उनके समान महापुरुष के लिए यह बात कभी स्वाभाविक नहीं कही जा सकती । जिसने पत्नी के सतीत्व-नाश का प्रयासी होकर उनके मर्म में शोलाघात किया है और जो उनके प्रियतम भ्राता के प्राणनाश के लिए रक्तपिपासु व्याघ्र के

* The seventh book is in many respects the sublimest in the work, and perhaps, the sublimest in the entire range of Bengali Literature.

Literature of Bengal, page 183.

समान उसीकी ओर दौड़ रहा है, ऐसा कौन है जो मनुष्य-हृदय लेकर उसके उचित दण्ड-विधान की चेष्टा करने से पराङ्मुख होगा ? रामचन्द्र के समान महापुरुष की बात जाने दीजिए, साधारण मनुष्य भी क्या ऐसी अवस्था में उदासीन रह सकेगा ? हम पहले ही कह चुके हैं कि मधुसूदन ने जब कभी रामचन्द्र की चर्चा की है तभी वे इसी प्रकार भ्रम में पड़ गये हैं। उनके रामचन्द्र में विनय और कोमलता का अभाव नहीं; किन्तु कोमलता के साथ दृढ़ता का सामञ्जस्य ही रामचन्द्र के चरित्र का गौरव है, वे इस बात का विचार नहीं रख सके हैं। उनके रामचन्द्र प्रमोला का वीरत्व देख कर डर जाते हैं, भाई को युद्ध में भेजते, समय रोने लगते हैं एवं आततायी शत्रु को युद्ध में सामने पाकर भी उससे लड़ने में विमुख रहते हैं। राम और लक्ष्मण के चरित्र के सम्बन्ध में मधुसूदन मेघनाद-वध की रचना करते हुए जिस भ्रम में पड़े हैं, वह हमेशा उनके काव्य का कलङ्क होकर रहेगा।

अष्टम सर्ग

शक्तिशैलाहत वीर लक्ष्मण का पुनर्जीवनलाभ अष्टम सर्ग का वर्णनीय विषय है। रामायण की मूल कथा विद्यमान रख कर कवि ने इसमें इलियड और डिवाइन कमेडी के कवियों का अनुसरण किया है। उस दिन के उस भयङ्कर युद्ध की समाप्ति के साथ ही सूर्य अस्त हो गया था और रात्रि-समागम से रणक्षेत्र के चारों ओर सैकड़ों अग्निपुञ्ज प्रज्वलित हो रहे थे। लक्ष्मण के पार्श्व में रामचन्द्र मृतप्राय पड़े थे। उनके शोक में सब सैनिक शोकाकुल थे। कवि ने कुशलता के साथ अत्यन्त हृदयद्राविणी भाषा में, रामचन्द्र का शोकोच्छ्वास वर्णन किया है। किन्तु सीमातिरिक्त दीर्घ होने से उसका सौन्दर्य कुछ कम

हो गया है। रामचन्द्र के समान सत्वगुणाश्रित पुरुष से हम शोक की अवस्था में भी अपेक्षाकृत दृढ़ता और संयम की प्रत्याशा रखते हैं।

कैलासधाम में भक्तवत्सला का हृदय रामचन्द्र के दुःख से दुःखित है। महादेव ने उनके उपरोध से माया देवी को लङ्कापुरी में भेजा। रामचन्द्र ने माया देवी के साथ प्रेतपुरी में जाकर राजा दशरथ से भेंट की और उनसे लक्ष्मण के जीवन-लाभ का उपाय अवगत किया। ये सब बातें मूल रामायण में नहीं; इसके कहने की आवश्यकता नहीं। इलियड के षष्ठ सर्ग के अनुकरण पर कवि ने इसकी रचना की है। वीरवर इनिस की तरह रामचन्द्र ने भी गभीर सुरङ्ग के मार्ग से प्रेतपुरी में जाकर अपने परलोकवासी पिता के साथ साक्षात् किया है। इलियड के प्रेत नगर के बाहर जैसा भीषणकाय कामरूपी मूर्ति-समुदाय का वर्णन है, मेघनाद-वध के इस सर्ग में भी वैसा ही वर्णन है। इलियड-वर्णित "Acheron" आकिरन वा "Styx" यहाँ वैतरणी के रूप में और उसकी "Sybil" साइबिल माया देवी के रूप में चित्रित की गई है। "Styx" के नाविक "Charon" कैरन के इनिस को मार्ग देने में असम्मत होने पर साइबिल ने जैसे उसे अपना मायादण्ड दिखाया था, मायादेवी ने भी जैसे ही वैतरणी-रक्षक यमदूत को मार्ग देने में अनिच्छुक देखकर शिव का त्रिशूल दिखलाया था। इनिस के समान रामचन्द्र ने भी अपने पूर्व-परिचित अनेक व्यक्तियों को प्रेतपुरी में देखा था। इन सब घटनाओं के अतिरिक्त कामुक नर-नारियों का अलृप्ति जनित दण्ड, वज्रनख मांसाहारी पक्षियों का पापियों की आँतों को विदीर्ण करना और प्रेत-क्रिया हुए विना यमपुरी में जाने का निषेध आदि और भी अनेक बातें कवि ने पाश्चात्य कवियों के काव्यों से लेकर अष्टम सर्ग में रक्खी है।

स्वर्ग और नरक-वर्णन पाश्चात्य और प्राच्य दोनों देशों के कवियों को प्रिय लगता है। वर्जिल, दान्ते और मिल्टन प्रभृति अनेक पाश्चात्य महाकवियों ने इसके लिए प्रशंसा प्राप्त की है। उन्हीं के अनुकरण पर मधुसूदन ने मेघनाद-वध में स्वर्ग और नरक के चित्र अङ्कित किये हैं। परलोक के अन्धकारगर्भ में जो बातें छिपी है उन्हें जानने के लिए स्वभावतः ही मनुष्य के हृदय में आकांक्षा उत्पन्न होती है। उसीकी पूर्ति के लिए, जान पड़ता है, स्वर्ग और नरक के अस्तित्व की कल्पना की गई है। स्वर्ग पुण्यवानों के पुरस्कार और नरक पापियों के दण्ड पाने का स्थान है, यह विश्वास भी उस कल्पना का एक बड़ा कारण है। किन्तु मनुष्य समाज के ज्ञान की जितनी ही उन्नति होती है उतना ही इस कल्पना पर लोगों का विश्वास कम होता जाता है। पाराडाइज़ लास्ट की जिस नरक-वर्णना ने एक समय मिल्टन के समकालीन पण्डितों को भीत और विस्मित कर दिया था वह इस समय विद्यालय के बालकों को केवल कौतुक-जनक जान पड़ती है। गन्धकाग्निमय किंवा तुषारहृदपूर्ण नरक के दिन चले गये, इस समय कुछ और ही आवश्यक है। कहते हैं, किसी ईसाई धर्मप्रचारक ने श्रोताओं के हृदय में किसी प्रकार नरक का डर उत्पन्न न होते देख कर कहा था कि नरक ऐसा स्थान है कि वहाँ समाचार पत्र नहीं होते। वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर मेघनाद-वध का अष्टम सर्ग असार कल्पना के सिवा और कुछ न होगा; किन्तु पाठकों को स्मरण रखना होगा कि मधुसूदन ने कोई वैज्ञानिक ग्रन्थ नहीं लिखा, पौराणिक काव्य लिखा है।

मधुसूदन ने स्वर्ग और नरक दोनों का वर्णन किया है। किन्तु नरक-वर्णन की अपेक्षा स्वर्ग-वर्णन में उन्होंने अधिक पारदर्शिता प्रदर्शित की है। उनका स्वर्ग दूसरे स्थानों पर जैसा काम्य वस्तुओं के उपभोग

का स्थान मात्र है, इस स्थान पर भी वैसा ही है, निष्काम, धार्मिक पुरुषों को शान्ति और उन्नति का क्षेत्र नहीं। मनुष्य के लिए पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही उपभोग्य हैं। इसलिए वे सर्वत्र, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक में भी, इन्द्रियपरिवृत्ति की सामग्री खोजते हैं। इन्द्रिय सुख ही साधारण मनुष्य के सुख की चरमसीमा है। मधुसूदन इसी चिर-प्रचलित और सर्व जनव्यापी संस्कार के परे नहीं जा सके हैं। इसी कारण उनके स्वर्ग में उपभोग्य सामग्री का ही आधिक्य है। किन्तु जो सुख इन्द्रिय जनित नहीं, एवं उस अमृतपुरुष में मग्न होकर देव-भाग जिस स्वर्ग का उपभोग करते हैं, मधुसूदन के स्वर्ग में उसका उल्लेख भी नहीं पाया जाता। उनके नरक-वर्णन में वीभत्स रस की ही प्रधानता है। उनके नारकीय हृदय डिव्वाइन कमेडी (Divine comedy) के नरक-वर्णन की भाँति हमें भीत और स्तम्भित नहीं करते, हमारे हृदयों में वीभत्स रस का ही उद्दीपन करते हैं। मधुसूदन ने इस सर्ग में वर्णना-नैपुण्य और कविक्षक्ति प्रदर्शित करने में कसर नहीं की; किन्तु हमारी राय में स्वर्ग और नरक-वर्णन के बदले वे और किसी विषय में अपनी कवित्वशक्ति और अपना परिश्रम लगाते तो वह अधिक फलप्रद होता। मेघनाद-वध उन्नीसवीं शताब्दी की रचना है, इसी लिए हम ऐसा कह रहे हैं; यदि कवि पौराणिक युग में उत्पन्न होता तो इसके कहने की आवश्यकता न होती। ऐसा होता तब तो स्वर्ग और नरक-वर्णन के लिए जान पड़ता है, मेघनाद-वध एक महापुराण के रूप में परिणत होता।

नवम सर्ग

जो विषाद-सङ्गीत मेघनाद-वध के प्रथम सर्ग में शुरू हुआ था वह नवम सर्ग में समाप्त हो गया। बहुत लोग इस काव्य को वीर रस-

प्रधान ही समझते हैं; परन्तु वास्तव में वीर रस की अपेक्षा कृष्ण रस की ही इसमें प्रधानता है। इसे पढ़ने पर पाठको के हृदय में स्थायी रूप से जो भाव उत्पन्न होता है उसके अनुसार इसे कृष्ण रस प्रधान कहना ही युक्ति-सङ्गत है। राक्षसों के परिजनों की आँखों से जो अश्रुधारा प्रवाहित होती है, वह उनके वीर-हृदय की शोणित-रेखा को धो डालती है। हाहाकार में युद्ध का भोलाहल डूब जाता है। बहुत लोग मधुसूदन को वीर रस का ही वर्णन करने में कुशल समझते हैं; किन्तु अशोक वनवासिनी, मूर्तिमती विरह-व्यथा-रूपिणी जानकी और श्मशान-शय्या पर स्वामी के पद-प्रान्त में बैठी हुई नवविधवा प्रमीला का चित्र देखकर कौन कहेगा कि मधुसूदन केवल वीर रस के ही कवि है? मधुसूदन के अपने निज के जीवन की भाँति उनका मेघनाद-वध भी कृष्ण रसात्मक है।

जिस कराल रजनी में, लङ्का के रणक्षेत्र में, भाई का मृत शरीर गोद में लिये रामचन्द्र बैठे थे, लक्ष्मण के पुनर्जीवन-लाभ के साथ उसका सबेरा हुआ था। उस समय उनकी सेना का आनन्द-कोलाहल, समुद्र के कछोलेनाद को भी पराजित करके, शोक के मारे पृथ्वी पर पड़े हुए राक्षसराज रावण के कानों में प्रविष्ट हुआ। उसने, मन्त्री से, लक्ष्मण के पुनर्जीवन का संवाद सुना। पुत्रघाती शत्रु का मर कर भी न मरना पुत्र-शोक से भी अधिक मर्मभेदी होता है; किन्तु उस मर्मभेदी सवाद से इस वार रावण मूर्च्छित नहीं हुआ। ससार की सब आशाएँ लुप्त हो जाने पर निराशा ही मनुष्य की आशा प्रदान करती है। राक्षसराज आज उसी निराशा से आशान्वित है। उसके आग्र्य-दोष से जब स्वयं काल ही अपना धर्म भूल गया तब उसे आशा कहाँ? उसने समझ लिया कि राक्षसों का गौदव-रवि सचमुच हमेशा के लिए अन्धकार

से आवृत हो गया। कुल-गौरव पुत्र का प्रेतकर्म सम्पन्न करने की इच्छा से उसने अपने मन्त्री को रामचन्द्र के समीप भेज कर एक सप्ताह के लिए सन्धि की प्रार्थना की। उदार हृदय रामचन्द्र ने दुर्दैव-ग्रस्त शत्रु की यह विनती मान ली। यह विषय आर्य्य रामायण में नहीं। इलियड के आदर्श पर मधुसूदन ने इसकी कल्पना की है। किन्तु इलियड के कवि जिस दृश्य की कमी कल्पना भी नहीं कर सकते, मेघनाद-वध के कवि ने उसे प्रदर्शित करने का सुयोग प्राप्त किया है। भारत-लज्जना पति के पद-प्रान्त में बैठकर बहुधा किस सहाय्य वदन से चित्तानल में अपने शरीर और प्राणों की आहुति दे देती थी, साध्वी प्रमीला के चितारोहण से कवि ने इसे प्रदर्शित किया है। भारतीय सह्यगमनप्रथा और ग्रीस देशीय अन्त्येष्टि क्रियाकालीन समर-सज्जा, दोनों को मिलाकर कवि ने इस अंश की रचना की है।

तीसरे सर्ग की आलोचना में कहा जा चुका है कि जो प्रमीला चरित के मनोहारित्व की उपलब्धि करना चाहें वे नवम सर्ग पढ़ें। क्षमशानस्थिता प्रमीला की विषादमूर्ति देखे बिना तीसरे सर्ग की उस रणरङ्गिणी मूर्ति की गम्भीरता का अनुभव नहीं हो सकता। ऐसा चित्र दुर्लभ है। कवि के वर्णन कौशल से वह कल्पना जनित दृश्य प्रत्यक्ष की भाँति हमारे नेत्रों के सामने आ जाता है। लज्जा का समुद्रकूलवर्ती वह क्षमशान, उसी क्षमशान में अश्रुपूर्णलोचनी रत्नोबालाएँ और उनके बीच में निष्प्रभा शशिकला की भाँति प्रमीला हमें प्रत्यक्ष-सी दिखाई देती है। यही क्या वह प्रमीला है? मत्तमातङ्गिणी की भाँति दर्प-पूर्वक जो एक दिन रावण के सैनिकों को दलित करके पतिपूजा के लिए लज्जा में प्रविष्ट हुई थी, यही क्या वह प्रमीला है? प्रमीला की वे रणप्रिया सखियाँ, वह भीष्म समर-सज्जा और वह अग्नि-शिखा-स्वरूपिणी बड़वा

आज इमशान भूमि में भी उसके पीछे पीछे आई है। किन्तु प्रमीला की वह विधुल्लता-सदृशी प्रभा आज कहाँ है ? प्रमीला के मुख में वाक्य नहीं, अधरों पर हास्य नहीं, नयनों में ज्योति नहीं। उसके ललाट में सिन्दूर बिन्दु है, कण्ठ में पुष्पमाला है, हाथों में सधवा के चिन्ह हैं। वह पति के पद-प्रान्त में बैठी है—

“मौनव्रत धारण किये है विधु-वदनी,
मानो देह छोड़कर उड़ गये प्राण हैं
पति के समीप, जहाँ पति है विराजता;
वृक्षवर सुखे तो स्वयंवरा लता-बधू
सूखती है आप । * * *”

किन्तु क्या केवल प्रमीला की दशा में ही ऐसा परिवर्तन हुआ है ? जिस रावण ने देव, नर, सभी को पराजित करके पुत्रघाती शत्रु को प्राण दण्ड दिया था, उस दिन की वह रोमाञ्चकारी घटना पाठकों को याद है। राक्षसनाथ नवोदित दिवाकर की भाँति, सोने के पहियों वाले रथ में बैठ कर लङ्का के पुर-द्वार से बाहर निकल रहा है, वह दृश्य कैसा सुन्दर और कैसा विस्मयजनक है। कवि ने लिखा है—

“पुष्पक में बैठा हुआ रक्षोरज निकला,
धूमे रथ-चक्र घोर घर्घर निनाद से
उगल कृशानु-कण, हींसे हय हर्ष से,
चौंघा कर आगे चली रत्नसम्भवा विभा,
ऊचा चलती है यथा आगे उष्णरश्मि के,
जब उदयाद्रि पर एक चक्र रथ में
होता है उदित वह । देख रक्षोरज को
रक्षोगण गरजा गभीर-धीर नाद से ।”

उसकी रुद्रतेजोमयी मूर्ति देखकर—

“भागी रघु-सेना वन-जीव यथा देख के
मदकल नाग भागते है अर्ध्वास से,
कि वा जब वज्रानलपूर्ण घोर नाद से
भीमाकृति मेघ उड़ता है वायु-पथ में,
देख तब जैसे उसे भागते है भय से
भीत पशु-पक्षी सब ओर !* *”

और आज इमशान भूमि मे एक दूसरा ही दृश्य है—

“निकला पदम्रज निशाचरेन्द्र सुरथी
रावण, —विशद वस्त्र-उत्तरीय धारके,
माला हो धतूरे की गले मे यथा शम्भु के;
चारो ओर मन्त्रि-दल, दूर, नत भाव से
चलता है । मौन कर्तुरेन्द्र आर्द्रनेत्र हूँ,
मौन है सचिव, मौन अन्य अधिकारी है;
रोते हुए, पीछे पुर-वासी चले जाते है
बालक, जरठ, युवा नर तथा नारियाँ ।

* * * * *

सिन्धु के किनारे सब मन्द मन्द गति से
चलते है, आँसुओं से भीगते हुए तथा
हाहाकार-द्वारा देश पूर्ण करते हुए ।”

सौभाग्यलक्ष्मी प्रियतम पुरुष के लिए एक दिन में ही ऐसा परिवर्तन क्या सम्भव है ? किन्तु विधाता की लीला कौन समझ सकता है । राक्षसराज की अवस्था कहने से नहीं जानी जा सकती, वह अनुभव से ही समझ में आ सकती है । (परन्तु परमेश्वर ऐसा अनुभव किसी

मेरी जननी से कहना कि इस दासी के
 भाग्य में लिखा था जो विधाता ने, वही हुआ !
 दासी को समर्पित किया था पिता-माता ने
 जिनके करों में, आज सङ्ग सङ्ग उनके
 जा रही है दासी यह; एक पति के बिना
 गति अबला की नहीं दूसरी जगत में ।
 और क्या कहूँ मैं भला ? भूलना न मुझ को,
 तुम सब से है यही याचना प्रमीला की ।”

विधातः, अभागो रावण को क्या यही सुनाने के लिए जीवित
 रक्खा था ? इसके सामने रामचन्द्र के शाणित शरों की तीक्ष्णता क्या
 चीज़ है ? वाणी से हृदय के भाव प्रकट करने की शक्ति उसमें न थी
 अथच आत्मसंयम की क्षमता भी वह न रख सका । धीरे धीरे पुत्र और
 पुत्र बधू की चिता के सामने जाकर बोला—

“मेघनाद, आशा थी कि अन्त में ये आँखें मैं
 मूँढ़ूँगा तुम्हारे ही समक्ष, तुम्हें सौंप के
 राज्य-भार, पुत्र, महायात्रा कर जाऊँगा !
 किन्तु विधि ने हा !—कौन जानता है उसकी
 लीला ? भला, कैसे उसे जान सकता था मैं ?—
 भङ्ग किया मेरा सुख-स्वप्न वह आज यों !
 आशा थी कि रत्नकुलराजसिंहासन पै
 देखकर तुमको ये आँखें मैं जुड़ाऊँगा,
 रत्नकुल-लक्ष्मी, राक्षसेधरी के रूप में
 बाँईं ओर पुत्र-बधू ! व्यर्थ आशा ! पूर्व के
 पाप-वश देखता हूँ आज तुम दोनों को

इस विकराळ काळ-आसन पै ! क्या कहूँ ?
 देखता हूँ यातुधान-वंश-मान-भानु मैं
 आज चिर राहु-अस्त ! की थी शम्भु-सेवा क्या
 यत्न कर मैं ने फल पाने के लिए यही ?
 कैसे मैं फिरूँगा—मुझे कौन बतलावेगा—
 कैसे मैं फिरूँगा हाय ! शून्य लक्षा धाम में ?
 दूँगा सान्त्वना क्या मैं तुम्हारी उस माता को,
 कौन बतलावेगा मुझे हे वत्स ? पृथ्वी
 मन्दोदरी रानी जब कह यह मुझसे—
 'पुत्र कहाँ मेरा ? कहाँ पुत्र-वध मेरी है ?
 रघुःशुक्रराज, सिन्धु-तीर पर दोनों को
 किस सुख-सङ्ग कही, छोड़ तुम आये हो ?'
 किस मिस से मैं उसे जाके समझाऊँगा—
 कहके क्या उससे हा ! कहके क्या उससे ?
 हा सुत, हा वीर श्रेष्ठ ! चिररणविजयी !
 हाय बधू, रघोलक्ष्मि ! रावण के माऊ में
 विधि ने लिखी है यह पीड़ा किस पाप से
 हावण ?”

राक्षसराज के अपराधी होने में सन्देह नहीं। उसका अपराध भी निस्सन्देह असामान्य था। किन्तु कवि ने उसके प्रायश्चित्त का जो वर्णन किया है वह भी उस अपराध से कम नहीं। नवम सर्ग के पुत्र-श्लोक से कातर राक्षसराज को देखने से उसका अपराध भूल जाता है और उसकी दुरवस्था पर सहानुभूति प्रकट करने की इच्छा होती है। पहले कहा जा चुका है कि राक्षस-वंश पर सहानुभूति उत्पन्न करना

ब्रह्मकार का प्रधान उद्देश है। कवि का जो उद्देश है वह इस सर्ग में सफल हुआ है। रावण के घोर विद्वेषी भाँ उसके इस दुःख में आँसू झाड़े बिना न रह सकेँगे। शोक-जर्जरित राक्षसराज के व्यवहार में ऋषि ने मानवहृदय का एक गूढ़ तत्व भी दिखलाया है। पहले सर्ग की अलोचना में उसकी चर्चा की गई है। मनुष्य कितना ही अपराधी क्यों न हो, वह बहुधा अपना अपराध नहीं समझता। विधाता के न्यायदण्ड से दुःखित होने पर ही आर्तनाद करके वह कड़ा करता है—“विधाता, किस अपराध पर मुझे तू यह दण्ड दे रहा है !”

इस समय भी रावण यही कहता है—

“ * * * * रावण के भाल में
विधि ने लिखी है यह पीड़ा किस पाप से ?”

इस प्रकार आत्मवञ्चना ही मोनव-प्रकृति का धर्म है। किन्तु राक्षस-जगत् आत्मवञ्चक और असंयमा जाने पर भी अपने इष्टदेव में भक्तिपरायण है। उसके मर्मभेदी आर्तनाद ने कैलासपुरी में भक्तवत्सल का हृदय व्यथित कर दिया। उन्होंने मेघनाद और प्रमीला को अपने समीप लाने का आदेश अग्निदेव को दिया। इरम्मद रूपी अग्नि के स्पर्श से चिता जल उठी। स्वदेववत्सल, पितृ-मातृ-भक्त, वीर मेघनाद एवं पतिगतप्राणा पतिव्रता प्रमीला का भौतिक शरीर देखते देखते भस्म हो गया। किन्तु उन दोनों की अमर आत्माएँ दिव्य देह धारण करके, देव-रथ में बैठ कर, स्वर्ग-ध्वजोक्त को चली गईं। विस्मित लङ्कावासियों ने इस दृश्य को देखकर देखा। प्रितास्थल पर एक अति सुन्दर मठ बनवाया गया। प्रिता-भस्म समुद्र में डाल दी गई और चिताभूमि गङ्गाजल से धो दी गई। इसके बाद—

“स्नान कर सागर में लौटा जब लङ्का को
राक्षस-समूह भाँटें आँसुओं की धारा से,
मानों दशमी के दिन प्रतिमा विसर्ज के;
सात दिन-रात लङ्का रोती रही शोक से !”

कवि ने अश्रु-जल के साथ अपना काव्य आरम्भ किया था और अश्रु-जल के साथ ही उसे पूरा किया। वीरबाहु के शोक से कातर राक्षसराज के भाँटनाद से ग्रंथ आरम्भ हुआ था और प्रमीला के चित्तारोहण से समाप्त हुआ। इसका आदि, मध्य और अन्त सभी विषाद से पूर्ण है। इसीसे हम कहते हैं कि वीर रस की अपेक्षा कश्यप रस की ही इसमें प्रधानता है।

अब साधारण तौर पर इसके गुण-दोष के विषय में दो एक बातें कह कर यह समालोचना समाप्त की जायगी।

किसी किसी की राय में मेघनाद-वध का प्रधान दोष यही है कि—“इसमें पुण्यवानों की अपेक्षा पापियों का चित्र अधिक खूबसूरत रूप में चित्रित किया गया है। इंग्लैंड के कवि मिश्टन ने जैसे शैतान वा पापपुरुष को ही अपने काव्य का नायक बनाया है, मञ्जुसूदन ने भी वैसे ही राम-लक्ष्मण को छोड़ कर पापाचारी रावण और उसके परिवार को ही अपने काव्य का नायक-नायिका बनाया है। पापाचारी के प्रति जब कवि की इतनी सहानुभूति है तब नीति की ओर दृष्टि रख कर विचार करने से सहस्र गुण होने पर भी उसका काव्य निन्दनीय है।” ये बातें कुछ अंश में सच हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु हमारी राय में पापो पर सहानुभूति रखते हुए भी मञ्जुसूदन ने पाप से कभी सहानुभूति नहीं दिखालाई। जिस असदाचार के लिये राक्षसराज साधु-समाज में घृणाई है, कवि ने कहीं भी उसका

समर्थन नहीं किया। उल्टा उन्होंने पद पद पर यही प्रदर्शित किया है कि वह आत्मवञ्चक था और उसीके पापाचार के फल से राक्षस-वंश का सर्वनाश हुआ है। मेघनाद-वध पढ़ कर किसी के मन में रावण के अनुषूत कर्म का अनुकरण या समर्थन करने की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। एक ओर हम लोग जैसे राक्षस-वंश का ऐश्वर्य, सौभाग्य बाहुबल एवं रूप-गुण देख कर विस्मित होते हैं, दूसरी ओर वैसे ही उसकी भविसृष्ट्यकारिता का शोचनीय परिणाम देख कर संत्रस्त और उपविष्ट होते हैं। सुतराम् बुरे दृष्टान्त का समर्थन करने से जो अनिष्ट का सम्भावना हो सकती है, मेघनाद-वध से उसकी कोई आशाझा नहीं। धन, मान, गौरव, बाहुबल, और इष्टदेव की प्रगाढ़ भक्ति होने पर भी पापाचार के फल से मनुष्य का कैसा परिणाम हो सकता है, इस काव्य में उसका बहुत सुन्दर वर्णन है। यह ठीक है कि इसमें पापाचारी राक्षसराज को स्वयं कोई दण्ड नहीं दिया गया है; किन्तु दण्ड और कहते कितने है? मेघनाद के समान पुत्र और प्रमीळा के समान पुत्र-वधू को शितानल में समर्पण करके रावण जो क्लेश पाता है, रामचन्द्र के बाणों से हृदय विदीर्ण होने पर क्या वह उससे अधिक क्लेश भोग करता? “धर्म की जय, अधर्म की पराजय” जब मेघनाद-वध काव्य का उपदेश और परिणाम है तब राक्षसराज के ऊपर कवि की सडा-जुमूति रहने पर भी— नीति की ओर दृष्टि रख कर विचार करने से— इसके द्वारा किसी अनिष्ट की आशाझा नहीं की जा सकती।

किसी किसी का कहना है कि—“कवि ने जब अपने काव्य में आयों की अपेक्षा अनार्यों का ही अधिक पक्षपात किया है तब यह कभी आतीय समादर का पात्र नहीं हो सकता। मेघनाद-वध आतीय समादर का पात्र होगा या नहीं, इसका विचार भावी पढ़ी ही करेगी। किन्तु

अनायों के ऊपर सहानुभूति रखने के कारण हम मधुसूदन की प्रशंसा ही करेंगे। रामायणकार महर्षि ने भारत के जिस युग में जन्म ग्रहण किया था, उनके ग्रन्थ में उसी के उपयुक्त भाव प्रतिबिम्बित हुए थे। उस समय भी अनायों पर आर्यों का विद्वेष था। वैदिक ऋषियों के निःशवास निःशवास में अनायों पर जो विष उद्गीरित हुआ था, रामायण में उसीकी आंशिक अभिव्यक्ति पाई जाती है। मधुसूदन ने जिस युग में जन्म लिया है, उनका ग्रन्थ उसीके अनुरूप है। इस समय आर्य और अनायों में वह पूर्व-विद्वेष और जेता एवं जित भाव नहीं। इस समय आर्य और अनायों दोनों एक ही शृङ्खला से शृङ्खलित हैं। आर्य-प्रपीडित होने से अनायों पर ही इस समय लोगों की सहानुभूति पाई जाती है। इस दशा में मधुसूदन का उद्योग सर्वथा समयोपयोगी है। इलोलिए, जान पड़ता है, भविष्य में वे अधिक आदर के अधिकारी होंगे। सच तो यह है कि महर्षि ने एक पदल दिखाया है, मधुसूदन ने दूसरा। जान पड़ता है, किसी भावी महाकवि के द्वारा इन दोनों का सामञ्जस्य दिखाया जायगा। (तथास्तु)

मतामत

मेघनाद-वध काव्य को जितनी अनुकूल और प्रतिकूल आलोचनाएँ निकली हैं, उन सबका संग्रह किया जाय तो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ बन जाय। जिन लोगों ने पहले इसके विषय में विपरीत मत प्रकट किया था उनमें से बहुतों ने बाद में उसे बदल दिया है। नीचे कतिपय विद्वानों के अभिमत उद्धृत किये जाते हैं।

महाकाव्य किंवा एपिक

माइकेल मधुसूदन दत्त ने मेघनाद-वध को महाकाव्य माना है—

“वीर रस मग्न महा गीत आज गाँगा।”

यह पंक्ति लिख कर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वे महाकाव्य लिख रहे हैं। हमारे आलङ्कारिकों ने महाकाव्य के जो लक्षण दिये हैं वे इसमें घटित नहीं होते; परन्तु मेघनाद-वध के टीकाकार

श्रीयुत ज्ञानेन्द्रमोहन दास

इसे पश्चिमीय ढंग का महाकाव्य (Epic) मानते हैं। उन्होंने लिखा है, ग्रीक पण्डितों के मतानुसार एक असाधारण एवं महोच्च और गुरु गम्भीर विषय न होने से भी एपिक काव्य लिखा जा सकता है। इश्य काव्योचित आख्यान वस्तु एवं नाटकीय चरित्र लेकर एपिक का आरम्भ है। एपिक के लेखक को कथावस्तु के लिए पद पद पर इतिहास के अनुकरण की भी आवश्यकता नहीं। पौराणिक आख्यान, जनश्रुति एवं लौकिक संस्कार अनेक समय एपिक में बाधक होते हैं,

इसमें सन्देह नहीं। परन्तु कवि इन सबको एक साथ अपेक्षा नहीं कर सकता। कारण, एपिक का आख्यान और उसके चरित्र स्वदेशीर होने ही चाहिए। पदान्तर में इतिहास के साथ एपिक का सम्बन्ध सत्यमूलक होने पर भी कवि इनमें यथेच्छ कल्पना मिश्रित करके सम्पूर्ण कथाभाग अपने इच्छानुसार ढ़िल सकता है। एपिक-चरित्र ऐतिहासिक होने पर भी इनमें इतिहास-वर्णन बातें मले नहीं न हों; किन्तु ऐसी अपावाण क्षमता और ऐसी महोच्च गुणावली उच्चरे अवश्य होनी चाहिए, जिसके साथ लौकिक संस्कार जड़ित हों। सच हो या झूठ, जो कुछ घटित हो चुका है उसका यथायथ वर्णन करके एपिक का लक्षण नहीं, किन्तु घटनाओं में जोई ऐसी बात अवश्य होनी चाहिए जो अभूतपूर्व, चिरविस्मयकर, चिरगौरवमय और हृदय-न्मादक हो; जो कवि को वस्तुतः मतवाला बनादे और अनिर्द्वन्द्वीक दैवशक्ति से अनुप्राणित कर दे। कवि उस घटनावली का अवलम्ब करके कल्पना के राज्य में अमण करे, उसके चर्म-चक्षु बन्द हो जायें और उसकी अन्तर्दृष्टि खुल जाय, हृदय-रूपाट खुल जायें, वह स्वर्ग, मर्त्य और पाताल के कितने ही हृदय देख कर आनन्द से डनमर हो जाय और एपिक के पृष्ठों पर अपनी कल्पनाओं की कृति अङ्कित करे। वह ऐतिहासिक कथा लिखने नहीं बैठता, किन्तु कल्पना के रङ्गमञ्च पर जो जो घटनाएँ अभिनीत होती देखता है, उन सबको उपाकरण स्वरूप ग्रहण करके रसभावात्मक एक अभिनव हृदय-रसक की रचना करता है। कवि की कल्पना और चरित्रों के विकास करने की शक्ति पर एपिक का उत्कर्ष एवं स्थायित्व अवलम्बित रहता है। महा पण्डित एरिस्टाटल ने आख्यान वस्तु की अपेक्षा काव्यान्तर्गत चरित्र-चित्रण को ही प्रधानता दी है। वे कहते हैं, यदि चरित्र

का नाटकीय अभिनय न हो तो एपिक केवल इतिहास किंवा अनुवृत्त उपन्यास में परिणत हो जाता है ।

मेघनाद वध काव्य में प्राच्यमहाकाव्यों के लक्षण न मिलने पर भी एपिक के उपरिलिखित लक्षणों का समावेश होने से वह प्रतीत्य महाकाव्य एपिक की श्रेणी के अन्तर्गत आ जाता है । श्रीयुत ज्ञानेन्द्रमोहन दास की यही राय है ।

इसी सम्बन्ध में

श्रीयुत ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर

की राय है—प्रासद्ध अँगरेज़ी आलङ्कारिक Hugh Blair ने लिखा है—किसी महदनुष्ठान की प्रवृत्ति करना एपिक काव्य का सामान्य लक्षण है । मनुष्य की पूर्णता के सम्बन्ध में हम लोगों की कल्पना की वृद्धि करना किंवा हम लोगों के आश्चर्य अथवा भक्ति-भाव का उद्देक करना ही एपिक का उद्देश है । वीरोचित क्रिया-कलाप एवं उन्नत चरित-चित्रण के बिना यह कभी सम्भव नहीं । क्यों कि मनुष्य मात्र उन्नत चरित्र के ही पक्षपाती और भक्त होते हैं । जिस रचना से वीरत्व, सत्यनिष्ठा, न्याय, विश्वस्तता, बन्धुत्व, धर्म, ईश्वर-भक्ति उदारता प्रभृति ऊँचे भाव अति उच्च रूप में वर्णित होकर हमारे मनश्चक्षुषों से समच आ जायें और इस प्रकार सज्जनों के प्रति हमारी प्रीति आकृष्ट हो, उनके सङ्कल्प और सुख-दुःख में हम लोगों की उत्सुकता और ममता उत्पन्न हो, हमारे मन में लोकहित-कर उदार भावों का आविर्भाव हो, इन्द्रियकलुषित, हीन काव्यों की चिन्ता दूर होकर हमारे मन निर्मल हों एवं उन्नत और वीरोचित महदनुष्ठान में योग देने के लिए हमारे हृदय अभ्यस्त हों, वही रचना एपिक काव्य कही जा सकती है ।

विशेष रूप से आलोचना करने पर एपिक काव्य तीन भागों में विभक्त करके देखा जा सकता है। प्रथमतः काव्यगत विषय किंवा कार्य के सम्बन्ध में, द्वितीयतः कर्ता किंवा पात्रों के सम्बन्ध में और तृतीयतः कवि के आख्यान और वर्णन के सम्बन्ध में।

एपिक-कवितागत कार्य के तीन लक्षण होने आवश्यक हैं— कार्य एक हो, महान हो और उपदेय हो।

हमारे आलङ्कारिकों ने महाकाव्य के जो लक्षण दिये हैं वे ठीक इसी प्रकार के नहीं हैं तथापि उनके दिये लक्षण से किता प्रकार यूरोपीय एपिक का सार मर्म निकाला जा सकता है। किन्तु हमें एपिक की दृष्टि से मेघनाद-वध काव्य पर विचार करना चाहिए।

पहले देखा जाय कि मेघनाद-वध का कार्य पूरा है या नहीं। आरिस्टाटल कहते हैं, कार्य की एकता एपिक काव्य के लिए नितान्त प्रयोजनीय है। क्योंकि घटनाएँ परस्पर सम्बन्धित एवं एक उद्देश की सिद्धि के लिए सम्मुख होने पर उनसे पाठकों का जितना मनोरञ्ज हो सकता है उतना इधर उधर विचित्र और परस्पर निरपेक्ष घटनाओं के वर्णन से कभी नहीं हो सकता। आरिस्टाटल और भी कहते हैं, यह एकत्र एक जन मनुष्य के कार्य-कलाप में बद्ध होने से ही न चलेगा, अथवा किसी निर्दिष्ट काल की घटना का वर्णन कर देना ही यथेष्ट न होगा; किन्तु रचना के विषय में ही एकत्र रहना आवश्यक है। सब बड़े बड़े एपिक काव्यों से एकत्र की ही अपेक्षित होती है। इटली में इनियसों का वाससंस्थापन— वर्जिल के काव्य का विषय है। उसके काव्य में यही उद्देश आद्योपरान्त जात्रत्वमान है। अडिसी का वृक्ष भी इसी प्रकार का है। अर्थात् यूलिसिस का स्वदेश में प्रत्या-गमन और पुनर्वास ही उसका उद्देश है। एलियिस का क्रोध और

त्रदुःखत फलफल ही इच्छियइ काव्य का विषय है। अक्रिस्नानो से जेरुसलेम का उद्धार टैसो के ओर स्वर्ग से आइम का बहिष्कार मिस्टन के काव्य का विषय है। इन सब काव्यों में कथा की एकता अत्रुण्य भाव से रचित हुई है। किन्तु मेघनाद-वध में मेघनाद का वध साधन क्रिवा शक्तिशेलाहत लक्ष्मण का पुनर्जीवन-लाभ इन दोनों में से कौन-सा काव्यगत विषय है, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कवि ने मेघनाद-वध-साधन करके ही अपने काव्य ही समाप्ति नहीं की है। उसके बाद भी लक्ष्मण के शक्तिशेला की घटना लाई गई है और रामचन्द्र को नरक-परिभ्रमण कराकर बहुत सी बातें व्यर्थ बढ़ाई गई हैं। अतएव अरिस्टाटल के मतानुसार इस काव्य में कार्य की एकता का विलक्षण व्याघात हुआ है।

द्वितीयतः देखा जाय कि मेघनाद-वध में वर्णित कार्य वृहत् और महत् है या नहीं। कार्य के वृहत् और महत् होने पर उन्नीके साथ उस कार्य के कर्ता अर्थात् नायक का भी महाशक्ति सम्पन्न महापुरुष होना स्वयं सिद्ध है। किन्तु कवि ने राम क्रिवा लक्ष्मण को अपने काव्य का नायक न करके रावण और मेघनाद को नायक के रूप में निर्वाचित किया है। इसने उसके काव्य के महत्त्व और गौरव की विशेष हानि हुई है। रावण क्रिवा इंद्रजित पाशव वीरत्व के ही आदर्श है। किन्तु जिस वीरत्व के साथ चमा, दया, न्याय, वास्तव्य और भक्ति मिश्रित रहती है उसी वीरत्व गुण से भूषित उन्नत चरित्र महापुरुष ही महा काव्य के नायक हो सकते हैं। मेघनाद-वध काव्य का नायक कौन है, यह काव्य के नाम मात्र से हम नहीं जान सकते। क्योंकि मेघनाद-वध नाम से मेघनाद भी इसका नायक हो सकता है और मेघनाद का वध साधन करनेवाले लक्ष्मण भी इसके नायक हो

सकते हैं। तब असल नायक किस स्थान पर पहचाना जा सकता है ? इस स्थान पर, जहाँ कवि मेघनाद और लक्ष्मण को एक साथ सामने लाता है। किन्तु उस स्थान पर कवि ने लक्ष्मण को चोर की तरह यज्ञागार में प्रविष्ट कराकर उनमें अन्याय पूर्वक, निरस्त्र, मेघनाद की हत्या कराई है और मेघनाद को उदारता और वीरता से भूषित करके नायक रूप में चित्रित किया है। लक्ष्मण जीत कर भी हारे और मेघनाद हार कर भी जीत गया। कौन कह सकता है कि इस विषय में कवि को पूरी स्वाधीनता होनी उचित है—जिसे चाहे वह नायक बनाले और अपने पात्रों को जैसा चाहे चित्रित करे। इस विषय में Blair ने जो कुछ कहा है वह बहुत ठीक है। वे कहते हैं, सब पात्रों को सच्चा रिक्त किया जाय, ऐसी बात नहीं; स्थान विशेष में असम्पूर्ण चरित्र, और यही क्यों, पापिष्ठ चरित्र की भी अवतारणा की जा सकती है। किन्तु जो काव्य के केन्द्रस्थल है, उन नायकों के चरित्र पढ़कर जिसमें पाठकों के मन में घृणा और भयानका उद्रेक न होकर विस्मय, प्रीति और भक्ति का संचार हो, इस भाव से रचना करना कवि का एकान्त कर्तव्य है। विशेषतः मधुसूदन के लिए यह दोष अत्यन्त अमार्जनोय है। अपनी चोज़ जो जिस तरह रखना चाहे, उसको कोई नहीं रोक सकता। किन्तु जिस वस्तु पर एक मात्र कवि का अधिकार नहीं, जो सारे भारतवर्ष की सम्पत्ति है, उसे अस्तव्यस्त करने का उन्हें क्या अधिकार ? मूल ग्रन्थ में जो चरित्र उज्वल रूप में चित्रित है उन्हें कवि और भी उन्नत रूप में अङ्कित करें, इसकी उन्हें पूरी स्वाधीनता है; किन्तु उन्हें हीन करने का उनको क्या अधिकार है ? विशेषकर जो प्रस्येक भारतवापी के आदर के आधोर—चिराराध्य देवता है—उन्होंने राम-लक्ष्मण को इस प्रकार हीन करके दिखलाना

क्या सहृदय जातीय कवि को उचित है ? राम-लक्ष्मण के रहते हुए मेघनाद को किसा तरह नायक नहीं किया जा सकता—महाकाव्य के लिए उपयुक्त इतने महच्चरित रामायण में क्या, महाभारत को झाड़ कर संसार के किसी काव्य में पाये जायेंगे कि नहीं, इसमें सन्देह है। उन्हें छोड़ कर रावण और मेघनाद का नायक बनाया जाना तो कोई अर्थ ही नहीं रखता।

चरित्र-चित्रण में मधुसूदन ने विशेष निपुणता नहीं दिखाई। उनका रावण भी वीर और विलासी है एवं मेघनाद भी वीर और विलासी है। भेद इतना ही है कि एक पिता है, दूसरा पुत्र। सारे काव्य में प्रमीला का चरित्र ही ऐसा है जो विशेष निपुणता के साथ अङ्कित किया गया है। देव-देवियों का चरित्र-चित्रण करते समय मधुसूदन ने बहुधा उनके गाम्भार्य्य की रक्षा नहीं की। अतएव देखा जाता है कि मेघनाद-वध का कार्य्य महान होने पर भी तत्सम्पर्कीय पात्रों के चरित्र का महत्व वैसा अच्छा नहीं विकसित हुआ। ऐसा वहकार्य्य सम्पादित करने के लिए जिस सरंजाम की आवश्यकता होती है वह इसमें यथेष्ट है, इसमें सन्देह नहीं। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल से, बड़े जाडम्बर के साथ उसका आयोजन किया गया है। सरजाम और काशल का मेघनाद-वध में अभाव नहीं; परन्तु असली चीज़ चरित्र के महत्व का विकास—जो महाकाव्य का जीवन है— वह कहाँ?

अन्त में देखा जाय कि मेघनाद-वध आख्यान और वर्णना के विचार से उपादेय है या नहीं। काव्यगत कार्य्य वृहत् और महत् होने से ही उपादेय हो सकता है, यह बात नहीं। कारण, एक मात्र साहस के काम कितने ही वीरोचित क्यों न हों, नीरस और विरक्तिजनक भी हो सकते हैं। किन्तु कविवर माइकेल मधुसूदन दत्त ने अपने

काव्य में विचित्र विषयों की अवतारणा करके, देव-देवी प्रभृति अलौकिक सामग्री लाकर, दो एक सुन्दर प्रकरी (Episode) प्रवर्तित करके एवं जिसे एपिक काव्य का घट प्रबन्ध (Intrigue) कहते हैं,—वह नायकों को विन्न-वाचा—सब ययास्यान प्रयुक्त करके, अपने काव्य को एक प्रकार से विशेष उपादेय बना दिया है। जो हो, अनेक दोष रहने पर भी मेघनाद-बध काव्य सुल्ल-पाठ्य है, इसमें सन्देह नहीं। विचित्र घटना और भावों के समावेश एवं अमिप्राचर कुन्द के गुण से इतना बड़ा ग्रन्थ पढ़ कर हमें क्लान्ति नहीं होती, उलटा आमोद्द डल्पन्न होता है।

इसी सम्बन्ध में

श्रीरवोन्द्रनाथ ठाकुर

ने जो कुछ लिखा है, नीचे, थोड़े में, इसका सार दिया जाता है—

एपिक को लोग साधारणतः मारकाट का व्यापार समझते हैं। जिसमें युद्ध नहीं, वह एपिक कैसा ? हम लोग जितने एपिक देखते हैं, सब में युद्ध का वर्णन है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु इसीसे ऐसी प्रतिज्ञा कर बैठना ठीक नहीं कि युद्ध छोड़कर यदि कोई एपिक लिखे तो हम उसे एपिक ही न समझेंगे। क्या लेकर एपिक काव्य लिखने का आरम्भ हुआ ? कवि एपिक क्यों लिखते हैं ? इस समय के कवि जैसे—“भाभो, एक एपिक लिखा जाय” कह कर सरस्वती के साथ पइले से ही बन्दोबस्त करके एपिक लिखने बैठ जाते हैं, प्राचीन कवियों में ऐसा ‘फ़ैशन’ न था।

मन में जब एक वेगवान अनुभव का उदय होता है, तब कवि उसे गीत काव्य में प्रकाशित किये बिना नहीं रह सकते। इसी प्रकार मन में जब एक महद व्यक्ति का उदय होता है, सहसा जब

एक महापुरुष कवि के कल्पनाराज्य पर अधिकार आ जमाता है, मनुष्य-चरित्र का उदार महत्व मनश्चक्षुओं के सामने अभिष्टित होता है, तब उसके उन्नत भावों से उद्दीप्त होकर, उस परम पुरुष की प्रतिमा प्रतिष्ठित करने के लिए, कवि नाषा का मन्दिर निर्माण करते हैं। उस मन्दिर की भित्ति पृथ्वी के गभीर अन्तर्देश में रहती है, और उसका शिखर मेघों को भेदकर आकाश में उठता है। उस मन्दिर में जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, उसके देवभाव से मुग्ध और उसकी पुण्य किरणों से अभिभूत होकर, नाना दिग्देशों से आ-आकर, लोग उसे प्रणाम करते हैं। इसीको कहते हैं महाकाव्य। महाकाव्य पढ़ कर हम उसके समय की यथार्थ उन्नति का अनुमान कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि उस समय का उच्चतम आदर्श क्या था। किस वस्तु को उस समय के लोग महत्व देते थे। हम देखते हैं, होमर के समय में शारीरिक बल को ही वीरत्व कहते थे, शारीरिक बल का ही नाम था महत्व। बाहुबलदस एक्लिडस ही इलियड का नायक है और युद्ध-वर्णन ही उसका आद्योपान्त विषय है। और, हम देखते हैं, वाल्मीकि के समय में धर्म-बल ही यथार्थ महत्व गिना जाता था। केवल मात्र दाम्भिक बाहुबल उस समय दृष्ट समझा जाता था। होमर देखिए—एक्लिडस का औद्योगिक एक्लिडस का बाहुबल, एक्लिडस की हिंसाप्रवृत्ति; और रामायण देखिए—एक ओर सत्य के अनुरोध से राम का आत्मत्याग, एक ओर प्रेम के अनुरोध से लक्ष्मण का आत्मत्याग, एक ओर न्याय के अनुरोध से विभीषण का संसारत्याग। राम ने भी युद्ध किया था; किन्तु युद्ध की घटना उनके सम्पूर्ण चरित्र को व्याप्त नहीं कर बैठो, वह उनके चरित्र का एक सामान्य अंश मात्र है। इससे

प्रमाणित होता है कि हमारे के समय में बल ही धर्म माना जाता था और वास्तविक के समय में धर्म ही बल माना जाता था। अतएव देखा जाता है कि कवि अपने अपने समय के उच्चतम आदर्श की कल्पना से उत्तेजित होकर ही महाकाव्य की रचना करते हैं और इसी उपलक्ष्य से घटनाक्रम से युद्ध की अवतारणा होती है; युद्ध-वर्णन के लिए ही महाकाव्य नहीं लिखे जाते।

किन्तु भाजकल जो महाकवि होने की प्रतिज्ञा करके महाकाव्य लिखते हैं, वे युद्ध को ही महाकाव्य का जीवन जानते हैं। राशि राशि कर्कश शब्दों का संग्रह करके एक युद्ध का आयोजन करने से ही महाकाव्य लिखने में प्रवृत्त होते हैं। पाठक भी इस युद्धवर्णन मात्र को महाकाव्य मानकर उसका आदर करते हैं।

मेघनाद-वध को हम इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते। महाकाव्य में हम सर्वत्र ही कवित्व के विकास की प्रत्याशा नहीं कर सकते। कारण, किसी बड़ी रचना में सर्वत्र समभाव से प्रतिभा प्रस्फुटित हो ही नहीं सकती। इपोलिए हम महाकाव्य में सर्वत्र चरित्र-विकास, चरित्र-महत्त्व देवना चाहते हैं। मेघनाद-वध में अनेक स्थलों पर कवित्व मिल सकता है; किन्तु चरित्रों का मेरुदण्ड कहाँ? किस अटल अचल का आश्रय लेकर वे चरित्र दण्डायमान हैं? जो एक महान् चरित्र महाकाव्य के विस्तोर्ण राज्य के मध्य भाग में पर्वत की भाँति ऊँचा हो उठता है, जिसके शुभ्रतुषार ललाट पर सूर्य की किरणें प्रतिफलित होती हैं, जिसने कहीं कवित्व का क्यामल कानन, कहीं अतुर्वर पाषाण-स्तूप दिखाई देने हैं, जिसके अन्तर्गूढ़ आश्रय आन्दोलन के कारण सारे महाकाव्य में भूमिकल्प उपस्थित हो जाता है, वही अभ्रभेदी निराट मूर्ति मेघनाद-वध में कहाँ दिखाई देती है? महा-

काव्य में एक महत्चरित्र होना चाहिए और उसी महत्चरित्र का एक महत्कार्य, महद्नुष्ठान होना चाहिए ।

होन, क्षुद्र तस्कर की तरह, निरस इन्द्रजित का वध करना अथवा पुत्रशोक से अधीर होकर छद्मण को शक्तिशोभाहत करना ही क्या महाकाव्य को वर्णनीय विषय हो सकता है ? मेघनाद-वध काव्य में हम नहीं जानते, किस स्थान पर वह मूल उद्दीपनी शक्ति है जो किसी को महाकाव्य लिखने के लिए स्वतः प्रवृत्त कर सकती है । मेघनाद-वध काव्य में घटना का मूल नहीं, कोई महद्नुष्ठान नहीं, वैसा महत्चरित्र भी नहीं । कार्य देखकर ही हम चरित्र की कल्पना कर सकते हैं । जिस स्थान पर महद्नुष्ठान नहीं, वहाँ किसके सहारे महत्चरित्र रह सकता है ? मेघनाद-वध के पात्रों में अनन्य साधारणता नहीं, अमरता नहीं । उसका रावण अमर नहीं, उसके राम-छद्मण अमर नहीं और उसका मेघनाद भी अमर नहीं । ये कोई हमारे सुख-दुःख के साथी नहीं हो सकते, हमारे कार्यों के प्रवर्तक-निवर्तक नहीं हो सकते ।

जिस प्रकार हम इस दृश्यमान जगत् में निवास करते हैं, उसी प्रकार एक और अदृश्य जगत्, अलक्षित भाव से, हमारे चारों ओर रहता है । बहुत दिनों से, बहुत से कवि म्लि कर हमारे इस अदृश्य जगत् की रचना करते आ रहे हैं । हम यदि भारतवर्ष में जन्म न लेकर आफ्रिका में जन्म लेते तो जैसे हम एक स्वतन्त्र प्रकृति के लोग होते वैसे ही यदि हम वास्मीकि, व्यास प्रभृति के कवि-जगत् में जन्म न लेकर भिन्नदेशीय कवित्वजगत् में जन्म लेते तो हम भिन्न प्रकृति के लोग होते । हमारे साथ कितने लोग अदृश्य भाव से रहते हैं; इसे हम सदैव जान भी नहीं पाते । निरन्तर उनका कपो-

पकथन सुन कर हमारा मतामत कितना निर्दिष्ट होता है, हमारे कार्य कितने नियन्त्रित होते हैं, इसे हम जान भी नहीं सकते—समझ भी नहीं सकते। इन्होंने सब अमर सहचरों की सृष्टि करना महाकवि का काम है। माइकेल मधुसूदन दत्त ने हमारे इस कवित्वजगत् में कितने नव नूतन अधिवासियों को भेजा है ? यदि नहीं भेजा है तो उनकी किस रचना को महाकाव्य कहा जाय ?

एक बात और है—मधुसूदन यदि महच्चरित्र को नूतन सृष्टि नहीं कर सके तो किस महत्कल्पना के वशवर्ती होकर वे दूसरे के द्वारा निर्मित महच्चरित्र का विनाश करने में प्रवृत्त हुए ? उनका कहना है—“I despise Ram and his rabble.” अर्थात् हम राम को और उनके भाततायी दल को तुच्छ समझते हैं। यह उनके लिए प्रशंसा की बात नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि वे महाकाव्य की रचना के योग्य कवि नहीं। महत्त्व देख कर उनकी कल्पना उत्तेजित नहीं होती। अन्यथा किस हृदय से वे राम का स्त्रियों से भी अधिक भीरु और लक्ष्मण को चोरों की अपेक्षा भी हीन करते ? देवताओं को कापुरुषों से भी अधम और राक्षसों को देवताओं से भी उत्तम बनाते ! (इत्यादि)

मेघनाद-वच महाकाव्य है या नहीं, इस विषय में ऊपर जो कुछ उद्धृत किया गया है, उसके निर्णय का भार पाठकों पर है। पाठक देखेंगे कि जो लोग इसे महाकाव्य नहीं मानते वे भी मधुसूदन की कवित्वशक्ति के क़ायल हैं। मेघनाद-वच चाहे महाकाव्य किवा एपिक का महदुद्देश सिद्ध न कर सकता हो, किन्तु वर्णना-गुण में वह अपने कवि को महाकवि कहलाने का अधिकारी अवश्य बनाता है। वह अपने पाठकों को उसी प्रकार उत्तेजित कर सकता है जिस प्रकार

एक महाकवि को रचना कर सकती है। वह उसी प्रकार, कल्याण-मिभूत, चकित, स्तम्भित, कौतूहली और अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करता है जिस प्रकार कोई महाकाव्य कर सकता है।

रवीन्द्र बाबू के एक लेख का आशय ऊपर दिया जा चुका है। इसके पूर्व उन्होंने मेघनाद-वध के विषय में एक लेख और लिखा था। उस समय उनकी अवस्था बहुत खोटी—केवल पन्द्रह वर्ष की—थी। उस लेख के विषय में अपनी प्रवीण वयस में उन्होंने स्वयं लिखा है—“जिस समय अन्य क्षमता अल्प रहती है उस समय आघात करने को—आक्षेप करने की—क्षमता विशेष तीक्ष्ण हो उठती है। मैंने भी इस अमर काव्य के ऊपर नखराघात करके अपने को अमर करने का सर्वापेक्षा सुखम उपाय समझा।”

परवर्ती काल में अपने “साहित्य” नामक निबन्ध में रवीन्द्र बाबू ने मेघनाद-वध के विषय में जो कुछ लिखा है, नीचे उसका अनुवाद भी दिया जाता है—

“यूरोप से भावों का एक प्रवाह आया है और स्वभाव से ही वह हमारे मन पर आघात करता है। इसी प्रकार के घात-प्रतिघात से हमारा मन जाग उठा है, यह घात अस्वीकार करने से अपनी चित्त-वृत्ति पर अन्याय करना होगा। इस प्रकार के भावों के मिलन से एक व्यापार उत्पन्न हो रहा है—कुछ समय के बाद उसकी मूर्ति स्पष्ट देखने का अवसर आवेगा।

यूरोप से आये हुए नूतन भावों के संघात ने हमारे हृदय को सजग कर दिया है, यह बात जब सच है, तब हम उससे लाख विशुद्ध रहने की चेष्टा क्यों न करें, हमारा साहित्य कुछ न कुछ नूतन मूर्ति धारण करके इस सत्य को प्रकाशित किये बिना न रह

सकेगा । ठीक इसी पूर्व पदार्थ की पुनरावृत्ति अब किसी प्रकार नहीं हो सकती—यदि हो तो उस साहित्य को मिथ्या और कृत्रिम कहा जायगा ।

मेघनाद-वध काव्य में केवल छन्दोबन्ध और रचना-प्रणाली में ही नहीं, उसके भीतरी भावों और रसों में भी एक अपूर्व परिवर्तन पाया जाता है । यह परिवर्तन आत्मविस्मृत नहीं । इसमें एक विद्रोह है । कवि ने छन्द की बेड़ी काट दी है और राम-लक्ष्मण के विषय में हमारे मन में बहुत दिनों से जो एक बँधा हुआ भाव चला आ रहा था, स्पर्द्धा-पूर्वक उसका शासन भी तोड़ दिया है । इस काव्य में राम-लक्ष्मण की अपेक्षा रावण और मेघनाद बड़े बन गये हैं । जो धर्म-भीरुता सर्वदा, कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा, केवल सूक्ष्म भाव से इसका परिमाण करके चलती है, उसका त्याग, दैन्य और आत्मनिग्रह आधुनिक कवि के हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता । वह स्वतः स्फूर्त शक्ति की प्रचण्ड लीला के बीच में आनन्द बोध करता है ।

इस शक्ति के चारों ओर प्रभूत ऐश्वर्य है; इसका शर्म-सितर मेघों का मार्ग रोकता है; इसके रथ-रथो-अश्व-गजों से पृथ्वी कम्पायमान होती है; यह स्पर्द्धा द्वारा देवताओं को अभिभूत करके अग्नि, वायु और इन्द्र को अपने दासत्व में नियुक्त करता है; जो ऊँच चाहती है उसके लिए यह शक्ति शास्त्र का, शस्त्र की वा और किसीकी बाधा मानने के लिए तैयार नहीं । इतने दिनों का सञ्चित अन्न-मेदी ऐश्वर्य चारों ओर नष्ट भ्रष्ट होकर भूलिसाद हुआ जाता है, सामान्य 'मिखारी राक्षस' से युद्ध करने में उसके प्राणिक प्रिय पुत्र, पौत्र, आत्मीयस्वजन एक एक करके सभी मर रहे हैं,

उनकी माताएँ धिक्कार देकर रो रही हैं, फिर भी जो अटल शक्ति, भयङ्कर सर्वनाश के बीच में बैठी हुई भी, किसी प्रकार हार नहीं मानना चाहती, कवि ने उसी धर्मद्रोही, महादम्भ के पराभव होने पर, समुद्रतोरवर्ती इमशान में, दीर्घ निवास छोड़ कर, अपने काव्य का उपसंहार किया है। जो शक्ति अत्यन्त सावधानता पूर्वक सब किसीको मान कर चलती है, मन ही मन उसकी अवज्ञा करके, जो शक्ति स्पर्धा पूर्वक किसीको नहीं मानना चाहती, विदा के समय काव्यलक्ष्मी ने अपनी अश्रुसिक्त माला उसीके गले में पहना दी है।

यूरोप की शक्ति अपने अद्भुत आयुध और अपूर्व ऐश्वर्य के लिये पार्थिव महिमा की चोटी पर खड़ी होकर आज हमारे सामने आविर्भूत हुई है—उसका विद्युत्प्रचलित वज्र हमारे नत मस्तक के ऊपर से घन घन गर्जन करता हुआ चल रहा है; इसी शक्ति-स्तवगान के साथ आधुनिक काल में रामायणी कथा के एक नये बाँध हुए तार ने भीतर ही भीतर स्वर मिला दिया है, यह किसी व्यक्ति विशेष के ध्यान में आया ? इसका देवाव्यापी आयोजन हो रहा है—दुर्बल होने के अभिमान के कारण इसे हम स्वीकार न करेंगे; कह कर भी पद पद पर स्वीकार करने के लिए बाध्य हो रहे हैं,—इसीलिए रामायण का गान करने जाकर भी इसके स्वर की हम अपेक्षा नहीं कर सकते।”

मौलिकता

मधुकरि कल्पना का आह्वान करते हुए मधुसूदन ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने भिन्न भिन्न कवियों के मन रूपी सुमनों से अपने पाठकों के लिए मधु का सङ्ग्रह

किया है। पश्चात्प कवियों का बहुत भङ्गा अध्ययन उन्होंने किया था। इस कारण उनके काव्य में, स्थान स्थान पर, उनका अनुसरण दिखाई पड़ता है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और भवभूति की अपेक्षा होमर, मिल्टन, टैसो, वर्जिल और दान्ते का उनके काव्य में अधिक प्रभाव पाया जाता है।

असल में मेघनाद-वध का आकार प्राच्य है, किन्तु उसका प्रकार प्रतीच्य है। मेघनाद-वध के टीकाकार श्रीयुक्त ज्ञानेन्द्रमोहनदास ने अपने टीका की भूमिका में मधुसूदन के अनुकरण के कुछ नमूने दिये हैं, वे यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

मधुसूदन रामचन्द्र को जहाँ 'देवकुलप्रिय' कहते हैं, वहाँ होमर का "Favoured of the gods" लिखना याद आता है और जहाँ इन्द्र को वे 'कुलिशप्रहारी' कहते हैं वहाँ Cloud-compelling Jove" की याद आती है। उनका "अन्नभेदी शैल-शृङ्ग" "heaven-kissing hill" एवं 'अन्तरस्थ विक्रम' मिल्टन के "inly" की याद दिलाता है। "साँप फुफकारते हैं कुन्तल प्रदेश में" पद कर वर्जिल का "Snake-locks" और टसो का hissing snakes for ornamental hair" स्मरण हो आता है। जब वे कहते हैं कि "हा ! ऐसे—सुमन जैसे मन में भी शोक क्या होता है प्रविष्ट" तब वर्जिल के "Can such deep hate find place in breasts divine" अथवा मिल्टन के "In heavenly spirits could such perversion dwell?" पर ध्यान जाता है। "होगा आज जगत भ्रावण भ्राम वा" कहना कालिदास के "भ्रावणमरामं वा जगदधेति निश्चितः" का अनुवाद मालूम होता है। इसी तरह "भेंकुर का वृच छेद कांका फूल-

दुल से” यह पंक्ति पढ़ कर कालिदास की “भ्रुवं स नीलोत्पलपत्र धारया
क्षमीलतां लेत्तु मृषिवर्यावस्यार्ता” यह पंक्ति याद आती है।

“प्राची का सुवर्णद्वार फूल-कुल की सखी
कमल-रुं से कल ऊषा जब खोलेली”

इसे पढ़ कर होमर प्रभृति महाकवियों के व्यवहृत भावद्योतक वाक्यों
की याद आती है। मिह्टन ने लिखा है—

“Now morn, her rosy steps
in the eastern clime
Advancing, sowed the earth
with orient pearl.”

स्पेन्सर पद्याहस्ता फूल कुल की सखी उषा को “rosy-fingered
morn” कहते हैं। “rhodo—daktulos eos” यह
होमर की प्रिय वर्णना है; rhodon ग्रीक भाषा में गुलाब को कहते
हैं। “तुमको पुकारता हूँ फिर मैं श्वेतभुजे,” इसे पढ़ कर मिह्टन
का यह कहना याद आता है कि “yet once more
I come to pluck your berries !” इसी तरह “स्वर्ग
का सौरभ सभा में सब ओर अहा ! छागया” पढ़ कर होमर का यह
वाक्य याद आता है—“A more than earthly fragrance
shed.”

इन सब बातों से कुछ लोगों की राय में मेघनाद-वध कवि की
मौलिक रचना नहीं। परन्तु क्या मौलिकता का यही लक्षण है कि
जो कुछ भी लिखा जाय उसमें किसी दूसरे लेखक की छाया भी कहीं
न पढ़ने पावे। इस कसौटी पर कसने से संसार के कितने कवि
मौलिक कहे जा सकते हैं? तब तो मिह्टन, शेरसपियर, कालिदास

और भवभूति भी मौलिक कवि नहीं कहे जा सकेंगे। परन्तु बात ऐसी नहीं। सामग्री एक ही होती है, किन्तु कोई उससे मन्दिर बनाता है, कोई स्तूप, कोई मसजिद और कोई गिरजा। एक मे दूसरे की ज़ाया भी पड़ती है, इससे उसकी मौलिकता नष्ट नहीं होती। देखा यही जाता है कि निर्माता अपना स्वातन्त्र्य रक्षित रख सका है या नहीं। विचारना यही चाहिए कि हज़ारों के बीच कारीगर का अपना व्यक्तित्व प्रकाशित होता है या नहीं। स्थापत्य शिल्प के विषय में जो बात कही जा सकती है, चित्र-शिल्प के विषय में भी वही बात कही जा सकती है। सब शिल्पो के सम्बन्ध में जो बात है, साहित्य-शिल्प के सम्बन्ध में भी वह घटित होती है।

प्राचीन कवियों को आदर्श रूप में ग्रहण करने से मौलिकता नष्ट नहीं होती, किन्तु उनका अन्ध अनुकरण करने में कृत्तित्व नहीं। उनकी कल्पना और उनके भाव का अपहरण करने में अपयज्ञ है; किन्तु जो पुराने को नया बना सकते हैं, इधर उधर फैली हुई सामग्री एकत्र करके उसमें प्राण-प्रतिष्ठा कर सकते हैं, सामान्य को लेकर असामान्य रचना कर सकते हैं, जो नवीन आशा, नूतन भाषा, नए उल्साह और अभिनव कौशल से जातीय जीवन में नव प्रवाह का संचार कर सकते हैं, इन्हींको जगत के महाकवियों के साथ अपनी प्रतिभा एवं मौलिकता का मुकुट धारण करने का अधिकार है। मधुसूदन के 'राम-रावण' वाल्मीकि के नहीं, उनके 'हर-पार्वती' कालिदास के नहीं, उनकी 'प्रमीळा' काशीरामदास की नहीं, और और भी किसी दूसरे की नहीं, उनकी 'साता' न वाल्मीकि की है न भवभूति की। जिस काव्य के लिए वे बहुत से कवियों के ऋणी हैं, वह वास्तव में इन्हीं का है, और किसी का नहीं। वह उनकी अक्षय

कीर्ति है। महाराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर, डाक्टर राजेन्द्रलाल मिश्र और बाबू राजनारायण वसु ने, एक बार, “कविमनसुमन से मधु हरणकारी” मधुसूदन की मौलिकता के विषय में कहा था—

“Whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape.”

अर्थात् ग्रन्थकार के रासायनिक मस्तिष्क से जो कुछ भी निर्गत होता है, वह मौलिकरूप प्राप्त कर लेता है।

मधुसूदन के जीवन-चरित्र-लेखक श्रीयुत योगीन्द्रनाथ वसु ने इस विषय में लिखा है कि—“जो लोग मेघनाद-वध की मौलिकता में सन्देह करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि कुछ मृत जीवों के कङ्कालों से अस्थि-सङ्ग्रह करके एक अभिनव जीव की सृष्टि करना जैसा कठिन काम है, अन्यान्य काव्यों से भाव सङ्ग्रह करके एक नवीन काव्य की रचना करना भी वैसा ही है। प्राच्य और प्रतीय काव्यों के भाव इस समय भी तो अक्षुण्ण—महासमुद्र की भोंति—मौजूद हैं, किन्तु कौन कह सकता है कि एक जन मधुसूदन के उत्पन्न हुए बिना और एक मेघनाद-वध काव्य लिखा जा सकता है।”

जातीयता

किसी किसी की राय है कि मधुसूदन ने पापी राजसों पर अधिक पक्षपात करके राम-लक्ष्मण को उनके आदर्श से गिरा दिया है; अतएव वे जातीय कवि नहीं हो सकते, किन्तु

बाबू राजनारायण वसु

की राय है कि—मेघनाद-वध में जातीयता का अभाव होने पर भी हम लोगों की जातीय मानसिक प्रवृत्ति का सङ्गठन करने में यह थथेट सहायता करेगा। कवि के भाव सब जातियों की मनोवृत्ति

के उपादान होते हैं और जातीय शिष्टा एवं जातीय महत्त्व साधन करने में वे पूरी सहकारिता करते हैं। वर्णन की झुटा, भावों की माधुरी, रस की प्रगाढ़ता, उपमा और व्योम्बा को निर्वाचन शक्ति एवं प्रयोग की पटुता मधुसूदन के विशेष गुण हैं।

एक मनस्वी लेखक की राय में गूढ़ भाव से मधुसूदन स्वदेश एवं स्वधर्म के प्रेम से परिषिक्त थे। वे बङ्गालियों के जातीय कवि हैं।”

किसी किसी की राय है कि उन्होंने राक्षसों का बहुत पक्षपात करके उन्हीं को बढ़ाया है। किन्तु त्रिभुवनविजयी राक्षसों को बढ़ा करके असल में उनके विजेता को ही बढ़ाना हुआ। वात्मीकि रामायण में भी लिखा है कि हनुमान ने पहले पहल रावण को देख कर मन ही मन कहा था—

“अहो रूप महो धैर्यमहो सत्वमहो ह्युतिः

अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता ।

यद्यधर्मो न बलवान् स्यादर्थं राक्षसेश्वरः

स्यादर्थं सुरलोकस्य स शक्रस्यापि रक्षिता ॥”

अर्थात् राक्षसराज का क्या ही रूप है, क्या ही धैर्य है, क्या ही पराक्रम है, क्या ही कान्ति है, क्या ही सर्वलक्षणसम्पन्नता है ! यदि इसका अधर्म इतना बलवान न होता तो यह निशाचरनाथ सुरलोक एवं सुरराज का भी रक्षक हो सकता था।

मेघनाद के मृत्युकाल में माता-पिता के शरणों में प्रणाम करने की बात एवं पति के अमङ्गल-समाचार सुनने के पहले ही प्रमीला का यह कहना कि—

“ * क्यों पढ़न नहीं सकती हूँ सखि, मैं
आभूषण ? * * * * ”

कवि के हृदय के गम्भीर हिन्दू-भाव और सतीत्व विषयक अत्युच्च हिन्दू आदर्श के प्रति भक्ति-भाव का परिचायक है।

अनार्थ्य-प्रीति

असल में, कुछ लोगो को झोड़ कर, मधुसूदन के समालोचकों में दो दल है। एक दल है उनका अन्ध-भक्त और दूसरा वीर विद्वेषी। खैर, उनकी अनार्थ्य-प्रीति के विषय में एक समालोचक की राय इस प्रकार है—

मधुसूदन सहानुभूति और समवेदना के उल्लस हैं। एवं यही उनकी विशेषता है। मधुसूदन उदार, अकुतोभय और समवेदना में निर्विचार है। वीर कवि वीर के भक्त है। व्यथित की वेदना से कवि के प्राण रोते हैं। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल में मधुसूदन की ममता की अमृत नदी बहती है। आदिकवि वाल्मीकि से लेकर भारतवर्ष के समस्त कवि अयोध्या के राम-लक्ष्मण के साथ सहानुभूति की सृष्टि कर गये हैं। सोने की लङ्का छार-खार हो गई, रावण का वंश गया। इसके लिए भारत के किपी कवि का चित्त वेदना से व्यथित नहीं हुआ—किसीने एक बूँद आँसू गिरा कर नियति के उस विधान को स्निग्ध करने की चेष्टा नहीं की। किन्तु मधुसूदन रावण के परिवार में भी समवेदना और सहानुभूति की अमृतधारा ढाल गये हैं। ऐसा कौन है, जो इन्द्रजित के वीरत्व से मुग्ध न हो? युगयुगान्तर-सञ्चित विराग के हिमाचल को समवेदना के आँसुओं से जो हुआ सकता है, उसकी शक्ति की गम्भीरता का परिमाण कौन करेगा?"

इस प्रकार मधुसूदन की राक्षसों के प्रति सहानुभूति के विषय में भी कई विद्वानों ने लिखा है। मेघनाद-वध के अन्य टीकाकार

श्रीयुक्त दीनानाथ सन्याल, बी. ए.

की राय इस विषय में इस प्रकार है—

“लक्ष्मण के लिए अय, व्याकुलता और कातरता भी वीर रामचन्द्र के लिए अनुचित कही जाती है। सोचना चाहिए कि इस काव्य में राम का वीरत्व दिखाने का अवसर नहीं। कारण, लक्ष्मण वृत्त मेघनाद का वध एवं रावण वृत्त लक्ष्मण का शक्तिशैल से विद्ध किया जाना ही इस काव्य का मुख्य वर्णनीय विषय है। सुतराम् राम इस काव्य में सुभ्रातृवत्सल रूप में चित्रित किये गये हैं। अयोध्या छोड़ने के समय जननी सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम के हाथ में धरोहर के रूप में ही सौंपा था। अतएव लङ्का की वनराजि में चण्डी की पूजा करना कितना कठिन व्यापार है, विभीषण के मुख से उसे सुन कर लक्ष्मण के लिए राम की अय-व्याकुलता उनके समान भाई के लिए स्वाभाविक बात है।

अष्टमसर्ग में पूर्ण-वृत्त लक्ष्मण को गोद में लिए हुए राम का विलाप आतृ-वत्सलता की विचित्र अभिव्यक्ति है। जिसे सुमित्रा माता ने धरोहर के रूप में राम को सौंपा था, जिसके लिए वे सुमित्रा माता के निरुत्तर उत्तरदायी हैं, उसे छोड़ कर सीता के उद्धार से क्या ? इसी दायित्व का विचार करके ही राम विलाप करते करते कहते हैं—

“ * * * लौट चलें, आओ, वनवास को;

काम नहीं भाग्यहीना, सीता-समुद्धार का ”

इस कथन से उनके वीरत्व में आघात नहीं आता; वरन् उनका अतृ-भाव ही प्रस्फुटित हो उठा है।

निकुम्भला यज्ञागार में लक्ष्मण को मेघनाद के साथ युद्ध में डीन किया गया है, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु राम को इस काव्य में डीन किया गया नहीं मालूम होता। वरन् आतृवत्सल राम की आतृवत्सलता अति सुन्दर रूप से दिखाई गई है।

इसके साथ यह भी कहना पड़ता है कि रामायण में भी राम-लक्ष्मण का चित्र एक वार ही निर्दोष नहीं । वन-वास की आज्ञा के समय पिता के प्रति लक्ष्मण की अथवा घोरतर ऊष्मा पुत्र के लिए सर्वथा अनुचित है एवं स्त्रीजाति शूर्पणखा की राक काट लेना वीर पुरुष के लिए अनुचित ही हुआ है । राम-कृत वाल्मि-वध-व्यापार वीर चरित्र का आदर्श नहीं । रामायण के लङ्का-युद्ध में राम-लक्ष्मण सर्वत्र रावण, मेघनाद आदि की अपेक्षा महत्तर भी नहीं देखे जाते । मेघनाद कर्तृक नाग-पाश-बन्धन में बद्ध हुए राम-लक्ष्मण को विष्णु-प्रेरित गण्ड की सहायता की आवश्यकता हुई है । सच तो यह है कि मनुष्य एवं मनुष्यकृत अन्यान्य कार्यों की तरह काव्य-नाटक भी निर्दोष नहीं होते । वाल्मीकि और व्यास की कृति में भी दोष हैं, कालिदास और भवभूति की कृति में भी दोष है, शेक्सपियर और मिल्टन की कृति में भी दोष है, होमर और वर्जिल की कृति में भी दोष हैं । दोष किस में नहीं होते ? मधुसूदन भी इस नियम के बाहर नहीं; किन्तु गुणों की ओर देखने से कहना पड़ता है कि बँगला में इसके जोड़ का दूसरा काव्य नहीं । शृङ्गार रस को छोड़ कर वीर और करुणादिक प्रधान और परम उपभोग्य रस इस काव्य में चमत्कार रूप में पाये जाते हैं । वीर और करुणा रस में तो इस समय तक यह अद्वितीय है ।

नीति-शिक्षा

कुछ लोगों की राय है कि पापियों के प्रति सहायभूति रहने के कारण मधुसूदन का काव्य नीति-शिक्षा-विहीन है । इसी बात को बचा कर इस तरह भी कहा जा सकता है कि कवि की रचना कान्ता

की तरह मन का आकर्षण तो करती है, परन्तु जैसा कहना चाहिये—
रामादिवत् प्रवर्तर्ष्य न रावणादिवत्—नहीं कहती। वरन् उल्टा इसके
विपरीत सङ्केत करती है !

बाबू राजनारायण की राय में इसमें नीति-गर्भ-उक्तियों न होने
के बराबर हैं, जिनका व्यवहार साधारण तौर पर लोकोक्तियों के रूप में
किया जा सके। परन्तु मधुसूदन ने पापियों के साथ सहानुभूति प्रकट
करके भी पाप को कभी प्रश्रय नहीं दिया। यही नहीं, सारे काव्य में
यही प्रदर्शित किया है कि पाप का परिणाम सर्वनाश है। धन, मान,
रूप-गुण, विद्या और बाहु-बल, कोई भी पापी की रक्षा करने में समर्थ
नहीं होता। यह ठीक है कि इसमें नीति-गर्भ उक्तियों कम हैं, परन्तु
जो थोड़ी बहुत हैं वे बहुत ही मनोहारिणी हैं। देखिए, सारण रावण
को समझाता है—

“यह भवमण्डल है मायामय, स्वप्न-सा,

इसके प्रदत्त सुख-दुःख सब झूठे हैं।

भूजते है मोह-झुलना में अज्ञ जन हो।”

रावण कहता है यह ठीक है, मैं भी इसे समझता हूँ। तथापि—

मञ्जु मनोवृन्त पर फूजता है फूज जो

तोड़े उसे काल तो अघोर मन होता है”

दोनों की बातें कितनी सच हैं ?—

अपनों अपनों सपनों सब है

जिय जानत है तऊ मानत ना !

बीरबाहु को मृत्यु पर रावण के मुहँ से कवि ने कहलाया है—

जन्मभूमि-रक्षा-हेतु कौन बरे मृत्यु से ?

भीक है जो मूढ़ बरे, चिक उसे चिक है !”

रावण की यह उक्ति भी यथार्थ है—

“होता है सदैव पिता दुःखी पुत्र-दुःख से, ”

रामचन्द्र के द्वारा बनवाया हुआ सेतु देख कर रावण ने समुद्र का जो तिरस्कार किया है, उसी प्रकार चित्राङ्गदा ने रावण से अन्त में, जो कुछ कहा है, कोई नीति-प्रेमी उसे पढ़ कर मुग्ध हुए विना नहीं रह सकता । सचमुच वे बातें ‘लाजवाब’ हैं । न तो समुद्र ही उनका उत्तर दे सका है और न रावण ही ! पहले रावण का कहना सुनिए—

“नीच भालुओं को बाँध, बाजीगर उनसे
खेल करता है; किन्तु राजपद सिंह के
बाँधे पवि-रज्जु से जो, शक्ति यह किसकी ?”

चित्राङ्गदा का कहना है—

“देश-वैरी मारता है रण में जो, धन्य है;
धन्य उसका है जन्म, मानती हूँ आपको
धन्य मैं, प्रसू जो हुई ऐसे वीर सन्तु की ।

परन्तु—

“ * * * क्या तुम्हारा सोने का
सिंहासन छीनने को राघव है जूझता ?
वामन हो चाहे कौन चन्द्र को पकड़ना ?
रहता सदैव नत मस्तक भुजङ्ग है,
किन्तु यदि उसपै प्रहार करे कोई तो
फन को उठाके वह डसता है उसको ।”

इंका के विषय में राजलक्ष्मी की निम्न लिखित उक्ति कैसी सच निकली—

“कर्म-फल पूर्व के फलेंगे यहाँ शीघ्र ही !”

चित्ररथ ने रामचन्द्र को देवों के प्रति मनुष्यों की ओ कृतज्ञता बताई है, वह भी बहुत सुन्दर है—

“ * * * देवों के
प्रति जो कृतज्ञता है, कहता हूँ मैं, सुनो,
इन्द्रियदमन, दीनपालन, सुधर्म के
पथ में गमन और सेवा सत्यदेवी की;
चन्दन, कुसुम, भोग, पट्टवस्त्र आदि की,
देवें जो असज्जन तो करते अवज्ञा हैं
देवता । * * *”

तीसरे सर्ग में प्रमीला की सेना देख राम के चिन्ताकुल होने पर लक्ष्मण कहते हैं—देवता जिनके सहायक हैं उन्हें डर किस बात का—

“आप देवनायक सहायक हैं जिनके
इस भव-मण्डल में कौन भय है उन्हें ?”

और—

“जीतता है पाप कहाँ ? * *

एवं—

“ * पिता के पाप से है पुत्र मरता ।”

विभीषण कहता है—

“ * निस्सन्देह धर्म जहाँ, जय है ।”

चौथे सर्ग में सीता और सरमा के कथोपकथन में भी हम दो-चार ऐसी उक्तियाँ पाते हैं जो भूलने योग्य नहीं—

“किन्तु सखि, कारागार स्वर्ण का भी क्यों न हवा
अच्छा लगता है क्या परन्तु वह बन्दी को ?

स्वर्ण के भी पीजड़े में पंछी सुखी होगा क्या करता विहार है जो मञ्जु कुञ्ज वन में ?”

कभी नहीं, कदापि नहीं ।

पाँचवें सर्ग में पूजा के लिए जाते हुए लक्ष्मण ने मार्ग रोकने वाले रुद्र से कहा है—

“देता हूँ चुनौती तुम्हे साची मान धर्म को,
धर्म यदि सत्य है तो जीतूँगा अवश्य मैं ।”

इससे क्या सिद्ध होता है ? यही न, कि धार्मिक जन का विपक्षो कितना ही बड़ा क्यों न हो, परन्तु जीत के विषय में उसे सन्देह करने की क्षमता नहीं । इस सारे सर्ग में यही दिखाया गया है कि अपनी उद्देश-सिद्धि सहज नहीं, अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है । परन्तु धीरता पूर्वक आत्मसंयम रखने से अन्त में कोयर्थ-सिद्धि अवश्य होता है ।

इसी सर्ग के अन्त में, जब मन्दोदरी युद्ध के लिए मेघनाद का विदा देने में आगा पीछा करती है, तब वह अनेक धर्म और नीतिमूलक बातें कह कर उसे समझाता है—

“नगरी के द्वार पर बैरी है; कहेगा मैं
कौन सुख-भोग, उसे जब तक युद्ध में
मारूँगा न ! आग जब लगती है घर में
सोता तब कौन है माँ ? विभ्रत त्रिलोकी में
देव-नर-दैत्य-त्रास राक्षसों का कुल है;
ऐसे कुल में क्या देवि, राघव को देने हूँ
कालिमा मैं इन्द्रजित रावणि ? कहेंगे क्या
मातामह दामवेन्द्र मय यह सुन के ?
और, रथी मातुल ? हँसेगा विश्व दास को ।

* * * *

जननि, तुम्हारा शुभाशीष प्राप्त होने से,
रोक सकता है कौन किङ्कर को रण में ?”

झूठे सर्ग में राजलक्ष्मी विभीषण से कहती है, जहाँ पाप है वहाँ
में कैसे रहूँ—

“* * * भला पङ्किल सलिल में
खिलती है पद्मिनी क्या ? मेघावृत व्योम में
देखता है कौन, कब, तारा ? * *”

कवि ने इस सर्ग में लक्ष्मण को उनके भादर्श से बहुत ही गिरा
दिया है, तो भी उनसे कुछ समयानुकूल बातें कहलाई हैं। नीति तो
उन बातों का भी अनुमोदन करती है—

“भूतल को भेद कर काटता भुजङ्ग है
आयु-हीन जन को ! * * *
झोड़ता किरात है क्या पा के निज जाल में
बाध को ? * * * *
शत्रुओं को मारे जिस कौशल से हो सके ।”

इसके पूर्व लक्ष्मण को ही अपना इष्टदेव समझ कर मेघनाद उनसे वर
और बिदा माँगता हुआ कहता है—

“भ्रनोद्यम होगी चमू देर जो कहेगा मैं”

यह पंक्ति नीति-ज्ञान से कितनी परिपूर्ण है ? इसी सर्ग में मेघनाद और
विभीषण के कथोपकथन में मर्म की कितनी ही बातें प्रकट की गई हैं—

“निज गृह-मार्ग तात, चोर को दिखाते हो ?
और राज-गृह में बिठाते हो स्वपच को ?
निन्दा किन्तु क्या करूँ तुम्हारी, गुरुजन हो ।

* * * *
 झङ्कर के भाल पर की है विधु-स्थापना
 विधि ने; क्या भूमि पर पड़ कर चन्द्रमा
 छोटता है धूलि में ? बताओ तुम सुम्को,
 भूल गये कैसे इसको कि तुम कौन हो ?
 जन्म है तुम्हारा किस श्रेष्ठ राजकुल में ?
 केलि करता है राजहस पद्म-वन में,
 जाता वह है क्या कभी पङ्क-जल में प्रभो,
 शैवल-निकेतन में ? शृगपति केसरी—
 हे सुवीर-केसरि, बताओ,—क्या शृगाल से
 सम्भाषण करता है मान कर मित्रता ?

* * * *
 चरण तुम्हारी जन्मभूमि पर रक्खे यों
 वनचर ! विधाता, हा ! नन्दनविपिन में
 घूमे दुराचार दैत्य ? विकसित कञ्ज में
 कीद घुसे ? तात, अपमान यह कैसे मैं
 सह लूँ तुम्हारा आतृ-पुत्र हो के ? तुम भी
 सहते हो रघोवर कैसे, कहो, इसको ?”

विभीषण कहता है—

“चाहता है मरना क्या कोई पर-दोष ले ?”

मेघनाद क्रुद्ध होकर फिर उससे कहता है—

“धर्म वह कौन-सा है, जिसके विचार से
 जाति-पाँति, आतृ-भाव, सब को जलाशकी
 दो है तुमने यों आज ? कहता है शास्त्र तो—

पर-जन हों गुणी भी, निर्गुण स्वजन हों,
निर्गुण स्वजन तो भी, श्रेष्ठ हैं सदैव ही;
पर हैं सदैव पर । * * *

इन पंक्तियों के लेखक की राय में जिस समय “माइकेल” यह अंश लिख रहे थे उस समय उनके दिमाग में गीता का निम्नलिखित श्लोक चकर मार रहा था—

‘श्रेयांस्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥’

अतएव, क्या ठीक जो उन्होंने ऊपर लिखी बातें आपबीती कही हों !

जो हो, अन्त में मेघनाद कहता है—

“नीच-सङ्ग करने से नीचता ही आती है !”

पुत्रशोक के विषय में महादेव जी कहते हैं—

“रहती सदैव यह वेदना है, इसको
मेट नहीं सकता है सर्वहर काल भी ।”

सातवें सर्ग में राजलक्ष्मी इन्द्र से कहती है—

“ * * * उपकारी जन का
प्राण-पण से भी प्राण करना उचित है ”

इसी सर्ग में इन्द्र ने रामचन्द्र से कहा है—

“भरता है रघोराम आप निज पाप से;
कर सकता है राम, रघु कौन उसकी ?”

इसी प्रकार नवम सर्ग में भी कुछ नीतिमूलक उक्तियाँ पाई जाती हैं । भी रामचन्द्र से रावण कहलाता है—

“करते समाहर हैं वीर वैरो वीर का”

रामचन्द्र की शक्ति है—

“होता है अवध्य दूत-वृन्द रण-क्षेत्र में”
रावण के पुत्र-शोक में रामचन्द्रजी यों सहानुभूति प्रकट करते हैं—

“राहु-ग्रस्त रवि को निहार कर किसकी
झाती नहीं फटती है ? उसके सु-तेज से
जलता जो वृक्ष है, मलीन उस काल में
होता वह भी है ! पर-अपर विपत्ति में
मेरे लिए एक-से हैं ! * * ”

सारण कहता है—

“* * अनुचित कर्म क्या
करते कभी हैं साधु ? * * ”

और—

“* * किन्तु विधि विधि की
तोड़ सकता है कौन ? * * ”

अन्त में प्रमीला की एक शक्ति और सुनिये —

“ * * * एक पति के बिना
गति अबला को नहीं दूसरी जगत में । ”

वस,

“और क्या कहूँ मैं भला, भूलना न सुम्हको ।”

इस प्रकार मेघनाद-वध में समयोपयोगी नीतिमूलक बातों का भी अभाव नहीं। उसके सीता और प्रमीला के चरित्र तो भादर्श हैं ही, मेघनाद का चरित्र भी बहुत उज्वल वर्णों में अङ्कित किया गया है। रामचन्द्र और लक्ष्मण के चरित्र दो-चार स्थलों पर ही स्खलित हो गये हैं, वैसे उनमें भी सद्गुणों का समावेश है। रावण के चरित्र में भी स्थान

पिता के पाप से पुत्र मरता है, यह पुराणों में लिखा है। यह मेघनाद-वध काव्य का बीज है। नहीं तो, मेघनाद को सारे गुणों का आधार करके अङ्कित करने का और कोई उद्देश्य ही नहीं। इसी बात पर जोर देने के लिए चिराचरित संस्कार के विपरीत कवि ने अपनी लेखनी सञ्चालित की है।

अभी और समझने की जरूरत है। हम लोगों का अन्तर्जगत और बाह्यजगत् सम्बन्धी ज्ञान बहुत ही सङ्कीर्ण है। इसीलिए हम काव्य में जो नीत्युपदेश देना चाहते हैं वह भी साधारणतः सङ्कीर्ण होता है। काव्य की न्यायपरता अथवा Poetical justice इसी प्रकार की सङ्कीर्णता का फल है। ज्ञान की उन्नति होने से मनुष्य दिन दिन समझता जाता है कि जिन सब नियमों से जब जगत् शासित होता है, अन्तर्जत अतिकल उसीका अनुवर्तन करता है। मन का आकर्षण क्या है, आज ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता; परन्तु एक दिन ऐसा आवेगा, जब यह हँसी की बात न रहेगी। प्रकृत प्रतिभाशाली कवि कितनी ही ऐसी बातें मानते हैं, कितने ही ऐसे तत्व समझने का यत्न करते हैं जो हमारो-आपकी धारणा में ही नहीं आते,—इसीलिए हम और आप उन पर हँसते हैं। पिता के दोष से पुत्र मरता है, यह हमारे देश की चिर प्रचलित किवदन्ती है। परन्तु यह कोरी कहावत है या इसमें कुछ तथ्य भी है? इस असीम ब्रह्माण्ड में नियम-रहित कोई बात नहीं। सामान्य नीहार-कण, जो फूल पर क्षण भर सूर्य की किरणों से चमक कर उड़ जाता है, जिस प्रकार नियम के अधीन है, उसी प्रकार अनन्त शून्य में, अवन्त परिमित, अनन्त सौरजगत् भी नियम के ही अधीन है। सर्वत्र नियम ही नियम है। तुम कवि हो, शब्द के चन्द्रमा को अकस्मात् मेघावृत देख कर दुःखित होते हो; प्रकृत संस्था से सुकुमार वृक्ष को

धराशायी देख कर आँसू बहाते हो; तुम्हारे जी में आता है—यह बड़ा अविचार है। जड़ जगत् इसकी अपेक्षा नहीं करता। ऐसी दशा में इसके गन्तव्यमार्ग में खड़े न होता; खड़े होंगे तो नियति-चक्र से विस आभोगे ! विज्ञान नित्य यही कहता है। इतिहास भी अनुदिन इसीका कीर्तन करता है। मेघनाद-वध काव्य का बीज भी यही तत्व है। सौन्दर्य-सार मेघनाद देव-दुर्लभ गुणों से हमारा तुम्हारा आदरणीय है—सर्वज्ञ कवि की अतुल्य मोहमय सृष्टि है। यह ठीक है, किन्तु जो अज्ञेय शक्ति राक्षस-वंश का विध्वंस करने आई थी, मेघनाद भी उसीके चक्र से विस गया,—इस जगत् का यही नियम है ! इसमें व्यभिचार नहीं होता !

क्या जड़ जगत् और क्या अन्तर्जगत्, दोनों एक ही शक्ति के आकार है। शक्ति एक है, उसके रूप भिन्न भिन्न। जिस भयानक शक्ति के ऋक्षुवास से प्रलयकाल उपस्थित होता है, उसका नाम है जड़ शक्ति और जिस अदम्य शक्ति ने रोम-राज्य का विध्वंस किया था, वह है अन्तःशक्ति। इन दोनों शक्तियों के भी नाम भिन्न हैं—एक का नाम प्रलय है और दूसरी का नाम विलय। सन्तोष की बात यही है कि अन्तर्जगत् की शक्ति विशेष का बीज वपन करना मनुष्य के ही अधीन है। जड़ शक्ति के विषय में ऐसा कुछ है या नहीं, यह अभी तक नहीं जाना गया। किन्तु किसी भी शक्ति को लीजिए, एक वार विकास होने पर उसका वेग असह्य और अप्रतिहत होता है ! कोई उसके मार्ग में खड़े मत होना ! सावधान ! विषबीज वपन मत करना ! कुशक्ति के प्रयोग के कारण भत बनाना ! अपने कार्य्यों के अकेले तुम्हीं फल-भोगी नहीं हो। तुम्हारी उत्पन्न को हुई ध्वंस शक्ति से तुम्हारी वंशपरम्परा भी विनष्ट हो जायगी।

आधुनिक वैज्ञानिक अदृष्टवादियों की भी यही बात है। कुछ डुमा फिरा कर, समझ देखो, बात एक ही है। सुतराम् स्वतः न हो, परतः

मेघनाद-वच अदृष्टवाद को इदं भित्ति पर प्रणीत हुआ है। जगत के अधिकांश अमरकाव्यों का यही तत्त्व मेरुदण्ड है।

मेघनाद-वच के ज्ञानमय कवि ने प्रमीला के चरित्र में कुछ गुरुतर तत्त्व निहित रखे हैं। वे स्वतः सुन्दर और लोकहितकर हैं। अब हम उन्हें परिस्फुट करने की चेष्टा करेंगे।

जिसने कहा है कि भारतीय समाज पचाघात रोग से ग्रस्त है, उसने बहुत ठीक कहा है। सारे समाज में कभी स्त्री-पुरुष का साम्य था या नहीं, ठीक नहीं कहा जा सकता। यदि था भी तो बहुत दिनों से वह लुप्त हो गया है। धर्म-शास्त्र देखिए, जितने भी बन्धन हैं, स्त्रीजाति को लेकर। काव्य देखिए, स्त्रीजाति का प्रधान धर्म सतीत्व है, यह बड़ा वैषम्य है। पवित्रता बहुत बढ़ी चीज़ है, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु विधि एकपक्षीय होने से उसकी शुभकारिता कम हो गई है। सीता का चरित्र हमारे जातीय गौरव को सामग्री है, पवित्रता की चरम सीमा है; परन्तु क्या उनमें प्रमीला को-सी वह तेजस्विता है—

“मधु अघरों में, विष रखती है आँखों में

हम, बल है क्या नहीं इन भुजनालों में ?”

हमारे यहाँ स्त्रीजाति का यह कमी कितना अनर्थ करती है, जिसका कुछ ठिकाना नहीं। द्रौपदी के चरित्र में इसे पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। द्रौपदी पतिव्रता, आदर्श रमणी है; किन्तु उसीके साथ वद प्रखर बुद्धिमती, प्रतिभाशालिनी और ज्योतिर्मयी देवी है। पुरुष की योग्य पत्नी है, सखी है, किन्तु दासी नहीं। युधिष्ठिर आदि पाँचों भाई उससे परामर्श किये बिना कोई काम नहीं करते थे। मधुसूदन ने प्रमीला के चरित्र में स्त्री का यही स्थान निर्धारित किया है। दार्शनिक प्रवर जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्त्रीजाति का साम्य सिद्ध करने के लिए प्रबन्ध

लिखा है और मधुसूदन ने प्रमीला का चरित्र चित्रित किया है; उद्देश्य दोनों का एक ही है।

उत्कृष्ट अंश

इस काव्य का कौन-सा अंश सर्वोत्कृष्ट है, इस विषय में भी भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। किसीकी राय में प्रमीला का लज्जा प्रवेश, किसीकी राय में सीता कृत पञ्चवटो-वर्णन, किसीकी राय में देवोद्वारार्थ मेघनाद का प्रमोदोद्यान-त्याग-वर्णन और किसीकी राय में क्रमशान-दृश्य-वर्णन सर्व श्रेष्ठ है। परन्तु

महात्मा रामकृष्ण देव परम हंस

की राय है कि—जिस स्थान पर,—इन्द्रजित युद्ध में मारा गया, शोक से मुह्यमाना मन्दोदरी युद्ध में जाने से रावण को रोकती है, परन्तु राक्षसराज पुत्र-शोक भूल कर महावीर की भक्ति युद्ध के लिए कृतसङ्कल्प है—प्रतिहिंसा और क्रोधाग्नि में स्त्री-पुत्र सबको भूल कर—युद्ध के लिए वहिर्गमनोन्मुख है—यही स्थान पर काव्य की श्रेष्ठ कल्पना है। जो होना हो, हो, मैं अपना कर्तव्य नहीं भूलूँगा—इससे दुनियाँ रहे चाहे जाय—यही है महावीर के कहने की बात। मधुसूदन ने इसी भाव से अनुप्राणित हो कर इस अंश की रचना की है।”

रचना के दोष

मधुसूदन की रचना में दोषों की कमी नहीं। परन्तु संसार में निर्दोष क्या है? हमारे आलङ्कारिकों के बताये हुए दोषों के अनुसार जाँच करने पर सभी काव्यों में इस प्रकार के दोष पाये जाते हैं। कहते हैं, श्रीहर्ष ने अपना नैषध काव्य लिख कर जब अपने मामा अरिष्ट काव्याचार्य्य मम्मट भट्ट को दिखाया, तब उन्होंने उनसे कहा—

“क्या कहें, तुम कुछ दिन पहले हमें इसे दिखाते तो हमारा बड़ा परिश्रम बच जाता। काव्य सम्बन्धी दोषों के लिए हमें अनेक काव्यों का अध्ययन करना पड़ा है। यदि पहले तुम्हारा काव्य हमें देखने को मिलता तो हमें और ग्रन्थ न पढ़ने पड़ते, इसी में से सारे दोषों की उपलब्धि हो जाती।” मेघनाद-वच के विषय में भी यही बात कही जा सकती है।

क्लिष्टता, दूरान्वय आदि दोष तो इसमें हैं ही, अनेक स्थलों पर उपमाएँ भी उपयुक्त नहीं हुईं। जान पड़ता है, उपमा देने के लिए हो उपमा ही गई है। कहीं कहीं तो एक एक उपमा के लिए चार चार पंक्तियाँ खर्च कर दी गई हैं। द्विक्तियाँ भी इसमें बहुत पाई जाती हैं। वही काञ्चनीय कञ्जुकच्छटा, वही रत्नसम्भवाविभा, वही अम्बुराशि ऐसा कम्बुराशि-रत्न इसमें वारम्बार आता है। वही सादी-निषादी, वही हय हींसे, गज गरजे। दूसरे सर्ग के अन्त में आँधी पानी के धमने पर जब शान्ति स्थापित होती है, तरल जल में कौमुदी अवगाहन करती है एवं कुमुदिनी सुस्कराने लगती है, तब शृगालों और गीधों का आना सारे रस को किरकिरा कर देता है। इसी प्रकार, किसी किसी की राय में लङ्का-प्रवेश करती हुई प्रमीला के साथ कामदेव का शर-प्रहार करते हुए चलने का वर्णन भी उस दृश्य की गम्भीरता नष्ट कर देता है। इसी प्रकार, पञ्चवटी-वन में सीता को हरणियों के साथ नाचना भी उपहासजनक जान पड़ता है। कवि ने नरकवर्णन भी बहुत विस्तृत कर दिया है। पढ़ते पढ़ते उसकी वाग्मत्सता पर जी ऊब उठता है। कहते हैं, होमर और मिल्टन के अनुकरण पर कवि ने यह वर्णन किया है; परन्तु एक अंगरेज, समालोचक का कहना है कि इलियड के तीसरे सर्ग से हार्पियो की कथा और मिल्टन के महाकाव्य के दूसरे सर्ग से पाप और मृत्यु का संवाद उक्त दोनों काव्यों में परित्यक्त होने से ही अच्छा होता।

जो हो, असंख्य दोष वयो न हों, उनके कारण मेघनाद-वध अनादरणीय नहीं हो सकता। दिन दिन उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। मधुसूदन की कवित्वशक्ति के दो प्रधान गुण—तेजस्विता और उद्गावकता—ऐसे हैं कि वे सारे दोषों को मुला देते हैं।

महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री

ने क्या ही ठीक कहा है कि—मधुसूदन के जीवन में और उनके काव्य में बहुत समानता है। जीवन में उच्छृङ्खलता, स्वाधीनता, समाज की उपेक्षा; उसी प्रकार ग्रन्थ में सारी कल्पनाओं के बन्धन का उच्छेद दिखाई पड़ता है। उनकी कल्पना उद्दाम भाव से सर्वत्र घूमती थी। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इस कारण उनके मन में नाना जातीय कवियों के भाव भरे हुए थे। उनके काव्य में स्थान स्थान पर उन भावों का निदर्शन पाया जाता है।

समालोचना

मधुसूदन ने लिखा है कि हमारे मेघनाद-वध में कोई फेंच समालोचक भी दोष न निकाल सकेगा। परन्तु समालोचनाओं की घोरतर शर-वृष्टि इस काव्य पर वर्षित हो चुकी है। प्रायः सब महाकवियों के भाग्य में ऐसा ही होता है। परन्तु यह शर-वृष्टि हिमालय पर्वत के शिखर पर वर्षा की धारा के कारण परिपुष्ट वनस्पति-समूह के समान उनके काव्यों को नाना प्रकार के सौन्दर्य से विभूषित कर देती है।

सर आशुतोष मुखोपाध्याय

ने लिखा है—“आदि कवि वाल्मीकि जिस समय अपने गान से आप ही विमुग्ध और कदाचित् “श्या गाया” कह कर आपसी सन्देशान्वित हुए थे, उस समय चतुर्भुज ब्रह्मा ने स्वयं आविर्भूत होकर उनसे कहा था—“अपि वर, तुम्हीं जगत् के आदि कवि हो, निस्सङ्कोच होकर

गान करो, तुम्हारे गान से विश्व ब्रह्माण्ड विमोहित होगा, मरजीव अमरता के सुख की उपलब्धि करेंगे।” हाय ! बंगला केरत्नाकर (वाल्मीकि) मधुसूदन के भाग्य में इसका ठीक डलटा हुआ। भयवा केवल इसी देश में क्यों, सब देशों के महाकवियों के भाग्य में एक सी ही लाञ्छना लिखी होती है। दुर्जय समालोचकों के मर्मघातक कशाघात से महा-कवि कीट्स का हृदय शतधा क्षत-विक्षत हुआ था !”

श्रीयुक्त ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर

वे इस विषय में लिखा है—“साहित्य का इतिहास पढ़ने से मालूम होता है कि कठोर समालोचकों के आघात से कितने ग्रन्थकारों की आशा की कलियाँ बिना फूले ही मुरझा गईं। इतना ही क्यों, कोई कोई तो लेखनी के तीव्र विषाघात से अकाल में काल कवलित भी हो गये हैं। बहुतों की राय है कि कीट्स Keats कवि की अकाल-मृत्यु का कारण तीव्र समालोचना ही है। कविवर टैसो Tasso कठोर समालोचना से व्यथित होकर पागल हो गया था। कठोर समालोचना के आघात से ही Montesquien शीघ्र मृत्यु-मुख में पतित हुआ था। निन्दक समालोचकों की हृदयभेदिनी समालोचनाओं से कविवर शेली Shelly देशव्यापी हो गया था। उसने अपने मित्र Leigh hunt का जो पत्र लिखा था उसे पढ़ कर हृदय विदीर्ण होता है। उसने लिखा था—“मेरी बुद्धि की सारी वृत्तियाँ चूर्ण-विचूर्ण और बड़ हो गई हैं। मैं अब कुछ नहीं लिख सकता। जो कुछ लिखा जाय उससे दूसरे की सहानुभूति पाने की आशा न हो तो कुछ नहीं लिखा जा-सकता।”

सब देशों के कवियों के भाग्य में पहले पहल समालोचकों का ऐसा ही वज्रपात होता है। विश्व-विक्रम शैक्सपियर के नाटकों

पर भी पहले पहले यूरोप के भिन्न भिन्न देशीय समालोचकों के इतने प्रहार हुए थे कि उन्हें देख कर किसीको इसका भान भी न होता कि ये नाटक आगे चल कर प्रतिद्वन्द्वी-शून्य और चिरजीवी होंगे। हमारे देश में भी ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं। कहते हैं, छट-खर्पर कवि ने कालिदास के रघुवंश के विषय में कहा था कि—
 “रघुवंशमपि काव्यम् ? तदपिच पाठ्यम् ?” “रघुवंश भी काव्य है ? वह भी पढ़ने योग्य है ?” मधुसूदन के भाग्य में भी यही बात थी।

किन्तु मधुसूदन को आत्मशक्ति में इतना दृढ़ विश्वास था कि वे इस प्रकार की आलोचनाओं पर झूत्ने भी न करते थे; विचलित होना या डरना तो दूर की बात है।

सब से बड़ा समालोचक “काल” है। उसीने मेघनाद-वध को समालोचना करके सिद्ध कर दिया कि वह अमर काव्य है।

मधुसूदन की भविष्य वाणी सर्वथा सच निकली। उन्होंने इसके विषय में आरम्भ में ही मधुकरी कल्पना से कहा है—

“मञ्जु मधुकोष रचो विज्ञान जिससे
 प्रेमानन्द पूर्वक पिथेंगे सुधा सर्वदा।”

जो उनकी धारणा थी उससे अधिक फल उसका हुआ।

मधुसूदन ने “विज्ञान” के स्थान पर मूल में “गौड़जन” लिखा है। किन्तु इस काव्य का अनुवाद अंगरेज़ों में भी हो गया है और भगवान की वृत्ता से हिन्दी में भी आज वह प्रकाशित हो रहा है; इस कारण अनुवाद में “गौड़जन” के बदले “विज्ञान” कर दिया गया है। विश्वास है, मधुसूदन की आत्मा को इस परिवर्तन से आनन्द और सन्तोष ही प्राप्त होगा।

वृत्र-संहार महाकाव्य के रचयिता—

श्रीयुक्त हेमचन्द्र वन्द्योपाध्याय

की राय है कि—“इस ग्रन्थ में स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, तीनों लोकों के रमणीय और भयानक प्राणी और पदार्थ सम्मिलित करके पाठकों के समस्त चित्रपट के समान चित्रित किये गये हैं। यह काव्य पढ़ते पढ़ते भूतकाल वर्तमान की भाँति जान पड़ता है। इसमें वर्णित देव, दानव और मानवमण्डलों के वीर्यशाली, प्रतापशाली जीवों के अद्भुत कार्या-कलाप देख कर मोहित और रोमाञ्चित होना पड़ता है। इसे पढ़ते-पढ़ते कभी विस्मय, कभी क्रोध हो आता है और कभी कष्टनाश से हृदय आर्द्र हो जाता है एवं वाष्पाकुल लोचनों से इसे समास करना पड़ता है।”

प्रसिद्ध नाट्यकार स्वर्गीय

द्विजेन्द्रलाल राय

का राय है कि—“बंगाल में अभी तक ऐसा कोई कवि उत्पन्न नहीं हुआ जिसे मधुसूदन से ऊँचा आसन दिया जा सके।”

अन्त में स्वर्गीय

कालीप्रसन्नसिंह

की सम्मति का एक अंश उद्धृत करके यह निबन्ध समाप्त किया जाता है। उक्त महोदय ने लिखा है कि—बंगला-साहित्य में इस प्रकार के काव्य का उदय होगा, जो न पड़ता है, स्वयं देवी सरस्वती भी स्वप्न में इसे न जानती थीं—

“वीणा-ध्वनि दासी ने सुनी है और है सुनी
कोकिला की कूक, नव पल्लवों के बीज से,
सरस वसन्त में; परन्तु इस लोक में
देसी मधु-वाणी नहीं और सुनी कस्याणी !”

मेघनाद्-वध

श्रीगणेशाय नमः

मेघनाद-वध

प्रथम सर्ग

सम्मुख समर में, अकाल में निहत हो,
शूरशिरोरत्न वीरबाहु, यमपुर को
गया जब, कहो तब देवि, सुधाभाषिणी ।
किस वर वीर को निशाचर नरेन्द्र ने,
करके वरण निज सेनापति-पद पै,
भेजा रण मे था उस राघव के वैरी ने ?
और किस कौशल से ऊर्मिलालिलासी ने,
इन्द्रजित मेघनाद, जग में अजेय, जो—
था भरोसा राक्षसों का, मार कर उसको
मेटा था सुरेन्द्र-भय ? मन्दमति सवथा—

करके पदारविन्द-वन्दना, विनय से,
 श्वेतभुजे, तुमको पुकारता हूँ फिर मैं;
 वीणापाणि भारति, माँ, जैसे तुम बैठी थीं
 आकर वाल्मीकि-रसना पै, कृपा करके,
 मानो पद्म-आसन पै, जब घन वन में—
 क्रौञ्च-वध व्याध ने किया था खरशर से,
 करता विहार था जो क्रौञ्ची-सङ्ग सुख से;
 आके तुम दास पर वैसे ही दया करो ।
 महिमा तुम्हारी कौन जानता है जग मे ?
 चोर था नराधम जो नर नर-वंश मे,
 हे माँ, वही हो गया तुम्हारे अनुग्रह से
 मृत्युञ्जय, मृत्युञ्जय जैसे उमापति है !
 रत्नाकर चोर तब वर से हे वरदे,
 हो गया कवीन्द्र काव्य-रत्नाकर ! पाता है
 चन्दन की शोभा विष-वृत्त तब स्पर्श से !
 हाय ! मातः, ऐसा पुण्य है क्या इस दास का ?
 किन्तु गुणहीन, मूढ़ होता है सुतों मे जो
 माता का विशेष प्रेम होता उस पर है ।
 आओ, तब विश्वरमे, आओ हे दयामयी,
 वीर रस-मग्न महा गीत आज गाऊँगा
 माँ ! मै, तुम किङ्कर को, आओ, पदच्छाया दो ।
 आओ, तुम भी हे देवि, मधुकरि कल्पने !

लेके मधु कवि-मन-सुमन-समूह से
 मञ्जु मधु-चक्र रचो, विद्वान् जन जिससे
 प्रेमानन्द पूर्वक पियेंगे सुधा सर्वदा ।
 बैठा कनकासन पै वीर दशानन है,
 सोहता है हेमकूट-हेम शिर पर ज्यों
 शृङ्गवर तेजःपुञ्ज । चारों ओर बैठे हैं
 सौ सौ पात्र मित्र, सभासद नतभाव से
 विश्व मे विचित्र सभा स्फटिक-गठित है;
 उसमे जड़े है रत्न, मानों मानसर में
 सरस सरोज-फूल चारों ओर फूले हैं ।
 श्वेत, हरे, लाल, पोले, नीले स्तम्भ पंक्ति से
 ऊँची सुनहली छत सिर पर रक्खे हैं,
 उत्थित अयुत फन फैला कर अपने
 धारण किये है धरा सादर फणोन्द्र ज्यों ।
 मोती, लाल, पन्ने और हीरे अनमोल-से
 मलमल भालारो मे भूम भूलते है यो—
 भूला करते है ज्यो महोत्सव-भवन मे
 पल्लवों के हार गुँथे कलियों से, फूलों से ।
 जागती है वार वार, जगमग भाव से,
 क्षोणी में क्षणप्रभा-सी, रत्नसम्भवा विभा
 चक्षु चौंधियाती हुई ! चारुमुखी चेरियों
 करके मृणाल-भुज सञ्चालित सुख से

रत्न-दण्ड वाले चारु चामर डुलाती है ।
 धारण किये है छत्र छत्रधर यो अहा ।
 जल कर काम हर-कोपानल मे न ज्यों
 छत्रधर-रूप मे खड़ा है सभा-सौध मे ।
 भीममूर्ति द्वारपाल द्वार पै है धूमता,
 शूल लिये, पाण्डव-शिविर-द्वार पर ज्यों
 रुद्रेश्वर ! गन्ध सह बहता सु-मन्द है
 अक्षय अनन्त वायु विश्रुत वसन्त का ।
 काकली-तरङ्ग-सङ्ग लाके अहा ! रङ्ग से
 बाँसुरी-सुधा-तरङ्ग मानों ब्रज-वन में ।
 दैत्यराज मय, क्या तुम्हारी सभा ? तुच्छ है
 इसके समक्ष, स्वच्छ रत्नमयी, जिसको
 तुमने रचा था इन्द्रप्रस्थ में प्रयास से
 पाण्डवों को तुष्ट करने के लिए आप ही ।

ऐसी सभा-मध्य बैठा रत्नःकुलराज है,
 मौन सुत-शोक-वशा, बहती है आँखों से
 अविरल अश्रुधारा—वस्त्र भिँगे करके,
 तीक्ष्ण शर लगने से सरस शरीर में
 रोता तरु नीरव है जैसे । कर जोड़ के—
 सामने खड़ा है भग्न दूत, भरा धूल से;
 शोणित से आर्द्र है शरीर सब उसका ।
 शत शत योद्धा जा कि वीरबाहु-सङ्ग ही

प्रथम सर्ग

पैठे समराब्धि मे थं, शेष बचा सब में
एक यही वीर, उस काल की तरङ्ग ने
सब को डुबोया, इसी राक्षस को छोड़ के;
नाम मकराक्ष, यक्षराज-सम है बली ।
सुत का निधन सुन हाय ! इसी दूत से,
आज महा शोकाकुल राजकुलरत्न है
रावण । समाजन दुखी हैं राज-दुःख से ।
यन जब घेरता है भालु को, भुवन में
होता है अंधेरा । चेत पाके कुछ दर में
दीर्घ श्वास छोड़ वह शोक सह बोला यों—

“शर्वरी के स्वप्न के समान तेरा कहना
है रे दूत, आकुल है देव-कुल जिसके
मीम मुज-विक्रम से, दीन नर राम ने
मारा उसे सम्मुख समर में ? क्या विधि ने
छेंकुर का वृक्ष छेद डाला फूल-दल से ?
हा सुत, हा वीरबाहो, शूरशिरोरत्न हा !
खोया है तुम-सा धन मैं ने किस पाप से ?
दारुण रे दैव, दोष देख मेरा कौन-सा
तू ने यह रत्न हरा ? हाय ! यह यातना
कैसे सहूँ ? और कौन मान अब रक्खेगा
काल-रण-मध्य इस सुविपुल कुल का !
काट कर कानन मे एक एक शाखा को,

अन्त मे लकड़हारा काटता है वृक्ष को,
 हे विधाता, मेरा महा वैरी यह वैसे ही
 करता है देख, बलहीन मुझे नित्य ही !
 सत्वर निमूल मैं समूल हूँगा इसके
 शायकों से । अन्यथा क्या मरता समर मे
 भाई कुम्भकर्ण मेरा, शूलधर शम्भु-सा
 एक मेरे दोष से अकाल में ? तथा सभी
 रत्नोवंशरत्नी वीर ? शूर्पणाखा, तू ने हा !
 पञ्चवटी मे जा किस कुक्षण मे देखा था
 कालकूट धारी यह नाग, ओ अभागिनी ?
 और किस कुक्षण मे (तेरे दुख से दुखी)
 लाया था कृशानु-शिखा रूपी जानकी को मैं
 स्वर्ण के सुगेह मे ? हा ! इच्छा यही होती है—
 छोड़ यह हेमघाम, निविड़ अरण्य में
 जाकर जुड़ाऊ निज ज्वाला मैं अकेले मे !
 पुष्प-दाम-सज्जित, प्रदीपों के प्रकाश से
 उद्भासित नाट्यशाला-सी थी यह सुन्दरी
 हेमपुरी मेरी ! अब एक एक करके
 सूखते हैं फूल और बुझते प्रदीप है;
 नीरव रत्नाब, वीणा, मुरली, मृदङ्ग हैं;
 फिर क्यों रहूँ मैं यहाँ शोक मात्र पाने को ?
 किसकी निवास-वासना है अन्धकार में ?”

प्रथम सर्ग

रक्षोराज रावण ने करके आक्षेप यो
शोक से विलाप किया; हाय ! हस्तिना में ज्यो
सुनकर दिव्यदृष्टि-सञ्जय के मुख से
अन्धराज, भीमभुज भीम के प्रहारों से
पुत्रों का प्रणशा, कुरुक्षेत्र-काल-रण में,
रोये थे विलाप कर बार बार शोक से ।

उठ तब, दोनों हाथ जोड़, नतभाव से,
मन्त्रिवर सारण यो कहने लगा कि—“हे
रक्षोवंश-शेखर महीपते, महामते,
विश्व मे विदित, इस दास को क्षमा करो ।
शक्ति किसकी है भला ऐसी इस लोक मे
समझावे आपको जो ? किन्तु प्रभो, मन में
सोच देखो, अभ्रभेदी शृङ्ग यदि भङ्ग हो
वज्र के प्रहार से तो होता है कभी नहीं
भूधर अघोर उस बाधा से । विशेषतः
यह भवमण्डल है मायामय, स्वप्न-सा,
इसके प्रदत्त सुख-दुःख सब भूठे हैं ।
भूलते हैं मोह-छलना मे अज्ञ जन ही ।”

उत्तर दिया यों तब लङ्कापति ने उसे—
“मन्त्रिवर सारण, कहा जो तुमने, सभी
सत्य है, मैं जानता हूँ, मायामय विश्व है;
इसके प्रदत्त सुख-दुःख सब भूठे हैं ।

रोते हैं अबोध प्राण किन्तु जानकर भी ।
मञ्जु मनोवृन्त पर फूलता है फूल जो
तोड़े उसे काल तो अधीर मन होता है
और डूबता है शोक-सिन्धु में, मृणाल ज्यों
डूबता है पद्म रूपी रत्न हरा जाने से ।”

इसके अनन्तर निदेश दिया राजा ने—
“वार्तावह, बोल, गिरा क्योंकर समर में
अमरगणों का त्रास वीरबाहु विक्रमी ?”

करके प्रणाम चरणों में, कर जोड़ के,
कहने लगा यों भग्न दूत—“हाय ! स्वामी, मैं
कैसे सो अपूर्व कथा आपको सुनाऊँगा ?
वर्णन करूँगा शौर्य्य कैसे वीरबाहु का ?
मदकल कुञ्जर घुसे ज्यों नल-वन में,
धन्वी वीर-कुञ्जर प्रविष्ट हुआ, वेग से,
शत्रु-दल में त्यों । उर काँपता है अब भी
थर थर, सोच उस भीषण हुँकार को !
हे प्रभो, सुना है सिंहनाद घनघोष भी,
कल्लोलित सिन्धु-रव; और मैं ने देखा है
वेग से इरम्मद को जाते वायु-मार्ग में;
किन्तु सुना मैं ने नहीं तीनों लोक में कभी
ऐसा घोर घर्घर कठोर शोर धन्वा का !
और ऐसी भीम शर-वृष्टि नहीं देखी है!

यूथनाथ-सङ्ग गज-यूथ यथा जाता है
रण में प्रविष्ट हुआ, साथ ही कुमार के,
वीर-वृन्द । धूल उड़ छा गई गगन में,
घेर लिया मानों व्योम आके क्रुद्ध मेघों ने,
कौंधा के समान चक्षु चौंधा कर वेग से
तीक्ष्णतम बाण उड़े व्योम-पथ में प्रभो,
सन सन ! धन्य युद्ध-शिक्षा वीरबाहु की ।
गिन सकता है कौन, शत्रु मरे कितने ?
सैन्यसह यो ही महाराज, पुत्र आपका
जूझा वैरियो से । फिर नर वर राम ने
रण में प्रवेश किया । सोने का किरिट था
सिर पर और महा भीम चाप कर मे,—
वासव का चाप बहु रत्नों से खचित ज्यों ।”
रोया भग्न दूत चुपचाप, यह कह के,
रोता है विलापी यथा पूर्व व्यथा सोच के
रोये सब सभ्य जन नीरव, विषाद से ।

साश्रुमुख मन्दोदरीमोहन ने आज्ञा
“कह हे सन्देशवह, कैसे, कह मैं सुनूँ,
मारा रावणात्मज को दशरथ-पुत्र ने ?”

“कैसे, हे महीप,” फिर भग्न दूत बोला यों—
“कैसे मैं कहूँगा वह वृत्त, कैसे आप भी
ससको सुनेंगे ? हाय ! कालमूर्ति केसरी,

ज्वालामयी दृष्टि वाला, घोर दौत पीस के
 टूटे वृष-स्कन्ध पर, कूद कर कोप से—
 जैसे, ठीक वैसे ही कुमार पर राम ने
 आके किया आक्रमण । चारों ओर रण की
 तुमुल तरङ्गे उठीं, सिन्धु ज्यो समीर से
 जूम कर गर्जता हो । ज्वाला-तुल्य असियो
 धूम धूम धूम ऐसे ढालों के समूह में
 जागती थीं सैकड़ों—हज़ारों । अम्बुराशि ज्यों
 नाद करते थे कम्बु, देव, और क्या कहूँ ?
 पूर्वजन्म-दोष-वश एकाकी बचा हूँ मैं !
 हायरे विधाता ! मुझे तू ने किस पाप से
 आज यह ताप दिया ? सोया क्यों न युद्ध में
 लङ्काअलङ्कार वीरबाहु के ही साथ मैं
 शूर-शर-शय्या पर ? किन्तु निज दोष से
 दोषी मैं नहीं हूँ । देव, देखो इस वक्ष को,
 विक्षत है शत्रु के प्रहारों से समक्ष ही;
 कोई अस्त्र-चिन्ह मेरी पीठ पर है नहीं ।”

राक्षस निस्तब्ध हुआ घोर मनस्ताप से,
 बोला तब लङ्कापति हर्ष से, विषाद से—
 “ धन्य दूत, तेरी बात सुन किस वीर का
 चाहेगा न चित्त भला जाने को समर में ?
 डमरू निनाद सुन काल फणी क्या कभी

रह सकता है पड़ा बिल में शिथिल-सा ?
 धन्य लङ्का, वीर-पुत्र-धात्री । चलो, चलके
 देखें हे समाजन, पड़ा है किस भाँति से
 शूरशिरोरत्न वीरबाहु रणभूमि में;
 आओ सब, देख आँखे ठण्डी करें अपनी ।”

रावण चढ़ा यों तब सौध के शिखर पै.
 हेम उदयाद्रि पर अंशुमाली भानु ज्यो ।
 स्वर्ण-सौध रूपी मञ्जु मुकुट-विमण्डिता
 शोभित थी चारो ओर लङ्कापुरी-सुन्दरी ।
 श्रेणीबद्ध हेमहर्म्य, पुष्पवाटिकाओ में,
 कमल सरोवरो में, रौप्यच्छटा उत्सो में
 और नेत्रलोभी फूल वृक्षराजियों में थे,
 युवती में यौवन ज्यों; हीरों के कलश थे
 देवालय-शिखरों में, और सब रङ्गों के
 रत्नों की प्रपूर्णाता थी विपणि-समूह में ।
 लाकर असंख्य धन मानो इस विश्व ने
 रक्खा है सुवर्णलङ्के, तेरे पदतल में
 भक्तिभावना के साथ, पूजा के प्रकार से ।
 विश्व की है वासना तू, सर्व सुखशाला है ।

उन्नत प्राचीर महा अटल-अचल-सी
 रक्षोराज रावण ने देखी; उस पर था
 वीर-मद-मत्त अरुधारी-दल घूमता,

शूल पर सिंह मानों । चार सिंहद्वार जो
 रुद्ध अब थे, विलोके सीताहर ने; वहाँ
 सज्जित असंख्य गज, अश्व, रथ आदि थे;
 और थे सतर्क शूर सैनिक महारथी ।
 बाहर पुरी के वैरि-वृन्द देख? वीर ने,
 बाद्ध का समूह यथा तीर पर सिन्धु के,
 तारागण-मण्डल या विस्तृत गगन में ।
 थाना रोप पूर्व वाले द्वार पर, युद्ध में
 दुर्द्धर, अरुद्धगति वाला वीर नील है ।
 दक्षिण के द्वार पर अङ्गद है घूमता,
 करम-समान नव बल से बलिष्ठ, या
 विषधर नाग तुल्य, अन्त में जो हिम के
 फन को उठा के और शूल जैसी जिह्वा को
 गर्व से हिलाके, नव कञ्चुक धरे हुए
 घूमता है ! उत्तर के द्वार पर आप ही
 मर्कट-महीप वीर-केसरी सुकण्ठ है ।
 पश्चिम के द्वार पर देव दाशरथि हैं,
 हायरे ! विषण्ण अब सीता के वियोग
 कुमुद-विनोदी विधु कौमुदी-विहीन ज्यों ।
 लक्ष्मण, विभीषण, समीर-सुत साथ हैं ।
 होकर सतर्क, सावधान, शतघेरों से
 चारों ओर वैरि-वृन्द घेरे हेम लङ्का है.

गहन विपिन मे ज्यो व्याध-दल मिलके,
 जाल ले, सतक घेरता है नेत्ररञ्जनी
 रूप मे, पराक्रम मे भीमा, आदि भीमा-सी,
 केसरी की कामिनी को । युद्ध-क्षेत्र सामने
 देखा वीर रावण ने । कोलाहल करके
 घूमते शृगाल, गीध, कुक्कुर, पिशाच है ।
 बैठते हैं, उड़ते है और लड़ते है वे
 आपस मे; कोई सम-लोभी जीव को कहीं
 पक्ष के प्रहारों से खदेड़ता है दूर लों,
 सुख से निनाद कर कोई मांस खाता है;
 पीता है रुधिर कोई; मृतकों के ढेर हैं ।
 भीमाकृति कुञ्जरो के पुञ्ज है पड़े वहाँ,
 भ्रंभागति-अद्रव गति-हीन हाय ! अब हैं;
 चूर्ण हैं असंख्य रथ; सादी, निषादी, रथी
 और शूली, एक साथ सब हैं पड़े हुए !
 वर्म, चर्म, चाप, शर, मिन्दिपाल, असियाँ,
 मुद्गर, परशु, तूण फैले सब ओर हैं ।
 कुण्डल, किरीट, हार, शीर्षकादि वीरों के
 तेजोमय भूषण विकीर्ण हैं जहाँ-तहाँ ।
 यन्त्रि-दल यन्त्रों मे पड़े हैं यम-तन्त्र हो !
 ध्वजवह, हेम-ध्वज-दण्ड लिये हाथ में,
 कालदण्डाघात से पड़े हैं । हाय रे ! यथा

स्वर्णचूड़-शस्य कट गिरते हैं क्षेत्र मे
 कर्षक-करो से, पड़े राक्षस असंख्य है;
 मानु-कुल-मानु वीर राघव के बाणों से ।
 शूरशिरोरत्न वीरबाहु है पड़ा वहीं
 वैरियो को दाबे बली, जैसे था पड़ा अहा ।
 जननी हिडिम्बा के विशाल स्नेह-नीड़ मे
 पालित गरुड़-सा घटोत्कच महाबली,
 जब उस कालपृष्ठधारी कर्ण धन्वी ने
 छोड़ी शक्र वाली शक्ति कौरव-हितार्थ थी ।

शोक से अधीर तब बोला राक्षसेन्द्र यों—
 “आज जिस शय्या पर वत्स, तुम सोये हो,
 शूर-कुल इच्छुक है सवदा ही उसका !
 दलकर शत्रु-दल रण मे स्वबल से,
 जन्मभूमि-रक्षा-हेतु कौन डरे मृत्यु से ?
 मीरु है जो मूढ डरे, धिक उसे, धिक है !
 तो भी, यह चित्त तात, मोह-मद-मुग्ध है,
 फूल-सा मृदुल, इस वज्र के प्रहार से
 कैसा आज कातर है, जानेंगे इसे वही
 जो कि अन्तर्यामी हैं, जना मैं नहीं सकता ।
 यह भव-भूमि विधे, रङ्गभूमि तेरी है;
 किन्तु पर-दुःख देख क्या तू सुखी होता है ?
 होता है सदैव पिता दुःखी पुत्र-दुःख से,

विश्व-पिता तू है, यह तेरी कौन रीति है ?
हा सुत, हा वीरबाहो, शूरशिरोरत्न हा !
क्योंकर तुम्हारे बिना मैं ये प्राण रक्खूँगा ?”

करके आक्षेप यों ही राक्षसों के राजा ने
दृष्टि फेर देखा दूर मकरालय सिन्धु यो—
मेघो का समूह मानों निश्चल है, उसमे
प्रस्तर-विनिर्मित, सुदीर्घ, दृढ़, सेतु है ।
दोनों ओर फेनमयी फणिवर रूपिणी
उठती तरंगे है निरन्तर निनाद से ।
वह पुल, विपुल, अपूर्व है, प्रशस्त है,
राज-पथ-तुल्य, जन-स्नोत कल रव से
बहता है, स्नोत-पथ से ज्यों वारि वर्षा में ।

सिन्धु-ओर देख महामानी राक्षसेन्द्र यों
बोला, अभिमान-वशा—“क्या ही मञ्जु मालिका
पहनी प्रचेत., आज तुमने, हा ! धिक् है,
तुम जो अलंघ्य हो, अजेय हो, क्या तुम को
अच्छा लगता है यही ? सोचो, हे महोदधे !
आभूषण क्या तुम्हारा रत्नाकर, है यही ?
हाय ! किस गुण से, कहो, हे देव, मैं सुनूँ,
किस गुण से है तुम्हे क्रीत किया राम ने ?
वैरी हो प्रभञ्जन के और प्रभञ्जन ज्यों
भीम विक्रमी हो तुम, फिर किस पाप से

पहने हो तुम यह निगड़, कहो, सुनू ?
 नीच भालुओं को बोध, बाजीगर उनसे
 खेल करता है; किन्तु राजपद सिंह के
 बांधे पक्षि-रज्जु से जो, शक्ति यह किसकी ?
 यह जो सुवर्ण-पुरी लङ्का, नील जलधे,
 शोभित तुम्हारे वक्ष पर है कि नित्य ज्यों
 माधव के वक्ष पर कौस्तुभ सुमणि है,
 इस पर बताओ, क्यों तुम यों अदय हो ?
 अब भी उठो हे वीर, तोड़ो वीर-बल से
 तुम यह पाप-बन्ध, मेटो अपवाद को;
 शान्त करो ज्वाला यह, अतल सलिल मे
 शीघ्र ही डुबोके इस शक्तिशाली शत्रु को ।
 न यह कलङ्क-रेखा रक्खो तुम माथे पै,
 विनती तुम्हारे चरणों में यही मेरी है ।”

राजपति रावण यों कह फिर मौन हो,
 बैठा कनकासन पै, आके समा-धाम मे;
 बैठे मौन पात्रमित्र-सभ्य सब शोक से
 चारों ओर । इतने में गूँजा वहाँ सहसा
 रोदन-निदान-मृदु; गूँज उठा साथ ही
 नूपुर-रणन और किङ्किणी-करण भी !
 हेमाङ्गिनी सङ्गिनी-समूह लिए सङ्ग में
 चित्राङ्गदा देवी तब आई समाधाम में ।

केश बिखरे थे, देह आभरण-हीन थी,
 पाले से प्रसूनहीना, दीना लता हो यथा !
 अश्रुमय नेत्र, हिम-पूर्णा यथा पद्म थे ।
 वीरबाहु-शोक-वशा व्याकुल थी महिषी,
 होती है विहङ्गिनी ज्यों, हाय ! जब नोड़ मे
 धुस कर कालनाग शावक को प्रस ले !
 फैली शोक-भ्रंभा सभा-मध्य महा वेग से,
 चारो ओर वामा-वृन्द शोभित हुआ वहाँ,
 रूप मे सुराङ्गना ज्यो, मुक्त केश-यन थे,
 आंसुओं की वृष्टि वारि-धारा थी, उसोंसो का
 प्रलय-प्रमञ्जन था, हाहाकार मन्द्र था !
 चौका कनकासन पै लङ्कापति देख के ।
 फेंक दिया चामर दृगम्बु भर दासी ने,
 छत्र फेक छत्रधर रोया; क्षोभ-रोष से
 खींच लिया घोर खर खड्ग द्वारपाल ने,
 पात्र-मित्र-सभ्य सब रोये घोर रव से ।

बोली, कुछ देर बाद, चित्राङ्गदा महिषी,
 रावण की ओर सती देख, मृदु स्वर से—
 “एक रत्न विधि ने दिया था मुझे कृपया,
 रक्खा उसे पास था तुम्हारे, मुझ दीना ने,
 रत्न-कुलरत्न, रत्ना-हेतु, वृत्त-नीड़ मे
 शावक को रखती खगी है ज्यों । कहो, कहाँ

रक्खा तुमने है उसे लङ्कानाथ ? है कहाँ
मेरा सो अमूल्य रत्न ? पाऊँ मैं उसे कहाँ ?
दीन-धन-रक्षण है राजधर्म, तुम हो
राजकुल-राज, राजा, रक्खा कहो, तुमने,
कैसे, मैं अकिञ्चना हूँ, मेरे उस धन को ?”

उत्तर में बोला तब वीर दशानन यो—
“व्यर्थ यह लाञ्छन लगाती हो प्रिये, मुझे
क्यों तुम ? उचित है क्या निन्दा उस जन की,
दोषी ग्रह-दोष से है जो ? हा । यह यातना
सहता हूँ दैव-वश, देवि, यह सोने की
वीरपुत्रधात्री पुरी देखो, आज होरही
वीर-शून्य, वीरप्रसू, मानो ग्रीष्मऋतु में
नीर-शून्य सरिता, प्रसून-शून्य अटवी !
करके प्रवेश नागवल्ली-जता-गृह में
शल्य यथा करता है छिन्न-भिन्न उसको,
तोड़ता है दाशरथि मेरे देमपुर को !
आप अग्नि भी है बँधा आप्रह से उसके !
एक सुत-शोक से हो व्यग्र तुम ललने,
शत सुत-शोक से है मेरा हिया फटता
रात-दिन ! हाय ! देवि, आंधी जब आती है,
करके विदीर्ण तब सेमल की फलियों,
उनकी रुई को वह वेग से उड़ाती है,

रत्नः-कुल-शेखर विपुल हाय ! मेरे त्यों
होते हैं विनष्ट इस काल-रण-रङ्ग में ।
लङ्का के विनाश को बढ़ाता विधि हाथ है ।”

रत्नोराज मौन हुआ, होकर अधोमुखी
चन्द्रानना चित्राङ्गदा रोने लगी शोक से;
होने लगी व्याकुल हा ! याद कर पुत्र को ।
राघवारि बोला फिर सान्त्वना के स्वर में—

“योग्य है विलाप यह देवि, क्या तुम्हें कमी ?
रण में तुम्हारा पुत्र, देश-वैरी मार के,
स्वर्ग को गया है, तुम वीरसू हो, वीरों का
कर्म कर वीरगति पाई तब पुत्र ने ।
उसके लिए क्या यह क्रन्दन उचित है ?
मेरा कुल उज्वल हुआ है तब पुत्र के
विक्रम से; इन्दुमुखि, रो रही हो फिर क्यों ?
क्यों तुम भिगो रही हो आँसुओं से आपको ?”
बोली तब चारुनेत्रा चित्राङ्गदा सुन्दरी—
“देश-वैरी मारता है रण में जो, धन्य है;
धन्य उसका है जन्म, मानती हूँ आपको
धन्य मैं, प्रसू जो हुई ऐसे वीर सूनु की ।
किन्तु सोचो नाथ, तब लङ्कापुरी है कहीं;
है वह अयोध्या कहीं ? कैसे, किस लोभ से,
राम यहाँ आया ? यह स्वर्गापुरी सुन्दरी,

इन्द्र को भी वाञ्छित है, अतुल त्रिलोकी मे-
 शोभित है रत्नाकर चारो ओर इसके
 उन्नत प्राचीर जैसे रजत-रचित हो ।
 सुनती हूँ सरयू किनारे वास उसका,
 मानव है तुच्छ वह । क्या तुम्हारा सोने का
 सिंहासन छीनने को राघव है जूझता ?
 वामन हो चाहे कौन चन्द्र को पकड़ना ?
 देव, फिर देश-वैरी कहते हो क्यों उसे ?
 रहता सदैव नतमस्तक भुजङ्ग है,
 किन्तु यदि उसपै प्रहार करे कोई तो
 फन को उठाके वह डसता है उसको ।
 किसने जलाई यह कालानल लङ्का मे ?
 हाय ! निज कर्म-दोष से ही नाथ, तुमने
 कुल को डुबाया और डूबे तुम आप भी ।”

कहके यों मर्गवाक्य वीरबाहु-जननी
 चित्राङ्गदा रोती हुई, सखियों को साथ ले,
 अन्तःपुर को गई । सशोक, साभिमान यों
 गर्ब उठा राघवारि, हेमासन छोड़ के—
 “इतने दिनों मे (बोला) शूर-शून्य होगई
 मेरी स्वर्णलङ्का ! इस कालान्तक रण में
 भेजूँ अब और किसे ? कौन अब रक्खेगा
 रत्नःकुल-मान ? आप मै ही अब जाऊँगा ।

सज्जित हो, लङ्का-अलङ्कार शूर-सैनिकों ।
देखूँ, रघुवंशमणि रखते हैं गुण क्या ?
होगा आज जगत अरावण, अराम वा ।”

इतना कहा जो शूर-सिंह दशानन ने,
दुन्दुभि सभा में बजी घोर घन-घोष से ।
सुन वह नाद, सजी वीर-मद-मत्त हो,
सुर-नर-दैत्य-भीति, यातुधानवाहिनी ।
निकले सवेग वारियो से—जलस्रोत-से,
विक्रम में दुर्निवार—वारणों के वृथ, त्यों
अश्व मन्दुराओं से, लगामों को चबाते-से,
ग्रीवाएँ सुभङ्ग किये । स्वर्णचूड़ रथ भी
आये वायु-वेग से, पुरी में प्रमा छागई ।
प्रबल पदातिक, सुवर्ण-टोप पहने,
खड्ग खनकाते हुए कान्तिमान कोषों में,
पीठों पर ढाल बाँधे, रण में अभेद्य जो,
हाथों में त्रिशूल लिये, अभ्रभेदी शाल ज्यों,
वर्मावृत देह किये, आगे पंक्ति बाँध के ।
आये यों निषादी कि ज्यों मेघ-वरासन पै
वज्रपाणि, सादी यथा अश्विनीकुमार हों;
भीम भिन्दिपाल, विश्वनाशी फरसे लिये ।
फैली नमोमण्डल में आमा, यथा वन में
दावानल लगने से फैलता उजाला है ।

रत्नःकुल-केतु-पट, रत्नों से जड़ा हुआ,
धीर ध्वजधर ने उड़ाया, यथा फैलाके
पक्षों को उड़ा हो स्वय वैनतेय व्योम मे ।
चारों ओर शोर कर बाजे बजे युद्ध के,
उल्लासित हो के हय हींसे, गज गरजे,
अम्बुराशि ऐसा कम्बुराशि-रव छागया;
टङ्कारित चाप हुए, भङ्कारित असियाँ,
कान फटने-से लगे घोर कोलाहल से ।

कौपी तब स्वर्णलङ्का वीर-पद-भार से,
गरजा सरोष सिन्धु । जल-तल मे जहाँ-
विदुमों के आसन पै, हेम-पद्म-वन मे,
माँग गुँथवा रही थी मोतियों से रूपसी
देवी वरुणानी, वह शब्द वहाँ पहुँचा,
चौककर चारों ओर देखने लगी सती,
बोली फिर इन्दुमुखी अपनी सहेली से—
“चञ्चल हुआ क्यों सखि, सिन्धुराज सहसा ?
मुक्तामय सौध-शृङ्ग काँपता है, देख तो !
जान पड़ता है, फिर दुष्ट वायुकुल ने
आकर तरङ्गों से लड़ाई शुरू कर दी ।
धिक है प्रमत्तन को, कैसे वह सजनी,
भूला है प्रतिज्ञा निज ऐसे अल्प काल मे ?
इन्द्र की समा मे अमी मै ने उसे साधा था

राकने को वायु-वृन्द, बोधने को कारा मे ।
 हँस के कहा था तब उसने—‘ जलेश्वरी,
 स्वच्छनीरा सरिताएँ जितनी जगत में,
 किङ्करी तुम्हरी है, सभी के साथ मुझको
 आज्ञा दो विहार की तो मानूँ अनुरोध मैं ।’
 अनुमति दी थी सखि, मैं ने वायुपति को,
 फिर वह आगया क्यों देने मुझे यातना ?”

उत्तर सखी ने दिया तब कलकरुठ से—
 “देती हो वृथा ही दोष वारीन्द्राणि, वायु को ।
 भङ्गा नहीं, किन्तु यह भङ्गा के समान ही
 सजता है रावण सुवर्णलङ्का धाम मे,
 राम-वीर-गर्व खर्व करने को रण मे ।”

बोली वरुणानी फिर—“आली, यही बात है,
 सीता के लिए श्रीराम-रावण का वैर है ।
 रत्न कुल-राजलक्ष्मी प्यारी सखी मेरी है,
 उनके समीप सखि, जाओ तुम शीघ्र ही,
 युद्ध-कथा सुनने की लालसा है मुझको ।
 देना यह स्वर्ण-कञ्ज कमला को भेट मे
 और कहना यों—जहाँ बैठ पद्मासन पै
 रखती थीं अरुण पदाब्ज तुम अपने,
 फूला वही फूल यह, चन्द्रमुखि, जब से
 तुम गईं करके अंधेरा सिन्धु-गोह में ।”

जल-तल छोड़ चली मुरला सहेली यों—
 सफरी सुचञ्चला ज्यों चलती है सहसा
 रौप्यकान्ति-विभ्रम दिखाने को दिनेश को ।
 प्राम हुई दूती शीघ्र स्वर्णलङ्काधाम' मे,
 पद्मालय मध्य जहाँ पुण्य पद्मासन पै
 राजती थी पद्ममयी पद्मनाभ की प्रिया ।
 द्वार पर ठहर निमेष भर दूती ने
 दृष्टि निज शीतल की, देख वह माधुरी,
 मोहती है मदन-विमोहन को जो सदा ।
 चलता चिरानुचर वायु था वसन्त का
 सुस्वन से, देवी के पदाब्ज-परिमल की
 आशा कर । चारों ओर शोभित थे फूल यों—
 रत्न ज्यों धनाधिप के धन्य धनागार मे ।
 जलती थी धूप सौ सौ स्वर्ण-धूपदानों मे,
 आमोदित मन्दिर था गन्धरस-गन्ध से ।
 नाना उपहार सजे स्वर्णभाजनो मे थे
 विविध पदार्थ सह । स्वर्ण-दीप-माला थी
 दीप्त,—गन्ध-तैल-पूर्ण, किन्तु द्युतिहीन थी
 देवी के समक्ष, यथा राकापति-तेज से
 होते ज्योतिरिङ्गण है ज्योतिर्हीन रात में !
 बैठी मुहँ मोड़के थी इन्दुमुखी इन्दिरा
 देवी सविषाद, अहा ! गौड़जन-गृह में

विजयादशमी को ज्यों विजया विसर्जिता !
 रख के कपोल करतल पर, सोच में
 तेजस्विनी कमला थी कमलासनस्थिता ।
 हा ! ऐसे—सुमन जैसे—मन में भी शोक क्या
 होता है प्रविष्ट कुम्हलाने के लिए उसे !

मन्द मन्द गति से सुमन्दिर में सुन्दरी
 मुरला प्रवेश कर, कमला के पैरों में
 प्रेम से प्रणत हुई । रत्न कुल-लक्ष्मी ने
 उसको आशीष दिया और पृछा उससे—
 “कैसे तुम आज यहाँ आई, कहो, मुरले,
 'यारी सखी मेरी कहाँ देवी हैं जलेश्वरी ?
 याद करती हूँ सदा उनको मैं । जब थी
 उनके जलालय में, करती थी कितना
 मुझ पर प्रेम वरुणानी सती, उनकी
 भूल सकती हूँ कभी क्या मैं कृपा मुरले ।
 आशावास मेरा जिन हरि का हृदय है,
 वञ्चित हो उनसे बची जो रही, सो सखी
 पाशी की प्रिया के स्नेह से ही मैं बची रही ।
 सकुशल तो है सखी ?” बोली तब मुरला—
 “कुशल समेत हैं वे देवि, जलतल में ।
 सीता के लिए श्रीराम-रावण का वैर है,
 युद्ध-कथा सुनने की लालसा है उनको ।

अरुण पदाब्ज जहाँ रहते थे आपके
फूला यह पद्म वहाँ, सेवा मे इसी लिए
पाशिप्रेयसी ने आज प्रेषित किया इसे ।”

दीर्घ श्वास छोड़ सविषाद बोली कमला,
अमला-वैकुण्ठ-विभा—“हाय ! सखि, क्या कहूँ ?
दिन दिन हीनवीर्य्य हो रहा है रण मे
दुष्टमति रावण, ज्यों तीर नीरनिधि का
तरल तरङ्गो के प्रहारों से सदैव ही ।
चौकोगी सुन के तुम, योद्धा कुम्भकर्णी-सा,
भीमाकृति भूधर-समान धीर, रण मे
निहत हुआ है अतिकाय सह । और भी
कितने निशाचर मरे है, कहूँ कैसे मै ?
शूरशिरोरत्न वीरबाहु हत हो गया ।
सुन पड़ता है वह क्रन्दन निनाद जो,
रो रही है अन्तःपुर-मध्य सुत-शोक से
व्याकुल हो चित्राङ्गदा । हो रही हूँ व्यग्र मैं
यह पुर छोड़ने को । फटता हृदय है
सुन सुन रात-दिन रोना अबलाओं का ।
रोती हैं मुरले, यहाँ नित्य घर घर मे,
स्वामिहीना सतियों त्यों पुत्रहीना माताएँ !”
पूछा मुरला ने—“महादेवि, कहिए, सुनूँ,
आज कौन शूर सजता है वीर दर्प से ?”

बोली रमा—“आओ, चल देखे हम दोनों ही
आज लड़ने के लिए कौन वीर जाता है।”

करके विचार यह, मन्दिर से दोनों ही
रक्षःकुलनारियों का रूप रख निकली,
पहने दुकूल दिव्य । कङ्कण करो मे थे,
चरणों मे नूपुर सुनिकण थे करते
कृश कटिदेश मे थी काञ्ची नेत्ररञ्जिनी ।
मन्दिर के द्वार पर आके लगी देखने,
चलती है श्रेणीबद्ध सेना राजपथ मे,
सिन्धु की तरङ्गे यथा चलती है वायु से ।
दौड़ते है स्यन्दन, सुचारु चक्रनेमियाँ
घूमती है घर्घर । तुरङ्ग है ऋपटते
भंभा के समान । गज धरती धँसाते हैं
पीन-पद-भारों से, उछाल कर शृण्डों को.
दण्डधर मानों काल-दण्डधारी । युद्ध के
बाजे बजते है, यथा घन है घहरते;
रत्नों से खचित सौ सौ केतु है फहरते
दृष्टि भुलसाते हुए । दोनों ओर सोने के
सु-गृह-गवाक्षों मे खड़ी हो विश्वमोहिनी
रक्षःकुलबधुएँ प्रसून वरसाती है
और शुभ शब्द करती हैं । तब मुरला
इन्दुमुखी इन्दिरा की ओर देख बोली यों—

“त्रिदिव-विभव देवि, देखती हूँ भव में !
जान पड़ता है, आज आप सुरराज ही
दिव्य दल-बल से प्रविष्ट हुए लङ्का में ।
कहिए कृपामयि, कृपा कर कि मैं सुनूँ,
कौन कौन शूर सजे आज रण-मद से ?”

पद्मनेत्रा पद्मा तब बोली—“हाय ! मुरले,
हो चुकी है शूर-शून्य स्वर्णलङ्का अब तो !
देव-नर दैत्य-त्रास थे जो वीर-केसरी,
निहत हुए है इस दुर्द्धर समर में ।
धारण किया है चाप राम ने सु-योग में ।
देखो, वह स्वर्णचूर्ण-रथ पर जो रथी
भीममूर्ति विरूपाक्ष रत्नोदलपति है,
प्रक्ष्वेडनधारी वीर, दुर्निवार रण में ।
हाथी पर देखो, बली कालनेमि वह है,
शत्रुओं का काल, भिन्दिपाल लिये हाथ में
अश्वारूढ़ देखो, गदाधारी, गदाधर-सा,
तालतरु-तुल्य वह तालजंघा भट है ।
देखो, रणमत्त वह राक्षस प्रमत्त है,
भीषण, शिला-सा वक्ष जिसका कठोर है ।
और जो जो योद्धा है, कहीं तक गिनाऊँ मैं
शत शत शूर ऐसे हत हुए रण में,
जैसे जब दावानल फैलता है वन में,

तुझ तरुवृन्द जल भस्मशेष होते है !”

पूछा मुरला ने तब—“देवेश्वरि, कहिए,
देता दिखलाई नही मेघनाद क्यो यहाँ
इन्द्रजित योद्धामहा, रक्षःकुल-केसरी ?
निहत हुआ है वह भी क्या काल-रण में ?”

बोली विष्णुवल्लभा, सु-मञ्जुमृदुहासिनी—
“जान पड़ता है, युवराज आज सुख से
करता विहार है प्रमोदोद्यान में, उसे
ज्ञात नहीं, मारा गया वीरबाहु रण में,
जाओ वरुणानी के समीप तुम मुरले,
कहना सती से कि मैं छोड़ इस पुर को
सत्वर बैकुण्ठधाम जाऊँगी । स्वदोष से
लङ्कापति डूबता है । हाय ! वर्षाकाल में
स्वच्छ सरसी ज्यो पङ्क उठने से पङ्किला
होती है, सुवर्णलङ्का पाप-पूर्णा हो रही ।
कैसे अब और यहाँ वास करूँ मैं भला ?
जाओ सखि, शीघ्र तुम मोतियों के धाम में,
विद्रुमासनस्था वरुणानी जहाँ । जाऊँ मैं
इन्द्रजित के समीप, लाऊँ उसे लङ्का में,
कर्मफल पूर्ण के फलेंगे यहाँ शीघ्र ही ।”

करके प्रणाम, बिदा होकर रमा से यों-
मुरला मनोज्ञ दूती वायु-पथ से चली,

रत्नमय आखण्डलचापच्छटा-मरिडिता
 उड़ती शिखरिडनी है जैसे मञ्जु कुञ्ज में,
 उतर समुद्र के किनारे, घुसी सुन्दरी
 नील जलमध्य । यहाँ केशव की कामना
 कमलाक्षी रत्न कुललक्ष्मी चली उड़के,
 वासव का त्रास जहाँ वीर मेघनाद था ।

शीघ्र हृषीकेश-प्रिया इन्दिरा सुकेशिनी
 पहुँची, जहाँ था वीर चिर रणविजयी
 इन्द्रजित । वैजयन्त धाम-सा निवास था,
 सुन्दर अलिन्द मे थे हीरचूड़-हेम के
 खम्भे तथा चारों ओर रम्य वनराजि थी
 नन्दन विपिन-तुल्य । कोकिल थे कूजते
 डालों पर, गूँजते थे मौरे, फूल फूले थे,
 मर्मरित पत्र थे, वसन्त-वायु आता था;
 भर भर शब्द कर मरते थे भरने ।
 करके प्रवेश स्वर्ण-सौध में सुदेवी ने
 देखा स्वर्ण-द्वारों पर घूमते सतर्क है
 भीमाकृति वामा-वृन्द, धनुष लिये हुए ।
 डुलती निषङ्ग-सङ्ग पीठ पर बेणी है,
 चौंधा रही कौंधा-सम रत्न-राजि उसमें;
 मणिमय—तीक्ष्ण फणितुल्य—शर तूण में !
 उन्नत उरोजो पर सोने के कवच हैं,

पङ्कज समूह पर रवि-कर-जाल ज्यों ।
 तीक्ष्ण शर तूण मे है, किन्तु तीक्ष्णतर है
 दीर्घ-दृग-बाण । नवयौवन के मद से
 घूमती है प्रमदाएँ, हस्तिनी ज्यो मधु में ।
 घृथुल नितम्बो पर काञ्चियो है वज्रतों
 और चरणों मे चारु नूपुर है वजते ।
 सप्तस्वरा वीणा, वेणु, वजते मृदङ्ग है;
 उठता है गान की तरङ्गे सब और से
 मिलके उन्हींके सङ्ग, मुग्ध कर मन को ।
 प्रमदा बराङ्गनाएँ सङ्ग लिये सुख से
 वीर वर करता विहार है, ज्यों चन्द्रमा
 दक्ष-वाला-वृन्द लिये करता विहार है,
 कि वा अयि सूर्य्यसुते, यमुने, तरङ्गिणी,
 गोपीश्वर, गोप-बधू-सङ्ग लिये, रङ्ग से,
 होठो पर वेणु धरे, नीपतले नाच, ज्यों
 तेरे रम्य तीर पर करते विहार है ।

राक्षसी प्रभाषा धाय थी जो मेघनाद की,
 रखके उसी का रूप पद्मा वहाँ पहुँची,
 पहने विशद वस्त्र, यष्टि धरे मुष्टि मे !

हेमासन छोड़ उठा वीर-कुल-केसरी
 इन्द्रजित, पैरों मे प्रणाम कर धाय के,
 बोला—“किस हेतु मातः । कष्ट किया तुमने

चेम तो है ? मुझको सुनाओ चेम जङ्गा का ।”

बोली सिर चूम कर, लक्ष्मी, छद्मरूपिणी—

“हाय ! वत्स, क्या कहूँ मैं हाल हेमलङ्गा का ?

तेरा प्रिय बन्धु बली वीरबाहु रण में

मारा गया । शोकमग्न हो के सुत-शोक से,

लड़ने को जा रहे है लङ्केश्वर आप ही ।”

विस्मित हो बोला महाबाहु तब उससे

भगवति, कैसी बात कहती हो ? किसने

मारा कब, मेरे प्रिय बन्धु को समर मे ?

मारा रात्रि-रण मे था मैं ने रघुवीर को,

काटा था कटक-जाल वैरियों का बाणों से,

फिर यह बात, यह विस्मय की बात, माँ !

शीघ्र कहो दास से, सुनी है कहीं तुमने ?”

रत्नाकररत्नोत्तमा बोली तब इन्दिरा—

“हाय ! पुत्र, सीतापति मायावी मनुष्य है,

मर के बचा है जो तुम्हारे तीक्ष्ण बाणों से !

जाओ तुम शीघ्र, मान रखो निज वंश का,

रत्नःकुलचूड़ामणो, जाके इस रण मे ।”

क्रोध कर फूलमाला तोड़ फेंकी शूर ने,

फेका दूर बलय सुरत्नमय सोने का,

कुण्डल पतित हो के पैरों तले आ गिरा,

उन्नत अशोक तले फूल ज्यों अशोक का

आभामय ! “धिक मुझे” बोल उठा वीर यों—
 “धिक है मुझे, हा ! शत्रु घेरे स्वर्णलङ्का हैं
 और बंठा हूँ मैं यहाँ नारियों के बीच में !
 योग्य है मुझे क्या यही, रावण का पुत्र हूँ
 इन्द्रजित जो मैं; रथ लाओ अरे, शीघ्र ही,
 मेटूँ अपवाद यह, वैरियों को मार के ।”

सज्जित रथीन्द्र हुआ वीर-वेष-भूषा से,
 तारक-वधार्थ मानों कार्तिकेय सेनानी;
 अथवा वृहन्नला का वेप त्याग करके,
 गो-धन उबारने को अर्जुन, शमीतले ।
 मेघ-ऐसा स्यन्दन था, चक्र चपला-से थे,
 केतु इन्द्र-चाप-सा था, आशुगति अश्व थे ।
 रथ पर दर्पयुत ज्यों ही चला चढ़ने
 वीरचक्रचूड़ामणि, सुन्दरी प्रमीला ने
 धर पति-पाणि युग—मानों स्वर्णवल्ली ने
 वृक्षकुलशेखर का आलिङ्गन करके,
 रोकर कहा यों—“प्राणनाथ, इस दासी को
 छोड़ कहीं जाते हो ? तुम्हारे बिना प्राण ये
 धारण करूँगी किस भौति मैं अभागिनी ?
 हाय ! स्वामी, गहन अरण्य मे गजेन्द्र के
 पैरों मे लिपटती है आप ही जो लतिका,
 देकर न ध्यान रस-रङ्ग पर उसके

जाता है मतङ्ग, तो भी, रखता है उसको
 अपने पदाश्रय मे यूथनाथ । फिर क्यों
 त्यागते हो तुम गुण-गेह, इस दासी को ?”
 बोला हंस मेघनाद—“इन्द्रजित को सती
 जीत, जिस बन्धन से बद्ध किया तुमने,
 खोल सकता है उसे कौन ? शुभे, शीघ्र मै
 लौट यहाँ आऊँगा, तुम्हारी शुभवाञ्छा से,
 वैरियों को मारके । बिदा दो विधुवदने !”

घोर-रव-युक्त रथ वायु-पथ मे उठा,
 हेम-पद्म विस्तारित करके मैनाक ज्यों,
 नभ मे उजेला कर पूर्ण बल से उड़ा ।
 प्रत्यश्चा चढ़ाकर, सरोष महा वीर ने,
 टङ्कारित चाप किया, मानों उड़ मेघों मे
 गरजा गरुड़, कँपी लङ्का, कँपा सिन्धु भी !
 सजता है रावण रणार्थ महा दर्प से,
 बजते है वीर-वाद्य, गज है गरजते;
 घोड़े हींसते हैं, शूरवीर है, हुँकारते;
 उड़ते है कौशिक-पताका-पट, व्योम में
 उठती है काश्वनीय कञ्जुफच्छटा-घटा ।
 आया इतने में वहाँ इन्द्रजित वेग से ।

गरजी सगर्व सेना देख वीर वर को ।
 करके प्रणाम पितृ-चरणों मे पुत्र ने,

हाथ जोड़ के यों कहा—“तात, मैं ने है सुना,—
रण में, मर के मो, है राघव नहीं मरा ?
जानता नहीं मैं यह माया ! किन्तु आज्ञा दो,
कर दूँ निर्मूल मैं समूल उसे आज ही ।
आग्नेयास्त्र-द्वारा महाराज, मस्म कर दूँ
और पवनास्त्र से उड़ाऊँ क्षणमात्र में,
किं वा बौध लाऊँ अभी राजपदपद्मों में ।”

छाती से लगा के, सिर चूम के कुमार का,
बोला स्वर्णलङ्काधिप, धीर, मृदुस्वर से—

“रत्न-कुलकेतु, अवलम्ब रत्नोवंश के
तुम हो हे वत्स, इस काल-रण मे तुम्हे
बार बार भेजने को चित्त नहीं चाहता ।
सुम्ह पर वाम है विधाता, कब किसने,
पानो में शिलाएँ पुत्र, उतराती हैं सुनी ?
किसने सुना है, लोग मर कर जीते हैं ?”

वासवविजेता फिर बोला वीर दर्प से—
“क्या है वह क्षुद्र नर, डरत हो उसको
तुम हे नृपेन्द्र ? इस किङ्कर के रहते,
जाओगे समर में जो, फैलेगा जगत में
तो यह कलङ्क, पिता, वृत्रहा हूँसेगा हा !
बृष्ट होंगे अग्निदेव । राघव को रण में,
मैं दो बार पहले हरा चुका हूँ; हे पितः !

एक वार और मुझे आज्ञा दो कि देखूँ मैं,
बचता है वीर इस वार किस यत्न से !”

रत्नोराज बोला—“बली भाई कुम्भकर्ण को,
भय से, अकाल में जगाया हाय ! मैं ने था;
सिन्धु के किनारे पड़ा देखो, देह उसका
पृथ्वी पर, वज्र-भङ्ग मानो शैल-शृङ्ग है,
अथवा विशाल शाल । तब यदि युद्ध की
इच्छा है नितान्त तुम्हें, तो हे पुत्र, पहले
पूजो इष्ट देव को, निकुम्भला मे यज्ञ को
साङ्ग करो; वीरमण्ये, सेनापति-पद पै
करता प्रतिष्ठित हूँ तुमको मैं आज ही ।
देखो, दिननाथ अब अस्ताचलगामी हैं,
लड़ना सबेरे वत्स, राघव से रण मे ।”

कहके यों रावण ने, जान्हवो के जल से
ज्यों ही अमिषेक किया विधि से कुमार का,
त्यों ही वर वन्दिजन वीणाध्वनि करके,
प्रेमानन्द-पूर्णा लगे करने यों वन्दना—
“तेरे नयनों मे अयि हेमपुरी, आसू हैं,
मुक्तकेशी हो रही तू हाय ! शोकवश से;
भूपर पड़ा है रत्न-सुकुट मनोहरे,
और राज-आमरण तरे राजसुन्दरी !
उठ सति, शोक यह दूर कर अब तू;

छदित हुआ है वह देख, रत्नोवंश का
 भानु; तेरी दुःखनिशा बीती, उठ रानी, तू !
 देख, वह भीम वाम कर में कोदण्ड तू,
 जिसके टङ्कार से है वैजयन्त धाम में
 पाण्डुगण्ड आखण्डल ! देख तूपा, जिसमें
 पाशुपति से भी घोर आशुगति अस्त्र हैं !
 गुणि-गण-गर्ग गुणी, वीर-कुल-केसरी,
 कान्ता-कुल-कान्त-रूप, देख इन्द्रजित को !
 धन्य रानी मन्दोदरी, धन्य रत्नोराज है
 नैकषेय ! धन्य लङ्का, वीर-पुत्र-धात्री, तू !
 व्योमजा प्रतिध्वनि सुनो हो, व्योम-वाणी-सी,
 कहो सब, अरिन्दम इन्द्रजित युद्ध को
 संजता है । काँप उठें भय से शिविर में
 राघव, विभीषण—कलङ्क रत्न-कुल का;
 इण्डकअरख्यचारी और क्षुद्र प्राणी जो ।”
 रत्नोराजवाद्य बजे, रत्नोराज गरजे;
 पूर्ण हुई हेमलङ्का जयजयकार से !

इति श्री मेघनाद-बध काव्ये

अभिषेको नाम

प्रथमः सर्गः



द्वितीय सर्ग

दिनमणि अस्त हुआ; धेनु-धूलि आगई,—
उन्नत ललाट पर एक रत्न पहने ।
फूल उठे कुसुम सरो मे, आँखें मूँद लीं
बिरस वदन वाली नलिनी ने; नीड़ों में
विहग प्रविष्ट हुए, कल रव कर के;
हम्बारव-युक्त गायें आने लगीं गोठों में ।
चारुचन्द्र-तारा-युक्त आई हँस यामिनी;
चारों ओर गन्धवह मन्द गति से बहा
सुस्वन से, सब को विलासी ने बता दिया—
कौन कौन फूल चूम कौन धन पाया है ।
आई तब निद्रा देवी; श्रान्त शिशुकुल ज्यों—
लेता है विराम जननी के क्रोड़-नीड़ में,
जलथलचारी सब प्राणियों ने देवी के
चरणों के आश्रम में पाया सु-विश्राम त्यों ।
उतरी शशिप्रिया त्रियामा सुरपुर में ।
रत्नासनासीन हुए देवपति, देवों की
सु-प्रभा समा में, बाम ओर बैठी इन्द्राणी
इन्दुमुखी । रत्नमय राजच्छत्र सोने के,

देनों के सिरों पर सु-शोभित हुए वहाँ ।
 रत्नों से खचित चारु चामर सु-यत्न से
 दासियों डुलाने लगीं, तोल गोल बाँहों को ।
 आने लगा मन्द वायु नन्दन विपिन का ।
 दिव्य नाद वाले देव-वाद्य बजने लगे;
 मूर्तिमती रागिणी समेत सब रागो ने
 आकर आरम्भ किया गान । रम्भा, उर्वशी,
 चित्रलेखा आदि अप्सराएँ लगीं नाचनें,
 शिञ्जित सहित हाव-भाव व्यक्त करके,
 देवों को रिभाती हुईं । सोने के सु-पात्रों में
 सुगुणी गन्धर्व-गण लाने लगे यत्न से
 मधुर सुधारस, सुगन्धि से भरा हुआ !
 कोई देव-ओदन विनोदकर वस्तुएँ—
 चन्दन, कपूर कोई, कोई मृगमद त्यों,
 कुंकुम, अगर कोई, कोई पारिजात की
 दिव्य-पुष्प-माला गूँथ लाने लगे यत्न से ।
 देवों के समेत देवराज सुख-मग्न हैं,
 मोदित है वैजयन्त; ऐसे अवसर मे,
 करके प्रदीप्त-सा प्रभा से सुरपुर को,
 आई वहाँ रत्न-कुल-राजलक्ष्मी । इन्द्र ने
 उठ के ससम्भ्रम, प्रणाम किया पद्मा को ।
 आशीर्वाद दे के, बैठ स्वर्ण-सिंहासन पै,

मेघनाद-वध

पद्मदृषी, पद्मालया, विष्णुवत्तोवासिनी
बोली जिष्णु से यों—“सुरराज, आज आई मैं
क्यों तुम्हारे पास, ध्यान देकर सुनो उसे ।”
बोला तब वासव—“हे सृष्टिशोभे, सिन्धुजे,
लक्ष्मि, लोकलालिनि, तुम्हारे पद लाल ये
लोक-लालसा के लक्ष्य है इस त्रिलोकी में ।
जिस पै कृपामयि, तुम्हारी कृपाकोर हो,
उसका सफल जन्म होता है तनिक में ।
हे माँ, सुख-लाम यह आज इस दास ने
पाया किस पुण्य-बल से है ? कहो, दास से ।”
देवी ने कहा—“मैं चिरकाल से हूँ लङ्का में,
पूजता है रावण सयल मुझे रत्नों से ।
इतने दिनों के बाद वाम हुआ विधि है
उस पर, हाय ! वह पापी कर्म-दोष से
डूबता है अब निज वंश युत; फिर भी,
झोड़ नहीं सकती उसे मैं । क्यों कि वन्दी क्या
छूट सकता है बिना कारागृह के खुले ?
जीवित है रक्षोराज जब तक, बद्ध-सी
तब तक हूँ मैं सुरराज, उसके यहाँ ।
पुत्र उसका है मेघनाद, तुम उसको
खूब जानते हो । अब एक वही लङ्का में
बंद बचा, मारे गये और सब युद्ध में !

विक्रम में सिंह-सम, आक्रमण रण में
 कल ही करेगा वह राम पर; उसको
 बरण किया है फिर सेनापति-पद पै
 रावण ने । राघव है प्यारे देवकुल को;
 सोचो शक्र, क्यों कर बचा सकोगे उनको ?
 साङ्ग कर यज्ञ निज, दम्भी मेघनाद जो
 युद्ध में प्रवृत्त हुआ, सच कहती हूँ मैं,
 तो पड़ेंगे सीतापति विषम विपत्ति में ।
 मन्दोदरी-नन्दन अजेय है जगत में;
 पक्षिकुल में है बलज्येष्ठ वैनतेय ज्यों,
 सूर-श्रेष्ठ रक्षःकुल में है मेघनाद त्यों ।”

यह कह मौन हुई केशव की कामना
 कमला; अहा ! ज्यों रुके वीणा बजती हुई
 मधुर स्वरों से, सब राग-रागिणीमयी,
 प्राणों को प्रफुल्ल कर । सुन उस वाणी को,
 निज निज कर्म सब भूल गये सहसा;
 मञ्जरित कुञ्ज में विहङ्ग ज्यों, वसन्त में,
 सुन कर कोयल का शब्द, भूल जाते हैं ।

बौला तब शक्र—“ इस वक्र कुसमय में,
 मातः ! विश्वनाथ बिना और कौन रक्सेगा
 राघव को ? दुर्निवार रावण है रण में,
 नाग नहीं डरते हैं जितना गरुड़ को,

डरता हूँ उतना उसे मैं! इस वज्र को,
 वृत्रासुर-मस्तक विचूर्ण हुआ जिससे,
 विमुख किया है आयुधों से उस योद्धा ने!
 कहते इसीसे सब इन्द्रजित हैं उसे।
 सर्व विजयी है वीर, सर्व शुचि वर से।
 आह्ला दास को हो, शीघ्र जाऊँ शिव-धाम मैं।”

बोली यों उपेन्द्रप्रिया, लक्ष्मी, सिन्धुनन्दिनी—

“जाओ सुरराज, तब जाओ त्वरा करके।
 कैलासाद्रि-शृङ्ग पर, चन्द्रचूड़ शिव के
 चरण-सरोजों में निवेदन करो, अभी
 जाके यह हाल तुम। कहना कि हे प्रभो!
 धार नहीं सकती है भार अब वसुधा,
 रोती है सदैव सती, वासुकि व्यथित है।
 बंशसह रक्षोराज ध्वंस जो न होगा तो
 यह भवमण्डल रसातल को जायगा।
 लक्ष्मी पर लाड़ है बड़ा ही विरूपाक्ष का;
 कहना, वैकुण्ठपुरी छोड़े, बहु काल से,
 लङ्कापुर मे है वह, बैठ के अकेले में
 सोच करती है कितना हा! एक वार ही
 भूल गये मोलानाथ, कैसे उसे सहसा?
 कौन पिता दुहिता को पति-गृह से भला
 दूर रखता है? शचीकान्त, यह पूछना।”

पाओ जो न त्र्यम्बक को, अम्बिका के पैरों में
करना निवेदन ये बातें सब ।” कह यों,
वासव से, इन्दुमुखी इन्दिरा विदा हुई ।
केशव की कामना सुकेशी, व्योम-पथ से
नीचे को गई यों, अहा ! जैसे नील नीर में
गिरने से, उसमें उजेला करती हुई,
सुन्दर सुवर्ण-मूर्ति पैठ जाय तल मे !

लाया रथ मातलि; शची की ओर देख के,
बोला शचीकान्त मृदु वाणी यों, अकेले मे,—
“शम्भु-गृह देवि, चलो मेरे सङ्ग तुम भी;
होता है सुगन्धिसह दूना मान वायु का !
होती है मृणाल रुचि विकच सरोज से ।”
सुन प्रिय वाणी यह, हँस के नितम्बिनी,
पति-कर थाम कर, बैठी दिव्य रथ में ।

स्वर्ग के सुवर्ण-द्वार पर रथ पहुँचा,
खुल गया द्वार स्वयं मधुर निनाद से
तत्क्षण ही ! निकल सवेग उठा व्योम में
देवयान, सारा जग जाग पड़ा चौक के,
उदय विचार उदयाद्रि पर भानु का !
बोल उठा शृङ्गराज, पत्नी सब चहके;
पूर्णा हुआ कुञ्ज-मुख प्रामातिक गान से !
झोड़ फूल-शय्या, कुलबधुएँ सु-राजा से,

छठ कर शीघ्र गृह-कार्य करने चलीं !
 मानस-समीप शिव-शैल शोभायुक्त है;
 भव का भवन मव्य शृङ्ग पर उसके,
 माधव के शीश पर मानों मोरपङ्क है !
 सु-श्यामाङ्ग शृङ्गधर, स्वर्णा-पुष्प-श्रेणी से,
 शोभित है, पीताम्बरधारी घनश्याम-सा ।
 निर्भर-भरित वारि-राशि से जहाँ तहाँ
 चन्दन से चर्चित शरीर ज्ञात होता है !

छोड़ कर स्यन्दन, सुरेश्वरी के सङ्ग में,
 पैदल प्रविष्ट हुआ शक्र शिव-धाम में ।
 स्वर्णासनासीन, राजराजेश्वरी-रूप में,
 थीं वहाँ भवानी, भव-भार-भय-मञ्जिनी ।
 चामर डुलाती विजया थी, राज-छत्र त्यों
 भारण किये थी जया । भव के भवन का
 विभव बखान सके कैसे कवि ? हाय रे !
 भावुको, विचार देखो, मन में तुम्हीं उसे ।

पूजा भक्ति-भाव से की शक्ति के पदाब्जों की,
 शक्र ने शची के सङ्ग । आशीर्वाद दे के यों
 पूछा अम्बिका ने—“कहो, देव, है कुशल तो ?
 आज तुम दोनों यहाँ आये किस हेतु से ?”

कहेंने लगा यों वज्रपाणि हाथ जोड़ के—
 “ज्ञात बंधा नहीं है तुम्हें ? मातः ! इस विश्व में ?

देवद्वषि रावण ने, व्याकुल हो रण से,
 बरण किया है फिर आज मेघनाद को
 सेनापति-पद पै । परन्तप प्रभात ही
 रण मे प्रविष्ट होगा, पूज इष्ट देव को;
 लेकर अमीष्ट वरदान वीर उससे ।
 अविदित शौर्य्य-वीर्य्य उसका नहीं है माँ !
 रत्नःकुलराजलक्ष्मी, वैजयन्त धाम में
 आकर, सुना गई है हाल यह दास को—
 धार नहीं सकती है भार अब वसुधा,
 रोती है सदैव सती; वासुकि व्यथित है ।
 वे भी आप लङ्कापुर छोड़ने को व्यग्र है ।
 आपके पदों में यह वृत्त पहुँचाने को
 देवी ने निदेश दिया दास को है, अन्नदे !
 वीर रघुवंशमणि देव-कुल-प्रिय हैं ।
 कौन है परन्तु रथी ऐसा देवकुल में
 जूम्मे रणभूमि में जो रावण से ? अम्बिके !
 विफल किया है विश्वनाशी वज्र उसने,
 जग में इसीसे ख्यात इन्द्रजित वह है !
 राघव की रक्षा किस यत्न से करोगी, सो
 सोच देखो, कात्यायनि, आपकी कृपा न जो
 होगी तो करेगा कल राम-हीन जग को
 दुर्द्धर, दुरन्त मेघनाद, महा मङ्गले !”

उत्तर उमा ने दिया—“शैव-कुल-श्रेष्ठ है
रावण, है स्नेह बड़ा उस पर शूली का;
उसका अनिष्ट, हे सुरेन्द्र, मुझसे कभी
सम्भव है ? तापसेन्द्र तप में निमग्न हैं;
यह गति देवपति, लङ्का की इसी से है ।”

बोला फिर वासव यों, दोनों हाथ जोड़के,—
“परम अधार्मिक है लङ्कापति, देवों का
द्रोही; सोच देखो, हे नगेन्द्रनन्दिनी । तुम्हीं ।
द्रव्य हरता है महा पापी जो दरिद्रों का,
योग्य है उसी पर तुम्हारी कृपा मातः ! क्या ?
सत्य रखने को निज तात का, भिखारी हो,
आकर प्रवेश किया निविड़ अरण्य मे,
राज-सुख-भोग छोड़ धर्मशील राम ने ।
एक मात्र रत्न था अमूल्य पास उनके,
रखते थे उसको वे जैसे यत्न करके,
कैसे यह दास कहे ? हाय ! उसी रत्न को
हरण किया है डाल माया-जाल, दुष्ट ने !
याद करते ही चित्त जलता है क्रोध से ।
तृण के समान मानता है सब देवों को
माँ ! वह, बली हो सदाशिव के प्रसाद से !
परधन-लोभी, पर-दार-लुब्ध ापा है ।
फिर िस हेतु, (नही आता है समझ में)

आपकी कृपा है उस क्रूर पै ? कृपामयी !”

नीरव सुरेश हुआ; बोली यों सुरेश्वरो—
वीणा-तुल्य वाणी से, मनोज्ञ मृदुस्वर में—
“हृदय विदीर्ण नहीं होता देवि, किसका
जानकी का दुःख देख ? वे अशोक वन में—
(पिञ्जर में जैसे कुञ्ज-सङ्गिनी विहङ्गिनी !)
रोतो रहती हैं दिन-रात सती, शोक से ।
प्राणाधार पति के वियोग में वरानना
सहती हैं जैसी मनोवेदना सदैव ही,
अविदित है क्या इन अरुण पदाब्जों में ?
दखित करेगा कौन पाखण्डी अधम को,
दोगी जो न दण्ड तुम्हीं ? दुष्ट मेघनाद को
मार कर, दो माँ । फिर सीता सीतापति को ।
दासी का कलङ्क मेटो हे शशाङ्कधारिणी,
मरती हूँ लाज से मैं सुन के जहाँ तहाँ—
राक्षस हगता रण मे है त्रिदिवेश को ।”

हंस के उमा ने कहा—“रावण क प्रति
द्वेष तव जिष्णु । तुम मञ्जुकेशिनी शची,
तुम भी हो व्यग्र मेघनाद-वध के लिए ।
करते हो दोनों अनुरोध तुम मुझसे
स्वर्णलङ्का-नाश-हेतु । मेरा साध्य है नहीं
साधन करूँ जो यह कार्य्य । विरूपाक्ष से

रक्षित है रत्नोवंश ! छोड़ कर उनको
 कौन कर सकता है पूर्ण यह कामना
 वासव, तुम्हारी ? मग्न हैं वे योगध्यान में ।
 शृङ्ग एक भीषण है—योगासन नाम का,
 सघन घनों से घिरा; बैठे हैं अकेले वे
 योगिराज आज वहाँ । कैसे जा सकूँगी मैं ?
 उड़ने मे अक्षम है पक्षिराज भी वहाँ !”

बोला फिर आदितेय—अति नतभाव से—
 “हे माँ, मुक्तिदायिनि, तुम्हारे बिना किसकी
 शक्ति है जो जावे पास भीम त्रिपुरारि के ?
 राक्षसों का नाश कर रक्षा करो लोकों की,
 वृद्धि करो धर्म-महिमा की, भार भूमि का
 दूर करो; वासुकि को सुस्थिर करो तथा
 राघव की रक्षा करो देवि, जगदम्बिके !”
 शक्र ने सती से प्रार्थना की वार वार यों ।

गन्धामोद फैला वहाँ ऐसे ही समय मे,
 झाँई शङ्ख-घंटा-ध्वनि मङ्गलनिनाद से;
 जैसी ध्वनि आती है सु-दूर कुञ्ज-वन से,
 पिक-कुल सम्मिलित हो के जब गाता है !
 कम्पित सुवर्णासन होने लगा ! देवी ने
 पूछा विजया से तब—“कौन, किस हेतु से,
 पूजा करता है सखि, मेरी असमय में ?”

मन्त्र पढ़, लिख कुछ खड़िया से पट्टी पै,
गणना की विजया ने और कहा हँस के—
“पूजते हैं देवि, तुम्हें दाशरथि लङ्का में,
लिख के सिन्दूर से सु-वारि-पूर्णा घट पै,
ये पुनीत पाद-पद्म पूज रहे राम हैं,
नील नीरजों को अञ्जली दे भक्तिभाव से;
ज्ञात हुआ गणना से । अमये, करो उन्हे
अमय प्रदान । पूर्णा भक्त वे तुम्हारे है;
तारो तुम सङ्कट से उनको हे तारिणी ।”

स्वर्ण के शुभासन से उठ के महेश्वरी,
विजया सखी से इस भौंति कहने लगी—
“देव-दम्पती की करो सेवा तुम विधि से;
योगासनासीन जहाँ, विकट शिखर पै,
ध्यान-मग्न धूर्जटि हैं, विजये, मैं जाऊँगी ।”
कह के सखी से यह, गौरी गजगामिनी,
स्वर्णागार मे हुईं प्रविष्ट । पुरन्दर को,
इन्द्राणी-समेत बिठला के शुभासन पै;
सादर सु-भाषण से तुष्ट किया आली ने ।
प्राप्त किया दोनों ने प्रमोद, पूर्णा प्रीति से ।
हँस के जया ने हार ताराकार फूलों का
डाल के शची के कण्ठ मध्य, मञ्जु वेणी में
चिर रुचि और चिर विकचे सजा दिये

पुष्प-रत्न; चारों ओर बाजे बजने लगे,
 नाच कर गाने लगीं वामाएँ विनोदिनी;
 मोहित कैलास-सङ्ग तीनों लोक हो गये !
 हँस उठे नेत्र मूँदे बच्चे मातृक्रोड़ मे,
 मधुर निनाद वह स्वप्न मे ही सुन के ।
 चौक उठी निद्राहीन चिन्तित विरहिणी
 प्रिय का चरण-शब्द द्वार पै विचार के !
 कोकिल-समूह हुआ नीरव निकुञ्जों मे ।
 योगि-बाण सोच यह उठके खड़े हुए—
 इष्टदेव आये है, अभीष्ट वर देने को ।

करके प्रवेश हेमागार मे भवानी ने,
 सोचा—“किस भाँति आज भेट भव से करूँ ?”
 क्षण भर सोचकर याद किया रति को ।
 मन्मथ के साथ जहाँ मन्मथविमाहिनी,
 सुख से विहार कुञ्ज-वन में थी करती,
 इच्छा गिरिजा की वहाँ पहुँची निमेष मे,
 परिमल-पूर्ण वायु-लहरी के रूप में ।
 अंगुलि के स्पर्श से सितार के सु-तार-सा
 काम-कामिनी का मन नाच उठा आप हो !
 पहुँची तुरन्त वह कैलासाद्रि धाम मे ।
 खिल के निशान्त में ज्यों भुक्त होती है नलिनी,
 दिव्य दिननाथ-दूती ऊषा के पदों में, त्यों

गौरी के पदों में झुकी मीनध्वज की प्रिया ।
दे के शुभाशीष कहा अम्बिका ने हँस के—

तप में है मग्न आज योगासन शृङ्ग पै
योगिराज, भङ्ग हो समाधि किस ढङ्ग से
उनकी वरानने ! बताओ तुम मुझ को ?”
नम्रता से उत्तर में बोली यों सुकेशिनी—
“देवि मोहिनी, की मूर्ति धारण करो । मुझे
आज्ञा दो, सजाऊँ देह दिव्य अलङ्कारों से;
भूल सब जायँगे पिनाकी तुम्हें देख के,
देख पुष्पकुन्तला मही को मधु मास में,
होता आत्मविस्मृत वसन्त जिस भाँति है ।”

कह के यों रति ने, सुगन्धि-पूर्णा तैल से
केश परिष्कार कर गूँथी कान्त कवरी,
हीरकादि रत्नों के विभूषण सजा दिये,
लेप कर चन्दन, कपूर, कुंकुमादि का,
पहनाये पट्टवस्त्र रत्नों से जड़े हुए;
लाक्षारस ले के किया रञ्जित पदाब्जों को ।
सज्जित भवानी हुई मूर्ति-भवमोहिनी;
कान्ति बढ़ती है ज्यो सु-मार्जित रुवर्या की,
दीप्ति हुई दूनी त्यों उमा की उस रूप में !
चन्द्रमुख देखा तब दर्पण में देवी ने,
फुल्ल पद्मिनी ज्यो देखती है स्वच्छ जल में

अपनी अपूर्व आभा । रति को निहार के
 बोली सती पार्वती—“पुकारो निज नाथ को ।”
 रति ने तुरन्त ही पुकारा रतिनाथ को,
 (जैसे ऋतुपति को पुकारती है कोकिला !)
 आया पुष्पधन्वा द्रुत दौड़ के, प्रवासी ज्यों
 हर्ष युत आता है स्वदेश-गान सुन के !

शैलराजनन्दिनी यों बोलीं—“चलो, शीघ्र हो
 मेरे साथ हे मनोज, योगिराज हैं जहाँ
 योग में निमग्न वत्स, जाना है मुझे वहाँ ।”

मञ्जु मायानन्दन सदैवानन्दमय भी
 मदन समय बोला अभया के पैरो में—
 “देती हो निदेश माँ ! क्यों ऐसा इस दास को ?
 याद कर पूर्वकथा मरता हूँ भय से !
 देह जब छोड़ सति, मूढ़ दक्ष-दोष से,
 जन्म तुमने था लिया शैलराज-गृह मे,
 विश्वनाथ विश्व-भार छोड़ तव शोक मे
 होगये थे ध्यान-मग्न; देवपति ने मुझे
 आज्ञा ध्यान-भङ्ग करने के लिए दी थी माँ !
 थे जहाँ त्रिनेत्र तपोमग्न, मैं कु-लग्न में
 पहुँचा वहाँ हा ! पुष्पधन्वा लिये हाथ मे;
 कु-क्षण मे छोड़ा पुष्प-बाण । भीमनाद से
 टूट पड़ता है मृगराज ज्यों गजेन्द्र पै,

प्रास किया त्यों ही मुझे आकर कृशालु ने,
जिसका निवास है भवानि, भव-भाल में ।
कितना सहा था ताप, हाय ! मों, बताऊँ मैं
कैसे उसे ? मैं ने घोर हाहाकार करके,
तत्क्षण पुकारा इन्द्र, चन्द्र, वरुणादि को;
कोई भी न आया, भस्म हो गया तुरन्त मैं ।
मग्नोद्भ्रम हूँ मैं देवि, भय से भवेश के;
प्रार्थना है, क्षेमङ्करि, दास को क्षमा करो ।”

धैर्य्य उसे देकर उमा ने कहा हँस के—
“निर्भय अनङ्ग, मेरे सङ्ग चलो, रङ्ग से,
चिरविजयी हो तुम मेरे वरदान से ।
तुमको स्वतेज से था भस्म किया जिसने
पूजेगा कृशालु वही आज तुमको, सुनो,
प्राणनाशकारी विष औषध के रूप में,
प्राण रखता है यथा विद्या के प्रभाव से ।”

कर के प्रणाम तब गौरी के पदाब्जों में,
काम ने कहा यों—“तुम जिस पै प्रसन्न हो,
अभये, त्रिलोक मे है कौन भय उसको ?
किन्तु है निवेदन पदाब्ज में भवेश्वरी,
कैसे इस मन्दिर से, बतलाओ दास को,
तुम निकलोगी इस मोहिनी की मूर्ति में ?
विश्व मद-भक्त होगा, एक ही मुहूर्त मे,

देख माँ, तुम्हारी यह मञ्जु रूपमाधुरी ।
 हित मे अहित होगा, माता, सच मानिए ।
 देव-दानवों ने जब मथ कर सिन्धु को,
 असृत किया था प्राप्त, दुष्ट दिति पुत्रों ने
 भगड़ा मचाया था सुधा के लिए देवों से;
 आये तब मोहिनी की मूर्ति मे रमेश थे,
 देख हृषीकेश को अपूर्व उस वेष में,
 दास के शरों से ज्ञान खोया था त्रिलोकी ने !
 आशा कर अधर-सुधा की देव-दैत्यों ने,
 छोड़ा था सुधा का लोभ; नाग-नाग थे मुझे,
 वेणी को विलोक पृष्ठदेश पर, लज्जा से,
 अचल हुआ था आप मन्दर निहार के
 चन्नत उरोज युग्म । आती है मुझे हँसी,
 आती जब याद मुझे है माँ, उस बात की !
 होती ताम्रपत्र की है सोने के मुलम्मे से
 आमा जब ऐसी तब देवि, शुद्ध सोने की
 सोच देखो, कान्ति कैसी होगी मनोहारिणी !”
 कहते ही काम के यों, अम्बिका ने माया से,
 सृजन सुवर्ण-मेघ करके, छिपा लिये
 अपने अपूर्व अङ्ग । मानों दिवसान्त में
 मूँद लिया नलिनी ने मञ्जु मुख अपना !
 कि वा छिपी अभि-शिखा हँस कर भस्म में !

किं वा चन्द्रमण्डल में चक्र-द्वारा शक्र ने
श्रेष्ठ सुधा-रत्न किया वेष्टित सुयत्न से !

द्विरद-रदों से बने श्रेष्ठ गृह-द्वार से
निकलीं नगेन्द्रबाला, मेघावृता ऊषा-सी !
साथ था मनोज पुष्प-धन्वा लिये हाथ में,
पीठ पर डाले तूण, पूर्ण पुष्प-बाणों से,
मानों फुल्ल पङ्कज स-कण्टक मृणाल में ।

शङ्कर के शैल पर, विदित त्रिलोकी में,
भीम, भृगुमान, उच्च योगासन शृङ्ग है;
प्राप्त हुईं गौरी गजराज-गति से वहाँ ।
भैरव निनादी नीर तत्क्षण—गुफाओं में
बद्ध था जो चारों ओर—नीरव-तुरन्त ही
हो गया, ज्यों नीरकान्त शान्ति-समागम से
शान्त हो गया हो । हुई दूर मेघ-मण्डली,
भागता है जैसे तम ऊषा के सु-हास से !
सामने दिखाई दिये योगिराज देवी को,
अन्न तप-सागर में, बाह्यज्ञान-शून्य थे;
लोचन थे बन्द, मस्म-भूषित शरीर था ।
हँस के मनोज से यों बोली मञ्जुहासिनी—
“छोड़ो निज पुष्प-शर ।” देवी के निदेश से,
बैठ घुटनों के बल, चाप में टँकोर दे,
झोड़ा शर सम्मोहन शूली पर शूर ने !

शिहर उठे वे, जटाजूट हुआ सिर का
 आलोड़ित, जैसे वृक्ष-वृन्द भूमि-कम्प में
 चड़ मड़ शब्द कर हिलता है शृङ्ग पै ।
 हो गये अधीर हर, गरजा ज्वलित हो,
 धक धक करके करालानल माल का !
 जा छिपा तुरन्त वक्षस्थल मे भवानी के
 होकर समीत शम्बरारि, सिंह-सुत ज्यों
 छिपता है सिंहनी के क्रोड़ मध्य भय से,
 होता जब घोर घन-घोष और दामिनी
 दृष्टि झुलसाती है कराल काल-वह्नि-सी !
 नेत्र खोल शम्भु उठे योगासन छोड़ के,
 माया-मेघ-आवरण दूर किया देवी ने ।

मोहित हो मोहिनी के रूप से, सहर्ष यो
 बोले विभु—“आज यहाँ निर्जन मे क्यों तुम्हे
 एकाकिनी देखता हूँ हे गणेश-जननी !
 किङ्कर तुम्हारा कहीं शङ्करि, मृगेश है ?
 विजया, जया है कहीं ?” गौरी मञ्जुभाषिणी
 हँस कर बोलीं—“इस दासी को बिसार के
 बहुत दिनों से नाथ तुम हो अकेले ही,
 आई हूँ इसीसे यहाँ, चरण-सरोजों के
 दर्शन की आशा किये योगिराज, आज मैं
 पति के समीप निज सङ्गिनी लिये हुए

जाती सतियाँ है कभी ? एकाकिनी जाती है
 पति के समीप चक्रवाकी तमसान्त मे ।”
 आदर के साथ, मुसकाकर महेश ने,
 गैठाया महेश्वरी को मृदु मृगचर्म पै ।
 तत्क्षण ही फूले सब ओर फूल, गूँज के
 आये अलि-वृन्द मकरन्द-लोभी मत्त हो;
 मलय समीर बहा, कूक उठी कोयले,
 नैशहिम-द्वारा धौत कुसुमों की वृष्टि-से
 आच्छादित शृङ्ग हुआ ! गौरी के हृदय मे
 (मनसिज के योग्य और अच्छा वास इससे
 कौन होगा !) बैठ कर कौतुक से काम ने
 छोड़ा शर-जाल, चाप टङ्कारित करके,
 प्रेम-मत्त हो गये महेश महामोद से !
 रख कर लज्जा-वेष आ के प्रसा राहु ने
 चन्द्रमा को, हैंस के कृशानु छिपा भस्म मे !

मोह कर मोहिनी को सम्मोहन मूर्ति से
 शङ्कर सहास्य बोले—“जानता हूँ सब मैं,
 जो तुम्हारे मन मे है, कैलासाद्रि धाम में
 इन्द्राणी समेत किस हेतु इन्द्र आया है;
 पूजते है रामचन्द्र क्यों तुम्हें अकाल में ?
 पूर्ण भक्त रावण है मेरा शैलनन्दिनी,
 डूबता है किन्तु हाय ! दुष्ट कर्म-दोष से,

होता है विदीर्घा उर याद करके इसे ।
 देव हो कि दानव हो, शक्ति ऐसी किसकी,
 रोक सके जो हे देवि, कर्मगति पूर्व की ?
 भेजो भूट इन्द्र के समीप शिवे, काम को,
 शीघ्र माया देवी के निकेतन में जाने की
 आज्ञा उसे ईश्वरि, दो, माया के प्रसाद से
 मारेंगे लक्ष्मण शूर मेघनाद वीर को ।”

दौड़ गया मीनकेतु, नीड़ छोड़ उड़के
 जाता है विहङ्गराज देख बार बार ज्यों
 उस सुख-धाम ओर । स्वर्गा बर्णा के घने,
 सुरमिसमीरारूढ़, राशि राशि मेघों ने,
 कुमुद, कमल, जाति, पारिजात आदि की
 मन्द गन्धवाहप्रिया पुष्प-वृष्टि करके,
 घेर लिया चारों ओर आके, पंक्ति बाँध के—
 देव-देव महादेव और महादेवी को ।

हस्तिदन्तनिर्मित सुवर्णमय द्वार पै
 मदनविमोहिनी खड़ी थी विधुवदनी,
 आँसू भरे आँखों में, अधीर पति के बिना !
 आ पहुँचा काम वहाँ ऐसे ही समय में ।
 बाँधों को पसार, बाँध आलिङ्गन-पाश में,
 रति को प्रसन्न किया प्रेमालाप करके
 मन्मथ ने । सुख गये अश्रु-बिन्दु शीघ्र ही,

हिम-जल-विन्दु शतदल के दलों के ज्यों
 पाके उदयाद्रि पर दर्शन दिनेश के ।
 पाके प्राणधन को, मिला के मुख मुख से,
 (सरस वसन्त मे विमुग्ध शुक-सारी ज्यों)
 बोली प्रिय वाणी से प्रिया यों—“है बचा लिया
 दासी को, समीप आके शीघ्र इस दासी के
 आज रतिरञ्जन ! कहूँ मैं भला किससे,
 सोच करती थी यहाँ कितना ? सदैव ही
 कौपती हूँ नाम से ही मैं तो वामदेव के,
 याद कर पूर्ण कथा । हिंसक दुरन्त हैं
 शूलपाणि ! नाथ, तुम्हे मेरी ही शपथ है,
 जाना मत उनके समीप तुम भूल के
 अब कभी ।” हँस कर पञ्चबाण बोला यों—
 “भानु के करों से कौन आश्रम में छाया के
 डरता है कान्ते ? चलो, देवपति है जहाँ ।”
 गैठा जहाँ वासव था आसन पै सोने के,
 जाके वहाँ मन्मथ ने, नत हो, कथा कही ।
 सुन के सुरेन्द्र रथी, रथ पर गैठ के,
 माया के सदन ओर शीघ्र गति से गया ।
 अग्निमय तेज वाले वाजि दौड़े व्योम में,
 हिलती नहीं थी कलगी भी; रथ-चक्रों ने
 घोरतम घोष किया, चूर्ण कर मेघों को ।

कुछ क्षण मे ही सहस्राक्ष वहाँ पहुँचा
 माया का जहाँ था वास । छोड़ रथ वर को,
 पैदल प्रविष्ट हुआ मन्दिर मे मघवा ।
 कौन कह सकता है, कितना क्या उसने
 देखा वहाँ ? खरतर सौरकर-जाल-से
 सङ्कलित आभामय उच्च सिंहासन पै
 मूर्तिमती शक्तीश्वरी बैठी थी कुहूकिनी ।
 हाथ जोड़, करके प्रणाम, बोला वृत्रहा—
 “आशीर्वाद दास को दो देवि, विश्वमोहिनी !”

आशीर्वाद दे के फिर हेतु पूछा आने का
 देवी ने । कहा यों सुरराज ने कि शिव का
 पा कर निदेश यहाँ आया यह दास है ।
 कृपया बताओ, किस कौशल से जीतेंगे
 रामालुज शूर कल रावण के पुत्र को ?
 धरतर रण मे (कहा है विरूपाक्ष ने)
 मेघनाद वीर को, तुम्हारे ही प्रसाद से,
 मारेंगे सुमित्रा-पुत्र ।” क्षण भर सोच के,
 देवी ने कहा यों—जब तारक असुर ने,
 रण में हरा के तुम्हे छीन लिया स्वर्ग था;
 प्रकट हुए थे तब पार्वती के गर्भ से
 कार्तिकेय सेनानी । स्वयं ही वृषकेतु ने,
 सज्जित किया था उन्हें, मारने को दैत्य के,

रच कर अस्त्र निज दिव्य रुद्रतेज से ।
 देखो, वह फलक सुरेश्वर, सुवर्ण से
 मरिडित, कृपाण वह, रहता है उसमें
 काल स्वयं; देखो, वह अक्षय निषङ्ग है
 खरशर-पूर्ण, भीम, विषधर-लोक-सा !
 देखो, वह चाप देव !” बोला तब हँस के,
 देख के धनुष-कान्ति, वीर शचीकान्त यों—
 “इसके समक्ष यह रत्नमय दास का
 क्या है तुच्छ छार धन्वा । भास्कर-परिधि-सा
 जलता फलक है माँ, चौधाकर आँखों को ।
 अग्नि-शिखा-तुल्य असि तेजोमयी है महा !
 ऐसा तूण और है क्या तीनों लोक में कहीं ?”
 “शक्र, सुनों, (देवी फिर बोली-) “इन्हीं अस्त्रों से
 मारा था षडानन ने तारक असुर को ।
 हे बलि, इन्हीं से बध होगा मेघनाद का ।
 किन्तु ऐसा वीर नहीं कोई त्रिभुवन मे,
 देव किं वा मानव, जो मारे न्याय-युद्ध में
 रावण को । भेजो तुम लक्ष्मण के पास ये
 अस्त्र सब, जाउँगी स्वयं मैं कल लङ्का में,
 लक्ष्मण के रक्षा-हेतु राक्षस-समर में ।
 सुरकुल-केतु, तुम जाओ सुरलोक को ।
 प्राची का सुवर्णद्वार, फूल-कुल की सखी,

कमल-करों से कल ऊषा जब खोलेंगी,
 तब चिर त्रास उस इन्द्रजित-त्रास से
 वीर वर रामानुज तुम को छुड़ायेंगे;—
 लङ्का का सरोज-रवि अस्ताचल जायगा !”

करके प्रणाम महानन्द युत देवी को
 देवराज अस्त्र लेके स्वर्ग को चला गया ।

अमर-सभा मे इन्द्र बैठ स्वर्णासन पै,
 कहने लगा यों शूर वीर चित्ररथ से—
 “ले जाओ सयन्न बलि, अस्त्र हेमलङ्का में ।
 रामानुज शूर कल मारेंगे समर मे,
 माया के प्रसाद से, दुरन्त मेघनाद को ।
 कैसे, उन्हे आप माया देवी बता देगी सो ।
 राघव से गन्धर्वेश, जाकर यों कहना—
 त्रिदिवनिवासी क्षेम चाहते तुम्हारा है;
 आप ही भवानी आज तुम पै प्रसन्न हैं ।
 अमय प्रदान उन्हे करना हे सुमते !
 रावण के मरने से रण में अवश्य ही
 रावण मरेगा; सती मैथिली को फिर से,
 मैथिलीमनोहर प्रसन्न हो के पायेंगे ।
 रथिवर, मेरे श्रेष्ठ रथ पर चढ़ के
 जाओ । देर करने से, देख के तुम्हे कहीं
 भगड़ा मचावें यातुधान, मेघ-दल को,

व्योम ढँकने के लिए आज्ञा अभी दूँगा मैं;
 और मैं निदेश दूँगा वीर वायुराज को,
 क्षण भर छोड़ने के हेतु वायु-कुल को;
 नाचेगी सु-विद्युलता बाहर निकल के;
 पूर्ण कर दूँगा विश्व वज्र के निनाद से ।”

करके प्रणाम सुर-शासक को, यत्न से
 अस्त्र ले के चित्ररथ वीर गया मर्त्य को ।

तब सुरनायक बुला के प्रमञ्जन को,
 बोला यो—“प्रलय भङ्गा भेजो शीघ्र लङ्का में;
 छोड़ो वायुराज, कारारुद्ध वायु-दल को;
 सङ्ग लो घनों को, ज़रा वैरी वारिनाथ से
 द्वन्द्व करो, गर्जना के साथ !” महोलास से
 तत्क्षण ही देव चला, टूटने से शृङ्खला
 शक्तिशाली सिंह यथा कूद कर जाता है,
 अन्धकार-पूर्णा जहाँ घोर गिरि-गर्भ में
 रुद्ध वायु-दल था । अदूर उसने सुना
 कोलाहलनाद और देखा गिरि कौपता
 अन्तरस्थ विक्रम से, मानों असमर्थ-सा
 वायु-दल रोकने के अर्थ निज बल से !
 खोला शिला-द्वार स्पर्श मात्र से सुदेव ने,
 करके हुँकार शीघ्र वायु-वृन्द निकला,
 पानी का प्रवाह यथा टूटने से तट के

राघव ने पूछा—“हे त्रिदिववासी, मर्त्य मे कि वा अन्य लोक मे, कहाँ है यह रूप की महिमा ? पधारे यहाँ कैसे, आप कहिए, नन्दन विपिन छोड़ ? स्वर्गासन है नहीं, क्या दूँ देव बैठने को ? किन्तु यदि है कृपा दास पर, पाद्य-अर्घ्य ले के, कुशासन पै बैठिए । भिखारी हाय । राघव है !” सुरथी आशीर्वाद दे के बैठ सु-स्वर से बोला यों—
 “दाशरथे, सुनो, मेरा नाम चित्ररथ है;
 मैं हूँ चिर सेवक समर्थ सुरराज का,
 हे गुणि, गन्धर्व-कुल मेरे ही अधीन है ।
 आया हूँ यहाँ मैं देवराज के निदेश से ।
 देव-कुल-युक्त वे तुम्हारे शुभाकांक्षी हैं ।
 देखते हो अस्त्र जो ये, भेजे हैं सुरेन्द्र ने,
 नृमणि, तुम्हारे अनुजार्थ । प्रातःकाल में,
 आप माया देवी अवतोरण हो बतावेंगी
 मारेंगे लक्ष्मण वीर मेघनाद शूर को
 जैसे । रघुरत्न, तुम देव-कुल प्रिय हो ।
 आप अभया हैं तुष्ट वीर वर तुम से ।”

बोले रघुनाथ—“इस श्रेष्ठ समाचार से मग्न हुआ गन्धर्वेश, मैं हूँ मोद-सिन्धु में ।
 अह नर हूँ, जताऊँ कैसे मैं कृतज्ञता ?

पूछता हूँ आप ही से, कृपया बताइए ।”

हँस कर बोला दूत—“राघवेन्द्र, देवों के प्रति जो कृतज्ञता है, कहता हूँ मैं, सुनो, इन्द्रियदमन, दीनपालन, सुघर्म्म के पथ मे गमन और सेवा सत्यदेवी की; चन्दन, कुसुम, भोग, पट्टवस्त्र आदि की, देवे जो असज्जन तो करते अवज्ञा है देवता, मैं सार कथा कहता हूँ तुम से ।”

राम ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दे रथी चित्ररथ दिव्य रथारूढ़ गया स्वर्ग को । शान्त हुई घोर भङ्गा, शान्त हुआ सिन्धु भी, तारा-दल-सङ्ग फिर देख तारानाथ को हाटक श्री लङ्का हँसी । तरल सलिल मे हो कर प्रविष्ट चारुचन्द्रिका रजोमयी देह-अवगाहन सहर्ष करने लगी; हँसने लगी फिर सकौतुक कुमुदिनी । आई शवाहारिणी शिवाएँ फिर दौड़ के और गीघ, शकुनि, पिशाच रणक्षेत्र मे । निकले निशाचर-समूह फिर हाथों मे भीम खर शस्त्र लिये, मत्त वीर-मद से ।

इति श्री मेघनाद-वध काव्ये अस्त्र-

छाभो नाम द्वितीयः सर्गः

तृतीय सर्ग

रोती है अधीरा हो प्रमीला दैत्यनन्दिनी
पति-विना युवती, प्रमोद उपवन में ।
घूमती है अश्रुदृषी चन्द्रवदनी कभी
पुष्प-वाटिका में, हाथ ! मानों ब्रज-कुञ्ज में
गोपबाला, नीप तले देखे विना श्याम को,—
ओठों पर वेणु धरे, पीतान्बर पहने ।
जाती कभी मन्दिर के भीतर है सुन्दरी,
आती फिर बाहर है व्याकुल वियोगिनी,
होती कातरा है ज्यों कपोती शून्य नीड़ में !
चढ़ कर उच्च गृहचूड़ा पर चञ्चला,
दूर लङ्का-ओर कभी एक दृष्टि लाती है,
अविरल अश्रु-जल अञ्चल से पोछ के !
नीरव मृदङ्ग, वेणु, वीणादिक वाद्य हैं
और सब नृत्य-गान । चारों ओर सखियाँ
मलिनमुखी हैं हाथ ! सुन्दरी के शोक में ।
कौन नहीं जानता है, फूल कुम्हलाते हैं,
जब है वसन्त विना तपती वनस्थली ?
आई निशादेवी यथाक्रम उपवन में ।

शिहर प्रमीला सती, मृदुकलकण्ठ से,
 बासन्ती सखी जो थी वसन्तसौरभा सदा,
 धरके उसीका गला रोती हुई बोली यों—
 “देखो, यह आगई अंधेरी रात सजनी,
 कालनागिनी-सी, डसने के लिए मुझको !
 बासन्ती, कहाँ हैं इस सङ्कट की बेला मे,
 शत्रुनाशी, शक्रजयी, रत्नःकुल-केसरी ?
 ‘लौटूँ गा प्रिये, मैं शीघ्र’ कहके गये हैं वे;
 यह भिस हाय ! किस हेतु, नहीं जानती ।
 सखि, तुम जानती हो तो बताओ मुझको ।”

बोली तब वासन्ती, वसन्त में ज्यों कोकिला
 कूजती है—“कैसे कहूँ, आये नहीं आज क्यों
 अबलों तुम्हारे प्राणनाथ, कहाँ बिलमे !
 किन्तु चिन्ता दूर करो सीमन्तिनि, शीघ्र ही
 आयेंगे वे राघव को मार कर रण मे ।
 क्या भय तुम्हें है मला ? अमर-शरों से भी
 जिनका शरीर है अभेद्य, उन्हें युद्ध मे
 कौन रोक सकता है ? आओ, कुञ्चन में,
 सरस प्रसून चुन गूँथे हम मालाएँ ।
 प्रिय के गले में हँस देलायित करना,
 विजयी के रथ पर विजय-पातकाएँ
 कौतूहल पूर्वक उड़ाते यथा लोग हैं ।”

यह कह फूलवाटिका में घुसीं देनों ही,
सरसी के साथ जहाँ खेलती थी कौमुदी,
करके प्रफुल्ल कुमुदों को; भृङ्ग गाते थे;
कूजती थी कोकिलाएँ; फूल बहु फूले थे;
सोहती थी मोदमयी मञ्जु वनराजि के
माल पर (रत्नमयी माँग-सम मोहिनी)
व्योतिरिङ्गणों की पंक्ति; बहता सु-मन्द था
मलय समीर, पत्र मर्मरित होते थे ।

भर कर अञ्चल प्रसून चुनें देनों ने,
उनके दिलों पर प्रमीला के सु-नेत्रों ने
हिम-कण-तुल्य मोती बरसाये कितने
कौन कह सकता है ? सूर्यमुखी दुःखिनी
मलिनमुखी थी खड़ी सूर्य के वियोग में,
उसके समीप जाके बोली यों वियोगिनी—
“तेरी जो दशा है इस घोर निशाकाल में,
मानुप्रिये, मेरी भी वही है, यही यातना
सहती हूँ मैं भी, हाय ! दग्ध इन आँखों से
विश्व अन्धकारमय दीखता है मुझको !
जलते हैं प्राण ये वियोगानल में सखी,
देख के मैं रात-दिन छवि जिस रवि की
जीती हूँ, छिपा है आज अस्ताचल में वही !
क्या मैं फिर पाऊँगी, उषा के अनुग्रह से

पावेगी सती, तू यथा, प्राणाधार स्वामी को ?”

चुन कर फूल उस कुञ्ज में, विषाद से,
दीर्घश्वास छोड़ कर, वासन्ती सहेली से
बोली यों प्रमीला सती—“तोड़ लिये फूल तो,
माला भी बना ली सखी, किन्तु कहीं पाऊँगी
पूज्य पद युग्म बे कि चाहती हूँ पूजना
पुष्पाञ्जलि देकर जिन्हे मैं भक्तिभाव से ?
बाँधा मृगराज को न जाने आज किसने !
आओ सखि, हम सब लङ्कापुर को चले ।”

बोली तब वासन्ती कि—“कैसे आज लङ्का में
तुम घुस पाओगी ? अलंघ्य, जल-राशि-स्ती,
राघव की सेना उसे घेरे सब ओर है !
लक्ष लक्ष रक्षोरिपु घूमते हैं, हाथों में
अस्त्र लिये, दण्ड-पाणि दण्डधर-से वहाँ !”

क्रुद्ध हुई प्रमदा प्रमीला दैत्यनन्दिनी,
“क्या कहा सहेली ? जब गिरि-गृह छोड़ के
सरिता सवेग जाती सागर की ओर है,
शक्ति किसकी है तब रोके गति उसकी ?
मैं हूँ दैत्यबाला और रक्षोवंश की बधू;
रावण ससुर मेरे, इन्द्रजित स्वामी हैं;
ढरखी हूँ मैं क्या सखि, राघव भिखारी के ?
लङ्का मे प्रविष्ट हूँगी आज मुजबल से,

कैसे नर-रत्न मुझे रोकते हैं, देखूँगी ।”

यों कह सरोष सती गजपति-गाति से,
जाम्बूनद-मन्दिर में गर्व से चली गई ।

जैसे नारि-देश मे परन्तप महारथी,
यज्ञ के तुरङ्ग-सङ्ग, पार्थ जब आये थे,
देवदत्त शङ्ख का निनाद तब सुनके,
क्रुद्ध हो के, वीर वनिताएँ रण-रङ्ग से
सज्जित हुई थी, सजी वैसे ही यहाँ भी वे ।

गूँज उठा दुन्दुभि-निनाद घन-नाद-सा,
रण-मद-मत्त हुआ वामा-दल, निकला
ढालों को उछाल, तलवारों को निकालके !
और दिव्य धनुषों को टङ्कारित करके ।
करके उजेला उठी भक भक भार-सी,
धक धक काञ्चनीय कञ्चु कच्छटा-घटा !
मन्दुरा मे हींसे हय कान खड़े करके,
नूपुर-निनाद सुन और ध्वनि काञ्ची की,
डमरू-निनाद सुन कालफणी नाचे ज्यों ।
वारी में गरजे गज, घोर-घन-घोर ज्यों
दूर शैल-शृङ्गों पर, वन में, गुहाओं में,
जाग उठी रङ्ग से प्रतिध्वनि तुरन्त ही
निद्रा तज, चारों ओर कोलाहल छा गया ।

उप्रचण्डा-सी थी जो नृमुण्डमालिनी सखी,

सज शत वाजिवर बहु विधि साजों से
 लाई मन्दुरा से, महानन्द से अलिन्द के
 आगे; चढ़ीं एक साथ एक शत चेरियाँ ।
 भ्रन भ्रन कोषगत खड्ग बजे पार्श्वों में;
 नाची शिरश्चूड़ाएँ, सुरलमयी वेणियाँ
 तूणों के समेत डुलों पीठों पर रङ्ग से ।
 शूल थे करों मे, कमलों मे ज्यों मृणाल हों
 कण्टकित । मम हय हींस उठे हर्ष से,
 दैत्यदलिनी के पद युग्म रख वक्ष पै
 नाद करते हैं विरूपाक्ष यथा प्रेम से ।
 भीम-रण वाद्य बजे, चौके सुर स्वर्ग में,
 नर नरलोक मे त्यों नाग रसातल मे !

तेजस्विनी प्रमदा प्रमीला सजी रोष से,
 लज्जा-भय छोड़ । कवरी पर किरिट की
 छिटकी छटा यों अहा ! श्याम घटा पर ज्यों
 इन्द्रचाप ! भाल पर अञ्जन की रेखा यों—
 भैरवी के भाल पर मानों नेत्ररञ्जिनी
 चन्द्रकला ! उच्च कुच कसके कवच से,
 सुमुखी सुलोचना ने कृश कटि कसली—
 रत्नों से खचित रम्य स्वर्ण-सारसन से ।
 पीठ पर ढाल डुली, रवि की परिधि-सी,
 आँखें मुल्लासाकर, निषङ्ग-सङ्ग ढङ्ग से !

गुरु उरु देश पर (वर्तुल जो था अहा !
 रम्मा-वन-शोभा-सम) भक्त भक्त करके
 खनका सु-खङ्ग खर; स्वर्ण-कोष उसका
 भलमल भूल उठा; सोहा शूल कर में;
 जगमग होने लगे आभरण अङ्गों में !
 सज्जित हुई यों दैत्यबाला वीरसज्जा से,
 हैमवती मानों महिषासुर को मारने
 जा रही हो, कि वा उस शुम्भ या निशुम्भ को,
 सत्तामयी शूरमदमत्ता, महारण में ।
 डाकिनी-सी, योगिनी-सी चारों ओर चेरियाँ
 घेर उसे, घोड़ों पर शोभित हुई वहाँ ।
 मानों वड़वाभि 'वड़वा' था नाम जिसका,
 बैठो उस वामी पर वामा शिखारूपिणी !
 कादम्बिनी अम्बर में नाद करती है ज्यों,
 बोली त्यों नितम्बिनी गमोर धीर बाणी से,
 सखियों से,—“सुन लो, हे दानवियो, लङ्का में
 शत्रुनाशी इन्द्रजित वन्दी बनें आज हैं !
 जानती नहीं मैं, प्राणनाथ भूल दासी को
 बिलमें वहाँ क्यों; मैं उन्हीं के पास जाऊँगी ।
 पुर में प्रवेश मैं करूँगी मुजबल से,
 विकट कटक काट, जीत रघुवीर को;
 वीर वनिताओ, सुनो, मेरा यही प्रण है;

अन्यथा मरूंगी रण-मध्य—जो हो भाग्य में !
 दैत्यकुलसम्मवा हैं हम सब दानवी;—
 दैत्य-कुल की है विधि शत्रु-वध करना,
 किं वा शत्रु-शोणित मे डूब जाना रण में !
 मधु अधरों मे, विष रखती है आँखों मे
 हम; बल है क्या नहीं इन भुजनालों मे ?
 देखे, चलो, राघव क्री वीरता समर मे ।
 देखूँगी ज़रा मैं वह रूप जिसे देख के
 मोही बुआ सूर्पणखा पञ्चवटी-वन मे;
 देखूँगी सुमित्रा-पुत्र लक्ष्मण की शूरता;
 बाधूँगी विभीषण को—रत्न-कुलाङ्गार को !
 अरि-दल दलूँगी ज्यों दलती है करिणी
 नल-वन । आओ, तुम विजलो-समान हो,
 विजली-सी टूट पड़े वौरियों के बीच में !”
 गरजी हुँकार कर सारी दैत्यबालाएँ,
 उन्मद मतङ्गजाएँ मानों मधुकाल में !

वायु सखा-सङ्ग गतिदावानल की यथा
 दुर्निवार, मिलने को पति से चली सती ।
 काँपी तब स्वर्णालङ्का, जलनिधि गरजा;
 चारों ओर धूल उड़ी घन घन भाव से;
 ढँक सकता है कब किन्तु निशाकाल में
 धूम अभिज्वाला को ? प्रमीला अभिज्वाला-सी,

वामा-दल सङ्ग लिये लङ्कापुर को चली ।

कुछ क्षण में ही क्षणदा-सी आन पहुँची
पश्चिम के द्वार पर । एक साथ शङ्ख सौ
वामा-दल ने बजाये और किंबे चाप सौ
टङ्कारित । सातङ्का सु-लङ्का कैंपी शङ्का से;
नागों पै निषादी कैंपे, सादी कैंपे अश्वों पै,
सु-रथी रथों में कैंपे, भूप सिंहासन पै;
नारियों घरों म कैंपी, पक्षी कैंपे नीदों मे,
सिंह गुहाओं मे कैंपे, वन-गज वन मे;
जलचर जीव सब डूबे जलतल में ।

वायु-पुत्र हनुमान भीम रूपी रोष से
अप्रसर हो के वीर बोला यों गरज के—
“कौन तुम आईं मरने को, इस रात में ?
जागता है आञ्जनेय वीर यहाँ, जिसका
नाम सुन लङ्कापति कोंपता है लङ्का में !
जागते स्वयं भी प्रसु रघुकुल-रत्न हैं
सुहृद विभीषण समेत, वीर केसरी
लक्ष्मण सु-लक्षण हैं जागते शिविर में;
शत शत योद्धा और दुर्द्धर समर में ।
रक्खा किस ढङ्ग से है वामा-वेष दुष्टों ने !
जानता हूँ मैं, हैं यातुधान महा मायावी ।
माया-बल तोड़ मैं परन्तु भुजबल से,

शत्रुओं को मारता हूँ, पाता हूँ उन्हें जहाँ।”

उप्रचण्डारूपिणी नृमुण्डमालिनी सखी
कार्मुक टङ्कार कर बोली हुहुङ्कार से—
“शीघ्र बुला ला तू निज सीतापति को यहाँ,
चाहता है कौन तुझे वर्वर । तू है सदा
क्षुद्रजीवी, तुझ-से जनों को कभी इच्छा से
मारती नहीं है हम । सिंहिनी शृगाल से
करती विवाद है क्या ? छोड़ दिया तुझको
वनचर, प्राण लेके भाग जा तू, लाभ क्या
तेरे मारने से हमे ? जाकर अबोध रे,
राम को बुलाला यहाँ, लक्ष्मण को, साथ ही
रक्ष:कुल के कलङ्क क्रूर विभीषण को !
शत्रुनाशी इन्द्रजित विदित त्रिलोकी में,
पत्नी प्रिया उनकी प्रमीला, सती, सुन्दरी,
पति-पद पूजने को जा रही है लङ्का में;
शक्ति किसकी है मूढ़ ! रोके गति उसकी ?”

प्रबल समीरसूनु वीर हनुमान ने—
आगे बढ़ देखा, भय-विस्मय के साथ में,
वीर-वामावृन्द-मध्य प्रमदा प्रमीला को ।
क्षणदा-छटा-सी थी किरिटी पर खेलती,
शोभित सुगात्र में था वर्म्म यथा रत्नों से
मिल कर भानु-कर-जाल छवि देता है !

सोचा तब जी मे महावीर हनुमान ने—
 “जब मैं अलंघ्य सिन्धु लोंघ कर आया था
 लङ्का नगरी में, तब वामाएँ भयङ्करी
 देखी थीं, प्रचण्डाएँ, नृमुण्डाएँ, कपालिनी;
 मन्दोदरी आदि और रावण की रानियाँ
 जो थी, सब देखी थीं, सुबालाएँ, सुबधुएँ,
 चन्द्रकला-तुल्य सब देखी थी, तमिस्रा मे;
 घर घर घूम कर, लङ्का छान डाली थी ।
 देखा था अशोक वन मे—हा ! शोकपीड़िता—
 रघुकुल-पद्मिनी को; किन्तु यह माधुरी
 देखी नहीं मैंने कभी इस भव सृष्टि मे !
 धन्य वीर मेघनाद धन्य, जिस मेघ के
 पार्श्व में बाँधी है ऐसी शम्पा प्रेम-पाश से !”

जी में यों विचार कर अञ्जनाकुमार ने;
 गम्भीरा गिरा कही, प्रमञ्जन के स्वर में—
 “वन्दी-सम बाँध शिला-बन्ध से समुद्र को,
 भानु-कुल-भानु मेरे प्रभुवर सुन्दरी,
 लक्ष लक्ष वीर साथ ले के यहाँ आये हैं ।
 रक्षोराज नैकषेय उनका विपत्ती है;
 तुम अबलाएँ हो, कहो, क्यों असमय में
 आई हो यहाँ यों ? कहो निर्भय हृदय से,
 मैं हूँ हनुमान, सदा दास रघुराज का,

करुणानिधान सदा रघुकुलराज है ।
 तुमसे क्या उनका विवाद है सुलोचने !
 क्या प्रसाद चाहती हो तुम उनसे, कहे ?
 आई हो यहाँ क्यों ? कहे, जाकर सुनाऊँ मैं
 सुन्दरि, निवेदन तुम्हारा प्रभु-पादों में ।”

उत्तर में बोली सती, ध्वनित हुई अहा !
 कानों में सु-वीणा यथा वीर हनुमान के—
 “राघव है मेरे पति-वैरी, किन्तु इससे
 उनसे विवाद करना मैं नहीं चाहती ।
 शूरों में सुरेन्द्रजयी मेरे वीर स्वामी है ।
 विश्वविजयी हैं वे स्वयं ही भुजबल से,
 काम क्या हमें है भला लड़ने का उनके
 शत्रुओं से ? हम कुलबाला, अबलाएँ हैं;
 किन्तु सोच देखो, वीर ! विजली की जो छटा
 भाती है दृगों को, वही छूने से जलाती है ।
 सङ्ग लो हे शूर, तुम मेरी इस दूती को;
 करती हूँ याचना मैं राघव से क्या, इसे
 उनसे कहेगी यही, जाओ त्वरा करके ।”

निर्भय नृमुण्डमालिनी, ज्यों मुण्डमालिनी,
 दूती अरिदल में प्रविष्ट हुई दर्प से,
 पालवाली नाव जैसे रङ्ग से तरङ्गों की
 करके उपेक्षा-सी अकूल पारावार में

तैरती हो एकाकिनी । आगे हनुमान थे
 मार्ग दिखलाते हुए । देख कर वामा को
 चौंक उठा वीर-वृन्द, घोर निशाकाल मे
 चौंके ज्यों गृहस्थ देख अग्नि-शिखा गृह में !
 हाल यह देख कर वामा हँसी मन मे ।
 वीर जितने थे, देखते थे एक टक से
 हो के जड़-तुल्य ठौर ठौर हक्का-बक्का-से !
 बजते थे चरणों मे नूपुर, सु-कटि मे
 काञ्ची बजती थी शूल शोभित था हाथ मे ।
 जर्जर कटान्-विशिखां से कर सब को,
 जाती थी नितम्बिनी कुतूहल के साथ मे !
 चन्द्रकलापमयी शीर्षचूड़ा शीश पै
 नाचती थी, उन्नत उरस्थल के बीच में
 दमक रही थी रत्नराजि हगरञ्जिनी;
 मणिमय मञ्जु वेणी डुलती थी पीठ पै,
 उड़ती वसन्त मे ज्यों काम की पताका है ।
 उन्मद मतङ्गिनी-सी चलती थी रङ्गिणी,
 करके उजेला सब ओर यथा चन्द्रिका
 भलमल होती है सु-निर्मल सलिल में,
 किं वा शैल-शृङ्गों पर ऊषा अंशुमालिनी !
 रघुकुलरत्न प्रभु बैठे है शिविर मे;
 हाथ जोड़े शूर-सिंह लक्ष्मण है सामने;

पार्श्व में विराजमान मित्र विभीषण हैं
 और रुद्रतेजोमय बैठे बहु वीर हैं
 भीमाकृति । देवायुध आसन पै रक्खे है
 जो हैं रक्तचन्दन से चर्चित, प्रसूनों की
 अञ्जली से अर्चित है; धूप धूपदानों में
 जलती है, चारों ओर श्रेणीबद्ध दीबटे
 देती है प्रकाश । सब विस्मय के भाव से
 देखते हैं देवायुध । कोई करवाल का
 करता बखान, कोई ढाल का है करता—
 रवि के प्रसाद से दिवा के अवसान मे
 मेघ स्वर्णमण्डित ज्यों, कोई दिव्य तूण का
 करता बखान, कोई वर्म्म का है करता—
 तेजोराशि । धीर रघुवीर ले धनुष को
 बोले आप—“सीता के स्वयंवर में शिव का
 तोड़ा था धनुष मैं ने निज भुजबल से,
 किन्तु इस चाप को चढ़ा भी नहीं सकता
 कैसे हे लक्ष्मण, भुकाऊँ इसे माई, मैं ?”
 सहसा निनाद हुआ जय जय राम का,
 गूँज उठा नभ मे जो घोर कोलाहल से
 सागर-कल्लोल-सम ! रक्षोरथी भय से
 बोला प्रभु ओर देख,—“देखो, देव, सामने
 बाहर शिविर के, उषा क्या निषाकाल मे

उदित हुई है यहाँ !”

विस्मय से सब ने
देखा तब—“भैरवी-सी मामा” कहा प्रभु ने—
“देवी है कि दानवी है, देखो सखे, ध्यान से;
मायामयी लङ्का है, प्रपूर्णा इन्द्रजाल से;
अप्रज तुम्हारा काम रूपी है । विचार के
देखो, यह माया तुम्हे अविदित है नहीं ।
पाया तुम्हे रत्नोवर, मैं ने शुभ्र योग मे,
कौन ऐसे सङ्कट मे हीन इस सेना को
रक्खेगा तुम्हारे विना ? केवल तुम्हीं सखे,
रत्नोवगरी में चिर रत्नक हो राम के ।”

प्राप्त हुई दूती इतने में हनुमान के
साथ मे, शिविर मे, प्रणाम कर पैरों में,
हाथ जोड़, भास्किनी (छै रागिनी ज्यों छैगुनी
बोलों एक तान से हों) बोली प्रभुवर से—
“राघव के पैरों में प्रणाम करती हूँ मैं,
गुरुजन हों जो और सब को प्रणाम है;
नाम मेरा है नृमुण्डमालिनी, मैं दासी हूँ
दैत्यबाला सुन्दरी प्रमीला युवराज्ञी की,
कामिनी है जो प्रसिद्ध वीर-कुल-केसरी
इन्द्रजित योद्धा युवराज मेघनाद की ।”
आशीर्वाद देके कहा वीर दाशरथि ने—

“आई किस हेतु यहाँ भद्रे, कहे मुझसे ?
क्या करके तोष दूँ तुम्हारी स्वामिनी को मैं ?”

बोली तब भीमा—“रघुवीर, धीर तुम हो;
आओ, लड़ो उससे, नहीं तो मार्ग छोड़ दो;
लङ्का में प्रविष्ट होना चाहती है रूपसी,
पति-पद पूजने को । निज भुजबल से
तुमने अनेक रत्नोवीर वर मारे हैं;
रत्नोबधू मांगती है युद्ध, उसे युद्ध दो
वीर वर । हम सौ स्त्रियों हैं; जिसे चाहोगे,
एकाकी लड़ेगी वही । चाहे धनुर्बाण लो,
चाहे गदा, चाहे असि, मलयुद्ध मे सदा
रत रहती है हम ! देव, जैसी रुचि हो ।
काम नहीं देर का, तुम्हारे अनुरोध से
रोके खड़ी युवती सती है सखी-दल को,
रोकती मृगादिनी को जैसे है किरातिनी,
देख मृग-यूथ जब मत्त वह होती है ।”

यों कह विनय से झुकाया सिर वामा ने,
फूला हुआ फूल हिम विन्दु युत नत हो
करता है जैसे मन्द मारुत की वन्दना !
बोले रघुनाथ—“सुनो तुम हे सुभाषिते,
करता अकारण विवाद नहीं मैं कभी ।
मेरा शत्रु रावण है; तुम कुल बालाएँ,

कुलबधुएँ हो, फिर किस अपराध से ।
 वैरभाव रक्खूँगा तुम्हारे साथ मैं, कहे ?
 लङ्का में प्रविष्ट हो सहर्ष बिना शङ्का के ।
 वीरेश्वर रूप रघुराजकुल में शुभे,
 जन्म राम का है; दूति, हैं तुम्हारी स्वामिनी
 वीर-पत्नी, सखियाँ है वीराङ्गना उनकी ।
 सौ मुख से उनकी बड़ाई कर कहना—
 देख पति-भक्ति, शक्ति, शूरता मैं उनकी,
 युद्ध के बिना ही हार मानता हूँ उनसे !
 धन्य मेघनाद ! धन्य सुन्दरो प्रमीला है !
 मद्मे, धनहीन, दीन राम वनवासी है,
 विधि की विडम्बना से; ऐसी दुरवस्था में,
 कौन-सा प्रसाद, जो तुम्हारे योग्य हो, तुम्हें
 दूँ मैं आज ? आशोर्वाद देता हूँ, सुखी रहो ।”

कह यों कृपालु प्रभु बोले हनुमान से—
 “मार्ग छोड़ दो हे वीर, शिष्टाचार करके
 तुष्ट भली भोंति करो वीराङ्गना-गण को ।”

प्रभु को प्रणाम कर दूती विदा होगई ।
 हँस के कहा यों तब मित्र विभीषण ने—
 “चल कर बाहर पराक्रम प्रमीला का
 देखो रघुनाथ; देव, कौतुक अपूर्व है !
 जानता नहीं मैं, इस मीम वामा-वृन्द को

रोक सकता है कौन ? रण मे भयङ्करी,
वीर्य्यवती, रक्तबीज-वैरिणी ज्यों चण्डी हो !”
प्रभु ने कहा यों—“मित्र, देख इस दूती की
आकृति, मैं भीत हुआ मन में, विसार के
तत्क्षण ही युद्ध-साज । मूढ़ वह जन है,
छेड़ने चले जो ऐसी सिंहियों की सेना को,
देखूँ, चलो, मैं तुम्हारी भावपुत्र-पत्नी को ।”

लगने से दावानल दूर यथा वन मे,
अग्निमयी होती हैं दिशाएँ दसों, सामने
देखी विभा-राशि राघवेन्द्र ने गगन मे
धूमहीन, करती सुवर्ण-वर्ण मेघों को !
चौके सुनके वे चाप-शब्द घोर, घोड़ों की
टापों का पड़ापड़, सु-कोषगत खड्गों का
भ्रन भ्रन भ्रनन, उसी के साथ युद्ध के
बाजों का निनाद, हुहुङ्कार प्रमदाओं का,
काकलीतरङ्ग-सङ्ग गर्जन ज्यों भ्रंभा का !
रत्नमयी अभा-पूर्णा उड़ती ध्वजाएँ हैं;
नाचती है वाजि-राजि मन्दास्कन्द गति से,
बजती छमाछम है पैजनियाँ पैरों मे ।
दोनों ओर शैलमाला-तुल्य खड़ी सेना है
अविचल, बीच में है वामा-दल चलता !
मातङ्गिनी-यूथ ज्यों उपत्यका के पथ में

गर्ज कर जाता हो, धरा को धसकाता-सा ।

आगे उग्रचण्डा-सी नृमुण्डमालिनी सखी,
 कृष्ण हयारूढ़ा, धरे हेमध्वजदण्ड है;
 वाद्यकरी-वृन्द पीछे चलता है उसके
 विद्याधरी-वृन्द यथा अतुल जगत में !
 मुरली, मृदङ्ग, वीणा आदि कल नाद से
 बजते हैं ! उनके अनन्तर मयङ्करी
 शूलपाणि वीराङ्गना, सखियों के बीच में,
 तारावली-मध्य चन्द्रलेखा-सी, प्रमीला है !
 विक्रम मे भीमा-समा । चारों ओर रत्नों की
 आमा कौंधती है, चौंधती है यथा चञ्चला !
 जाता अन्तरीक्ष में है रतिपति रङ्ग से
 सङ्ग सङ्ग धनुष चढ़ाये हुए फूलों का,
 वार वार सिद्धशाराघात करता हुआ ।
 सिंह पर दुर्गा यथा दैत्य-दल-दलिनी;
 ऐरावत हाथी पर इन्द्राणी शची यथा
 और यथा उन्मद खगेन्द्र पर इन्दिरा,
 शोभित है वीर्यवती, युवती, सती तथा
 वड़वा तुरङ्गिणी की पीठ पर सर्वथा !
 रत्नों से विभूषिता है वामीश्वरी वड़वा ।
 धीरे धीरे, शत्रुओं की करके उपेक्षा-सी,
 वामाएँ चली गईं । किसी ने चाप टङ्कारा,

निष्कोषित असि की किसी ने हुहुङ्कार से,
 गर्व से किसी ने शूल ऊँचा किया अपना,
 मार टिटकारी हँसी कोई अट्टहास से,
 कोई वहाँ गरजी, अरण्य में ज्यों सिहिनी
 गर्जती है वीरमदा, काममदा भैरवी !

बोले रघुवीर तब मित्र विभीषण से—
 “क्या ही विस्मय है, कभी ऐसा तीन लोक में
 देखा-सुना मैं ने नहीं । जागते ही रात का
 क्या मैं स्वप्न देखता हूँ ? सत्य कहो मुझसे
 मित्ररत्न । जानता नहीं मैं भेद कुछ भी;
 चञ्चल हुआ हूँ मैं प्रपञ्च यह देख के,
 वञ्चित न रक्खो मुझे मित्र, इस माया से ।
 चित्ररथ से सुना था मैं ने इस बात को—
 मायादेवी दास की सहायता को आवेंगी;
 आई तो नहीं हैं यहाँ वे ही इस मिस से ?
 मुझको बताओ, यह छलना है किसकी ?”

“स्वप्न नहीं सीतानाथ,” बोला विभीषण यों—
 “देव-रिपु कालनेमि दैन्य जो विदित है,
 दुहिता उसीकी यह सुन्दरी प्रमीला है ।
 रखती है अंश और तेज महाशक्ति का !
 शक्ति किसकी है इस दानवी से जूमे जो ?
 दैत्यमदहारी, वज्रधारी सुनाशोर को

वीर-कुल-केसरी जो जीत चुका युद्ध मे,
 बाँध कर रखतो उसे है सदा मोहिनी,
 रखती दिगम्बरी है जैसे दिगम्बर को।
 राघवेन्द्र, विश्व के हितार्थ यह शृङ्खला
 विधि ने बनाई, बाँधा मेघनाद जिससे
 मदकल काजदन्ती ! शान्त करती है ज्यों
 वारिधारा घोर वनदाहक द्वाग्नि को,
 शान्त रखती है उस कालानल को सती
 त्यों ही प्रेम-वाणी से । निमग्न हुआ रहता
 कालफणी यमुना के सौरमित जल मे,
 रहते हैं विश्ववासी सुख से, त्रिदिव मे
 देवता, रसातल में नाग, नरलोक में
 नर, उस घोरतर दंशक से बचके !”

“सच कहते हो मित्र,” दाशरथि ने कहा—
 “रथियो मे श्रेष्ठरथी योद्धा मेघनाद है ।
 देखी नहीं ऐसी अस्त्रशिक्षा कहीं विश्व में !
 देखा भृगुमान गिरि-तुल्य है समर मे
 धीर भृगुराम को; परन्तु शुभ क्षण मे
 धारता तुम्हारा भ्रातृपुत्र धनुर्बाण है !
 बतलाओ, रक्षःकुल-रत्न ! अब क्या करूँ ?
 आके मिली सिंह से है सिंहिनी अरण्य मे;
 रक्खेगा बताओ, कौन इस मृग-यूथ को ?

देखो तुम, चारों ओर घोर शोर करके
 भीषणा गरलयुक्त सिन्धु लहराता है !
 भव ज्यों बचाया नीलकण्ठ उमाकान्त ने
 रक्खो निज रक्षित त्यों मित्र, इस दल को ।
 अभ्रज तुम्हारा कालसर्प-सा है तेज मे,
 इन्द्रजित योद्धा विष-दन्त-सा है उसका,
 तोड़ना ही होगा उसे, अन्यथा मैं व्यर्थ ही
 सागर को बाँधकर आया हेम लङ्का मे ।”

मस्तक भुकाके तब भ्रातृ-पद-पद्मों में,
 निर्भय सौमित्र शूर लक्ष्मण ने यों कहा—
 “क्या डर है राक्षस का देव, हम लोगों को ?
 आप देवनायक सहायक है जिनके
 इस भवमण्डल मे कौन भय है उन्हे ?
 निश्चय मरेगा कल मेघनाद मुझसे ।
 जीतता है पाप कहीं ? लङ्कापति पापी है;
 पाप से उसीके शक्तिहीन होगा रण मे
 रावणि; पिता के पाप से है पुत्र मरता ।
 लङ्का का सरोज-सूर्य्य डूब कल जायगा,
 कह गये देवरथी चित्ररथ है यही ।
 फिर किस हेतु प्रभो, व्यर्थ यह भावना ?”
 बोला यों विभीषण—“यथार्थ कहा तुमने
 वीर वर, निस्सन्देह धर्म्म जहाँ, जय है ।

लङ्कापति डूबता है हाय ! निज पापों से !
 मारोगे अवश्य तुम इन्द्रजित योद्धा को ।
 फिर भी सतर्क भाव रखना उचित है ।
 दानवी प्रमीला महावीर्यशीला बाला है;
 त्यों नृमुण्डमालिनी-सी है नृमुण्डमालिनी
 युद्धप्रिया । कालसिंही हो जिस अरख्य में
 उसके समीप वासियों को सावधान ही
 रहना उचित है । न जाने कब, किस पै,
 टूट पड़े आके वह हिसामयी भीषणा ।
 रात जो न घात लगी मारेगी प्रमात ही ।”

बोले प्रभु—“मित्र ले के लक्ष्मण को साथ में
 देखो सब नाके कि है कौन कहीं जागता ?
 छान्त सब हो रहे हैं वीरबाहु-रण से ।
 देखो सब ओर; कहीं सुहृद सुकण्ठ है,
 अङ्गद क्या करता है; नील बली है कहीं;
 जागूँगा स्वयं मैं इस पश्चिम के द्वार पै ।”
 कहके ‘जो आज्ञा’ शूर लक्ष्मण को साथ ले
 वीर चला, मानों इन्द्र अग्निभू के साथ में
 अथवा सुधाकर के साथ मानों सविता !

पहुँची सु-लङ्का के सुवर्ण-द्वार पै सती,
 सुन्दरी, प्रमीला । शृङ्गनाद वहाँ हो उठा
 और बजी भीम भेरी, रचोगण गरजा,

प्रलय-पयोद-वृन्द किं वा करि-यूथ-सा !
 प्रक्ष्वेडनपाणि विरूपाक्ष वीर रोष से,
 तालजङ्घा-तालसम सुगुरु गदा लिये
 भीषण प्रमत्त, सब गरज उठे वहाँ ।
 गरजे गजेन्द्र, हय हीसे एक साथ ही,
 घूमे रथ-चक्र घोर घर्घर निनाद से;
 भाले आदि आयुध उछाले शूर वीरों ने;
 बाण उड़े शाणित छिपा के निशानाथ को ।
 पूर्ण हुआ अग्निमय व्योम केलाहल से,
 जैसे भूमिकम्प मे, निशा मे, वज्रनाद से
 अग्नि-स्रोत-राशि अग्नि-गिरि है उगलते ।
 काँप उठी स्वर्णलङ्का, सातङ्का, स-शङ्का-सी ।

चण्डी-सी नृमुण्डमालिनी ने कहा चिल्ला के—
 “मारते हो अस्त्र किसे भीरो, अन्धकार मे ?
 रक्षःप्रतिपत्नी नहीं, रक्ष-कुलबधुएँ
 हम है, निहारो चक्षु खोल कर अपने ।”

खड़ खड़ शब्द से तुरन्त द्वारपाल ने
 बेड़ा खिसकाया, खुला द्वार वज्रनाद से;
 सुन्दरी प्रविष्ट हुई जय जयकार से ;

अग्नि-शिखा देख कर रङ्ग से पतङ्ग ज्यों
 दौड़ते हैं, चारों ओर दौड़ कर आये त्यों
 पौरजन; कुलबधुओं ने शुभध्वनि की,

फूल बरसाये तथा वाद्यध्वनि करके ।
 वन्दना की वन्दियों ने, प्रेमानन्द-भाव से;
 अग्नि की तरङ्गे वन मे ज्यों, चली वामाएँ
 वाद्यकरी-विद्याधरियों ने मञ्जु मुरली,
 वीणा और मुरज बजाये हृद्यनाद से,
 हीस हय-वृन्द चला आस्कन्दित गति से;
 भ्रन भ्रन खड्ग हुए कान्तिमान कोषों मे ।
 चौक कर जाग उठे बच्चे मातृक्रोडों मे !
 खोल के गवाक्ष रत्नोबधुओ ने देख के,
 वीरता बखानी हर्ष पूर्वक प्रमीला की ।

प्रेमानन्द पूर्ण, प्रिय-मन्दिर में, सुन्दरी
 दैत्यनन्दिनी यों हुई प्राप्त कुछ देर में;
 खोया हुआ रत्न पाके मानों बची फणिनी ।
 शत्रुनाशी इन्द्रजित कौतुक से बोला यों—
 “जान पड़ता है, रक्तबीज-बध करके
 चन्द्रमुखि, अपने कैलासधाम आई हो !
 आज्ञा यदि पाऊँ, पडूँ चरणों मे चण्डिके ?
 सर्वदा तुम्हारा दास हूँ मैं ।” हँस ललना
 बोली—“नाथ, दासी इन पैरों के प्रसाद से,
 विश्वजयिनी है किन्तु जीत नहीं सकती
 मन्मथ को; करती उपेक्षा हूँ शराग्नि की,
 डरती दुरुह विरहाग्नि से हूँ सर्वदा ।

आई हूँ इसीसे, जिसे चित्त नित्य चाहता
है, उसीके पास; मिली सिन्धु से तरङ्गिणी ।”

यों कह प्रविष्ट हुई मन्दिर में सुन्दरी,
वीर-वेष त्याग निज वेष रखने लगी ।

पहना दुकूल दिव्य, अश्वल था जिसका
रत्नों से जटित और कस ली सु-कञ्चुकी

पीवरस्तनी ने; क्षीण कटि में सु-मेखला
पहनी नितम्बिनी ने; उर पर हीरों के
और मोतियों के चन्द्रहार हिलने लगे;

तारा रूप रत्न लगे मोंग मे चमकने
और अलकों में; स्वर्ण-कुण्डल सु-कर्णों में,
नाना विध भूषणों से सज्जित हुई सती ।

रक्षोमणि मेघनाद डूबा मोद-जल मे,
स्वर्णासनासीन हुए दीप्तिमान दम्पती ।

गाने लगे गायक त्यों नाच उठी नटियाँ,
विद्याधर-विद्याधरी जैसे सुरपुर मे ।

गाने लगे पौंजड़ों मे पक्षी, दुःख भूल के,
उच्छ्वसित उत्स हुए कल कल नाद से,
पाकर सुधांशु-अंशु-स्पर्श जल-राशि ज्यों;

सरस बसन्त वायु बहने लगा वहाँ

सुस्वन से; जैसे ऋतुराज वनराजि से

केलि करता हो मधुकाल में, अकेले मे ।

रामानुज शूर यहाँ सङ्ग विभीषण के,
 उत्तर के द्वार पर आये, जहाँ धीर धी
 सजग सुकरुण वीर ले के सैन्यदल था;
 विन्ध्यगिरि-शृङ्ग-सा जो निश्चल था रण में ।
 पूर्व वाले द्वार पर भीमाकृति नील था;
 व्यर्थ निद्रा देवी वहाँ साधती थी उसको ।
 दक्षिण के द्वार पर अङ्गद कुमार था—
 घूमता, ज्यों भूखा सिंह भोजन की खोज में !
 कि वा शूलपाणि नन्दी शम्भुगिरि-शृङ्ग पै ।
 सौ सौ अभिराशियों थीं चारों ओर जलती
 धूमशून्य; बीच में थी लङ्का यथा तम में
 तारागण मध्य चारु चन्द्रमा की शोभा हो ।
 था यों वीर-व्यूह चारों द्वारों पर जागता—
 शस्य पुष्ट होने पर मेघों के प्रसाद से,
 मञ्च गाड़ गाड़ के ज्यों मेढ़ों पर खेत की
 जागते हैं कृषक, खदेड़ मृग-यूथ को,
 भीम महिषों को, तृणजीवी जीव-गण को ।
 जागता था रक्षोरिपु वीर-वृन्द लङ्का के
 चारों ओर । लौट आये दोनों जन तुष्ट हो,
 धीर-वीर दाशरथि थे जहाँ शिविर में ।

हैंस विजया से श्री भवानी भव-धाम मे
 बोलीं—“देख चन्द्रमुखि, लङ्का ओर तो, अहा !

घुसती पुरी में है प्रमीला वीर-वेष से,
 सङ्गिनी-समूह-सङ्ग रङ्ग से वराङ्गना ।
 उठती है कैसी स्वर्णा-कञ्चु कच्छटा-घटा
 अम्बर मे; विस्मित-से देख, सब है खड़े
 धीर राम, लक्ष्मण, विभीषणादि वीर वे ।
 ऐसा रूप किसका है सखि, भवलोक में ?
 दैत्य मारने को इसी वेष से सजी थी मैं,
 सतयुग में; हे सखि, सुन उस नाद को,
 खींचती है वामा दर्पयुक्त, हुहुङ्कार से,
 करके टङ्कोर घोर प्रत्यश्वा धनुष की ।
 भीम दल-बादल है चारों ओर कौपता;
 मोंग वाले जूड़े पर नाचती सु-चूड़ा है,
 अश्व-नाति-सङ्ग ऊँची और नीची होती है
 गौराङ्गी, अहा ! ज्यों मञ्जु जल की हिलोरे में से
 मानस सरोवर में सोने को सरोजिनी !”

विजया सखी ने कहा—काल्यायनि, सत्य है,
 ऐसा रूप किसका है देवि, भवलोक में !
 वीर्यवती दानवी प्रमीला, जानती हूँ मैं,
 दासी है तुम्हारी, किन्तु सोच देखो मन में,
 कैसे तुम रक्खोगी भवानी, वाक्य अपने !
 एकाकी जगज्जयी है इन्द्रजित तेजस्वी,
 प्रबला प्रमीला अब आमिली है उससे,

वायु-सखी अग्नि-शिखा आ मिली है वायु से !
क्यों कर करोगी शिवे ! रक्षा अब राम की ?
लक्ष्मण करेंगे वध कैसे मेघनाद का ?”

क्षण भर सोच कर बोली तब शङ्करी—
“मेरे अंश से है जन्म सुन्दरी प्रमीला का;
विजये, हूँगी मैं सबेरे तेज उसका ।
रहती है उज्वल जो मणि रवि-कान्ति से,
आमा हीन होती है दिवा के अबसान में,
वैसे ही करूँगी कल तेजोहीन वामा को ।
मारेगे अवश्य वीर लक्ष्मण समर मे
इन्द्रजित योद्धा को । प्रमीला पति-सङ्ग में
आवेगी विजये, इस धाम मे; महेश की
सेवा में रहेगा मेघनाद भक्तिभाव से,
तुष्ट मैं करूँगी सखी करके प्रमीला को ।”

यों कह प्रविष्ट हुई मन्दिर में मङ्गला,
आई मन्द मन्द निद्रा देवी शिवधाम मे ।
शम्भु-शैल-वासियों ने शय्या पर फूलों की
मुख से विराम लिया और भव-भाल की
चारु चन्द्रिका ने रजोदीप्ति वहाँ फैलाई ।

इति श्री मेघनाद-वध काव्ये समागमो-

नाम तृतीयः सर्गः

चतुर्थ सर्ग

होता हूँ तुम्हारे पद-पद्मों मे प्रणत मैं,—
विश्रुत वाल्मीकि मुने, कविकुल के गुरो,
आदिकवे, भारत के चूड़ामणि तुम हो ।
दास अनुगामी है तुम्हारा, यथा राजा के
साथ रङ्ग दूर, तीर्थ-दर्शनार्थ जाता है !
ध्यान रख सर्वदा तुम्हारे पद-चिन्हों का,
पहुँचे है यात्री यशोमन्दिर मे कितने;
करके दमन विश्व-दमन शमन का
अमर हुए है । मर्त्य हरि, भवभूति ज्यों !
भारत-विदित भारती के वरपुत्र जो
कालिदास—सुमधुरभाषी, सुधा-स्रोत-से;
मोहक मुरारि, श्री-मुरारि—वेणुवादी ज्यों;
कीर्तिवास, कृत्तिवास, आभूषण वङ्ग के !
कविता के रस के सरोवर में हे पिता,
मिल कर राजहंस-कुल से करूँगा मैं
केलि कैसे, जो न तुम मुझ को सिखाओगे ?
गँथूँगा नवीन माला, चुन कर यत्न से
कुसुम तुम्हारे मञ्जु काव्योद्यान-कुञ्ज से;

बहुविध भूषणों से भाषा को सजाने की
इच्छा रखता हूँ; किन्तु पाऊँगा भला कर्हा
(दीन हूँ मैं) रत्नराजि, दोगे नहीं तुम जे
रत्नाकर ? देव, दया-दृष्टि करो दीन पै ।

मग्न है सुवर्णलङ्का आनन्दाम्बुनिधि मं,
हेम-दीप-मालिनो ज्यों रत्नहारा महिषो '
घर घर बाजे बजते हैं बहु भोति के;
नर्तकियों नाचती है, गायिकाएँ गाती हैं,
नायकों के सङ्ग नायिकाएँ प्रेम रङ्ग से
क्रीड़ा करती है, मञ्जु होठों पर हास्य की
लास्यलीला खिलती है खिल खिल नाद से !
कोई रति में है रत, कोई सुरापान मे ।
भूलती हैं द्वार द्वार फूल-फल-मालाएँ,
आलयों के आगे उच्च उड़ती ध्वजाएँ है,
दीप्तिमयी दीपवर्तिकाएँ है गवाक्षो मे;
दीर्घ जनस्रोत की तरङ्ग राज-पथ मे
दानों ओर आती और जाती हैं उमङ्ग से;
मानों महा उत्सव मे मत्त पुरवासी हैं ।
राशि, राशि पुष्प-वृष्टि चारों ओर होती है;
आमोदित लङ्का आज जागती है रात मे ।
घूमती है द्वार द्वार निद्रा, किन्तु उसको
कोई नहीं पूछता विराम बर के लिए !

“शूर-कुल-केतु वीर इन्द्रजित राम को
 मारेगा सबेरे, और लक्ष्मण को मारेगा;
 साथ ही, शृगाल-तुल्य, सारे शत्रु-दल को
 सिन्धु-पार, सिंहनाद कर के, खदेड़ेगा;
 बाँध कर लावेगा विभीषण को; चन्द्र को
 छोड़ राहु भागेगा, जुड़ेगी फिर जग की
 आँखें अवलोक सो सुधांशु-धन अपना;”
 मायाविनी आशा यही गीत आज लङ्का में,
 घर घर, घाट घाट, बाट बाट गाती है,
 मग्न फिर राक्षस क्यों मोद-जल में न हों ?

एकाकिनी शोकार्ता, अशोकारण्यवासिनी,
 रोती राम-कामना अँधेरी कुटिया मे है
 नीरव । सती को दुष्ट चेरी-दल छोड़ के,
 घूमता है दूर, मत्त उत्सव की क्रीड़ा में;
 प्राणहीना हरिणी को रख के ज्यों सिहिनी
 घूमती अरण्य मे है चिन्ता छोड़ मौज से !
 मलिनमुखी है हाय । देवी, यथा खान के
 अन्धकार-गर्भ मे (प्रवेश नहीं पातो है
 सौरकर-राशि जहाँ) सूर्यकान्त मणि हो !
 किं वा रमा विम्बाधरा अम्बुराशि-तल मे !
 करता, समीर दूर साँय साँय शब्द है
 रह रह, दीर्घश्वास लेता है विलापी ज्यों ।

मर्मरनिनाद कर पत्र मानों शोक से
 हिलते हैं ! डालों पर पत्ती चुप बैठे हैं !
 राशि राशि पुष्प पड़े पादपों के नीचे हैं,
 मानों मनस्ताप-तप्त हो के तरु-राजि ने
 भूषण उतार कर फेंक दिये अपने !
 रो के दूर उच्च वीचि-रव से प्रवाहिनी
 मानों यह दुःख-कथा कहने समुद्र से
 जा रही है । पाती उस घोर वन में नहीं
 चन्द्रमा की किरणें प्रवेश-पथ । क्या कभी
 समल सलिल मे भी खिलता कमल है ?
 फिर भी अपूर्ण उस रूप के प्रकाश से
 उज्वल है वह वन, जैसे व्योम विधु से !

बैठी हैं अकेली सती, मानों तमोधाम में
 दीप्तिमती आमा आप ! ऐसे ही समय में
 आई वहाँ सरमा सहानुभूति रूपिणी ।
 बैठी वह रोकर सती के पद-प्रान्त मे—
 रत्नःकुल-राजलक्ष्मी रत्नोवधूरूप में !

नेत्र-जल पोछ चारुनेत्रा कुछ देर मे,
 बोली मधु-स्वर से कि—“देवि, दुष्ट चेरियाँ
 छोड़ तुम्हे, आज रात, घूमती हैं पुर मे,—
 और सब मत्त हो महोत्सव मे लीन हैं ।
 सुन के यही मैं पद पूजने को आई हूँ ।

सेदुर की डिब्बी साथ लाई हूँ, निदेश जो पाऊँ तो लगाऊँ एक बिन्दी भव्य भाल पै ।
 अक्षय सुहाग है तुम्हारा, यह वेष क्या सोहता तुम्हे है ? हाय ! लङ्कापति क्रूर है ।
 कौन तोड़ता है पद्म-पर्ण ? कैसे, क्या कहूँ, दुष्ट ने हरे है अलङ्कार इन अङ्गों के ?”

डिब्बी खोल राक्षसबधू ने, अति यत्न से, सेदुर की बिन्दी भव्य भाल पर दी अहा !
 ज्यों गोधूलि-भाल पर भाती एक तारा है । बोली पद-धूलि ले के सरमा सु-भाषिणी—
 “चाहती क्षमा हूँ, लक्ष्मि ! मुझको क्षमा करो, मैंने देव-वाञ्छित शरीर यह छू लिया ।
 किन्तु चिरदासी इन चरणों की, दासी है ।”

देवी के पदों में फिर बैठ गई युवती;
 सोने की सु-दीवट ज्यों तुलसी के मूल में जलती हो, करके समुज्वल दिशाओं को !
 बोली तब मैथिली यों मञ्जु-मृदु-स्वर से;—

“कोसती हो व्यर्थ तुम लङ्कापति को सती,
 आभूषण आप ही उतार फेके मैं ने है,
 जब था बनाश्रम में पापी ने हरा मुझे ।
 चिन्ह-हेतु मैं ने सब मार्ग में वे फेके थे ।
 सेतु बन वैं ही, आज धीर रघुवीर को

लाये इस लङ्कापुर मे हैं । भला विश्व में मुक्ता, मणि, रत्न, कौन ऐसा है कि जिसको त्याग नहीं सकती मैं उस धन के लिए ?”

बोली सरमा कि—“देवि, सुन चुकी दासी है, श्री मुख तुम्हारे से, तुम्हारे स्वयंवर का हाल; भला राघवेन्द्र आये क्यों अरण्य में ? कृपया बताओ, कैसे रत्नोराज ने तुम्हें हरण किया है ? यही भिक्षा मांगती हूँ मैं, बरसाके अमृत, मिटाओ तृषा दासी की । दूर दुष्ट चेरियों हैं; ऐसे अवसर मे देवि, कहे सारी कथा, चाहती हूँ सुनना । कैसे इस चोर ने छला है आर्य्य राम को ? लक्ष्मण को ? घुस किस माया के प्रभाव से राघव के घर मे, चुराया यह रत्न है ?”

गोमुखी के मुख से पुनीत वारिधारा ज्यों बहती है, सुस्वन से, बोली प्रियभाषिणी सीता सती—“जानकी की तुम हो हितैषिणी सरमा ! तुम्हे जो सखि, सुनने की इच्छा है तो मैं कहती हूँ, सुनो पूर्व-कथा, ध्यान से ।

गोदावरी-तीर पर थे हम सुलोचने ।
ऊँचे किसी वृक्ष पर, नीड़ बना कर ज्यों,
रहते हैं पारावत-पारावती प्रेम से ।

कोई चित्रवर्णा, मेघवाहन के चाप-से !
 जीव थे अहिंस्र सब । आदर से सब की
 सेवा करती थी मैं, सयन्न उन्हे पाल के;
 पालती प्रवाहिणी है जैसे मरुभूमि मे
 वृष्णाकुल प्राणियों को, मेघ के प्रसाद से
 आप जलशालिनी हो । आरसी थी सरसी
 मेरी वहाँ ! रत्न-तुल्य, कुवलय तोड़ के
 केशों मे पहनती थी, सजती थी फूलों से;
 प्रभु हँसते थे, वनदेवी मुझे कह के
 कौतुक से । हाय ! सखि, क्या मैं प्राणनाथ को
 पा सकूँगी फिर भी ? ये दग्ध आँखें फिर भी,
 तुच्छ इस जन्म में, क्या देख कभी पावेंगी
 उन चरणों को, उन आशा-सर-कञ्चों को
 और उन नयनों के रत्नों को ? विधातः, हा !
 दासी किस पाप से है तेरे यहाँ पापिनी ?”

रोई सती नीरव यों कह के विषाद से ।
 रोई सरमा भी साथ, भीग नेत्र-नीर से ।
 अश्रु पोंछ बोली कुछ देर मे विनीता यों—
 “पूर्व-कथा सोच के व्यथा हो यदि चित्त मे
 तो हे देवि, जाने दो; कहूँ मैं हाय । और क्या ?
 लाभ क्या है याद करने से उन बातों की ?
 देख के तुम्हारी इन आँखों मे आँसू ये,

इच्छा मरने की मुझे आज यहाँ होती है ।”

उत्तर में बोली यों प्रियंवदा (मधुस्वरा कादम्बा-समान) “हाय ! यह हतभागिनी रोवेगी न सुभगे, तो और कौन रोवेगी इस जगती मे ? सुनो, पूर्व-कथा मैं कहूँ । वर्षाऋतु में हे सखी, प्लावन की पीड़ा से कातर प्रवाह, दोनों ओर, निज तीरों के ऊपर से नीर बहा देता है सदैव ज्यों; दुःखी मन दुःख निज कहता है औरों से । कहती इसी लिए हूँ दुःख-कथा मैं, सुनो । कौन इस शत्रु-गृह मे है और सीता का ?

गोदावरी-तीर पर, पञ्चवटी-वन मे, हम सुख से थे । हाय ! सखि, उस वन की कैसे पन-शोभा कहूँ ? सर्वदा मैं स्वप्न मे सुनती थी वीणा, वन-देवियों के हाथों से; देखती थी सौर-कर-राशि-रूप मे सदा क्रीड़ा कञ्ज-कानन मे देवबाला-दल की; साध्वी ऋषि-बधुएँ थीं दासी के उटज में आती कभी, चन्द्र-किरणों-सो तमोघाम मे ! अजिन विछा के अहा ! चित्रित, विचित्र-सा, दीर्घ तरुओं के तले, बैठती थी मैं कभी; क्या क्या कहती थी सखी मान कर छाया को !

नाचती थी मृगियों के साथ कभी बन मे;
काकिलों का गान सुन गीत कभी गाती थी;
व्याह रचती थी वृक्ष-सङ्ग नववल्ली का;
चूमती थी मञ्जरित होते जब दम्पती;
नातिन थी मेरी सखि, एक एक मञ्जरी !
गूँजते थे भौरै वहाँ, वे नतजमाई थे ।
सरिता-किनारे, प्रभु-सङ्ग, कभी सुख से
घूमती थी; देखती थी चञ्चल सलिल मे
मानों नया व्योम, नया सोम, नये तारे मैं !
चढ़ के कभी मैं शैल-शृङ्ग पर, स्वामी के
चरणों मे बैठती थी, मानों लता आम्र के
मूल मे हो; कितने समादर से मुझको
वाक्यामृत-वृष्टि कर तुष्ट करते थे वे,
किससे कहूँ सो ? और कैसे कहूँ हाय ! मैं ?
कैलासाद्रिवासी व्योमकेश—सुनती हूँ मैं—
शक्ति-सङ्ग बैठ कर श्रेष्ठ स्वर्णासन पै,
आगम, पुराण, वेद, पञ्चतन्त्र की कथा,
पञ्च वदनों से कहा करते है रूपसी !
कितनी कथाएँ सुनती थी उसी भौंति मैं !
जान पड़ता है, इस निर्बन अरण्य मे
सुनती हूँ मीठी वह वाणी इस क्षण भी !
दासी के लिए क्या क्रूर दैव, हुआ पूरा है

अब वह गीत ?” हुई मौन दीर्घलोचना,
 शोक-वश । बोली तब सरमा मनोरमा—
 “राघव-रमणि, बाते सुनके तुम्हारी ये
 होती राज-भोग से घृणा है । चाहता है जी,
 राज-सुख छोड़ रहूँ ऐसे ही अरण्य मे !
 किन्तु सोचने से भय होता है हृदय मे ।
 रवि की किरण देवि, तिमिरावृत वन में
 होती है प्रविष्ट जब तब निज गुण से
 करती प्रकाशित उसे है; किन्तु यामिनी
 जाती जिस देश में है, अपने प्रवेश से
 मलिन बनाती है उसे ही मधुराशये ।
 पावन पदार्पण तुम्हारा विश्वमोहिनी,
 होगा जहाँ, क्यों न वहाँ सौख्य सब पावेगे ?
 विश्वानन्ददायिनी हो देवि । तुम, तुमको
 रक्षेत्राज कैसे हर लाया ? कहे मुझसे ।
 बीणाध्वनि दासी ने सुनी है और है सुनी
 कोकिला की कूक, नवपल्लवों के बीच से
 सरस वसन्त मे; परन्तु इस लोक मे
 ऐसी मधु-वाणी नहीं और सुनी कल्याणी ।
 देखो, नील नभ में निहार, वह चन्द्र, जो
 मलिन तुम्हारे सामने है, वही मुग्ध हो,
 मुदित सुधांशु तब वाक्यामृत पीता है !

नीरव हैं कोकिलादि पक्षी सब वृक्षों के
साध्वि, सुनने को ही तुम्हारी कथा तुमसे ।
प्रार्थना है, पूरी करो साध तुम सबकी ।”

बोली राघवेन्द्रप्रिया—“आली, इस भाँति से,
सुख से बिताया कुछ काल उसी वन में ।
नन्द तुम्हारी उस शूर्पणखा दुष्टा ने
अन्त में मचाया महा गोलमाल । लज्जा से
मरती हूँ सरमा सहेली, याद आते ही
बातेँ उसकी वे । धिक् नारि-कुल-कालिमे !
चाहा उस बाधिन ने राघव को वरना
मार मुझे ! तब अति कोप करके सखी,
कैसरी-समान वीर लक्ष्मण ने उसको
तत्क्षण खदेड़ा दूर । रत्नोदल आगया,
तुमुल समर हुआ वन में । मैं भय से
अपनी कुटी में घुसी । चापों की टँकोर से
रोई कितना मैं, कहूँ कैसे ? नेत्र मूँद के,
हाथ जोड़ देवों को मनाने लगी, स्वामी की
रक्षा करने के लिए । गूँज उठा नभ में
आर्तनाद, सिंहनाद ! मैं अचेत हो गिरी ।

कब लों पड़ी रही मैं यों ही, नहीं जानती,
राघव ने दासी को जगाया निज स्पर्श से ।
मञ्जु मृदु स्वर से (ज्यों वायु पुष्प-वन में

बोलता वसन्त मे है) बोले प्राणकान्त यों—
 'उठ अथि प्राणेश्वरि, रघुकुल-सम्पदे ।
 'तेरे योग्य है क्या यही शय्या हाय । हेमाङ्गी ?'
 वह ध्वनि क्या फिर सुनैगी सखि, मै कभी ?"
 सहसा अचेत हो के जब लों गिरे सती,
 व्यग्र सरमा ने शीघ्र पकड़ लिया उसे !
 जैसे घोर वन मे निषाद सुन पंछी का
 शाखा से सुरम्य गान, लक्ष्य कर उसको,
 बाण मारता है और छटपट करके
 गिरती है नीचे खगी विषम प्रहार से,
 जैसे गिरी सरमा की गोदी मे पतिव्रता ।
 पाई कुछ देर मे सुलोचनी ने चेतना ।
 रो के सरमा ने कहा—'मैथिलि, क्षमा करो
 मेरा दोष, व्यर्थ यह क्लेश दिया तुमको
 मै ने, हाय । मै हूँ ज्ञानहीना ।" राम-रामा ने
 उत्तर दिया यों मृदु स्वर से उसे—“सखी,
 दोष क्या तुम्हारा ? सुनो पूर्वकथा, ध्यान से ।
 जाकर मारीच ने छला था किस छल से
 (जैसे मरुभूमि मे मरीचिका है छलती)
 तुम ने सुना है सब शूर्पणखा-मुख से ।
 लोभ-मग्न हो के सखि, मै ने हा ! कुलम में
 माँगा था कुरङ्ग ! धनुर्बाण लिये उसके

पीछे प्राणनाथ गये, मेरे त्राण के लिए
छोड़ कर देवर को । माया-मृग वन में
करके प्रकाश चला, चपला-विलास-सा !
दौड़े प्राणनाथ पीछे वारणारि-गति से,—
नेत्रों का प्रकाश हाय ! खो बैठी अमागी मैं !

दूर आर्तनाद यों सुनाई दिया सहसा—
“हाय ! भाई लक्ष्मण, कहीं हो तुम, मैं मरा !”
सुन के सौमित्रि शूर चौके, आप चौकी मैं
और बोली हाथ धर उनका, विनय से,—
जाओ, इस कानन में वीर, वायु-गति से,
देखो तुम्हें कौन है बुलाता ? हाय ! सुन के
शब्द यह रो उठे हैं प्राण, जाओ शीघ्र ही,
जान पड़ता है, तुम्हें राघव बुलाते हैं ।

बोले तब देवर कि—“मानूँ देवि, आज्ञा मैं
क्योंकर तुम्हारी यह ? निर्जन अरण्य में
एकाकिनी क्योंकर रहोगी तुम ? मायावी
राक्षस न जानें यहाँ घूमते हैं कितने ?
क्या डर तुम्हें है ? रघुवंश-अवतंस का
कर सकता है बाल बाँका कौन विश्व में,
जो हैं भृगुराम के भो गुरु बल-वीर्य में ?
फिर भी सुनाई दिया आर्तनाद—“मैं मरा,
हाय ! भाई लक्ष्मण, कहीं हो ? कहीं सीते, तू

इस विपदा मे !' सखि, धैर्य्य सब छोड़ के लक्ष्मण का हाथ छोड़, कु-क्षण मे बोली मैं—
 'अति ही दयावती सुमित्रा सास मेरी हैं;
 कौन कहता है क्रूर, गर्भ मे उन्होंने है
 रक्खा तुम्हे ? तेरा हिया पत्थर का है बना !
 जान पड़ता है, जन्म दे के घोर वन मे
 बाधिन ने पाला तुम्हे दुर्मति रे । भीरु रे !
 वीर-कुल-ग्लानि रे । स्वयं मैं अभी जाऊँगी,
 देखूँगी कि कौन, करुणा से, दूर वन में
 सुम्हको पुकारता है' ? तत्क्षण ही क्रोध से
 रक्तनेत्र वीर-मणि लेकर धनुष को,
 पीठ पर तूण बांध, मेरी ओर देख के
 बोले—'तुम्हे माता-सम मानता हूँ मैथिली !
 सहता इसी से यह व्यर्थ भर्त्सना हूँ मै ।
 जाता हूँ अभी मै, तुम सावधान रहना;
 कौन जाने, क्या हो आज, दोष नही मेरा, मैं
 छोड़ता हूँ तुमको तुम्हारे ही निदेश से ।'
 कह के यों वीर घोर वन में चले गये ।

प्रिय सखि, कितना मै सोच करने लगी
 बैठ के अकेले मे, कहूँ क्या भला तुमसे ?
 जाने लगा समय, निनाद कर हर्ष से
 खग, मृग आदि जीव आये, सदाव्रत जो

पाते थे फलों का वहाँ प्रतिदिन मुझ से ।
 विस्मय समेत देखा, बीच में था उनके
 योगी एक अग्नि-सा, रमाये जो विभूति था ।
 हाथ मे कमण्डलु था, सिर पै जटाएँ थीं ।
 हाय ! सखि, जानती जो मैं कि पुष्परशि मे
 पन्नग छिपा है और जल में गरल है,
 तो क्या पड़ पृथ्वी पर करतो प्रणाम मैं ?

बोला तब मायावी—‘विदेहसुते ! भिक्षा दे,
 (अन्नदा तुम्हीं हो यहाँ) अतिथि क्षुधार्त है ।’

घू घट निकाल कर, हाथ जोड़, बोली मैं—
 ‘बैठ अजिनासन पै देव, तरु के तले
 करिए विश्राम; अमी राघवेन्द्र आते हैं
 आता के समेत ।’ तब दुष्टमति बोला यों—
 (समझ सक्ती न कोप कृत्रिम मैं उसका)
 ‘अतिथि क्षुधार्त हूँ मैं, कहता हूँ भिक्षा दे,
 नार्हीं कर अन्यथा कि जाऊँ और ठौर मैं ।
 वैदेही, विरत है क्या सेवा से अतिथि की
 आज ? करती है क्या कलङ्कित तू रघु का
 वंश, रघुवंश-बधू, बोल, ब्रह्मशाप की
 करती अवज्ञा आज तू है किस गर्व से ?
 भिक्षा दे, नहीं तो शाप देकर मैं जाता हूँ !
 होंगे राम राक्षस दुरन्त मेरे शाप से ।’

लज्जा छोड़ हाय । सखि, भिक्षा-द्रव्य ले के मैं
निकली समीत, बिना सोचे दृढ़ जाल मे
रक्खा पैर मैं ने; तभी हा । तुम्हारे जेठ ने,
करके कठोर हास्य पकड़ लिया मुझे !

इन्दुमुखि, एक वार राघव के साथ मैं
घूमती थी कानन मे; दूर एक हरिणी
चरती थी गुल्म के समीप सुना सहसा
घोर नाद; देखा भययुक्त दृष्टि डाल के,
वज्राकृति एक बाघ टूट पड़ा उस पै ।
'रक्षा करो नाथ ।' कह पैरों गिरी प्रभु के ।
क्षण मे शरानल से भस्म किया बाघ को
धीर रघुवीर ने । उठा के अति यत्न से
मैं ने वन-शोभा को बचाया । राक्षसेन्द्र ने
आली, उसी व्याघ्र-सम धर लिया मुझ को !
आया नहीं किन्तु कोई स्वजनि, बचाने को
इस हतभागी हरिणी को उस काल मे ।
भर दिया मैं ने वन हाहाकार-रव से ।
क्रन्दननिनाद सुना, माता वनदेवियों—
जान पड़ा—रोईं व्यग्र, दुःख देख दासी का ।
किन्तु वह क्रन्दन था व्यर्थ, बह्नि-तेज से
लोहा गलता है, वारिधारा गला सकती
है क्या उसे ? अश्रुविन्दु कठिन हिया कभी

मानता है ? हाय !

जटाजूट दूर हा गया,
साथ ही कमण्डलु भी; राजरथी-रूप मे
डाल लिया दुष्ट ने सुवर्ण-रथ में मुझे !
क्या क्या कहा क्रूर ने न जाने, कमी रोष से
गरज गरज, कभी सु-मधुर स्वर से;
याद कर आज भी मैं भरती हूँ लज्जा से ।

दौड़ाया रथी ने रथ । भेकी कालसर्प के
मुख मे पड़ी हुई ज्यों रोवे वृथा रोई मैं ।
स्वर्ण-रथ-चक्रों ने स्व घर्घर निनाद से
पूर्णा किया वन को, डुबा के हतभागी का
आर्तनाद ! जब कि प्रमञ्जन के वेग से
चड़मड़ हो के पेड़ हिलते है वन में,
सुन सकता है कौन कूजन कपोती का ?
हो के निरुपाय तब मैं ने शीघ्र खोल के
कङ्कण, बलय, हार, मोग, माला कण्ठ की,
कुण्डल, मञ्जीर, काञ्ची आदि सब गहने
फँक दिये मार्ग मे, इसीसे दग्ध देह को
रक्षोबधू, आभूषणहीन तुम पाती हो ।
भूषणों के अर्थ व्यर्थ रावण की निन्दा है ।”

मौन हुई चन्द्रमुखी । बोली तब सरमा—
“अब भी तृषातुरा है दासी यह, मैथिली !

दो इसे सुधा का दान । सफल हुए अहा !
 कर्णों के कुहर आज मेरे !” मृदु स्वर से
 इन्दुमुखी उससे यों फिर कहने लगी—

“इच्छा सुनने की यदि है तो सुनो, ललने !
 दूसरा सुनेगा कौन दु ख-कथा सीता की ?

हर्ष से फँसा के व्याध जाल मे ज्यों पंछी को,
 जाता घर को है त्यों चलाया रथ दुष्ट ने
 और वह पंछो यथा तोड़ने को जाल को
 छटपट करता है, रोई सखि, व्यर्थ मै ।

व्योम, सुनो, शब्दवह तुम कहलाते हो,
 (कहने लगी मै, मन मन मे) इस दासी की
 दुर्दशा सुनाओ वहाँ शीघ्र घोर नाद से,
 रघुकुल-चूड़ामणि प्राणाधार हों जहाँ,
 और जहाँ देवर हों मेरे विश्वविजयी
 लक्ष्मण । हे वायु, तुम गन्धवह हो; तुम्हे
 दूत मानती हूँ निज, जाओ जहाँ प्रभु हों
 सत्वर, रे मेघ, तुम व्यक्त भीमनादी हो;
 शीघ्र हों पुकारो धीर गर्जन से स्वामी को !
 ए हो मधु-लोभी अलि, छोड़ कर फूलों को,
 गूँजा, जहाँ राघवेन्द्र घूमते हों कुञ्ज में,
 जानकी का हाल कहो; गाओ मधु-मित्र हे
 पिक, तुम पञ्चम मे शोक-गीत सीता का !

शीघ्र ही सुनेंगे प्रभु तुम जो सुनाओगे ।
रोई इसी भौंति मैं, किसी ने भी नहीं सुना !

स्वर्ग-रथ चला शीघ्र, पार करता हुआ
अभ्रभेदी शैल-शृङ्ग, वन, नद, नदियाँ
और नाना देश । स्वयं पुष्पक की गति को
देखा तुमने है, कहीं व्यर्थ क्या मैं सरमा ?

घोर सिंहनाद सुना मैं ने कुछ देर में
सामने ! समीत अश्व काँप उठे, सोने का
स्यन्दन अनस्थिर-सा होने लगा साथ ही !
आँखें खोल देखा वीर मैं ने शैल-पृष्ठ पै
भीममूर्ति । मानों कालमेघ हो प्रलय का !
'जानता हूँ तुम्ह को मैं' वीर धीरनाद से
बोला—'घोर है तू अरे रावण है लङ्का का ।

दुष्ट, हर लाया आज कुलवधू कौन तू ?
कह रे, अधेरा किया तू ने किस गेह में,
ऐसे प्रेम-दीप को बुझा के ? नित्य कर्म है
तेरा यही । आज अपवाद अस्त्रि-दल का
मेट दूँगा, मार कर तीक्ष्ण शर से तुम्हें !
आ रे मूढ़ बुद्धि ! रक्षोराज, तुम्हें धिक् है !
कौन ब्रह्ममण्डल में पामर है तुम्ह-सा ?'

कह के यों शूर-सिंह गरजा तुरन्त ही ।
होकर अचेत गिरी रथ में स्वजनि मैं !

चेत पाके देखा फिर, पृथ्वी पर हूँ पड़ी;
 नृभृता है रथारूढ़ रत्नोरथी व्योम में
 करके हुङ्कार घोर उस वर वीर से ।
 अबला की रसना बखाने उस युद्ध को
 क्यों कर ? समीत मैं ने मूँद लिया आँखों को !
 रो रो कर देवों को मनाया, उस वीर के
 पक्ष में हो मारने को राक्षसेन्द्र वैरी के,
 लेने को उवार इस दासी को विपत्ति से !
 फिर मैं उठी कि छिपूँ घुसके अरण्य मे,
 भाग जाऊँ दूर कहीं । किन्तु गिरी हाय रे !
 खाकर पछाड़, मानों घोर महि-कम्प में ।
 पृथ्वी को मनाया—‘इस निर्जन प्रदेश मे,
 मेरी माँ ! द्विधा हो निज अङ्क में अमागी को
 ले लो; साध्वि, सहती हो कैसे तुम दुःखिनी
 बेटी की कठोर व्यथा ? आओ, त्वरा करके !
 दुष्ट अभी लौटेगा कि जैसे घोर रात में
 लौटता है चोर, जहाँ रखता छिपाके है
 पर-धन-रत्न-राशि ! तारो मुझे आ के माँ !
 तुमुल समर हुआ व्योम मे हे सुन्दरी,
 काँपी धरा; गूँजा वन भीषण निनाद से !
 मैं फिर अचेत हुई । सुन लो हे ललने,
 ध्यान देके सुन लो, अपूर्व कथा सजनी !

देखा निज माता सती वसुधा को स्वप्न मे
 मैं ने । मुझे गोद में उठा के वे दयामयी
 बोली मधु-वाणी—‘तुझे विधि के विधान से
 हरता है रक्षोराज; बेटी, इसी पाप से
 डूबेगा सर्वश दुष्ट । मार अब उसका
 सह नहीं सकता मैं, तुम्हको इसी लिए—
 लङ्का के विनाश-हेतु—रक्खा था स्वर्गर्भ मे !
 जिस क्षण देह छुआ तेरा उस पापी ने,
 जान लिया मैं ने, विधि मुझ पै प्रसन्न है
 इतने दिनों के बाद, आशीर्वाद तुम्हको
 मैं ने दिया, जननी का दुःख तू ने मेटा है
 सीते ! भवितव्य-द्वार खोलती हूँ, देख तू ।’

देखा सखि, सम्मुख कि अभ्रभेदी अद्रि है;
 पाँच वीर बैठे वहाँ, मग्न-से हैं दुःख में ।
 लक्ष्मण समेत प्रभु ऐसे ही समय में
 आये वहाँ । देख उन्हें विरसवदन, मैं
 कितनी अधीर हुई, रोई तथा कितनी,
 उसको कहूँ क्या ? तब उन सब वीरों ने
 पूजा रघुनाथ की की, लक्ष्मण की पूजा की
 सब हो इकट्ठे चले सुन्दर नगर को ।

मार उस नगरी के राजा को समर में,
 प्रभु ने बिठाया फिर राजसिंहासन पै-

उसको जो श्रेष्ठ उन पाँचों पुरुषों में था ।
 दौड़े दूत चारों ओर; दौड़ आये शीघ्र हो
 लाख लाख शूर-सिंह घोर कोलाहल से ।
 काँप उठी पृथ्वी सखि, वीर-पद-भार से !
 डर कर मैं ने नेत्र मूँद लिये, बोली माँ
 हँस कर—किससे तू डरती है जानको ?
 तेरे ही उवारने को सजता सुकण्ठ है
 मित्रवर कीशराज । तेरे प्राणपति ने
 मारा जिस शूर को है, वालि नाम उसका
 विश्रुत है । देख, वह किष्किंधा नगर है ।
 शक्र-सम शूर-दल सजता है, देख तू ।'
 देखा तब मैं ने, वीर-वृन्द, जलस्रोत ज्यों
 चलता है वर्षा में गर्ज कर गर्ज से ।
 निविड़ अरण्य हुए चड़मड़, नदियाँ
 सूख गईं, भागे वन-जीव दूर, भय से;
 पूरित दिशाएँ हुईं घोर कोलाहल से ।

सिन्धु के किनारे सब सैन्य-दल पहुँचा ।
 जल पै शिलाएँ उतराती हुई सजनी,
 देखीं तब मैं ने । शीघ्र शत शत वीरों ने
 शैलों को उखाड़ कर फेंक दिया सिन्धु में ।
 शिल्पियों ने बाँधा यों अपूर्व सेतु मिल के ।
 पहनी जलेश पाशो ने ही स्वयं शृङ्खला

पैरों में सहर्ष सखि, प्रभु के निदेश से !
 लॉघ के अलंघ्य जल-राशि वीर-भद से
 पार हुआ कटक ! सुवर्णपुरी सहसा
 कौप उठी वौरियों के भूरि-पद-भार से;
 'जय रघुवीर जय' नाद किया सबने ।
 रोई हर्ष से मैं; हेम-मन्दिर में सजनी,
 देखा हेम-आसन पै मैं ने राक्षसेन्द्र को ।
 उसकी समा में एक वीर धर्म-सम था
 धीर, वह बोला—'पद पूजा रघुनाथ के,
 लौटा कर जानकी को; वंश-युत अन्यथा
 रण में मरोगे !' भद-भक्त राघवारि ने
 कहे कुवाक्य पदाघात किया उसको !
 शूर वह साभिमान मेरे प्राणपति की
 सेवा में चला गया तुरन्त ।" बोली सरमा—
 "दुःखी, देवि, कितने तुम्हारे दुःख से हैं वे
 रक्षोराज-अनुज, कहुँ सो किस भौति मैं ?
 सोच के तुम्हारी दशा दोनों हम, बहुधा,
 रोये कितने हैं, कह सकता है कौन सो ?"
 "जानती हूँ सखि, मैं" यों बोली तब जानकी,—
 "मेरे श्री विभीषण अतीव उपकारी हैं;
 स्वजनी हो तुम भी उसी प्रकार सरमा !
 जीवित यहाँ जो है अभागिनी जनकजा,

सो बस, तुम्हारे दया-गुण से दयावती !
 अस्तु, सुनो, सुमुखि, अपूर्व स्वप्न आगे का—
 रक्षोगण सजे, रक्षावाद्य बजे, व्योम मे
 गूँजा नाद । कर्षो सखि, देख के मैं वीरों को,—
 विक्रम मे केसरी-से, तेज मे कृशानु-से !
 कितनी लड़ाई हुई, कैसे मैं कहूँ भला ?
 बह चली रक्त-नदी, देखे उच्च गिरि-से
 मृतकों के ढेर मैं ने भोषण समर मे !
 उद्धत कबन्ध, भूत, प्रेत आये दौड़ के,
 गृध्रादिक मांस-भोजी पक्षी दौड़ आये त्यों;
 सैकड़ों शृगाल, श्वान आये पक्ति बौध के ।
 भीषणता-पूर्णा हुई हेमलङ्का नगरी ।

देखा सभा-मध्य फिर राक्षसों के राजा को,
 शोकाकुल, स्नानमुख, आँसू भरे आँखों मे ।
 दर्पहीन, राघव के विक्रम से युद्ध मे ।
 बोला सविषाद वह—‘तेरे मन में यही
 था क्या विधे, जाओ, हा । जगाओ सब यत्न से
 शूली शम्भु-तुल्य मेरे भाई कुम्भकर्ण को ।
 और कौन रक्षःकुल-मान अब रक्खेगा,—
 रख न सकेगा यदि अब वह आप ही ?’
 दौड़े यातुधान, बजे बाजे घोर नाद से;
 साथ ही शुभध्वनि की नारियों ने मिल के ।

भीममूर्ति रक्षोरथी प्राप्त हुआ युद्ध में ।
मेरे प्रभु राघव ने, खर तर बाणों से
(कौशल विचित्र ऐसा विश्व में है किसका ?)

काटा सिर उसका । अकाल में ही जाग के
सोया सर्वाद को वह शूर-सिंह सजनी !
'जय रघुवीर' नाद मैं ने सुना हर्ष से;
गेया राक्षसेन्द्र, हाहाकार हुआ जङ्घा मे ।

चारों ओर क्रन्दननिनाद सुन कोंपी मैं;
पैरों पड़, माँ से सखि, बोली यों अधीर हो—
'रक्षकुल-दुःख देख छाती फटती है माँ ।
दूसरे के दुःख से है दासी सदा दुःखिनी;
मुझको क्षमा करो माँ !' बोली हँस वसुधा—
'बेटी, सब सत्य है जो तू ने यह देखा है;
रावण को दण्ड देगे तेरे पति, लङ्का को
छिन्न भिन्न करके । निहार और देख तू'—।

देखा सखि, मैं ने फिर देवबाला-वृन्द को,
हाथों मे लिये था जो अनेकानेक गहने,
पारिजात-पुष्पहार, पट्ट-वस्त्र ! हँस के,
घेर लिया आके मुझे उसने तुरन्त ही ।
बोल उठी कोई—'उठ साध्वि, आज रण में
रावण का अन्त हुआ !' कोई कहने लगी—
'उठ रघुराज-धन, उठ अबिलम्ब, तू

स्नान कर देवि, दिव्य, सुरमित नीर से,
 पहन विभूषण ये । आप शची इन्द्राणी,
 सीता का करेगी दान आज सीतानाथ को ।'

बोली सखि सरमा, मैं हाथ जोड़—'देवियो,
 काम क्या है ऐसे वस्त्र-भूषणों का दासी को ?
 ऐसी ही दशा में मुझे आज्ञा दो कि जाऊँ मैं
 स्वामी के समीप; सीता दीना और हीना है,
 ऐसी ही दशा मे उसे देखे प्रभु उसके ।'

बोली सुरबालाएँ—'सुनो, हे सति मैथिली ।
 रहती मलिन मणि गर्भ मे है खान के,
 देते हैं परन्तु परिष्कार कर राजा को ।'

रो के, हँस के मैं सखि, शीघ्र हुई सज्जिता ।
 दीख पड़े मुझको अदूर प्रभु, हाय ! ज्यों
 हेम उदयाद्रि पर देव अंशुमाली हों !
 पागल-सी दौड़ी पैर धरने को ज्यों ही मैं
 जाग पड़ी सहसा, सखीरी, यथा दीप के
 बुझने से होता है अँधेरा घोर घर में,
 मैं क्या कहूँ और, मेरी ऐसी ही दशा हुई ।
 विश्व अन्धकारमय दीख पड़ा मुझको ।
 मर न गई क्यों हा विधे, मैं उसी काल में ?
 दग्ध प्राण देह मे रहे ये किस साध से ?'
 मौन हुई चन्द्रमुखी, टूटने से तार के

होती यथा वीणा है ! स-खेद रोई सरमा
 (रत्नःकुल-राजलक्ष्मी रत्नोवधू-वेश में)
 बोली—“शीघ्र प्रिय से मिलोगी तुम मैथिली !
 सच्चा है तुम्हारा स्वप्न, कहती हूँ तुम से ।
 तैरो है शिलाएँ जलमध्य, हत हो चुका
 देव-दैत्य-नर-त्रास कुम्भकर्णा रण मे;
 सेवा करते हैं देवि, जिष्णु रघुनाथ की
 सुहृद विभीषण ले लक्ष लक्ष वीरों को ।
 पाकर उचित शास्ति होगा हत रण मे
 रावण; सर्वश वह दुष्टबुद्धि डूबेगा !
 कृपया सुनाओ अब, आगे फिर क्या हुआ ?
 लालसा असीम मुझे सुनने की हो रही ।”

कहने लगी यों फिर साध्वी मृदु स्वर से—
 “आँखें खोल देखा सखि, रावण को सामने;
 भूपर पड़ा था वह शूर-सिंह पास ही,
 तुङ्ग गिरि-शृङ्ग मानों वज्र के प्रहार से !

बोला प्रमु-वैरी—“खोल इन्दीवर-नेत्रों को,
 इन्दुमुखि, रावण की शक्ति तुम देख लो !
 विश्रुत जटायु आयु-हीन हुआ मुझ से !
 मूढ़ गरुडात्मज मरा है निज दोष से !
 वर्णर से किसने कहा था, लड़े मुझसे ?”
 “धर्म-कर्म रखने को रण में मरा हूँ मैं

रावण ।” यों बोला वह वीर मृदु स्वर से—
 “सन्मुख समर मे मै मर कर स्वर्ग को
 जाऊँगा । परन्तु तेरी होगी क्या दशा ? उसे
 सोच तू ! शृगाल हो के, लोभी, हुआ लुब्ध तू
 सिही पर ! कौन तेरी रक्षा कर पायगा
 राक्षस ? पड़ा तू घोर सङ्कट मे आप हो,
 चोरी करके रे, इस रामा-कुल-रत्न की !”

मौन हुआ वीर यह कह कर । मुक्तेको
 रथ में चढ़ाया फिर लङ्कापति मूढ़ ने ।
 हाथ जोड़ रोई सखि, मै उस सुभट से—
 ‘सीता नाम है हे देव, दासी का, जनक की
 दुहिता हूँ और बधू हूँ मै रघुवंश की,
 सूने घर मे से मुझे पापी हर लाया है,
 राघव से भेट हो तो हाल यह कहना ।’

घोर रव-युक्त रथ वायु-पथ मे उठा ।
 भीम रव मै ने सुना और देखा सामने
 नील-ऊर्मिमाली-सिन्धु ! कोलाहल करके
 अतल-अकूल जल बहता सदैव है ।
 चाहा जलमध्य मैं ने कूद कर डूबना;
 रोक लिया दुष्ट ने परन्तु मुझे बल से !
 सिन्धु को पुकारा मैं ने और जल जीवों को,
 मन मे; परन्तु हा ! किसी ने भी नहीं सुना,

करदी अमागी की अवज्ञा ! व्योम-पथ में
हेम-रथ जाता था मनोरथ की गति से ।

आई अविलम्ब स्वर्ण-लङ्कापुरी सामने,
सागर के भाल पर रञ्जन की रेखा-सी ।
किन्तु सखि, कारागार स्वर्ण का भी क्यों न हो,
अच्छा लगता है क्या परन्तु वह बन्दी को ?
स्वर्ण के भी पींजड़े में पछी सुखी होगा क्या,
करता विहार है जो मुक्त कुञ्ज-वन में ?
कु-क्षण में जन्म हुआ मेरा सखि सरमा ।
राज-कुल-बधू और राज-नन्दिनी हूँ मैं,
वन्दिनी हूँ तो भी !” सती रोई गला घर के
सरमा का, साथ साथ रोई स्वयं सरमा ।

आँसू पोंछ बोली कुछ देर में सुलोचना
सरमा कि—“देवि, कौन विधि के विधान को
तोड़ सकता है ? किन्तु बसुधा ने जो कहा
जानो उसे सत्य । यह दैव की ही इच्छा है,
तुमको जो मूढ़ लङ्कानाथ हर लाया है !
डूबेगा सवंश दुष्ट । वीर-योनि लङ्का में
शेष अब कौन रहा वीर ? विश्वविजयी
योद्धा सब है वे कहाँ ? देखो, सिन्धु-तट पै,
खाते शव-राशियाँ हैं जीव शव-भोजी जो ।
और सुनो, कान देके, विधवा सु-बधुएँ

रो रही हैं घर घर ! दुःख-निशा शीघ्र ही
 बीतेगी तुम्हारी यह, स्वप्न फल लावेगा;
 विद्याधरी-वृन्द आ के, पारिजात-पुष्पों से,
 अङ्ग ये अपूर्व रङ्ग पूर्वक सजावेगा ।
 स्वामी से मिलोगी तुम, सरस वसन्त मे
 वसुधा विलासिनी ज्यों मिलती है मधु से ।
 भूलना न साध्वि ! इस दासी को, जियूँगी मैं
 जब तक, नित्य इस प्रतिमा को प्रेम से
 पूजती रहूँगी, यथा पूजती है रात मे
 सरसी सहर्ष निज कौमुदी विभव को ।
 पाये बहु क्लेश इस देश में सु-केशिनी,
 तुमने हैं; किन्तु नही दोषी यह दासी है ।”
 सु-स्वर से बोली तब सीता—“सखि सरमे !
 तुम-सो हितैषिणी है मेरी कौन दूसरी ?
 तुम मरुभूमि की प्रवाहिणी-सी मेरी हो,
 रक्षोबधू ! मैं हूँ तप-तापिता-सी, तुमने
 ठण्डी छोंह बन के बचा लिया है मुझको !
 तुम हो समूर्ति दया, क्रूर इस देश मे ।
 पद्मिनी हो प्यारी, इस पङ्किल सलिल की !
 कालनागिनी है हेमलङ्का, तुम उसकी
 स्वच्छ शिरोमणि हो ! कहूँ क्या सखि, और मैं ?
 बीना जानकी है, महामूल्य मणि तुम हो;

पाकर दरिद्र जन रत्न, कभी उसको
रखता अयत्न से है ? सोचो तुम्हीं सुन्दरी !”

करके प्रणाम चरणों में सती सीता के
बोली सरमा कि—बिदा दो अब दयामयी !
दासी को । नही ये प्राण, रघुकुल-पद्मिनी,
छोड़ा तुम्हे चाहते है, किन्तु मेरे स्वामी है
राघव के दास; मैं तुम्हारे पद-पद्मों मे
आ के, बैठ, बाते करती हूँ, यह बात जो
रावण सुनेगा, क्रुद्ध होगा, मैं विपत्ति मे
पड़ के न दर्शन तुम्हारे फिर पाऊँगी !”

बोली तब मैथिली कि—“जाओ सखि, शीघ्र ही
तुम निज गेह, पद-शब्द सुनती हूँ मैं
दूर, जान पड़ता है, चेरी-दल आता है ।”

भय से कुरङ्गी यथा, शीघ्र गई सरमा,
रह गई देवी उस निर्जन प्रदेश में—
एक मात्र फूल मानों शेष रहा वन मे !

इति श्री मेघनाद-वध काव्ये

अशोक वनं नाम

चतुर्थः सर्गः

—

पञ्चम सर्ग

हँसतो है तारामयी रात्रि सुरपुर मे ।
चिन्ताकुल किन्तु आज वैजयन्त धाम मे
हो रहा महेन्द्र, छोड़ फूल-शय्या, मौन हो
बैठा है त्रिदिवराज रत्न-सिंहासन पै;
सोते स्वर्ण-मन्दिरों मे और सब देव है ।

बोली साभिमान यों सुरेश्वरी सुवाणी से—
“दोषी यह दासी है सुरेन्द्र किस दोष से
इन चरणों मे ? कहां शयनागार मे नहीं
करते गमन जो ये ? देखो, क्षण क्षण मे,
मूदती हैं, खोलती हैं आँखें, चौक भय से—
उर्वशी समेत रम्भा, मेनका, तिलोत्तमा,
चित्र मे लिखी-सी स्पन्द-हीन चित्रलेखा है !
देव ! निद्रादेवी भी तुम्हारे डर से नही
आती है तुम्हारे पास, विदित विरामदा;
डरती है और वह किससे ? बताओ तो,
जागता है कौन, कहां, घोर इस रात मे ?
घेर लिया आके फिर दानवों ने स्वर्ग क्या ?”
बोला असुरारि—“देवि, सोचता हूँ मन में,

लक्ष्मण करे'गे वध कैसे मेघनाद का ?
वीर-रत्न रावणि अजेय है जगत मे ।”

“पाये अस्त्र तो है नाथ,” बोली तब इन्द्राणी,
निरवधि-यौवना, कि—“तारक को जिन से
मारा तारकारि ने था; है तुम्हारे पक्ष मे,
भाग्य से, महेश, स्वयं शङ्करी ने दासी को
वचन दिया है कल कार्य्य सिद्ध होने का;
देवीश्वरी माया बता देगी स्वयं शत्रु के
वध का विधान, फिर क्यों है यह भावना ?”

बोला दैत्यनाशो—“सुरेन्द्राणि, यह ठीक है;
भेज दिये राघव के पास मैं ने अस्त्र भी;
फिर भी, न जाने, कल माया किस युक्ति से
लक्ष्मण का रक्षण करेगी, पक्ष ले के भी,
रक्षारण-मध्य विशालाक्षि ! जानता हूँ मैं,
अति बलशाली है सुमित्रा-पुत्र, फिर भी,
पार पाता है क्या गजराज मृगराज से ?
चन्द्रमुखि, वज्र का निनाद सुनता हूँ मैं;
घर्घर घनों का घोष, और देखता हूँ मैं
उद्धत इरम्मद को; मेरे ही विमान मे
बिजली चमकती है नित्य; किन्तु फिर भी,
थर थर कौपती है छाती, जब क्रुद्ध हो
नाद करता है मेघनाद हुहुङ्कार से,

छोड़ता है अभिमय बाण, रख धन्वा पै,
दीर्घधन्वी; भागता है ऐरावत आप ही
उसके भयानक प्रहारों से विकल हो ।”

दीर्घ श्वास ले के सविषाद हुआ वृत्रहा
मौन, दीर्घ श्वास ले, विषाद से, स्वरीश्वरी
(रोते है सती के प्राण नित्य पति-दु ख से)
बैठी देवपति के समीप । रम्भा, उर्वशी,
चित्रलेखा आदि चारों ओर खड़ी होगईं;
चन्द्र-किरणों ज्यों चुपचाप बन्द पद्मों को
घेरती निशा मे हैं, कि शारदीय पर्व में,
दीपावली अम्बिका के पीठतल मे यथा,
हर्ष मे निमग्न जब वङ्गवासी होते हैं,
पा के चिरवाञ्छा-मूर्ति माँ को ! मौन भाव से
दम्पति विराजे । वहाँ ऐसे ही समय में
आप मायादेवी हुईं प्राप्त । बढ़ी दुगनी
देवालय-मध्य रत्न-सम्भवा-विभा अहा !
ज्यों मन्दार-हेमकान्ति नन्दन विपिन में
सौर-कर-राशि पाके बढ़ती है क्षण मे ।

सादर प्रणाम किया, भुक पद-पद्मों मे,
देव और देवी ने । शुभाशीर्वाद माया दे,
बैठी हेम-आसन पै । हाथ जोड़ बोला यों
वासव कि—“माता । कहो दास से, क्या इच्छा है ?”

बाली मायामयी—“आदितेय, लङ्कापुर को
जाती हूँ, तुम्हारा कार्य्य सिद्ध करने को मैं;
रत्नःकुल-चूड़ामणि को मैं आज युक्ति से
चूर्ण कर दूँगी। वह देखो, रात जाती है;
शीघ्र भवानन्दमयी ऊषा उदयाद्रि पै
दीखेगी; पुरन्दर, सरोज-रवि लङ्का का
अस्त होगा ! लक्ष्मण को लेकर, निकुम्भला—
यज्ञागार में कल्लंगी राक्षस को माया से
वेष्टित। निरस्त्र, बली, दैव-अस्त्राघात से,
होकर अशक्त, असहाय (यथा जाल में
केसरी) मरेगा; कौन विधि के विधान को
लौंघ सकता है ? अन्त रावण का रण में
होगा, किन्तु रावण सुनेगा जब इसको,
कैसे बचाओगे तुम लक्ष्मण को ? राम को ?
और, विभीषण को—अभिन्न राम-मित्र को ?
होकर अधीर हे सुरेन्द्र, सुत-शोक से,
रण में प्रविष्ट जब होगा क्रुद्ध काल-सा
भीमभुज वीर-वर, साध्य तब किसका,
लौटा सके उससे जो ? शक्र, इसे सोच लो।”

उत्तर में बोला शचीकान्त—“महामाये, जो
मारा जाय मेघनाद लक्ष्मण के बाणों से,
तो कल प्रविष्ट हो के, ले के सुर-वाहिनी,

लङ्का के समर मे, मै उनको बचाऊँगा ।
 डरता नहीं माँ, मैं तुम्हारे अनुग्रह से,
 रावण को ! मारो तुम, माया-जाल डाल के,
 पहले दुरन्त उस रत्नःकुल-दर्प को,
 देवि । रण-दुर्मद को,— रावण को, राम हैं
 प्यारे देव-कुल के, लड़ेगे उनके लिए
 देव प्राण-पण से । स्वयं मैं कल मर्त्य मे
 जाकर कहूँगा भस्म राक्षसों को वज्र से ।”

“योग्य है अदिति-रत्न, वज्री, यही तुम को;”
 माया ने कहा कि—“मैं प्रसन्न हुई सुन के
 बातें ये तुम्हारी; अब अनुमति दो कि मैं
 जाऊँ हेमलङ्का-धाम ।” शक्तीश्वरी कह यों,
 दोनों को शुभाशीर्वाद दे कर चली गई ।
 आके नत निद्रा हुई पैरों मे सुरेन्द्र के ।

पकड़ प्रिया का पाणि-पद्म, कुतूहल से,
 वासव प्रविष्ट हुआ शयन-निकेत में,
 सुख का निवास था जो । चित्रलेखा, उर्वशी,
 रम्भा, मेनकादि गईं निज निज गेहों में ।
 खेल खेल नूपुरादि आभूषण, कञ्चुकी,
 सोईं फूल-सेजों पर सौर-कर-रूपिणी
 सुन्दरी सुराङ्गनाएँ । वायु बहने लगा
 सुस्वन से, गन्ध-पूर्णा, क्रीड़ा करके कमो

कालो अलकों से; कमी उन्नत उरोजों से
और कमी इन्दु-वदनों से; मत्त भृङ्ग ज्यों
खेलता है पाकर प्रफुल्ल फुलवारी को !

माया महादेवी यहाँ स्वर्ग के—सुवर्ण के—
द्वार पर पहुँची, सु-नाद कर आप ही
खुल गया हेम-द्वार । आ के विश्वमोहिनी
बाहर, बुला के ध्यान से ही स्वप्रदेवी को,
बोली—“तुम जाओ अभी हेम लङ्कापुर मे,
है सौमित्रि शूर जहाँ शोभित शिविर में ।
रख के सुमित्रा-रूप, बैठ कर उनके
सिर के समीप, कहे जाकर यों रङ्गिणी !—
‘उठ प्रिय वत्स, देख, बीत रही रात है ।
उत्तर मे लङ्का के सु-घोर वन-राजि है;
बीच मे सरोवर है, तीर पर उसके—
शोभित है मन्दिर अपूर्व महाचण्डी का;
स्नान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोवर में,
तोड़ के विविध पुष्प, पूजा भक्ति-भाव से
माँ को—दैत्य-दलिनी को । उनके प्रसाद से
मारोगे सहज तुम राक्षस दुरन्त को !
जाना हे यशस्वि, उस वन में अकेले ही ।’
जाओ, अविलम्ब स्वप्रदेवि, तुम लङ्का को;
बीतती है रात, देखो, काम नहीं देर का ।”

स्वप्नदेवी चल दी, सुनील नमस्थल मे
 करके उजेला, खसी पृथ्वी पर तारा-सी !
 पहुँची तुरन्त, जहाँ सुन्दर शिविर मे
 रामानुज वीर थे; सुमित्रा-रूप रख के,
 सिर के समीप बैठ उनके कुहकिनी
 कहने लगी यों—सुधासिक्त मृदुस्वर से—
 ‘उठ प्रिय वत्स, देख, बीत रही रात है ।
 उत्तर में लङ्का के सु-घोर वन-राजि है;
 बीच में सरोवर है, तीर पर उसके
 शोभित है मन्दिर अपूर्व महाचण्डी का ।
 स्नान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोवर में,
 तोड़ के विविध पुष्प, पूजा मक्तिभाव से
 माँ को—दैत्यदलिनी को । उनके प्रसाद से
 मारोगे सहज तुम राक्षस दुरन्त को ।

जाना हे यशस्वि, उस वन मे अकेले ही ।’

चौक उठ वीर चारों ओर लगा देखने;
 भाँग गया आँसुओं से वक्षःस्थल हाथ रे !
 “हे माँ !” महावीर सविषाद कहने लगा—
 “दास पर वाम हो क्यों, बोलो, तुम इतनी ?
 फिर भी दिखाई पड़ो, पूज पद-पद्म मै,
 ले के पद-धूलि करूँ पूरी निज कामना
 मेरी माँ ! बिदा मैं जब होने लगा तुम से,

रोईं कितनी थी तुम, याद करके उसे
झाती फटती है । हाय । व्यर्थ इस जन्म मे
देखूँगा पुनः क्या पद युग्म ?” आँसू पोंछ के,
चला वीर-कुञ्जर सु-कुञ्जर की चाल से,
रघुकुल-राज प्रभु आप जहाँ बैठे थे ।

अनुज प्रणाम कर अग्रज के पैरों मे,
बोले—“प्रभो, देखा स्वप्न अद्भुत है मैं ने यों—
बैठ के सिराने कहा मेरी माँ सुमित्रा ने—
‘उठ प्रिय वत्स, देख, बीत रही रात है ।
उत्तर मे लङ्का के सु-घोर वन-राजि है,
बीच मे सरोवर है, तीर पर उसके
शोभित है मन्दिर अपूर्व महाचण्डी का;
स्नान कर वत्स, उसी स्वच्छ सरोवर में,
तोड़ के विविध पुष्प, पूजा भक्ति-भाव से
माँ को, दैत्यदलिनी को । उनके प्रसाद से
मारोगे सहज तुम राक्षस दुरन्त को ।
जाना हे यशस्वि, उस वन में अकेले ही ।’
यों कह अदृश्य हुईं जननी तुरन्त ही ।
मैं ने रो पुकारा किन्तु उत्तर नहीं मिला;
आज्ञा रघु-रत्न, अब क्या है मुझे आपकी ?”

पूछा श्री विभीषण से नैदेही-विलासी ने—
“बोले प्रिय मित्रवर ? राक्षस-नगर में

राघव के रक्षक तुम्हीं हो ख्यात लोक में ।”

रत्नोवर बोला—“उस कानन में चण्डी का मन्दिर है, सुन्दर सरोवर के तीर पै । पूजता है आप वहाँ जाके जगदम्बा को रत्नोराज; और कोई जाता नहीं भय से उस भय-पूर्णा घन-वन में । प्रसिद्ध है, घूमते हैं द्वार पर शम्भु वहाँ आप ही भीम शूलपाणि । जा के पूजता है माँ को जो, होता विश्वविजयी है । और क्या कहूँ भला ? श्री सौमित्रि साहस के साथ यदि जा सकें उस वन में तो फिर आप का महारथे । सफल मनोरथ है, सत्य कहता हूँ मैं ।”

“दास यह राघव का आदेशानुवर्ती है रत्नोवर !” बोले बली लक्ष्मण—“जो पाऊँ मैं आज्ञा तो प्रवेश अनायास करूँ वन में, रोक सकता है मुझे कौन ?” मृदुस्वर से बोले राघवेन्द्र प्रभु—“मेरे लिए कितना तुम ने सहा है बत्स, याद कर उसको, और कष्ट देना तुम्हें प्राण नहीं चाहते ! क्या करूँ परन्तु भाई, तोड़ूँ भला कैसे मैं विधि का विधान ? तुम जाओ सावधान हो, धर्म-बल-युक्त बली; वर्म-सम सर्वथा

अमर-कुलानुकूल्य रत्नक तुम्हारा हो ।”

करके प्रणाम पद-पङ्कजों में प्रभु के
 और नमस्कार कर मित्र विभीषण को;
 लेकर कृपाण मात्र, निर्भय हृदय से
 श्री सौमित्रि शूर चले उत्तर की ओर को ।
 वीरों के समेत वहाँ जागता सुकण्ठ था
 वीतिहोत्र रूपी मित्र । बोला धीर नाद से—
 “कौन तुम ? और किस हेतु इस रात में
 आये यहाँ ? शीघ्र बोलो, चाहो यदि वचना;
 अन्यथा करूँगा सिर चूर्ण शिलाघात से !”
 बोले हैंस रामानुज—“राक्षसों के वंश को
 ध्वंस करो वीर-रत्न ! मैं हूँ दास राम का ।”
 अग्रसर हो के शीघ्र मित्र कपिराज ने
 शूर-सिंह लक्ष्मण की वन्दना की प्रीति से ।
 ऊर्मिला-विलासी तोष किष्किन्धा-कलत्र को
 देकर, सहर्ष चले उत्तर की ओर को ।

आकर उद्यान-द्वार पर कुछ देर में
 देखा महाबाहु ने, अदूर भीममूर्ति है !
 देती चारु चन्द्रकला भाल पर दीप्ति है,
 जैसे महा पन्नग के भाल पर मणि हो !
 शीर्ष पर जटा-जूट, उसमें है गङ्गा की
 फेन-लेखा, शारदनिशा में यथा जोत्सना की

रम्य रजोरेखा मेघ-मुख मे ! विभूति से
 भूषित हैं अङ्ग; दायें हाथ में त्रिशूल है—
 शाल-तरु-तुल्य । पहचान लिया शीघ्र ही
 रामानुज शूर ने भवेश भूतनाथ को ।
 तेजोमय खड्ग खींच बोला वीर-केसरी—
 “विश्रुत रघुज-अज-आत्मज महारथी
 दशरथ, पुत्र उनका ही यह दास है;
 करता प्रणाम हूँ मैं, रुद्र ! मार्ग छोड़ दो,
 वन में प्रवेश कर पूजूँ महाचण्डी को;
 अन्यथा महेश, युद्ध-दान करो मुझ को !
 सतत अधर्म-रत लङ्कापति है प्रभो,
 चाहो विरूपाक्ष, युद्ध पक्ष मे जो उसके,
 प्रस्तुत हूँ तो मैं, नहीं काम है विलम्ब का !
 देता हूँ चुनौती तुम्हे, साक्षी मान धर्म को,
 धर्म यदि सत्य है तो जीतूँगा अवश्य मैं ।”

सुन कर वज्र-नाद, भीषण हूँकार से
 उत्तर ज्यों शैलराज देता है तुरन्त ही,
 बोले वृषकेतु त्यों गभीर-धीर-बाणी से—
 “शूर-कुल-चूड़ामणि, लक्ष्मण ! बड़ाई मैं
 करता हूँ तेरे इस साहस की, धन्य तू !
 कैसे लडूँ तुझसे ? प्रसन्नतामयी स्वयं
 माग्यशाली, तुझ से प्रसन्न हूँ !” तुरन्त ही

झोड़ दिया द्वार, द्वार-रक्षक कपर्दी ने;
वन में प्रवेश किया रामानुज शूर ने ।

घोर सिंहनाद सुना चौककर वीर ने ।
घन-वन कोप उठा कड़मड़ करके
चारों ओर ! दौड़ आया रक्त-नेत्र केसरी,
पूँछ को उठाये, दौत कड़मड़ करता !
'जय रघुवीर' कह खड़ खीचा वीर ने,
माया-सिंह भागा—यथा पावक के तज से
भागता है ध्वान्त । धीरे धीरे चला धीर-धी
निर्भय । अचानक घनों ने आ, गरज के,
घेर लिया चन्द्रमा को ! सन सन शब्द से
चलने समीर लगा ! चमक क्षणप्रमा
कर उठी दुगना अंधेरा क्षण-दीप्ति से !
वार वार वज्र गिरा, कड़ कड़ नाद से !
आँधी ने उखाड़े वृक्ष ! दावानल वन में
फैल गया । कोपी स्वर्णलङ्का, सिन्धु गरजा
दूर, लक्ष लक्ष शङ्ख मानों रण-क्षेत्र में
नाद करते हों, चाप-शब्द-सङ्ग मिल के !

अटल-अचल-तुल्य वीर खड़ा होगया
घोर उस रौरव में ! शान्त हुआ सहसा
दावानल; शान्त हुई भ्रंश-वृष्टि व्योम में;
तारा-गण-युक्त खिला तारा-पति चन्द्रमा;

हँस उठी कौतुक से पृथ्वी पुष्प-कुन्तला ।

दौड़ उठा गन्ध, मन्द वायु बहने लगा ।

विस्मित सुमति चला मन्द मन्द गति से ।

पूर्णा हुआ वन कल-निकण से सहसा ।

सप्तस्वरा वीणा, वेणु आदि बजने लगे

नूपुर-मृदङ्ग-सङ्ग; मिल उस नाद से

कान्ता-कल-कण्ठ-गान गूँजा मन मोह के !

दिव्य पुष्प-वन में समक्ष देखा वीर ने

बामा-दल, तारा-दल भूपर पतित-सा !

कोई स्नान करती है स्वच्छ सरोवर मे,

जोत्स्ना ज्यों निशीथ मे । दुकूल और चोलियाँ

शोभित है कूल पर, अङ्ग शुचि जल मे

झलमल हो रहे है, मानों मानसर मे

सोने के सरोज । कोई चुनती कुसुम है,

गूँथती है कोई काम-शृङ्खला-सी अलके !

कोई लिये हाथ में है—हाथीदाँत की बनी

मोतियों से खचित—विपञ्ची, तार सोने के

चमक रहे है उस राग-रस-शाला में !

कोई नाचती है; पीन-उन्नत उरोजों के

बीच में सुरन्न-माला लोटती है, पैरों मे

बजते हैं नूपुर, नितम्बों पर रसना !

कालनाग-दंशन से मरते मनुष्य हैं,

किन्तु इन सब की जो पीठों पर खेलते
मणिधर पन्नग है, देख कर ही उन्हे
प्राण जलते है पञ्चबाण-विष-वह्नि से ।
देखते ही काल-दूत-तुल्य कालनाग को
भागते हैं लोग दूर, किन्तु इन नागों को
कौन नर बाँधना गले मे नही चाहता,
शीश पर शूली फणि-भूषण उमेश ज्यो ?
गा रही है डालों पर कोकिला मधुप्रिया,
हो रही है चारों ओर क्रीड़ा जल-यन्त्रो को,
बहता समीरण स-कौतुक है, लूट के
परिमल रूपी धन, पुष्पधनागार से !

घेर के अरिन्दम को शीघ्र वामा-वृन्द ने
गा के कहा—“स्वागत है रघुकुल-रत्न का ।
राक्षसो नहीं है हम, त्रिदिवविलासिनी ।
नन्दन विपिन मे हे शूर, हेम-हर्म्य मे
रहती है, पान कर अमृत प्रमोद से;
यौवनोपवन में हमारे सर्वकाल हो
सरस वसन्त रहता है पूर्ण रूप से;
रहते प्रफुल्ल हैं उरोज-कञ्ज सर्वदा,
अधर-सुधा-रस है सूखता नहीं कभी,
अमरी हैं देव, हम । सब मिल तुमको
बरती है; चलके हमारे साथ नाथ हे ।

हमको कृतार्थ करो, और क्या कहे भला ?
 युग युग मानव कठोर तप करके
 पाते सुख-भोग है जो, देंगी वही तुम को
 गुणमणि । रोग, शोक आदि कीट जितने
 काटते है जीवन-कुसुम को जगत में,
 घुस नहीं सकते है वे हमारे देश मे,
 रहती जहाँ हैं चिरकाल हम हर्ष से ।”

उत्तर में, हाथ जोड़, लक्ष्मण ने यों कहा—
 “हे अमर्त्य-बाला-वृन्द, दास को क्षमा करो !
 अग्रज जो मेरे रथी रामचन्द्र विश्व में
 विश्रुत है, भाय्या सती जानकी है उनकी;
 पा कर अकेला उन्हे रावण अरण्य मे,
 पामर हर लाया । मैं उनको उबारूँगा,
 राक्षसों को मार कर, मेरा यही प्रण है,
 पूरा जिसमें हो यह, वर दो सुराङ्गने !
 नर-कुल में है जन्म मेरा; तुम सब को
 माता-सम मानता हूँ ।” दीर्घबाहु कह यों
 देखता है अर्धे जो उठाके फिर सामने,
 निर्जन अरण्य है, कहीं भी कुछ है नहीं !
 चला गया वामा-वृन्द । मानों स्वप्न देखा हो !
 किं वा जलविम्ब सद्योजीवी ! उस माया की
 माया कौन जानता है मायामय विश्व मे ?

विस्मित-सा वीर फिर मन्द गति से चला ।
 देखा कुछ देर में अदूर वीर-वर ने
 सुन्दर सरोवर, किनारे पर उसके
 हेममय मन्दिर अपूर्व, महाचण्डी का,
 काञ्चन-सोपान शत, मण्डित सुरत्नों से ।
 जलते प्रदीप देखे मन्दिर में वीर ने,
 पुष्प पदपीठ पर, भोँभ, शङ्ख, घण्टा हैं
 बजते, सु-नीर-घट शोभित हैं, धूप है
 जलती, सुगन्धिमय सारा देश हो रहा,
 सुमन-सुवास-सङ्ग । घुस कर पानी में
 स्नान किया लक्ष्मण ने, नीलोत्पल यत्न से
 तोड़े, हुईं पूरित दिशाएँ दसों गन्ध से ।

मन्दिर में जाकर सु-वीरकुल-केसरी
 लक्ष्मण ने पूजा सिंहवाहिनी को विधि से ।
 करके प्रणाम कहा वीर ने—“हे वरदे !
 किङ्कर को वर दो कि मारूँ इन्द्रजित को,
 भिन्ना यही माँगता हूँ । मानव के मन की
 बात जितनी है तुम्हे ज्ञात अन्तर्यामिनी,
 उतनी मनुष्य-वाणी कह सकती है क्या
 मातः, कभी ? साध जितनी है इस मन की,
 सिद्ध करो साध्वि, सब ।” कहने के साथ ही
 दूर घन-घोष हुआ । लङ्का वज्र-नाद से

काँप उठी सहसा ! सकम्प हुए साथ हो
 थर थर मन्दिर, तड़ाग और अटवी ।
 देखा वीर लक्ष्मण ने स्वर्ण-सिंहासन पै,
 अपने समक्ष, वर-दात्री महामाया को ।
 कौंधा-तुल्य तेज से निमेष भर कं लिए
 चौंधा गई अँखिं और तत्क्षण ही वीर को
 दीख पड़ा मन्दिर में घोर अन्धकार-सा !
 किन्तु वह दूर हुआ ज्यों ही हँसी अम्बिका;
 पाई द्रुत दिव्यदृष्टि लक्ष्मण सुमति ने,
 सु-मधुर स्वर की तरङ्गें उठी व्योम में ।

बोली महामाया—“सब देवी और देवता,
 हे सतीसुमित्रा-पुत्र, तुष्ट हुए तुझ से
 आज । देव-अस्त्र भेजे इन्द्र ने है लङ्का में
 तेरे लिए, आप मैं भी आज यहाँ आई हूँ
 तेरा कार्य साधने को, शङ्कर की आज्ञा से ।
 देवायुध लेके वीर, सङ्ग विभीषण के
 जा तू नगरी में, जहाँ रावण निकुम्भला—
 यज्ञागार में है अग्निदेवता को पूजता ।
 टूट पड़ राक्षस के ऊपर तू सिंह-सा,
 मार अकस्मात् उसे ! मेरे वरदान से
 होकर अदृश्य तुम दोनों घुस जाओगे,
 वेष्टित करूँगी मैं स्वमाया-जाल से तुम्हें;

कोष रखता है यथा आवृत कृपाण को ।
जा तू हे यशस्वि वीर, निर्भय हृदय से ।”

करके प्रणाम चरणों में महादेवी के
लौट चला शूरमणि, राघवेन्द्र थे जहाँ ।
कूज उठा पक्षि-कुल जाग फूल-वन में,
जैसे महा उत्सव में वाद्यकर देश को
पूर्णा करते हैं भद्र निकरण से । फूलों की
वृष्टि तरु-राजि ने की सिर पर शूर के,
सुस्वन से मन्द गन्धवाह बहने लगा ।

“रक्खा शुभयोग में है जननी सुमित्रा ने
गर्भ में तुझे हे वीर लक्ष्मण !” गगन से
वाणी हुई—“पूर्णा होंगे तेरे कीर्ति-गान से
तीनों लोक । देवों से असाध्य कर्म तू ने ही
साधा आज । अमर हुआ तू देव-कुल-सा ।”
मौन हुई व्योम-वाणी; पक्षी उस कुञ्ज में
कूज उठे, मधुर-मनोज्ञ-मृदु नाद से ।

लेटा जहाँ जाम्बूनद-मन्दिर में, फूलों की
शय्या पर, शूर-कुल-केतु इन्द्रजित था;
कूजन-निनाद वहाँ ज्यों ही यह पहुँचा,
जागा वीर-कुञ्जर सु-कुञ्ज-वन-गीतों से ।
धरके रथीन्द्र पाणि-पङ्कज प्रमीला का
निज कर-पङ्कज से, सुस्वर से, हाय रे !

पद्मिनी के कान मे ज्यों गूँज के है कहता
 प्रेम की रहस्य-कथा भृङ्ग, कहने लगा
 (आदर से चूम के निमीलित सु-नेत्रो को)
 कूज के सहर्ष (तुम हेमवती ऊषा हो)
 “रूपवति, तुमको बुलाते है विहङ्ग ये ।
 मेरी चिरमोद-मूर्ति, उठके मिलो प्रिये
 पद्मदृषी । सूर्यकान्त-से है प्राण कान्ते, ये;
 तुम हो रविच्छवि, मै तेजोहीन हूँ सती,
 मूँदने से नयन तुम्हारे, नेत्रतारिके !
 सु-फल तुम्हो हो प्रिये, मेरे भाग्य-वृत्त का
 विश्व मे महार्हमणि । उठ विधु-वदने,
 देखो, चुरा कुसुम तुम्हारी रम्य कान्ति को
 कैसे खिलते है मञ्जु कुञ्ज मे । ” तुरन्त ही
 चौंक कर रामा उठी. मानों गोप-कामिनी
 सुन के मनोहर निनाद वर वेणु का ।

ढँक लिये अङ्ग चारुहासिनी ने लज्जा से
 झटपट । सादर कुमार फिर बोला यों—
 “बीत गई आहा ! अब अन्धकार-यामिनी,
 खिलती नही तो तुम कैसे, कहो, पद्मिनी,
 आखे ये जुड़ाने को ? चलो, हे प्रिये, चलके
 माँगूँ बिदा अब मै प्रणाम कर अम्बा के
 चरणों में ! पूज फिर विधि युत वहि को,

वृष्टि कर भीषण अशनि-तुल्य बाणों की
मेढूँगा समर-काम राम का समर में ।”

रावण की बधू और पुत्र सजे दोनों ही
अतुलित विश्व में, प्रमीला ललनोत्तमा
और पुरुषोत्तम सुरेन्द्र-गज-केसरी
मेघनाद । शयन-निकेतन से निकले
दोनों—यथा तारा अरुणोदय के साथ मे !
लज्जा से, मलिन मुख, भागा दूर जुगनू,
(शिशिर-सुधा का भोग छोड़ पुष्प-पात्र मे)
दौड़े मकरन्द-हेतु मधुकर मत्त हो;
गाने लगी डालों पर पञ्चम में कोकिला;
राक्षसों के बाजे बजे, रक्षक भुके समी;
गूँज उठा नाद—‘जय मेघनाद’ नम में !
बैठे रत्न-शिविका में हर्ष युत दम्पती ।
यानवाही लोग मोद मान यान ले चले,
मन्दोदरी महिषी के रम्य हेम-हर्म्य को ।
गेह महा आभा-पूर्णा रत्नों से रचित है,
हस्तिदन्तमण्डित, अतुल इस लोक में ।
नयनानन्ददायक जो कुछ भी विधाता ने
सृष्टि मे सृजा है, समी है उस सु-धाम में !
घूमती है द्वार पर प्रमदा प्रहरियों,
काल-दण्ड-तुल्य लिये प्रहरण पाणि मे;

पैदल है कोई और कोई हयारूढ़ा हैं !
 तारावली-तुल्य दीपमालिका है जलती
 चारों ओर । बहता वसन्तानिल मन्द है,
 लेकर सुगन्धि शत—अयुत प्रसूनों की ।
 खेलती है वीणाध्वनि मानों स्वप्न-माया है !

पहुँचा अरिन्दम अमन्द, इन्दुवदनी
 सुन्दरी प्रमीला युक्त, उस सुख-धाम में ।
 दौड़ आई त्रिजटा निशाचरी निहार के,
 बोला उससे यों वीर—“सुन लो हे त्रिजटे,
 साङ्ग कर आज मैं निकुम्भला के यज्ञ को
 राम से लड़ूँ गा, पितृदेव के निदेश से ।
 मारूँगा स्वदेश-शत्रु; आया हूँ इसी लिए
 माँ के पद पूजने को; जा कर खबर दे—
 पुत्र और पुत्र-बधू द्वार पर है खड़े
 लङ्केश्वरि, आपके ।” प्रणाम कर त्रिजटा
 (विकटा निशाचरी) यों बोली शूर-सिंह से—
 “शङ्कर के मन्दिर मे सम्प्रति हैं श्रीमती
 महिषी, कुमार ! वे तुम्हारे क्षेम के लिए,
 भोजन-शयन छोड़, पूजती है ईश को !
 किसका है तुम-सा समर्थ सुत विश्व में ?
 और ऐसी जननी भी किसकी है जग मे ?”
 दौड़ गई दामनी-सी दूती यह कह के ।

गाने लगी गायिकाएँ बाजों के सहित यों—

“हमवति कृत्तिके, तुम्हारे कार्तिकेय ये
शक्तिधर, आश्रो और देखो, खड़े द्वारे हैं,
सङ्ग सेना सुमुखी सुलोचना है ! देख लो,
रोहिणी-विनिन्द्या बधू; पुत्रवर, जिसके
सामने शशाङ्क सकलङ्क गिने आपको !
भान्यवती तुम हो, सुरेन्द्रजयी शूर है
मेघनाद, है सती प्रमीला विश्वमोहिनी ।”

बाहर शिवालय से आई राजमहिषी;
दम्पती प्रणत हुए चरणों मे । दोनों को
अङ्क में ले रानी सिर चूम रोई ! हाथ रे !
जननी के प्राण, तू है प्रेमागार विश्व में,
फूल जैसे गन्धागार, शुक्ति मुक्तागार है !

शारदेन्दु पुत्र, शरच्चन्द्रिका बधू सती,
तारक-किरीटिनी निशा-सी राक्षसेश्वरी
आप; अश्रु-वारि हिम-विन्दु गण्ड-पत्रों पै
गिर कर वार वार शोभित हुए अहा !

वीर बोला—“देवि, दो शुभाशीर्वाद दास को ।
पूर्णा कर विधि से निकुम्मला का यज्ञ मैं,
जा के आज रण में करूँगा वध राम का !
मेरा शिशु बन्धु वीरबाहु, उसे नीच ने
मार डाला । देखूँगा कि कैसे वह मुझको

करता निवारित है ? मातः, पद-धूलि दो ।
 आज माँ, अकण्ठक,—तुम्हारे अनुग्रह से,
 तीक्ष्ण-शर-पुञ्ज-द्वारा, लङ्का को कलूंगा मैं !
 और राज-द्रोही लघुतात विभीषण को
 बाँध कर लाऊँगा ! खदेड़ूँगा सुकण्ठ को—
 अङ्गद को सागर के अतल सलिल में !”

रत्नमय आँचल से आँसू पोछ अपने
 मन्दोदरी बोली—“विदा बेटा, तुम्हें कैसे दूँ ?
 मेरे अन्धकारमय हृदय-नागन का
 पूर्ण शशि तू ही है । दुरन्त सीता-कान्त है
 रण मे; है लक्ष्मण दुरन्त; कालनाग-सा
 निर्मम विभीषण है ! मत्त लोभ-मद से,
 मारता है मूढ़ बन्धु-बान्धवों को आपही;
 खाता है क्षुधार्त नाग जैसे निज बच्चों को !
 सास निकषा ने बत्स, कु-क्षण मे उसको
 रक्खा था स्वगर्भ मे, मैं कहती हूँ तुम्ह से !
 मेरी हेमलङ्का हा ! डुबोदी दुष्टमति ने !”

हँस कर बोला रथी उत्तर में माता से—
 “माँ, क्यों डरती हो तुम रत्नोरिपु रामसे,—
 लक्ष्मण से ? दो दो बार तात के निदेश से
 जीत मैं चुका हूँ उन्हें, अभिमय बाणों से,
 वार रण-मध्य । इन परों के प्रसाद से

चिरविजयी है देव-दैत्य-नर-युद्ध मे
 दास यह ! विक्रम तुम्हारे इस पुत्र का
 अच्छी भोति जानते पितृव्य विभीषण हैं;
 बज्रधारी इन्द्र युत देव रथी स्वर्ग मे;
 मर्त्य मे नरेन्द्र, भुजगेन्द्र रसातल में ।
 कौन नहीं जानता है ? मातः, फिर आज क्यों
 समय हुईं हो तुम, मुझ से कहो, अहो ।
 क्या है वह तुच्छ राम ? डरती हो उसको !”

बोली महारानी सिर चूम महादर से—
 “वत्स, यह सीतापति मायावी मनुष्य है,
 तब तो सहाय उसके है सब देवता !
 नाग-पाश में था जब बंध लिया दोनों को
 तू ने, तब बन्धन था खोला वह किसने ?
 किसने बचाया था निशा के उस युद्ध में
 मारा जब तू ने था ससैन्य उन दोनों को ?
 यह सब माया नहीं जानती हूँ वत्स, मै ।
 कहते हैं, आज्ञा मात्र पाके उस राम की
 डूबती शिलाएँ नहीं, तैरती हैं जल में ।
 अग्नि बुझती है ! और, घन हैं बरसते !
 मायावी मनुष्य राम । वत्स, कह तुम्हको
 कैसे मैं विदा दूँ फिर जूझने को उससे ?
 हा विधे ! मरी क्यों नहीं माँ के ही उदर मे

शूर्पणखा,—कुटिला—कुलक्षणा—अमङ्गला !”
नीरव हो रोने लगी रानी यह कहके ।

बोला वीर-कुञ्जर कि—“पूर्व-कथा सोच के
करती वृथा ही माँ, विलाप यह तुम हो !
नगरी के द्वार पर वैरी है, करूँगा मैं
कौन सुख-भोग, उसे जब तक युद्ध मे
मारूँगा न ! आग जब लगती है घर में
सोता तब कौन है माँ ? विश्रुत त्रिलोकी में
देव-नर-दैत्य-त्रास राक्षसों का कुल है;
ऐसे कुल में क्या देवि, राघव को देने दूँ
कालिमा मैं इन्द्रजित रावणि ? कहेंगे क्या
मातामह दानवेन्द्र मय यह सुन के ?
और, रथी मातुल ? हँसेगा विश्व ! दास को
आज्ञा दो कि जाऊँ, करूँ-राम-वध युद्ध में ।
कूजते हैं विहग सुनो, वे कुञ्ज-वन मे ।
बीत गई रात, हुआ प्रात, इष्टदेव को
पूज कर, अपने दुरन्त दल युक्त मैं
रण में प्रविष्ट हूँगा । देवि, तुम अपने
मन्दिर में लौट जाओ । आ के फिर शीघ्र ही
रण-विजयी हो पद-पद्म ये मैं पूजूँगा ।
पा चुका हूँ तात का निदेश, तुम आज्ञा दो
जननि, तुम्हारा शुभाशीष प्राप्त होने से,

रोक सकता है कौन किङ्कर को रण में ?”

रत्नमय अञ्चल से अश्रु-जल पोछ के,
 लङ्केश्वरी बोली—“यदि वत्स, जाता ही है तू,
 रक्षःकुलरक्षी विरूपाक्ष करें रक्षा तो
 तेरी इस काल-रण-मध्य ! यही भिक्षा मैं
 माँगती हूँ उनके पदाब्जों में प्रणत हो !
 और क्या कहूँ हा ? नेत्र तारा-हीन करके
 छोड़ चला बेटा, इस घर में तू मुझको !”
 रोती हुई रानी फिर देख के प्रमीला को,
 कहने लगी यों—“रह मेरे साथ बेटो, तू;
 प्राण ये जुड़ाऊँगी निहार यह तेरा मैं
 चन्द्रमुख । होती कृष्ण पक्ष में है धरणी
 तारक-करों से ही प्रकाशिता-समुज्वला ।”
 करके सु-बाहु जननी की पद-वन्दना
 सहज विदा हुआ । सुवर्णपुराधीश्वरी
 पुत्र-बधू-सङ्ग गई रोती हुई गेह में ।
 छोड़ शिविका को युवराज चला वन में
 पैदल, अकेला, रथी मन्द मन्द गति से
 यज्ञशाला-ओर, बहु पुष्पाकीर्ण पथ से ।
 सुन पड़ा नूपुर-निनाद पीछे सहसा ।
 परिचित नित्य पद-शब्द प्रेमिका का है
 प्रेमिक के कानों में ! हँसा सु-बीरकेसरी,

बाँध बाहु-पाश में सहर्ष मृगलोचनी
 प्रेयसी प्रमीला को प्रमोद-प्रेम-भाव से ।
 “हाय नाथ !” बोली सती—“सोचा था कि आज मैं
 जाऊँगी तुम्हारे सङ्ग पुण्य यज्ञशाला मे,
 तुमको सजाऊँगी वहाँ मैं शूर-सज्जा से ।
 क्या करूँ परन्तु निज मन्दिर मे वन्दिनी
 करके है रक्खा मुझे सास ने यों । फिर भी
 रह न सकी मैं बिना देखे पद युग्म ये ?
 सुनती हूँ, चन्द्रकला उज्वला है रवि का
 तेज पा के, वैसे ही निशाचर-रवे, सुनो,
 दीखता तुम्हारे बिना दासी को अधेरा है ।
 मोतियों से मण्डित सुवक्ष पर ओंखों ने
 शुचितर मोती बरसाये । शतपत्रों के
 इनके समक्ष हैं हिमाम्बु-कण छार क्या ?

वीरोत्तम बोला—“अभी लौट यहाँ आऊँगा
 लङ्का-अलङ्कारिणि, मैं राघव को मार के !
 जाओ प्रिये, लौट तुम लङ्केश्वरी हैं जहाँ ।
 होती है उदित चन्द्रमा के पूर्व रोहिणी !
 विधि ने बनाये ये सुनेत्र है क्या रोने को ?
 होते हैं उदित क्यों प्रकाशागार में सती,
 वारिवाह ? सुन्दरि, सहर्ष अनुमति दो,—
 भ्रान्ति-वश जान तुम्हे ऊषा अंशुमालिनी,

पञ्चम सर्ग

भाग रही रजनी है देखो, शीघ्र गति से !
अनुमति दो हे साध्वि, जाऊँ यज्ञ-गृह में ।”

जैसे कुसुमेषु जब इन्द्र के निदेश से,
कुक्षण मे शूर चला, छोड़ कर रति को,
शङ्कर का ध्यान तोड़ने के लिए, हायरे !
वैसे ही यहाँ भी चला काम रूपी साहसी
इन्द्रजित, छोड़ के प्रमीला सती रति-सी !
कुक्षण मे यात्रा कर जैसे गया काम था,
कुक्षण मे यात्रा कर वैसे ही गया बली
मेघनाद—एक अवलम्ब यातुधानों का—
जग में अजेय ! हाय ! प्राक्तन की गति को
शक्ति किसकी है जो कि रोक सके कुछ भी ?
रोने लगी रति-सी प्रमीला सती युवती ।

रक्षोबधू चक्षु-जल पोँछ कुछ क्षण में
बोली यों सु-दूर देख प्राणाधार पति को—
“जानती हूँ मैं, क्यों घन-वन मे गजेन्द्र, तू
धूमता है, वह गति देख किस लज्जा से
मुहँ दिखलायगा तू दम्भि ? कौन तुझको
सूक्ष्मकटि केसरि, कहेगा भला जिसके
चक्षुओं ने रक्षःकुल-केसरी को देखा है ?
तू भी है इसीसे वन-वासी, जानती हूँ मैं ।
मारता है तू गजों को, किन्तु यह केसरी

करता पराङ्मुख है तीक्ष्णतम बाणों से
दैत्य-कुल-नित्य-वैरी देव-कुल-राज को !”

कह के सती यों कर जोड़ देख व्योम की
ओर करने लगी यों रोती हुई प्रार्थना—
“हे नगेन्द्रनन्दिनि, प्रमीला सदा-सर्वदा
दासी है तुम्हारी, तुम्हें वह है पुकारती,
लङ्का पर आज कृपा-दृष्टि हो कृपामयी !
रक्षा करो रत्नोवर की माँ, इस युद्ध मे !
आवृत अभेद्य वर्म्म-तुल्य करो वीर को !
आश्रिता तुम्हारी यह लतिका है हे सती,
जीवन है इसका माँ, इस तरुराज मे !
जिसमें कुठार इसे छू न सके, देखना !
किङ्करी कहे क्या और ? अन्तर्यामिनी हो जो
तुम माँ, तुम्हारे बिना और जगदम्बिके,
रख सकता है किसे, कौन, इस विश्व में ?”

वायु बहता है गन्ध को ज्यों राज-गृह में,
शब्दवाही अम्बर त्यों प्रार्थना प्रमीला की
ले चला तुरन्त उस कैलासाद्रि धाम को !
कौंपा भय-युक्त इन्द्र । देख यह सहसा
वायु ने उड़ाया उसे दूर वायु-वेग से,
(अपने ठिकाने पर आने के प्रथम ही !)
अश्रु-जल पोँछ सती मौन हो चली गई,

यमुना-पुलिन मे ज्यों माधव को दे विदा—
विरह-विपन्ना ब्रजवाला शून्य मन से
शून्य गृह में गई हो, रोती हुई सुन्दरी
मन्द मन्द मन्दिर के अन्दर चली गई !

इति श्री मेघनाद-वध काव्ये

उद्योगो नाम

पञ्चमःसर्गः

षष्ठ सर्ग

रामानुज शूर चले छोड़ उस वन को,
भानु-कुल-भानु जहाँ प्रभु थे शिविर मे;
देख के किरात यथा वन मे मृगेन्द्र को
अस्त्रागार में है दौड़ जाता वायु-गति से
चुन चुन तोक्ष्ण शर लेने को तुरन्त ही
जो हों प्राणनाशी नाशकारी रण-क्षेत्र में ।

थोड़ी देर मे ही वहाँ पहुँचे यशस्वी वे ।
प्रभु-चरणों मे नत हो के भक्ति-भाव से—
और नमस्कार कर मित्र विभीषण को,
बोले—कृतकार्य्य हुआ यह चिरदास है
आज, इन चरणों के आशीर्वाद से प्रभो !
ध्यान कर चरणों का, वन मे प्रविष्ट हो,
पूजा हेम-मन्दिर मे मै ने महाचण्डी को ।
छलने को दास के विछाये जाल कितने
देवी ने, निवेदन करूँ मै मूढ़ कैसे सो
इन चरणों मे ? चन्द्रचूड़ स्वयं द्वार के
रक्षक थे; किन्तु हटे युद्ध के बिना ही वे,
पुण्य के प्रताप से तुम्हारे; महानाग ज्यों

निर्बल हो जाता है महौषध के गुण से !
 वन में घुसा जो दास, आया सिंह गर्ज के,
 उसको भगाया, फिर भीम हुहुङ्कार से
 भ्रम्रा उठी, वृष्टि हुई, फैल गई वन में
 कालानल-तुल्य दव-ज्वाला; जली अटवी;
 कुछ क्षण में ही किन्तु अग्नि बुझी आप ही !
 भ्रम्रा और वृष्टि रुकी । मैं ने तब सामने
 विपिन-विहारिणी विलोकी देव-बालाएँ;
 जोड़ कर, मोंग वर, उनसे विदा हुआ ।
 दीख पड़ा मन्दिर अदूर तब देवी का,
 करता प्रदीप्त था प्रभा से जो प्रदेश को ।
 सर में प्रविष्ट हो के, स्नान करके प्रभो,
 तोड़ कर नीलोत्पल, अश्वली दे अम्बा को
 पूजा भक्ति युक्त । हुई आविर्भूत आप वे
 और वरदान दिया दास को उन्होने यों—
 (पूर्ण कृपा युक्त) “सब देवो और देवता,
 हे सती सुमित्रा-पुत्र, तुष्ट हुए तुझ से
 आज ! देव-अस्त्र भेजे इन्द्र ने हैं लङ्का में
 तेरे लिए; आप मैं भी आई यहाँ आज हूँ
 तेरा कार्य साधने को, शङ्कर की आज्ञा से ।
 देवायुध ले के वीर, सङ्ग विभीषण के
 जा तू नगरी में, जहाँ रावण निकुम्भला—

यज्ञागार में है अग्निदेवता को पूजता ।
 टूट पड़ राक्षस के ऊपर तू सिंह-सा,
 मार अकस्मात् उसे । मेरे वरदान से
 होकर अदृश्य तुम दोनों घुस जाओगे;
 वेष्टित करूँगी मैं स्वमाया-जाल से तुम्हें,
 कोष रखता है यथा आवृत कृपाण को;
 जा तू हे यशस्वि वीर, निर्भय हृदय से ।”
 आज्ञा है तुम्हारी अब क्या हे प्रभो, दास को ?
 बीत रही रात देव ! काम नहीं देर का,
 आज्ञा दो कि जाऊँ अभी, मारूँ मेघनाद को ।”

बोले प्रभु—“हाय ! कैसे,—दूर से ही देख के
 जिस यम-दूत को, भयाकुल हो, प्राणों को
 लेके भागता है जीव-कुल, ऊर्ध्व श्वास से;
 मस्मीभूत होते हैं मनुष्य और देव भी
 जिसकी कराल विष-ज्वाला से सहज ही !—
 कैसे तुम्हे भेजूँ उस सोप के विवर में
 प्राणाधिक ? काम नहीं सीता-समुद्धार का ।
 व्यर्थ हे जलेश, मैं ने बाँधा तुम्हे व्यर्थ ही;
 मारे हैं असंख्य यातुधान व्यर्थ रण में;
 लाया पार्थिवेन्द्र-दल मैं हूँ व्यर्थ लङ्का में
 सैन्य-सह; रक्त-स्रोत हाय । मैं ने व्यर्थ ही
 वृष्टि-वारि-धारा-सा बहाकर धरित्री को

आर्द्र किया । राज्य, धन, धाम, पिता, माता को
 और बन्धु-बान्धवों को हाय ! भाग्य-दोष से
 खो दिया है मैं ने; वस, अन्धकार-गृह की
 दीप-शिखा मैथिली थी (दास यह हे विधे,
 दोषी है तुम्हारे चरणों में किस दोष से ?)
 हाय ! दुरदृष्ट ने उसे मो है बुझा दिया ।
 मेरा और कौन है रे भाई, इस विश्व मे,
 मै ये प्राण रक्खूँ मुख देख कर जिसका ?
 और स्वयं जीता रहूँ इस नर-लोक मे ?
 चलो, फिर लौट चले' हम वन-वास को
 लक्ष्मण सुलक्षण ! हा, कु-क्षण मे माया की
 छलना मे भूल इस राक्षस-नगर मे
 भाई, हम आये थे, कहुँ मै अब और क्या ?"
 शूर-सिंह रामानुज बोले वीर दर्प से—

“नाथ, रघुनाथ, किस हेतु आज इतने
 होते तुम कातर हो ? जो है बली दैव कं
 बल से, उसे क्या डर है इस त्रिलोकी मे ?
 पक्ष में तुम्हारे सुरराज सहस्राक्ष है;
 कैलासाद्रिवासी विरूपाक्ष; तथा शङ्करी
 धर्म्म की सहायिनी हैं । देखो देव, लङ्का की
 ओर; काल-मेघ-सम क्रोध देव-कुल का
 ढँक रहा स्वर्णामयो आभा सब ओर है !

आलोकित करता है शिविर तुम्हारे को
 देखो प्रभो, देव-हास्य ! दास, को निदेश दो,
 होऊँ देव-अस्त्र ले के लङ्का में प्रविष्ट मैं;
 निश्चय तुम्हारे पद-पद्मों के प्रसाद से
 मारूँगा निशाचर को । विज्ञतम तुम हो;
 फिर अबहेलना क्यों देव, देव-आज्ञा की ?
 गति है तुम्हारी सर्वकाल धर्म-पथ मे,
 फिर यों अधर्म-कार्य, आर्य्य करते हो क्यों ?
 आज कहो ? तोड़ता है कौन पदाघात से
 मङ्गल-कलश आप, मङ्गलमते, अहो ?”

बोला तब सुहृद विभीषण सु-वाणी से—
 “तुम ने कहा जो राघवेन्द्र रथी, सत्य है ।
 विक्रम मे अन्तक के दूत-सा दुरन्त है
 वासव का त्रास, मेघनाद, विश्वविजयी ।
 किन्तु व्यर्थ डरते हैं आज हम उससे ।
 रघुकुल-चूड़ामणि, मैं ने स्वप्न देखा है,—
 रत्नःकुल-राजलक्ष्मी मेरे शिरोभाग में
 बैठ कर, करके उजेला-सा शिविर मे
 शुचि किरणों से, सती बोली इस दास से;—
 “हाय ! तेरा भाई हे विभीषण, मदान्ध है !
 सोच के रहूँ क्या इस पापमय पुर मे
 पाप-द्वेषिणी मैं ? भला पङ्किल सलिल मे

खिलती है पद्मिनी क्या ? मेघावृत व्योम मे
 देखता है कौन, कब, तारा ? किन्तु फिर भी,
 तेरे पूर्व-पुण्य से प्रसन्न हूँ मैं तुझ पै,
 शून्य राज सिंहासन और छत्र-दण्ड तू
 पायगा ! मैं करती प्रतिष्ठित हूँ तुम्हको
 रक्षोराज-पद पै, विधाता के विधान से !
 मारेगा यशस्वि कल लक्ष्मण सहज ही
 तेरे भ्रातृपुत्र मेघनाद को; सहाय तू
 होगा वहाँ उसका । प्रयत्न युत पालना
 देवों का निदेश हे भविष्य लङ्काधीश तू ।”
 जाग उठा देव, यह स्वप्न देख कर मैं;
 पूर्ण हुआ शिविर अपार्थिव सुगन्धि से !
 दिव्य मृदु वाद्य सुनें दूर मैं ने नम मैं ।
 विस्मय के साथ मैं ने द्वार पै शिविर के
 देखी वह माधुरी, अपूर्व, मनोमोहिनी;
 मोहती है मदन-विमोहन को जो सदा !
 कन्धरा ढँके थी अहा ! कादम्बिनीरूपिणी
 कवरी, सु-रत्न-राजि शोभित थी केशों में;
 उसके समक्ष है क्या द्वार मेघमाला में
 चञ्चला की चमक ! अदृश्य हुई सहसा
 देवी जगज्जननी ! सतृष्ण-स्थिर दृष्टि से
 देखता रहा मैं बड़ी देर तक, किन्तु हा !

मेघनाद-बध

पूरा हुआ फिर न मनोरथ, मुझे पुनः
माता नहीं दीख पड़ीं । दाशरथे, ध्यान से
यह सब वार्ता सुनो और मुझे आज्ञा दो,
लक्ष्मण के सङ्ग वहाँ जाऊँ जहाँ अग्नि की
पूजा करता है मेघनाद मखागार मे ।
पालो नरपाल, देव-शासन सुयत्न से;
निश्चय ही इष्ट-सिद्धि प्राप्त होगी तुमको !”
उत्तर में साश्रुनेत्र सीतापति बोले यों—
“पूर्व-कथा सोच मित्र, व्यग्र प्राण रोते हैं,
कैसे फेंक दूँ मैं भ्रातृ-रत्न को अतल मे
रक्षोवर ? हाँय ! उस मन्थरा की माया में
भूली जब केकयी माँ, मेरे भाग्य-दोष से
निर्दय हो; मैं ने जब छोड़ा राज-भोग को
तात-सत्य-रक्षा-हेतु; छोड़ा तब स्वेच्छा से
राज-सुख लक्ष्मण ने, भ्रातृ-प्रेम-वश हो !
रोई अवरोध में सुमित्रा माँ पुकार के,
रोई बधू उर्मिला; मनाया कितना इसे
सारे पुर-वासियों ने, कैसे मैं कहूँ भला ?
किन्तु अनुरोध नहीं माना, (प्रतिबिम्ब-सा)
अनुज अनुग हुआ मेरा हर्ष भाव से;
आया घोर वन में दे सुख को जलाञ्जली
माई, नवयौवन में ! बोली माँ सुमित्रा यों—

“मेरा नेत्र-रत्न तू ने हरण किया है रे
 रामचन्द्र ! जाने किस माया के प्रभाव से
 वत्स को भुलाया ? सौंपती हूँ यह धन मैं
 तुझको; तू रखना सयत्न मेरे रत्न को,
 मित्रा वार वार यही माँगती हूँ तुझसे ।”

मित्रवर, काम नहीं सीता समुद्धार का;
 लौट जावे दोनों हम फिर वन-वास को !
 देव-दैत्य-नर-त्रास, दुर्द्धर समर में
 है रथीन्द्र रावणि ! अवश्य ही महाबली
 है सुकरुठ, अङ्गद है दत्त रण-रङ्ग में;
 वायु-सूनु हनुमान है महा पराक्रमी
 अपने प्रभञ्जन पिता के तुल्य हे सखे,
 है धूम्राक्ष धूमकेतु-तुल्य रणाकाश में
 अग्निरूप; धीर नील, वीर नल, केसरी
 केसरी विपक्ष हेतु; और सब योद्धा हैं
 देवाकृति, देववीर्य्य; तुम हो महारथी;
 लेकर परन्तु इन सब को भी युद्ध में
 उसके विरुद्ध नहीं काम देती बुद्धि है ।
 कैसे उस राक्षस के सङ्ग फिर एकाकी
 लक्ष्मण लड़ेंगे ? हाय ! मायाविनी आशा है,
 कहता तमी तो हूँ, अलंघ्य सिन्धु लोष के
 आया हूँ सखे, मैं इस यातुधानपुर में ।”

सहसा अनन्त में अनन्तसम्भवा गिरा,
 मधुर निनाद से निनादित हुई वहाँ—
 “योग्य है तुम्हें क्या अहो ! वैदेहीपते, कहो,
 संशय करो जो तुम सत्य देव-वाणी में ?
 देव-प्रिय तुम हो, अवज्ञा करते हो क्यों
 वीर, देवादेश की ? निहारो शून्य-ओर को ।”
 विस्मय से देखा रघुराज ने कि व्योम में
 लड़ता भुजङ्ग-भोजी केकी से भुजङ्ग है !
 केकारव मिल के फणी की फुफकार से
 शून्य को प्रपूर्णा करता है, भीम भाव से;
 दीर्घ पक्षच्छाया घन-राशि-सी है घेरती
 अम्बर को; जलता है कालानल-तेज से
 बीच में हलाहल । अपूर्व युद्ध दोनों ही
 करते हैं आपस में । वार वार धरती
 काँप उठी; जल-दल उथल-पुथल-सा
 होने लगा नाद युक्त । किन्तु कुछ देर में
 होके गतप्राण गिरा शिखिवर भूमि पै;
 गरजा भुजङ्गवर विजयी समर में !

“बोला रावणानुज कि—“देखा निज नेत्रों से
 अर्द्धत व्यापार आज; क्या यह निरर्थ है ?
 सोच देखो; सीतानाथ, दृष्टि-भ्रम है नहीं;
 शीघ्र ही जो होगा वही देवों ने प्रपञ्च के

रूप मे दिखाया तुम्हे; चिन्ता अब छोड़ दो;
लक्ष्मण करेंगे वीर-हीना आज लङ्का को !”

करके प्रवेश तब प्रभु ने शिविर में,
आप प्रियानुज को सजाया देव-अस्त्रों से ।
तारकारि-तुल्य वीर शोभित हुए अहा !

वक्ष पर वर्ण वर पहना सुमति ने
तारामय; इन्द्र-धनुर्वर्ण-सारसन में
भूलमल भूल उठा-रत्नों से जड़ा हुआ—
तेजोमय तीक्ष्ण खड्ग । रवि की परिधि-सी
हस्ति-दन्त-निर्मित सुवर्णमयी ढाल ने
पीठ पर पाया स्थान, सङ्ग सङ्ग उसके
सशर निषङ्ग डुला । वाम कर में लिया
देव-धन्वा धन्वी ने; सुशोभित हुआ अहा !
(सौर-कर-निर्मित-सा) मुकुट सु-भाल पै ।

मञ्जु मुकुटोपरि सु-चूड़ा हिलने लगी,
केसरी के पृष्ठ पर केसर ज्यों । हर्ष से
रामानुज शूर सजे, अंशुमाली भानु ज्यों
दीख पड़ता है मध्य वासर में तेजस्वी ।

निकले सवेग बली बाहर शिविर से
व्यग्र, यथा चञ्चल तुरङ्ग शृङ्गनाद से;
समर तरङ्गें जब चठतीं सघोष हैं !
आये वीर बाहर; विभीषण थे साथ में

रण में विभीषण, विचित्र वीर-वेश से !
 देवों ने प्रसून बरसाये; नभोदेश मे
 माङ्गलिक वाद्य बजे; नाची अप्सराएँ त्यो;ं
 स्वर्ग, मर्त्य और नागलोक जयनाद से
 पूर्ण हुए । देख तब अम्बर की ओर को
 हाथ जोड़ राघव ने की यों शुभाराधना—
 “आश्रय तुम्हारे पद-अम्बुजों मे अम्बिके,
 चाहता है राघव भिखारी आज ! दास को
 भूलो मत, धर्म-हेतु कितना प्रयास है
 दास ने उठाया, उन अरुण पदाब्जों मे
 अविदित देवि, नहीं । फल उस धर्म का
 मृत्युञ्जय मोहिनि, अभाजन को आज दो;
 रक्षा करो माता, इस राक्षस-समर मे,
 प्राणाधिक भ्राता इस लक्ष्मण किशोर की !
 मार के दुरन्त दानवों को, देव-दल को
 तुमने उबारा था, उबारो माँ, अधीन को;
 दुर्मद निशाचर का महिषविमर्दिनी,
 करके विमर्दन, बचाओ इस बच्चे को !”

रक्षोरिपु राम ने यों शङ्करी की स्तुति की !
 ले जाता समीर यथा परिमल-धन को
 राजालय मे है तथा शब्दबह व्योम ने
 शीघ्र पहुँचाई यह राघव की प्रार्थना

कैलासाद्रि धाम मे । दिविन्द्र हँसा दिव में;
 जैसे ही बढ़ाया शब्द-वाहक को वायु ने ।
 सुन गिरिराज-नन्दिनी ने शुभाराधना
 तत्क्षण तथास्तु कहा स्वस्ति युक्त हर्ष से ।

ऊषा उदयाद्रि पर हँसती दिखाई दी,
 आशा यथा अन्धकार-पूरित हृदय मे
 दुःख-तमोनाशिनी । विहङ्ग-कुल कुब्जों में
 कूज उठा, गूँज कर दौड़े सब ओर को
 भृङ्ग मधु-जीवी; चली रात मृदु गति से
 तारा-दल सङ्ग लिये; ऊषा के सु-भाल पै
 सोही एक तारा, शत तारकों के तेज से !
 कुन्तलों में फूल खिले सौ सौ, नये तारों-से !

बोले रघुवीर तब धीर विभीषण से—
 “जाओ मित्र, देखो, किन्तु सावधान रहना ।
 सौंपता है राघव भिखारी तुम्हे अपना
 एक ही अमूल्य रत्न रथिवर ! बातों का
 काम नहीं, बस, यही कहता हूँ आज मैं—
 जीवन-मरण मेरा है तुम्हारे हाथ में !”

आश्वासन देते हुए वीर महोष्वास को
 बोले श्री विभीषण कि—“देव-कुल-प्रिय हो
 रघु-कुल-रत्न तुम, डरते हो किस को ?
 मारेंगे अवश्य प्रभो, आज वहाँ युद्ध में

श्री सौमित्रि शूर उस मेघनाद शूर को।”

करके सौमित्रि तव प्रभु-पद-वन्दना,
सुहृद् विभीषण समेत चले हर्ष से ।
सघन घनों ने किया आवृत यों दोनों को—
करता है कुहरा ज्यों जाड़े के सबेरों में
शृङ्गों को; अदृश्य चले लङ्का-ओर दोनों वे ।

कमलासनस्थित यहाँ थी जहाँ कमला
रक्षःकुल-राजलक्ष्मी—रक्षोबधू-वेश में,
आई उस स्वर्ण के सु-मन्दिर मे मोहिनी
माया देवी । बोली हँस केशव की कामना—
“आज किस हेतु माया देवि, इस पुर मे
तुम हो पधारों ? कहो रङ्गिणि, क्या इच्छा है ?”

शक्तीश्वरी माया हँस उत्तर में बोली यों—
“संवरण तेज तुम आज करो अपना
नील-सिन्धु-बाले । इस सोने के नगर में
आरंहे हैं देवाकृति लक्ष्मण महारथी;
शिव के निदेश से वे मारे गे निकुम्भला—
यज्ञागार-मध्य जा के दम्भी मेघनाद को ।
तेज तव तेजस्विनि, कालानल-तुल्य है;
घुस सकंता है यहाँ कौन अरि-भाव से ?
राघव के ऊपर है देवि, तुम तुष्ट हो,
मेरी यही प्रार्थना है । तारो वरदान से

माधव-रमणि, धर्म्म-मार्ग-नामी राम को ।”

आह भर बोली सविषाद तब इन्दिरा—
 “साध्य किसका है विश्वध्येये, इस विश्व में,
 आज्ञा की अवज्ञा करे अल्प भी तुम्हारी जो ?
 रोते हैं परन्तु प्राण इन सब बातों को
 सोच कर ! हाय ! कैसे आदर से मुझको
 पूजता है रत्न-श्रेष्ठ, मन्दोदरी महिषी,
 क्या कहूँ मैं उसको ? परन्तु निज दोष से
 डूबता है रत्नोराज ! संवरण अपना
 तेज मैं करूँगो; कौन प्राक्तन की गति को
 रोक सकता है ? कहो लक्ष्मण से, आवें वे
 निर्भय हृदय हो के । होकर प्रसन्न मैं
 देती वरदान हूँ कि मारेंगे अवश्य वे
 मन्दोदरी-नन्दन अरिन्दम को युद्ध मे !”

पद्मालया पद्मा चली पश्चिम के द्वार को,
 शिशिर-विधौत-फुल्ल फूल ज्यों प्रभात में !
 सङ्ग चली माया महा रङ्गिणी उमङ्ग से ।
 सूख गई रम्भा-राजि देखते ही देखते,
 मङ्गल-कलश फूटे; नीर सोखा पृथ्वी ने;
 अरुण-पदों मे मिली आके अहा ! शीघ्र ही
 तेजोराशिं; होती है प्रविष्ट प्रातःकाल में
 जैसे चन्द्रमा की कान्ति भानु-कर-जाल में ।

विगत श्री लङ्का हुई,—खोई फणिनी ने ज्यों
कुन्तल-विभूषा मणि ! की गभीर गर्जन
दूर बादलों ने; व्योम रोया वृष्टि-मिस से !
कल्लोलित सिन्धु हुआ; काँपी महाक्षेप से
क्षोणी; अयि रत्नःपुरि, तेरे इस दुःख मे,
स्वर्णमयि, तू है इस विश्व की विभूषणा !

देखा चढ़ उन्नत प्राचीर पर दोनों ने
लक्ष्मण को, मानों कुहरे से ढँका भानु हो
किं वा अग्नि धूम में ! विभीषण था साथ में,
वायु-सखा-सङ्ग वायु दुर्द्धर समर मे ।
कौन कर लेगा आज रावण का त्राण हा !
जो भरोसा राक्षसों का है इस जगत में ?
जैसे घन-वन में विलोक दूर मृग को
चलता सुयोग का प्रयासी मृगराज है—
गुल्मावृत किं वा नदी-गर्भ में नहाते को
देख कर दूर से, सवेग उसे धरते
दौड़ आता घोर यम-चक्र-रूपी नक्र है,
अति ही अदृश्यता से, लक्ष्मण महारथी
सुहृद् विभीषण समेत चले वैसे ही
राक्षस के मारने को, स्वर्ण-लङ्कापुर में ।

माया को विदा दे, सविषाद आह भर के,
लौटी निज मन्दिर में सुन्दरी श्री इन्दिरा ।

रोई लोक-लक्ष्मी हाय ! सोखे समुल्लास से
 अश्रु-विन्दु वसुधा ने, सोखती है शुक्ति ज्यों
 यत्न से हे कादम्बिनि, तेरे नयनाम्बु को,
 मञ्जु महा मुक्ताफल फलता है जिससे ।

माया के प्रभाव से प्रविष्ट हुए पुर मे
 देनों वीर । द्वार खुला लक्ष्मण के छूने से,
 करके कुलिश-नाद, किन्तु गया किसके
 श्रवणों मे शब्द ! हाय ! जितने सुभट थे
 अन्ध हुए माया के प्रताप से, उलूक ज्यों;
 कोई नहीं देख सका देनों कालदूतों को,
 कौशल से साँप घुसे मानों फूल-राशि मे !

देखी चतुरङ्गसेना लक्ष्मण ने द्वार पै,
 चारों ओर । हाथियों के ऊपर निषादी है,
 घोड़ों पर सादी हैं, रथों पर महारथी,
 भूपर पदातिक, कराल काल-दूत-से—
 भीमाकृति, भीमवीर्य्य, रण मे अजेय हैं ।
 कालानल-तुल्य विभा उठती है व्योम में !

देखा भययुक्त वीर लक्ष्मण ने वह्नि-सा
 प्रक्ष्वेदन धारी, महा रक्ष:विरूपाक्ष है,
 स्वर्ण-रथारूढ़; और ऊँचा ताल-तरु-सा
 तालजङ्घा शूर है भयङ्कर गदा लिये,
 मानों गदाधारी हों मुरारि; गज-पृष्ठ पै

शत्रु कुल-काल कालनेमि है; सुरण मे
 कुशल रणप्रिय है; मत्त वीर-मद से
 सतत प्रमत्त है; सुदत्त यक्षपति-सा
 चिक्षुर है; और बहु योद्धा हैं महाबली
 देव-दैत्य-नर-त्रास ! धीरे बढ़े दोनों ही ।
 देखा चुपचाप बली लक्ष्मण ने मार्ग के
 दोनों ओर शत शत हेम-हर्म्य, शालाएँ,
 मन्दिर, विपणि, उत्स, उपवन, सर है;
 मन्दुरा मे अश्व और वारण हैं वारी मे;
 अग्नि-वर्ण स्यन्दन असंख्य रथ-शाला में;
 अस्त्रशाला, चारु चित्रशाला, नाट्यशालाएँ,
 रत्नों से जटित है; अहा ! ज्यों सुरपुर मे ।
 कह सकता है कौन लङ्का के विभव को ?
 दैवतो का लोभ वह, दानवों की ईर्ष्या है !
 कर सकता है भला कौन जन गणना—
 सागर के रत्नों की, नभस्तल के तारों की ?

देखा वीर लक्ष्मण ने बीचोंबीच पुर के
 कौतुक से, रत्नोराज-राज-गृह । भाते है
 श्रेणीबद्ध हेम-हीर-स्तम्भ; नभ छूती है
 उच्च गृहचूड़ा, यथा हेमकूट-शृङ्गाली
 आभामयी । हस्तिदन्त हेमकान्ति-युक्त है
 शोभित झरोखों और द्वारों में, प्रसेद दे

आँखों को, प्रभात में ज्यों होता सुशोभित है
 सौर-कर-राशि-युक्त सञ्चय तुषार का !
 विस्मय समेत तब देख विभीषण को,
 विपुल यशस्वी वीर रामानुज बोले यों—
 “रक्षोवर, अग्रज तुम्हारा राज-कुल में
 धन्य है, सु-महिमा का अर्णव जगत मे ।
 और किसका है अहा ! भव मे विभव यों ?”

शोक से विभीषण ने आह भर के कहा—
 “शूर-रत्न तुम ने कहा सो सब सत्य है !
 और किसका है हाय ! भव में विभव यों ?
 किन्तु चिरस्थायी नहीं कुछ इस सृष्टि मे ।
 एक जाता, दूसरा है आता, यही रीति है,
 सागर-तरङ्ग यथा । अस्तु, चलो शीघ्र ही
 रथिवर, कार्य्य साधो, मार मेघनाद को,
 पाओ अमरत्व देव, पीकर यशः सुधा !”

देनों चले सत्वर, अदृश्य माया-बल से
 देखीं बली लक्ष्मण ने तीरो पै तड़ागों के,
 मीन-मद-भञ्जिनी मृगाक्षी यातु-बधुएँ,
 कक्षों मे सुवर्ण-घट, होठों पर हास्य है !
 कमल जलाशयों मे फूले हैं प्रभात में !
 कोई भीमकाय रथी ब्राह्म को वेग से
 जा रहा है, फूल-शय्या छोड़, वर्म्म पहने,

पैदल; बजा रहा है कोई भीमनाद से
 शृङ्ग, निद्रा छोड़ के; सजाता अश्वपाल है
 अश्व; गज गरज पकड़ता है शुण्ड से
 मुद्गर; पड़ी है भूल पीठ पर रेशमी,
 जिसमे सु-मुक्तामयी भालर है भूलती;
 स्वर्ण-केतु-रथ मे अनेक अस्त्र सारथी
 रखता है । मन्दिरों मे बाद्य प्रातः काल के
 बजते हैं, जैसे मनोहारी गौड़-गोह में
 देव-दोल-उत्सव मे, आ के जब देवता
 भूमि पर, करते है पूजन रमेश का !
 चुन कर फूल कहीं जा रही है मालिनी
 करके सुगन्धिमय मार्ग को, उजेला-सा
 कैला कर चारों ओर, फूल-सखी ऊषा-सी !
 दुग्ध-दधि-भार लिये जाते कहीं भारी है;
 बढ़ता है यातायात चारों ओर क्रमशः,
 सारे पुर-वासी-जन जागते हैं निद्रा से ।

कोई कहता है—‘चलो, बैठे’ चल कोट पै,
 शीघ्र नहीं जायेंगे तो ठौर नहीं पायेंगे,
 युद्ध देखने के लिए अद्भुत । जुड़ायेंगे
 आँखें आज, देख रण-सज्जा युवराज की,
 और सब वीरों की ।’ प्रगल्भता से कोई यों
 उत्तर मे कहता है—‘कोट पर जाने का

गङ्गे, पाप-नाशक तुम्हारे पुण्य तोय से !
 हेम-घण्टा आदि वाद्य रक्खे है समीप मे,
 नाना उपहार स्वर्ण-पात्रों मे सजे हुए;
 द्वार है निरुद्ध, बैठा एकाकी रथोन्द्र है,
 मानों चन्द्रचूड़ स्वयं तप मे निमग्न है
 योगिराज, कैलासाद्रि, तेरो उच्च चूड़ा पै ।

होता है प्रविष्ट भूखा व्याघ्र गोष्ठगृह मे
 जैसे, यमदूत भीमबाहु माया-बल से
 लक्ष्मण प्रविष्ट हुए देवालय मे । अहा !
 भक्त भक्त खड्ग हुआ कोष में, निषङ्ग में
 सङ्घर्षित बाण हुए, मानो धरा धसकी,
 कांप उठा मन्दिर मु-वीर-पद-भार से ।

चौक कर, बन्द आंखे खोल कर सहसा
 देखा बली रावणि ने देवाकृति सामने
 तेजस्वी महारथी,— हे तरुण तरणि ज्यों
 अंशुमाली ।

फरके प्रणाम पड़ पृथ्वी पै,
 हाथ जोड़ बोला तब वासव-विजेता यों—
 “पूजा शुभयोग मे है आज हे विभावसो,
 किङ्कर ने तुमको, तमो तो प्रभो, तुमने
 करके फर्दार्पण पवित्र क्रिया लङ्का को !
 किन्तु तेजोधाम, किस हेतु कहे, आये हे

रत्नोवश-वैरी, नर, लक्ष्मण के रूप में,
कृपया कृतार्थ करने को इस दास को ?
लीला यह कैसी है तुम्हारी विभो, वीर ने
माथा टेक फिर भी प्रणाम किया भक्ति से ।

रौद्रमूर्ति दाशरथि बोले वीर-दर्प से—
“पावक नहीं मैं, देख रावणि, निहार के !
लक्ष्मण है नाम मेरा, जन्म रघु-कुल में !
मारने को शूर-सिंह, तुम्हको समर मे
आया हूँ यहाँ मैं, अबिलम्ब मुझे युद्ध दे ।”
सहसा उठाये फन देख फणिवर को
पथ मे, पथिक भीत, हीनगति होता है
जैसे, बली लक्ष्मण की ओर लगा देखने ।
भीत हुआ आज भय-शून्य हिया ! हाय रे !
विगलित सार हुआ तीक्ष्णतम ताप से !
ग्रास किया सहसा प्रभाकर को राहु ने !
साख लिया सागर को दारुण निदाघ ने !
कलि ने प्रवेश किया नल के शरीर में !!!

विस्मय से बोला बली—“सत्य ही जो तुम हो
रामानुज, तो हे रथि, किस छल से कहाँ,
रत्नोराज-पुर मे घुसे हो तुम ? सैकड़ों
यत्नपति-त्रास रत्न, तीक्ष्ण शस्त्रपाणि जो,
सावधान रत्ना करते हैं पुर-द्वार की;

शृङ्गधर-सा इस पुरी का परकोटा है
 उँचा, घूमते हैं जहाँ अयुत महारथी
 चक्रावली रूप में; भुलाया इन सब को
 कौन माया-बल से बताओ, बलि, तुमने ?
 मानव हो तुम तो, परन्तु अमरों में भी
 ऐसा रथी कौन इस विश्व में है, जो कभी
 कर दे विमुख इस यातुधान-दल को,
 एकाकी समर में ? प्रपञ्च यह दास को
 करता है बन्धित तुम्हारा क्यों, कहो प्रभो,
 सर्वभुक ? कौतुकि, तुम्हारा यह कौन सा
 कौतुक है ? लक्ष्मण नहीं है निराकार जो
 हो सके प्रविष्ट इस मन्दिर मे हे शुचे !
 देखो, अब भी है द्वार रुद्ध ! इस दास को
 देव, वर-दान करो, राघव को मारके,
 निःशङ्का करूँगा आज मातृभूमि लङ्का को !
 किष्किन्धा-कलत्र को खदेड़ूँगा सु-दूर मैं,
 बाँध कर, राज चरणों मे विभीषण को—
 जो कि राज-द्रोही, कुल-कण्ठक है—लाऊँगा ।
 सुनो, वह शृङ्ग-नाद देव, सब ओर से
 शृङ्गवादि-वृन्द करता है महानन्द से !
 भग्नोद्यम होगी चमू देर जो करूँगा मैं;
 देव, कृपा-कोर कर किङ्कर को दो बिदा !”

बोले फिर देवाकृति श्री सौमित्रि केसरी—
 “रे दुरन्त रावणि, कृतान्त मैं तो तेरा हूँ !
 भूतल को भेद कर काटता मुजङ्ग है
 आयु-हीन जन को ! तू मद से प्रमत्त है;
 देव-बल से है बली, तो भी देव-कुल की
 करता अवज्ञा है सदैव अरे दुर्मते !
 आज मेरे हाथों अन्त आया जान अपना !
 देवादेश से ही आज रामानुज मैं यहाँ
 करता प्रचारित हूँ युद्ध-हेतु तुम को !”

कह के रथीन्द्र ने यों, निष्कोषित अस्त्रि की
 घोर धार वाली ! महा कालानल तेज से
 दृष्टि फुलसाकर जो—देवराज—कर में
 गाज-सी—दिखाई पड़ी ! बोला मेघनाद यों—
 “रामानुज लक्ष्मण हो यदि तुम सत्य ही,
 तो हे महाबाहो, मैं तुम्हारी रण-लालसा
 मेटूँ गा अवश्य घोर युद्ध में; भला ! कभी
 होता है विरत इन्द्रजित रण-रङ्ग-से ?
 तो आतिथ्यसेवा शूर-सिंह, तुम पहले,
 मेरे इस धाम में जो आगये हो, ठहरौ !
 रक्षोरिपु तुम हो, अतिथि तो भी आज हो !
 सज लूँ ज़रा मैं वीर-साज से । निरस्त्र जो
 चैरी हो, प्रथा नहीं है शूर-वीर वंश में

मारने की उसको, इसे हो तुम जानते,
क्षत्रिय हो तुम; मैं कहूँ क्या और तुम से ?”

बोले तब लक्ष्मण गभीर धन-घोष से—

“छोड़ता किरात है क्या पा के निज जाल मे
बाघ को अबोध ? अभी वैसे ही करूँगा मैं
तेरा वध ! जन्म तेरा रक्षःकुल में है, मैं
क्षत्रियों का धर्म कैसे तेरे सङ्ग पाळूँगा ?
शत्रुओं को मारे, जिस कौशल से हो सके !”

बोला तब इन्द्रजित (वीर अभिमन्सु ज्यों
रोष-वश तप्त साराकार, सप्त शूरों से)
“क्षत्र-कुल का है तू कलङ्क, तुझे धिक् है
लक्ष्मण ! नहीं है तुझे लज्जा किसी बात की ।
मूँद लेगा कान वीर-वृन्द घृणा करके,
सुन कर तेरा नाम ! दुष्ट, इस घर में
चोर-सा प्रविष्ट तू हुआ है, अभी दण्ड दे
करता निरस्त हूँ यहाँ रे नीच, मैं तुझे !
साँप घुस आवे अदि गोह में गरुड़ के,
लौट सकता है फिर क्या निज विवर को ?
लाया तुझे कौन यहाँ, दुर्मति रे, नीच रे ?”

अरघा उठा कर तुरन्त महावीर ने
मारा घोरनादयुक्त लक्ष्मण के भाल मे ।
पृथ्वी पर वीर गिरे भीषण प्रहार से,

गिरता प्रमञ्जन से जैसे तरुराज है
 चड़ मड़ । देवायुध भून भून हो उठे;
 काँप उठा देवालय मानों महि-कम्प मे;
 शोणित की धारा बही । देव-असि शीघ्र ही
 धर ली सु-वीर इन्द्रजित ने, परन्तु हा ।
 उसको उठा न सका ! चाप खींचा, वह भी
 लक्ष्मण के हाथ मे से खींचा नहीं जा सका !
 प्रकड़ा फलक क्रोध युक्त खींच लेने को,
 निष्फल परन्तु हुआ योद्धा उस यत्न मे ।
 शृण्ड में पकड़ के करी ज्यों शैल-शृङ्ग को
 खींचे वृथा, खींचा तूण अति बलशाली ने !
 जान सकता है कौन माया महामाया की ?
 देखा द्वार ओर वव साभिमान मानी ने ।
 दीख पड़े वीर को सु-विस्मय के साथ में
 भीम शूलपाणि, धूमकेतु-सम, सामने
 काका श्री विभीषण — विभीषण समर में !

“जाना अब” बोला यों अरिन्दम विषाद से—
 “कैसे हुआ लक्ष्मण प्रविष्ट इस पुर में ?
 हा ! क्या तात, उचित तुम्हारा यह काम है ?
 जननी तुम्हारी निकषा है, और भाई है
 रत्नराज और कुम्भकर्ण शूली शम्भु-सा ?
 भ्रातृपुत्र वासव-विजेता मेघनाद है !

निज गृह-मार्ग तात, चोर को दिखाते हो ?
 और राज-गृह में बिठाते हो श्वपच को ?
 निन्दा किन्तु क्या करूँ तुम्हारी, गुरुजन हो
 तात, पितृ-तुल्य तुम । द्वार-पथ छोड़ दो,
 जाऊँ और लाऊँ अभी अस्त्र अस्त्रागार से;
 लक्ष्मण को शीघ्र पहुँचाऊँ यमलोक मे,
 लङ्का का कलङ्क मैं मिटाऊँ महा युद्ध मे ।”

उत्तर मे बोला यों विभीषण कि—“धीमते,
 व्यर्थ यह साधना है । मैं हूँ राघवेन्द्र का
 दास; कैसे कार्य्य करूँ उनके विपक्ष में,
 रक्षा करने को मैं तुम्हारे अनुरोध की ?”
 कातर हो मेघनाद फिर कहने लगा—
 “काका, मरने की आप इच्छा मुझे होती है
 बातें ये तुम्हारी आज सुन कर, लज्जा से !
 राघव के दास तुम ? कैसे इस मुख से
 बात निकली है यह ? तात, कहो दास से ।
 शङ्कर के भाल पर की है विधु-स्थापना
 विधि ने; क्या भूमि पर पड़ कर चन्द्रमा
 लौटता है धूलि मे ? बताओ तुम मुझको,
 भूल गये कैसे इसको कि तुम कौन हो ?
 जन्म है तुम्हारा किस श्रेष्ठ राजकुल मे ?
 कौन वह नीच रास ? स्वच्छ सरोवर में

केलि करता है राजहंस पद्म-वन में,
 जाता वह है क्या कमी पङ्क-जल मे प्रभो,
 शैवल-निकेतन में ? मृगपति केसरो,
 हे सुवीर-केसरि, बताओ, क्या शृगाल से
 सम्भाषण करता है मान कर मित्रता ?
 सेवक है अज्ञ और विज्ञतम तुम हो,
 इन चरणो मे कुछ अविदित है नहीं ।
 क्षुद्रमति मर्त्य यह लक्ष्मण है, अन्यथा
 करता प्रचारित क्या शस्त्र-हीन योद्धा को ?
 क्या यही महारथि-प्रथा है हे महारथे ?
 ऐसा एक शिशु भी नहीं है इस लङ्का में
 हँस न उठे जो यह बात सुन ! छोड़ दो
 मागे तुम तात, अभी लौट के मैं आता हूँ;
 देखूँगा कि आज किस दैव-बल से मुझे
 करता पराङ्मुख है लक्ष्मण समर में !
 देव, दैत्य और नर-युद्धों में स्वनेत्रों से
 देखा शौर्य्य रत्नःश्रेष्ठ, तुमने है दास का !
 दास क्या डरेगा देख ऐसे क्षुद्र नर को ?
 आया है प्रगल्भता से दाम्भिक निकुम्भला
 यज्ञागार मध्य घुस; दास को निदेश दो,
 दण्ड दूँ अभी मैं इस उद्धत अधम को ।
 चरण तुम्हारी जन्मभूमि पर रखे यों

वनचर ! विधाता, हा ! नन्दनविपिन मे
घूमे दुराचार दैत्य ? विकसित कञ्ज मे
कीट घुसे ? तात, अपमान यह कैसे मैं
सह लें तुम्हारा भ्रातृपुत्र हो के ? तुम भी
सहते हो रत्नोवर, कैसे, कहे, इसको ?”

मन्त्र-बल से ज्यों फणी नत शिर होता है,
लज्जा-वश भ्रान्तमुख बोला विभीषण यों—
“दोषी मैं नहीं हूँ बत्स, व्यर्थ यह भर्त्सना
करते हो मेरी तुम ! हाय ! इस सोने की
लङ्का को डुबोया निज कर्म-फल-दोष से
राजा ने स्वयं ही ! अघ-द्वेषी सदा देव है,
और अघ-पूर्णा हुई लङ्का अब पूर्णतः;
डूबती इसीसे है कराल काल-जल मे,
डूबती है एक साथ पृथ्वी ज्यों प्रलय मे !
मैं इसीसे रक्षा-हेतु राघव-पदाश्रयी
जाकर हुआ हूँ ! बत्स, सोचो तुम्हीं मन में,
चाहता है मरना क्या कोई पर-दोष से ?”

रुष्ट हुआ इन्द्रजित ! रात मे जो व्योम में
करता गभीर घोष रोष कर मेघ है,
बोला बली—“धर्म-पथगामी तुम नामी हो
रत्नोराजराजानुज, बेलो, इस दास से
धर्म वह कौन सा है, जिसके विचार से

जाति-पाँति, भ्रातृ-भाव, सब को जलाञ्जली
 दी है तुम ने यों आज ? कहता है शास्त्र तो—
 पर-जन हों गुणो भी, निर्गुण स्वजन हों,
 निर्गुण स्वजन तो भी श्रेष्ठ हैं सदैव ही;
 पर है सदैव पर ! शिचा अहो ! तुम ने
 पाई कहीं रत्नोवर ? किन्तु मैं वृथा तुम्हे
 हं पितृव्य, दोष दूँ क्यों ? ऐसे सहवास से
 क्यों न तुम ऐसी महा वर्वरता सीखोगे ?
 नोच-सङ्ग करने से नोचता ही आती है ।”

होकर सचेत यहाँ माया के प्रयत्न से,
 घोर हुहुङ्कार कर रामानुज शूर ने
 टङ्कारित चाप किया और तीक्ष्ण बाणों से
 विद्ध किया वैरिन्दम इन्द्रजित वीर को,
 बेधा था शरों से महेष्वास तारकारि ने
 तारक को जैसे ! रक्त-धारा बही वेग से,
 भुधर-शरीर से ज्यों वारि-स्रोत वर्षा में ।
 भींग गये वस्त्र और भींग गई वसुधा !
 होकर अधीर हाय ! प्राणान्तक पीड़ा से,
 शङ्ख, घण्टा और उपहार-पात्र आदि जो
 यज्ञ-गृह में थे, लगा एक एक फेंकने
 क्रोध से रथीन्द्र ! अभिमन्यु यथा युद्ध में
 होकर निरस्त्र सप्त रथियों के बल से,

फेकता कभी था रथ-चक्र, कभी चूड़ा ही,
छिन्न चर्म, भिन्न वर्म, भग्न असि ही कभी,
आ गया जो हाथ मे ! परन्तु महामाया ने
सब को हटाया दूर, फैला कर हाथ यों—
सोते हुए बालक के ऊपर से जननी
मच्छड़ हटाती है हिला के कर-कञ्ज ज्यों !
दौड़ा तब रावण सरोष, भीमनाद से
गर्ज कर लक्ष्मण की ओर, यथा केसरी
टूटता है सम्मुख प्रहारक को देख के !
माया की अपार माया ! चारों ओर वीर को
तत्क्षण दिखाई दिये—बैठे भीम जैसे पै
कालदण्डधारी यमराज, शूली, हाथ में
शूर लिये; और शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म से
शोभित चतुर्भुज; समीत देखा शूर ने
देव-कुल-रथियों को दिव्य व्योमयानों में !
दीर्घश्वास ले के सविषाद खड़ा हो गया
निष्कल कलाधर ज्यों राहु-भास से, बली;
किं वा केसरी ज्यों दृढ़ जाल में फँसा हुआ !

धन्वा छोड़ लक्ष्मण ने तीक्ष्णतर असि ली,
देख कर फलक-प्रकाश दृष्टि मुलसी !
अन्धा हुआ हाथरे ! अरिन्दम महामुली
इन्द्रजित, तत्क्षण ही घोर स्वप्नघात से

गिर पड़ा पृथ्वी पर, भींग कर रक्त से ।
 थर थर काँपी धरा, जलनिधि गरजा
 उथल-पुथल हो के; भैरव निनाद से
 पूर्ण हुआ विश्व ! स्वर्ग, मर्त्य, रसातल में
 अमरामर जीव हुए आतङ्कित शङ्का से !
 गैठा था सभा में जहाँ स्वर्ण-सिंहासन पै
 रक्षोराज, सहसा किरीट खस उसका
 गिर पड़ा पृथ्वी पर, चूड़ा यथा रथ की
 कट कर शत्रु-रथी-द्वारा गिरे भूमि पै ।
 शङ्कर को याद किया शङ्का मान चित्त में
 लङ्काराज रावण ने ! तत्क्षण प्रमीला का
 वामेतर नेत्र नाचा ! हो के आत्मविस्मृता
 सहसा सती ने पोंछ डाला भव्य माल का
 सुन्दर सिन्दूर-विन्दु । मन्दोदरी महिषी
 अच्छे-भले में ही अकस्मात् हुई मूर्च्छिता !
 सोते हुए मोदमयी गोदियों में माँओं की
 रोने लगे बच्चे, आर्तनाद करते हुए,
 रोये ब्रज-वत्स थे ज्यों पीछे, जब थे गये
 करके अँधेरा, ब्रज-चन्द्र मधुपुर को ।

यों अन्याय-सङ्गर में गिर के महारथी,
 रक्त-कुल का भरोसा, इन्द्रजित अन्त में,
 बोला क्रूर वचनों से, रामानुज शूर से—

“क्षत्र-कुल-ग्लानि तू सुमित्रा-पुत्र, है ! तुझे
 धिक शत वार ! रावणात्मज मैं मृत्यु से
 डरता नहीं हूँ ! किन्तु तेरे कराघात से
 मरता हूँ, नीच, यही दुःख रहा मन मे !
 दानव-दलन देवराज का समर में
 दलन किया था हाय ! तेरे ही करों के क्या
 आज मरने के लिए मैं ने ? किस पाप से
 दैव ने दिया है यह ताप इस दास को,
 कौन जाने ? और क्या कहूँ मैं अब तुझ से ?
 बात यह रक्षोराज जब सुन पायेंगे,
 कौन कर लेगा तब तेरा त्राण दुर्मते ?
 अतल-पयोधि-तल में तू यदि डूबेगा
 पामर, प्रविष्ट होगा घोर वड्वाग्नि-सा
 राज-रोष सत्वर वहाँ भी । घन-वन में,
 दावानल हो के तुझे जाकर जलावेगा,
 यदि तू छिपेगा वहाँ ! रात्रि-तप्त भी तुझे
 ढँक न सकेगा अरे, रात्रि-श्वर-रोष से !
 दैत्य, नर, देव, ऐसी शक्ति किसकी है जो
 त्राण करे नीच, तेरा रावण के रोष से ?
 कौन रे कलङ्कि, यह मेटेगा कलङ्क ही
 तेरा ?” यही कहके विषाद से सुमति ने
 याद किये मातृ-पितृ-पाद-पद्म अन्त में ।

अस्थिर-अधीर हुआ धीर याद करके
 नित्य नवानन्दमयी प्रेयसी प्रमीला को !
 रक्त-सङ्ग बहके अनर्गल प्रवाह से
 आसुओं ने आर्द्र किया हाथ ! घरातल को ।
 शान्तरश्मि भानु या कृशानु निर्वापित-सा,
 दीख पड़ा वीर वर भूपर पड़ा हुआ ।

बोला साश्रुनेत्र रावणानुज निहार के—
 “कौशिकशयनशायी वीरबाहो, तुम हो
 सर्वदा, पड़े हो आज हा । किस विराग से
 पृथ्वी पर ? क्या कहेंगे रत्नोराज तुमको
 देख इस शय्या पर ? मन्दोदरी महिषी ?
 इन्दुमुखी सुन्दरी प्रमीला ? दिति-पुत्रियाँ—
 देववाला-दीप्ति-मानकारिणी—वे दासियाँ ?
 जरठा पितामही तुम्हारी सती निकषा ?
 क्या कहेगा रत्नकुल ? वत्स, उस कुल के
 चूड़ामणि तुम हो; पड़े हो तात, क्यों ? उठो !
 छोड़ता तुम्हारे द्वार-पथ को हूँ मैं अभी
 मान के तुम्हारा अनुरोध । अस्त्रागार से
 अत्र लाओ, लङ्का का कलङ्क मेटो युद्ध में !
 रत्न कुल-गर्व, कहो, क्या मध्याह्न मे कभी,
 विश्वदृगानन्द, अंशुमाली अस्त होता है ?
 फिर इस वेश में यशस्वि, तुम आज क्यों

भूपर पड़े हो ? सुनो, शृङ्गनादी तुम को,
 शृङ्गनाद करके बुलाते हैं, उठो, अहो !
 देखो, हय हींसते हैं, गज हैं गरजते;
 सजती है चण्डिका-सी राक्षस-अनीकिनी ।
 शत्रु-अय, देखो, पुर-द्वार पर वैरी है;
 निज कुल-मान रक्खो वीर, इस रण में !”

यों बहू विलाप किया वीर विभीषण ने
 शोक-वश । लक्ष्मण सशोक मित्र-शोक से
 बोले तब—“रक्ष:कुल-चूड़ामणे, शान्त हो,
 रोको शोक; लाम क्या है व्यर्थ इस खेद से ?
 वीर-वध मैंने किया, विधि के विधान से;
 दोष क्या तुम्हारा भला ? आओ, चले लौट के
 दास बिना चिन्ताकुल चिन्तामणि हैं जहाँ ।
 माङ्गलिक वाद्य सुनो, बजते हैं स्वर्ग मे !”
 दिव्य वाद्य-नाद सुना कान दे के वीर ने
 चित्तहारी, स्वप्न में ज्यों ! लौटे शीघ्र दोनों ही,
 सिंहिनी के पीछे यथा मार सिंह-शिशु को,
 जाता है किरात ऊर्ध्वाश्वास—वायु-वेग से—
 प्राण ले के, जिसमें न आके कहीं सहसा
 आक्रमण भीमा करे, विवंशा विषाद से,
 देख हतजीव शिशु ! किं वा द्रोण-पुत्र ज्यों
 सुप्त पञ्च बालकों को—पाण्डव-शिविर मे—

मार रजनी मे, मनोगति से, अधीर हो,
हर्ष-भय-पूर्वक गया था कुरुक्षेत्र में,
भङ्गऊरु कौरवेश दुर्योधन था जहाँ !
दानों ही अदृश्य चले, माया के प्रसाद से,
वैदेही-विलासी वीर थे जहाँ शिविर मे ।

करके प्रणाम चरणों मे, कर जोड़ के
श्री सौमित्रि बोले—“इन पैरों के प्रसाद से
देव, रघुवंश-अवतंस, हुआ विजयी
दास यह । मारा गया इन्द्रजित युद्ध मे !”
आदर से माथा चूम, आलिङ्गन करके,
बोले नेत्र-नीर भर प्रभु यों अनुज से—
“पाया आज सीता को तुम्हारे भुज-बल से
हे भुजबलेन्द्र । तुम धन्य वीर-कुल में !
जननी सुमित्रा धन्य । धन्य रघुकुल है !
तात, तव जन्मदाता धन्य दशरथ है !
धन्य मैं तवाग्रज हूँ ! धन्य जन्मभूमि है,
नगरी अयोध्या ! तव सुयश सदैव ही
विश्व में रहेगा यह । शक्ति-दाता देवों के
पूजा वत्स, दुर्बल सदैव हैं स्वबल से
मानव; सु-फल-दाता देव ही हैं विश्व मे !”

यों कह, सुहृद्भर विभीषण से, प्रेम से,
बोले प्रभु—“पाया तुम्हें मैं ने शुभयोग मे

मित्र, इस राक्षस-पुरी मे, भाग्य-बल से !
 क्रीत किया आज रघुवंश को है तुमने
 अपने गुणों से गुणधाम ! कहूँ और क्या ?
 मित्र-कुल-राज तुम, भानु ग्रहराज ज्यों ।
 आओ, अब पूजेँ उन्हें, जो है मोंशुमङ्करी
 शङ्करी ।” सुरों ने बरसाये पुष्प व्योम से,
 ‘जय जय सीतापति’ नाद किया सेना ने
 हर्ष से;—सशङ्का जगी लङ्का उस नाद से ।

इति श्री मेघनाद-वध

काव्ये वधो नाम;

षष्ठः सर्ग

सप्तम सर्ग

उदित दिनेश हुआ अब उदयाद्रि पै,
सुप्त पद्म-पर्णा पर आहा ! पद्मयोनि ने,
खोल कर पद्म-नेत्र, सुप्रसन्न भाव से
मानों भूमि-ओर देखा । पुष्पकुन्तला मही
मुक्ताहार पहने गले मे, हँसी हर्ष से ।
माङ्गलिक वाद्य मन्दिरों में बजते हैं ज्यों
उत्सव में, श्रेष्ठ स्वरलहरी निकुञ्जों में
उठने लगी त्यों । खिली नलिनी सु-जल में,
तुल्य प्रेम वाली स्वर्ण सूर्यमुखी स्थल में ।
देह अवगाहता है ज्यों निशि-शिशिर में
कुसुम, प्रमीला सती सुरमित नीर से
स्नान कर, माँग गुथवाने लगी युवती ।
सोही स्निग्ध कवरी में मोतियों की पंक्ति यों—
मेघावली मध्य इन्दुलेखा ज्यों शरद में ।
रत्नमय कङ्कण, मृणाल-भुज वाली ने
करने को विभूषित मृणाल-भुज, पहना,
चेदना दी आहा ! दृढ़ बन्ध-सम उसने !
पीड़ा मृदु कण्ठ को दी स्वर्ण-कण्ठमाला ने

फॉसी के समान ! सती विस्मय के भाव से
 वासन्ती, वसन्त की-सी गन्ध वाली, आली से
 बोली—“क्यों पहन नहीं सकते हूँ सखि, मैं
 आभूषण ? और नगरी मे सुनती हूँ क्यों
 रोदन-निनाद दूर हाहाकार शब्द हा ?
 वामेतर नेत्र वार वार नाचता है क्यों ?
 रोये उठते हैं प्राण ! आलि, नहीं जानती
 आज मैं पड़ूँगी हाय ! कौन सो विपत्ति में ?
 बजागार में हैं प्राणनाथ; तुम उनके
 पास जाओ, रोको उन्हे, युद्ध मे न जावे वे
 शूरशिरोरत्न इस दुर्दिन मे । स्वामी से
 कहना कि पैरों पड़ रोकती है किङ्करी !”

मौन वीणा-वाणी हुई, बोली तब वासन्ती—
 “श्रवण लगा के सुनो इन्दुमुखि, क्रमशः
 बढ़ता है आर्तनाद ! कैसे कहूँ, आज क्यों
 रो रहे हैं पौरजन ? आओ, चले शीघ्र ही
 मन्दिर मे, पूजा करती हैं जहाँ महिषी
 मन्दोदरी—आशुतोष शङ्कर की भक्ति से ।
 अश्व, गज, रथ, रथी मत्त रण-भद्र से
 चलते सघन राज-पथ में हैं; कैसे मैं
 जाऊँगी मखालय मे, सजते हैं जिसमें
 कान्त तब सोमन्तिनि, चिर रणविजयो

श्रेष्ठ रण-सज्जा से ? तुरन्त चली दोनों ही
चन्द्रचूड़-मन्दिर मे मन्दोदरी महिषी
पुत्र-रक्षा-हेतु जहाँ चन्द्रचूड़ाराधना
करती थीं व्यर्थ ! व्यग्र दोनों चलीं शीघ्र ही ।

विरस वदन आज कैलासाद्रि धाम मे
बैठे हैं गिरीश । सविषाद आह भर के,
हैमवती-ओर देख बोले ईश उनसे—
“सफल मनोरथ तुम्हारा हुआ देवि, है;
मारा गया इन्द्रजित योद्धा काल-रण मे ।
यज्ञागार-मध्य उसे कौशल से माया के
भारा बली लक्ष्मण ने ! मेरा महा भक्त है
रक्ष.कुलराज सति, दुःख देख उसका
होता हूँ सदा मैं दुखी । शूल यह जो शुभे,
देखती हो तुम इस हाथ में, ह्रा । इसके
घोराघात से भी घोर होता पुत्रशोक है !
रहती सदैव वह वेदना है, उसको
भेट नहीं सकता है सर्वहर काल भी !
रावण कहेगा क्या सुपुत्र-नाश सुन के ?
सहसा मरेगा यदि रुद्रतेज दान से
रक्षा मैं करूँगा नहीं सर्वशुभे, उसकी ।
तुष्ट किया इन्द्र को तुम्हारे अनुरोध से,
अनुमति दो कि अब रावण को तोष दूँ ।”

बोली श्री भवानी तब—“चाहो सो करो प्रभो,
 बासव की वासना को पूर्ण करने की थी
 मित्रा चरणों मे, वह सिद्ध अब हो गई ।
 दासी का सुभक्त रथी दाशरथि है विभो,
 बात यह विश्वनाथ, मन में बनी रहे ।
 इन चरणाम्बुजों मे दासी और क्या कहे ?”

शूली हँसे, याद किया वीरमद्र शूर को ।
 प्रणत पदों मे हुआ भीममूर्ति सुरथी;
 बोले हर—“वत्स, हतजीव हुआ रण मे
 इन्द्रजित आज । उसे जाके मखागार मे
 लक्ष्मण ने मार डाला, गौरी के प्रसाद से;
 दूत डरते है कहने को राक्षसेन्द्र से
 बात यह । जानते नहीं है वे विशेषतः
 मारा किस कौशल से लक्ष्मण ने है उसे ।
 देव-मिन्न देव-माया कौन इस विश्व में
 जान सकता है वत्स ? शीघ्र स्वर्गालङ्का में
 जाओ महाबाहो, तुम, रक्षोदूत-रूप मे;
 रुद्र-तेज-दान करो आज दशानन को ।”

भीमबली वीरमद्र व्योम-पथ से चला;
 प्रणत समीत हुए व्योमचर देख के
 चारों ओर; निष्प्रम दिनेश हुआ दीप्ति से,
 होता है सुधांशु ज्यों निरंशु उस रवि की

आभा से । भयङ्करी त्रिशूल-छाया पृथ्वी पै
 आ के पड़ी । करके गभीर नाद सिन्धु ने
 वन्दना की भीम-भव-दूत की । महारथी
 राक्षसपुरी मे अवतीर्ण हुआ शीघ्र ही;
 थर थर कोंपी हेमलङ्का पद-भार से,
 कोपती है जैसे वृक्ष-शाखा जब उस पै
 बैठता है पक्षिराज वैनतेय उड़के ।

होकर प्रविष्ट मखागार मे सुवीर ने
 देखा पड़ा पृथ्वी पर रावण महारथी ।
 फूला हुआ किशुक-सा उत्पाटित आँधी से !
 आसू भरे वीर के विलोक यों कुमार को ।
 देख मर-दुःख हुआ अमर-हिया दुखी ।

कनकासनस्थ जहाँ रक्षःकुलराज था
 दूतपेशी वीर वीरभद्र वहाँ पहुँचा,
 भस्मावृत वह्नि-सम तेजो हीन अधुना ।

आशीर्वाद देकर प्रणाम-मिष मन मे
 रावण को, हाथ जोड़ सम्मुख खड़ा हुआ
 साश्रुनेत्र वीर वर । विस्मय से राजा ने
 पूछा—“कह दूत, तेरी वाणी क्यों विरत है
 कार्य्य निज साधने में ? राघव मनुष्य है,
 भृत्य उसका तू नहीं वार्तावह, फिर क्यों
 तेरा मुख म्लान है ? सरोज-रवि लङ्का का

देव-दैत्य-नर-त्रास सजता है युद्ध को
 आज, क्या अशुभ बात मुझसे कहेगा तू ?
 वज्र-तुल्य भीषण प्रहारण से रण में
 हत यदि राम हुआ, कह उस बात को,
 तुझ को पुरस्कृत करूँ मैं ।” छद्मवेशी ने
 धीरे से कहा यों—“हाय । देव, इन पैरों मे
 क्यों कर सुनाऊँ बुरी बात, क्षुद्र प्राणी मैं ?
 अभय प्रदान करो किङ्कर को पहले !”
 व्यग्रता से बोला बली—“तुझको क्या भय है
 दृत् ? कह शीघ्र तुझे देता हूँ अभय मैं,
 घटता शुभाशुभ है विधि के विधान से ।”

बोला विरूपाक्ष-चर रक्षोदूत-वेश मे,—
 “(कैसे कहूँ) रक्षोराज, आज हत होगया
 रक्षःकुल-गर्वा रथी, मेघनाद रण मे ।”

जैसे घोर वन मे कठोर व्याध-त्राण से
 विद्ध हुआ सिंह भीम नाद कर भूमि पै
 गिरता है, रावण सभा मे गिरा वैसे ही !
 घेर लिया हाहाकार कर सब ओर से
 सचिव जनों ने उसे, कोई जन दौड़ के
 हिमजल लाया, लगा कोई हवा करने ।

वीरमद्र शूर ने सचेत किया शीघ्र ही
 रुद्रतेजोद्वारा उसे, ज्यों बारूद भभके

अग्नि-करण पाके, उठ बोला बली दूत से—
 “मारा कह दूत, आज किसने है रण में
 चिर-रण-जेता उस इन्द्रजित योद्धा को ?
 शीघ्र कह ?” बोला छद्मवेशी—“छद्मवेश से
 लक्ष्मण ने होकर प्रविष्ट मखागार मे
 मारा उसी दुष्ट ने है न्यायहीन रण में
 वीर युवराज को; हा । उत्पाटित आँधी से
 फूला हुआ किशुक-सा मैं ने उन्हे देखा है
 मन्दिर मे । रक्षोनाथ वीर श्रेष्ठ तुम हो,
 भूलो सुत-शोक आज वीरकर्म करके ।
 राक्षस-कुलाङ्गनाएँ पृथ्वी को भिगोवेंगी
 आँसुओं से । देव, तुम पुत्रघाती शत्रु को
 मार कर भीषण प्रहारों से समर मे
 तुष्ट महेश्वास, करो पौरजन-वृन्द को ।”
 सहसा अदृश्य हुआ देव-दूत, स्वर्ग का
 सौरभ समा मे सब ओर अहा ! छा गया !
 देखी तब रावण ने विकट जटावली,
 भीषण-त्रिशूल-छाया । दोनों हाथ जोड़ के
 करके प्रणाम शैव बोला—“यह भृत्य क्या
 याद आया इतने दिनों के बाद हे प्रभो,
 माग्यहीन ? मायामय माया यह आपकी
 कैसे समझूँ मैं मूढ़ ? किन्तु प्रभो, पहले

आपका निदेश पालूँ, पीछे मन मे है जो
उन पद-पद्मों मे निवेदन करूँगा मै ।”

तेजस्वी अपूर्व आज रुद्रमहातेज से
रोषयुत रक्षोराज बोला—“इस पुर मे
जितने धनुर्धर है सब चतुरङ्ग से
सज्जित हों एक सङ्ग । घोर रण रङ्ग मे
आज यह ज्वाला—यह घोर ज्वाला—भूलूँगा,
भूल जो सकूँगा मैं !”

सभा में हुआ शोघ्र ही

दुन्दुभिनिनाद घोर, शृङ्गवादि-वृन्द ने
प्रलय-समान शृङ्गनाद किया । और ज्यों
उस घननाद से है भूत-कुल सजता
कैलासाद्रि-शृङ्ग पर, सज्जित हुआ यहाँ
रक्षःकुल चारों ओर; वीर-पद भारों से
काँप उठी हेम लङ्का । निकले तुरन्त ही
अग्नि-वर्णा स्यन्दन सुवर्णा-ध्वज वेग से;
धूम्रवर्ण वारण, उल्लाल भीम शूण्डों को
मुद्गर सदृश; अश्व हेषाध्वनि करके;
आया चतुरङ्ग युत चामर गरज के
अमरों का त्रास; रथि-वृन्द युत—रण में
उग्र सा—उदग्र; गज-वृन्द-मध्य साहसी
वास्कल—घनों के बीच वज्री घनारूढ़-सा !

आया हुहुङ्कार असिलोमा-अग्निपुञ्ज-सा—
अश्वपति; वीर विडालाक्ष रणमत्त हो
पैदलों के सङ्ग भीम राक्षस महाबली ।
केतुवह-वृन्द आया, केतु उड़े व्योम मे
मानों धूमकेतु । रण-वाद्य बजे वेग से ।

देव-तेज से ज्यों जन्म ले के दैत्यदलिनी
चण्डी देव-अस्त्रो से सजी थी, रणोद्घास से
अट्टहास करके, सजी त्यों स्वर्णलङ्का मे
भैरवी-सी यातुसेना—उग्रचण्डा युद्ध मे ।
गज-बल बाहु-बल, अश्व-गति गति है;
स्वर्णरथ शीर्षचूड़ा; अश्वल पताका है
रत्नमय; भेरी, तूर्य्य, डङ्का आदि बाजों का
वाद सिंहनाद ! शर, शूल, शेल, शक्तियाँ,
मुद्गर, परशु आदि अस्त्र तीक्ष्ण दन्त हैं !
तेजोमय वम्भों की छटा ही नेत्र-वह्नि है !
थर थर कॉपी धरा, आलोडित भय से
कल्लोलित सिन्धु हुआ घोर नाद करके;
अचल विचल हुए गर्जन से भीमा के;
गरजी सरोष मानों चण्डी फिर जन्म ले !

भानु-कुल-भानु शूर चौक के शिविर मे
सुहृद विभीषण से बोले—“सखे, देखो तो,
कॉपती है वार वार लङ्का, महि-कम्प-सा

हो रहा है घोर, धूम-पुञ्ज उड़ सूर्य को
 आच्छादित करता है घन घन भाव से;
 करती उजेला है अनन्त मे भयङ्करी †
 कालानल-सम्भवा-सी आभा । सुनो, कान दे,
 कल्लोलित होरहा है सिन्धु ज्यों प्रलय मे
 विश्व-लय करने को !” पाण्डु-गण्ड भय से
 बोला यों विभीषण—“कहूँ मैं देव, और क्या ?
 काँपती है लङ्का यालु-वीर-पद-मारों से,
 यह महिकम्प नहीं ! कालानल-सम्भवा
 आभा नही, देखते हो जो यह गगन मे,
 स्वर्ण-वर्म्म-कान्ति यह आयुधों के तेज से
 मिलके दिशाएँ दसों करती प्रदीप्त है !
 केलाहल रुद्ध करता है श्रवणों को जो
 सागर का नाद नहीं, राक्षस-अनीकिनी
 गरज रही है मत्त हो के रण-मद से !
 सजता सुतेन्द्र-शोक-कातर हो सुरथी
 लङ्काधिप रावण है ! देव, अब सोच लो,
 लक्ष्मण का रक्षण करोगे किस भौति से
 घोर इस सङ्कट मे ? और सब वीरों का ?”

सुस्वर से बोले प्रभु—“जाओ त्वरा करके
 और बुला लाओ मित्र, सैन्याध्यक्ष-दल को;
 देवाश्रित दास यह, रक्षक हैं देवता !”

भीम शृङ्गनाद किया मित्र रक्षोवर ने ।
 किष्किन्ध्या-कलत्र आया, गजपति-गति से;
 आया वीर अङ्गद विशारद समर में;
 देवाकृति नील-नल; आया प्रमञ्जन-सा
 भीम बली आञ्जनेय; धीर जाम्बुवान भी;
 सुप्रम, शरम शूर; राक्षसों का भय-सा
 लोहितान्न गर्वित गवान्; वीर-केसरी
 और जो जो नेता थे, सवेग सब आगये ।

करके समादर समस्त शूरवीरों का,
 बोले प्रभु—“आज रक्षोराज पुत्र-शोक से
 आकुल हो सैन्य सह सजता है युद्ध को;
 कौपती है लङ्कापुरी वीर-पद-भारों से !
 तुम हो त्रिलोकजयी वीर सब रण मे;
 सज्जित हो शीघ्र और रक्षा करो राम की
 घोर इस सङ्कट में । मैं स्वभाग्य-दोष से
 वीरो, बन्धु-बान्धव-विहीन वन-वासी हूँ;
 राम का भरोसा, बल, विक्रम, प्रताप भी
 रण मे तुम्हीं हो ! अब वीर एक मात्र ही
 लङ्का में बचा है, वीर-वृन्द, आज उसको
 मारो ! सिन्धु बाँधा है तुम्हारे ही प्रसाद से
 मैं ने; और शम्भु-सम शूली कुम्भकर्ण को
 तुमुल समर में है मारा, और मारा है

देव-दैत्य-नर-त्रास मेघनाद योद्धा को
 लक्ष्मण ने । मेरा कुल, मान, प्राण रण में
 रक्खो रघु-बन्धु, तुम; रघु-बधू अब भी
 राक्षस के छल से है रुद्ध कारागार में !
 क्रीत किया तुमने मुझे है प्रेम-पण से,
 बाँधो रघु-वंश को कृतज्ञता के पाश में
 दाक्षिणात्य वीरो, आज दक्षिणता करके !”

मौन रघुनाथ हुए सजल नयन से ।
 मेघ-सम वाणी से सुकण्ठ तब बोला यों—
 “युद्ध में मरूँगा मैं कि रावण को मारूँगा,
 इन चरणों में आज मेरा यही प्रण है !
 भोगता हूँ देव, मैं तुम्हारे ही प्रसाद से
 राज-सुख-भोग; धन-मान-दाता तुम हो;
 सहज कृतज्ञता के पाश से सदैव ही
 बद्ध है अधीन यह इन पद-पद्मों में ।
 और क्या कहूँ मैं देव, मेरे सङ्गि-दल में
 ऐसा एक वीर नहीं जो तुम्हारे कार्य्य के
 साधने में मृत्यु से भी डरता हो मन में !
 सज्जित हो लङ्कापति, प्रस्तुत हैं हम भी;
 निर्भय हृदय होके जूझेंगे समर में ।”
 गरजे सरोष सब सैन्याध्यक्ष मिल के,
 गरजी विकट सैना—‘जै जै राम’—रव से !

सुन वह भीमनाद राक्षस-अनीकिनी
गरजी सरोष, वीर-मद से भरी हुई;
नाद करती है यथा दुर्गा दैत्यदलिनी
दैत्यों का निनाद सुन ! गूँजी हेमनगरी !

कमलासनस्थिता थी देवी जहाँ कमला
रक्षःकुल-राजलक्ष्मी, नाद वहाँ पहुँचा;
चौक उठी शीघ्र सती, देखने लगी तथा
नीलकमलाक्षी, यातुधान-दल रोष से
अन्ध-सम सजता है, उड़ते है व्योम मे
रक्षःकेतु—जीव-कुल-हेतु कुलक्षण से !
बजते है रक्षोवाद्य घोर नाद करके ।
देख-सुन, पूर्ण शरदिन्दुमुखी इन्दिरा
शून्य-पथ धार चली वैजयन्त धाम को ।

बजते विचित्र-वाद्य त्रिदिव समा में है,
नाचती है अप्सराएँ; गाते हैं सु-तानों से
किन्नर; सु-देव और देवियों के दल में
कनकासनस्थित है देवराज, उसकी
बाँईं ओर बैठी है सुचारुहासिनी शची;
बहता अनन्त गन्ध वायु है वसन्त का
सुस्वन से; चारों ओर पारिजात-पुष्पों की
सुगुणी गन्धर्व वर्षा करते हैं हर्ष से ।
पहुँची इपेन्द्रप्रिया इन्द्रसभातल मे ।

करके प्रणाम इन्द्र बोला—“पद-धूलि दो जननि, तुम्हारी कृपा-दृष्टि के प्रसाद से निर्भय हुआ है दास, मारा गया युद्ध मे मेघनाद योद्धा आज ! स्वर्ग-सुख-भोग मैं भोगूँ गा निरापद हो अब से । कृपामयी, जिस पै तुम्हारी कृपा-दृष्टि हो जगत मे फिर क्या अभाव उसे ?” उत्तर मे हँस के रत्नाकर रत्नोत्तमा बोली रमा सुन्दरी—
 “शत्रु तव दैत्यरिपो, भूपर पतित है; किन्तु अध रत्नोराज रत्नोदल-बल से सजता है, व्याकुल है राजा पुत्र-वध का बदला चुकाने को । सजे हैं सङ्ग उसके लक्ष लक्ष रत्नोवीर । कहने को मैं यही आई हूँ तुम्हारे पास । रामानुज शूर ने साधा है तुम्हारा कार्य्य; रक्षा करो उसकी अब तुम आदितेय । उपकारी जन का प्राण-पण से भी त्राण करना उचित है सङ्कट से, सज्जनों को । अधिक कहूँ क्या मैं ? रत्नःकुल-विक्रम तुम्हें हे शक्र ज्ञात है ! सोचो शचीकान्त, कैसे राघव को रक्खोगे ।”

उत्तर में बोला इन्द्र—“उत्तर में स्वर्ग के देखो जगदम्ब, तुम अम्बर प्रदेश में

सज्जित अमर-दल । निकलेगा युद्ध को
रक्षःकुलनाथ यदि तो मैं सङ्ग उसके
जाकर करूँगा रण-रङ्ग हे दयामयी ।
रावण-अरावण-से माँ, मैं डरता नहीं !”

देखी वासवीय चमू चौंक कर पद्मा ने
उत्तर में स्वर्ग के । जहाँ लों दृष्टि जाती है,
देखा सुन्दरी ने निज देवदृष्टि डाल के—
गज, रथ, अश्व, सादी, सुरथी, निषादो हैं
कालजयी; उन्मद पदाति रणविजयी ।

किन्नर, गन्धर्वा, देव कालानल-कान्ति हैं;
स्यन्दन-शिखिध्वज-में तारकारि स्कन्द हैं
सेनानी; विचित्र रथ में है तथा सुरथी
चित्ररथ । जलती है व्योम में द्वाग्नि-सी;
धूम-राशि-सी है गजराज-राजि उसकी;
और है शिखा-सी शूल-दीप्ति दृग-धर्षिणी !
चञ्चला अचञ्चला-सी सोहती पताका है,
भास्कर-परिधि से भी तेजोमय तेज में !
भ्रक भ्रक चर्मा, वर्म भ्रलमल होते हैं ।

पूछा कमला ने—“हे सुरेन्द्र, कहीं आज हैं
अग्नि, वरुणादि दिक्पाल ? शून्य उनसे
क्यों है यह स्वर्ग-सेना ?” बोला तब वृत्रहा—
“निज निज राज्य-रक्षा करने का उनको

मैं ने है निदेश दिया, कौन जाने' जननी,
 क्या हो आज देव और राक्षसों के रण मे ?
 दोनों कुल दुर्जय है । सम्भव है, अबनी
 डूब जावे, डूबती है ज्यों वह प्रलय मे;
 सम्भव है, सारी सृष्टि जाय रसातल को !”

दे आशीष केशव की कामना सुकेशिनी
 वासव को, लोकमाता लौट आई लङ्का मे,
 बैठ के सुवर्णमय मेघों पर शीघ्र ही,
 हो कर प्रविष्ट निज मन्दिर मे खेद से,
 कमलासनस्था हुई, रक्ष-कुल-दु ख से
 विरस वदन तो भी रूप-रश्मि-जाल से
 करके प्रदीप्त-सी दिशाएँ दसों देवी श्री ।

सजता है रक्षोराज शूर रण-मत्त हो,
 हेमकूट-हेमशृङ्ग-तुल्योज्वल तेज से
 शोभित रथीन्द्र-वृन्द चारों ओर है अहा !
 बजते अदूर रण-वाद्य है, गगन में
 उड़ते हैं रक्ष-केतु, और हुहुङ्कार से
 राक्षस गरजते है, अगणित संख्या में ।
 ऐसे ही समय में सभा में राजमहिषी
 मन्दोदरी प्राप्त हुई, पारावतो देख के
 नीड़ शिशु-शून्य यथा । हाय । पीछे सखि यों
 दौड़ती है । राज-चरणों मे पड़ी महिषी ।

यत्न से सती को उठा, राक्षसेन्द्र बोला ये
 खेद युक्त—“रक्षःकुलेन्द्राणि, हुआ वाम है
 आज हम दोनों पर दैव । किन्तु फिर भी
 जीवित हूँ अब भी जो मैं सो बस, उसका
 बदला चुकाने के लिए ही । शून्य गृह में
 लौट जाओ देवि, तुम; मैं अनीक-यात्री हूँ,
 रोकती हो मुझको क्यों ? गेने के लिए हमें
 गृहणि, पड़ा है चिरकाल । हम दोनों ही
 छोड़ के असार इस राज्य-सुख-भोग को,
 बैठ के अकेले में करेंगे याद उसकी
 रात-दिन । लौट जाओ, जाऊँ मैं समर में,
 क्रोधानल क्यों यह बुझाऊँ अश्रु-जल से ?
 भू पर पड़ा है आज भूषण अरण्य का
 शाल, हुआ तुझतम शृङ्ग चूर्ण शैल का;
 ज्योम-रत्न-चन्द्र चिर राहु-ग्रस्त हो गया !”

पकड़ सती को सखी-वृन्द अवरोध में
 ले गया । सरोष तब बाहर निकल के
 गर्ज कर, राक्षसों से बोला राक्षसेन्द्र यों—
 “जिसके पराक्रम से राक्षस-अनीकिनी
 देव-दैत्य और नर-युद्ध में थी विजयी;
 जिसके कराल शर-जाल से समर में
 कातर सुरेन्द्र युत शूर सुर थे सदा,

अतल रसातल मे नाग, नर मर्त्य मे;
 मारा गया वीर वह । चोर सम घुसके
 लक्ष्मण ने मारा उसे, जब कि अकेले मे
 पुत्र था निरस्त्र । मनोदुःख से प्रवास में
 मरता प्रवासी जन जैसे है, न देख के
 कोई स्नेह-पात्र, निज माता, पिता, दयिता,
 भ्राता, बन्धु-बान्धव, मरा है स्वर्ण लङ्का मे
 स्वर्णलङ्का-अलङ्कार हाय । आज वैसे ही ।
 मैं ने बहु काल से है पाला तुम्हे पुत्र ज्यों;
 पूछो, इस विश्व मे है ख्याति किस वंश की
 रक्षोवंश-ख्याति-सम ? किन्तु मैं ने व्यर्थ ही
 देव-नर-दैत्यों को हरा के धरा-धाम मे
 कीर्ति-वृक्ष रोपण किया है; हाय । मुझसे
 इतने दिनों में अब वाम हुआ सर्वथा
 निर्दय विधाता; सुनो, तब तो अकाल मे
 सूख गया मेरा आलवाल जल से भरा !
 किन्तु मैं विलाप नहीं करता, विलाप से
 लाभ ही क्या ? पा सकूँगा क्या मैं अब उसको ?
 अश्रु-वारि-धारा से कृतान्त का कड़ा दिया
 पिघला कमी है हाय । जाकर समर मे
 मारूँगा अधर्मी मूढ़ लक्ष्मण को अब मैं,
 ऋषसमरी है जो, प्रतिज्ञा यही मेरी है;

निष्फन्त हुआ जो प्रण, फिर न फिरूँगा मैं,
 रक्खूँगा चरण इस जन्म मे न लड्डा मे !
 देव-दैत्य-नर-त्रास वीर वरो, तुम हो
 विश्वजयी, आओ, चलो, याद करके उसे;
 मारा गया मेघनाद, सुन इस बात को,
 कौन जीना चाहता है आज रक्षोवंश मे ?
 रक्षोवंश-गर्वा बली योद्धा मेघनाद था ।”

मौन महेष्वास हुआ, आह भर खेद से;
 मेघ-घटा-घोष-सम, क्षोभ और रोष से,
 गरजी निशाचरो की सेना वहाँ पृथ्वी को
 आर्द्र कर, नेत्र-वारि-धारा-वृष्टि करके ।

सुन वह भीमनाद राघव-अनीकिनी
 गरजी गभीर नाद करके । त्रिदिव में
 गरजा त्रिदिवनाथ धीर नाद करके ।
 क्रुद्ध हुए सीतानाथ, श्री सौमित्रि केसरी,
 सुमट सुकण्ठ, वीर अङ्गद तथा हनू,
 रक्षोयम नील, नल आदि सैन्याध्यक्षों ने
 भीम गर्जना की ‘जय राम’ नाद करके !
 मेघों ने सुनाया मन्द्र ढँक कर व्योम को;
 चौंघा कर विश्व को विशाल वज्र गरजा;
 चरिडका की हास्य-राशि तुल्य हँसी चञ्चला,
 देवी ने किया था जब हास्य वध करके

दैत्य दुर्गदों का, घोर-रण-मद-मत्त हो !
 आप तमोनाशी भानु डूबा तमोराशि मे;
 नैश्वानर-श्वास रूपी वायु बहा वेग से
 चारों ओर घोर; जली दावानल वन मे;
 पल्ली-पुर-ग्रास किया प्लावन ने सहसा
 नाद कर; कोंपी घरा डग मग भाव से,
 अट्ट गिरे, वृक्ष गिरे, जीव मरे कितने
 चिल्ला कर, रोते हुए, मानों सृष्टि-लय में !

घोर भयभीता भूमि रोकर चली अहो !

विश्रुत नैकुण्ठधाम । हेमासन पै जहाँ
 विष्णु थे विराजमान; पूत पद-पद्मों में
 करके प्रणाम की सती ने प्रभु-प्रार्थना—
 “रख बहु रूप दयासिन्धो, इस दासी को
 वार वार तुमने उबारा है विपत्ति से;
 पृष्ठ पर मुझको बिठाया कूर्म रूप मे;
 बैठी हूँ गदाधर, मैं दशन-शिखर पै,
 (जैसे है शशाङ्क में कलङ्क-रेखा राजती)
 जब थी वराह-मूर्ति रक्खी प्रभो, तुमने ।
 रख नरसिंह रूप कनककशिपु को
 मार कर तुमने जुड़ाया था अधीना को
 खर्व वलि-गर्व किया, खर्वाकार छल से,
 वामन ! तुम्हारी दया-दृष्टि के प्रसाद से

जग को कँपाता हुआ चलता प्रताप है
 आगे, कर्णभेदी शब्द चलता है पीछे से,
 उसके अनन्तर पराग धन धन-सा
 चलता है दृष्टि-पथ रोक कर सब का,
 काँपती है हेमलङ्का । देखा वहिर्भाग मे
 माधव ने राघव का सैन्यदल, सिन्धु मे
 मानों महा ऊर्मिकुल क्षिप्र वैरी वायु से !
 देखा कमलाक्ष ने कि देव-दल वेग से
 दौड़ता है लङ्का ओर, दूर यथा देख के
 पक्षिराज गरुड़ भुजङ्ग-निज भक्ष्य-को
 भीषण हुँकार कर टूटता है सहसा ।
 विश्व पूर्ण होता है गभीरतम घोष से ।
 भागते हैं योगिजन योग-याग छोड़ के;
 गोदों मे उठाये हुए शिशुओं को माताएँ
 रोती हैं भयाकुल हो; जीव-गण मूढ़ सा
 भागता है चारों ओर । क्षण भर सोच के,
 योगिजन-मानस-भराल बोलें पृथ्वी से—
 “विषम विपत्ति सति, देखता हूँ तुम्हको ।
 रक्षोराज रावण को आज विरूपाक्ष ने
 रुद्र-तेज-दान कर तेजस्वी बनाया है ।
 दृष्टि नहीं आता मुझे कोई यत्न वसुधे !
 जाओ, उनके ही पास ।” रो के पद पद्मों में

बोली धरा—“हाय ! प्रभो, शूली सर्वनाशी हैं,
साधन निधन का ही करते सदैव है ।
सतत तमोगुण से पूर्ण त्रिपुरारि है ।
उगल विषाग्नि सब जीवों को जलाने की
इच्छा रखता है शौरि, काल सर्प सर्वदा !
तुम हो दया के सिन्धु विश्वम्भर, विश्व का
रक्खोगे न भार तुम तो हा । कौन रक्खेगा ?
दासी को बचाओ, यही प्रार्थना है दासी की
श्रीधर, तुम्हारे इन अरुण पदाब्जों में ।”

हँस फिर बोले प्रभु—“जाओ निज धाम को
वसुधे, तुम्हारा कार्य्य साधन करूँगा मैं
देव-कुल-वीर्य्य आज संवरण करके ।
कर न सकेगा त्राण लक्ष्मण का वृत्रहा;
दुःखी हैं उमेश आज राक्षस के दुःख से ।”

आनन्दित हो के गई पृथ्वी निज धाम को ।
प्रभु ने कहा यों तब सुगति गरुड़ से—
“उड़के सुपर्णा, तुम शीघ्र नभोदेश मे—
कर लो हरण तेज रण गत देवों का,
हरता तमारि रवि जैसे सिन्धु-वारि है;
अथवा हरा था स्वयं तुमने अमृत ज्यों
नैनतेय, सिद्ध करो काय्ये मेरी आज्ञा से ।”
फैला कर दीर्घ दोनों पक्ष उड़ा व्योम में

पक्षिराज, शीघ्र महा छाया पड़ी पृथ्वी पै,
 छाकर नदी, नद, अरण्य, शैल सैकड़ों ।
 उत्तेजित अग्नि लगने से यथा गेहूँ मे
 बालाएँ निकलती है सत्वर गवाक्षों से,
 निकली निशाचरों की सेना चार द्वारों से,
 नाद कर रोष युक्त; चारों ओर गरजी
 राघवेन्द्र-सेना; देव-वृन्द आया युद्ध मे ।
 गजवर ऐरावत आया रण-मन्त हो;
 पीठ पर शोभित सुरेन्द्र वज्रधारी है,
 दीप्तिमान मेरु-शृङ्ग मानों भानु-कर से;
 कि वा मध्य वासर मे सोहता है सूर्य्य ज्यों;
 आये स्कन्द तारकारि बर्हिध्वज-रथ मे
 सेनापति; आया सुविचित्र रथ मे रथी
 चित्ररथ; किन्नर, गन्धर्व, यक्ष आये त्यों
 विविध विमानों पर । बाजे बजे स्वर्ग के;
 सातङ्का सु-लङ्का हुई नाद सुन उनका;
 काँपा चौक सारा देश अमर-निनाद से !
 करके प्रणाम सुर-नायक से राम यों
 बोले तब—“देव-कुल-दास यह दास है
 देवपते, कितना किया था पूर्व जन्म में
 पुण्य मैं ने, सो क्या कहूँ ? आज तब तो मिला
 आश्रय तुम्हारे चरणों का इस कष्ट मे;

तब तो पवित्र किया देव-पद-स्पर्श से
त्रिदिव-निवासियों ने आज धरातल को !”

उत्तर में राघव से बोला स्वरीश्वर यों—

“रघुकुल-रत्न, तुम देव-कुल-प्रिय हो ।
नैठ रथि, देव-रथ-मध्य, भुज-बल से;
मारो दुराचारी दुष्ट राक्षस को रण में ।
मरता है रक्षोराज आप निज पाप से,
कर सकता है राम, रक्षा कौन उसकी ?
पाया था अमृत यथा मैं ने मथ सिन्धु को,
छिन्नमिन्न लङ्का कर, मार यातुधान को,
साध्वी मैथिली को आज देव-कुल जैसे ही
अर्पण करेगा तुम्हे ! अतल सलिल में
कब लों रहेगी श्री अँधेरा कर विश्व मे ?”

होने लगा घोर रण रक्षो-नर-देवों में ।
अम्बुराशि-जैसा कम्बुराशि-रवं हो उठा
चारों ओर; धन्वा निज टङ्कारित करके
रुद्ध किया कर्ण-पथ धन्वी धीर वीरों ने !
भेद कर चर्म-वर्म-देह उड़े व्योम में
कुलिश-स्फुलिङ्ग-शर, धारा बही रक्त की ।
राक्षस, मनुष्य रथी योद्धा गिरे क्षेत्र में;
कुञ्जरो के पुञ्ज गिरे—पत्र ज्यों निकुञ्जों मे,
प्रबल प्रमञ्जन से; वाजि गिरे गर्ज के;

पूर्ण रणभूमि हुई भैरवनिनाद से ।
 टूटा चतुरङ्ग दल ले के देव-दल पै
 चामर—अमरत्रास । चित्ररथ सुरथी
 सौरतेज रथ मे प्रविष्ट हुआ रण मे,
 वारणारि सिंह यथा वारण को देख के ।
 आ के ललकारा भीम रव से सुकण्ठ को
 रथिप उदम्र ने, विघूर्णा हुए रथ के
 चक्र सौ सौ स्रोतों के समान शब्द करके ।
 वेग से बढ़ाया गज-यूथ यूथनाथ ज्यों
 कालबली वास्कल ने, देख कर दूर से
 अङ्गद को; रुष्ट युवराज हुआ देख के,
 मृग-दल देख शिशु सिंह यथा होता है !
 तीक्ष्ण असिधारी असिलोमा ने प्रकोप से,
 सङ्ग लिये वाजि-राजि, आगे बढ़ शीघ्र ही
 घेर लिया वीरर्षभ सुप्रभ-शरभ को ।
 वीर विडालाक्ष (विरुपाक्ष सर्वनाशी ज्यों)
 लड़ने सरोष लगा आ के हनूमान से ।
 आये रणमध्य, बैठ दिव्य रथ में, रथी
 रामचन्द्र; आहा ! यथा देवपति दूसरे
 वज्रधारी ! विस्मय से तारकारि स्कन्द ने
 शूर श्रेष्ठ लक्ष्मण में निज प्रतिमूर्ति-सी
 देखी मर्त्यलोक मध्य ! उड़ घन भाव से

चारों ओर धूल छाई; डगमग भाव से
 डोली हेमलङ्का; क्षुब्ध हो के सिन्धु गरजा !
 अद्भुत अपूर्व व्यूह बाँधा बलाराति ने ।

पुष्पक में बैठा हुआ रक्षोराज निकला;
 घूमे रथ-चक्र घोर घर्षर निनाद से,
 उगल कृशानु-कण; हींसे हय हर्ष से ।
 चौंघा कर आगे चली रत्न-सम्भवा विभा,
 ऊषा चलती है यथा आगे उष्णरश्मि के,
 जब उदयाद्रि पर एकचक्ररथ मे
 होता है उदित वह । देख रक्षोराज को
 रक्षोगण गरजा गभीर धीर नाद से ।

बोला सारथी से रथी—“केवल मनुष्य ही
 जूझते नहीं है आज; देखो सूत, ध्यान से,
 धूम-पुञ्ज में ज्यों अग्निराशि, रघु-सैन्य मे
 देव-सेना सोहती है । आया इन्द्र लङ्का मे,
 सुन कर आज हत इन्द्रजित योद्धा को ।”
 याद कर पुत्र को निशाचरेन्द्र रोष से
 करके गभीर नाद बोला—“सूत, शीघ्र ही
 रथ को बढ़ाओ, जहाँ वज्री बलाराति है ।”
 दौड़ा रथ तत्क्षण मनोरथ की गति से ।
 भागी रघु-सेना, वन-जीव यथा देख के
 मदकल नाग भागते हैं ऊर्ध्व श्वास से !

कि वा जब वज्रानलपूर्णा घोर नाद से
 भीमाकृति मेघ उड़ता है वायु-पथ मे,
 देख तब जैसे उसे भागते है भय से
 भीत पशु-पक्षी सब ओर । क्षण भर मे
 धनुष चढ़ाके व्यूह भेद डाला वीर ने;
 तोड़ता है जैसे अनायास बाँध बालू का,
 प्लावन-प्रवाह, महा घोर घनाघात से ।
 कि वा गोष्ठ-वेष्टन निशा मे यथा केसरी !
 प्रत्यञ्चा चढ़ाके रोषयुक्त बली स्कन्द ने
 रोका उस स्यन्दन का मार्ग । हाथ जोड़ के,
 उनको प्रणाम कर लङ्केश्वर बोला यों—
 “शङ्करी को, शङ्कर को देव, सदा भक्ति से
 पूजता है किङ्कर । निहारता हूँ फिर क्यों
 वैरि-वृन्द-सङ्ग तुम्हे आज इस लङ्का मे ?
 करते रथीन्द्र, क्यों हो मनुजाधम राम की
 तुम अनुकूलता यों ? न्यायहीन युद्ध में
 मेरे श्रेष्ठ नन्दन को लक्ष्मण ने मारा है;
 मारूँगा अभी मैं उस मूढ़ छली योद्धा को;
 छोड़ दो कुमार, मेरा मार्ग, कहूँ और क्या ?”
 बोले उमानन्दन—“सुरेश के निदेश से
 लक्ष्मण का रक्षण करूँगा यहाँ आज मैं ।
 मुझको हराओ महाबाहो, बाहुबल से,

अन्यथा मनोरथ न सिद्ध कर पाओगे ।”

तेजस्वी अपूर्ण महा रुद्रतेज से बली
 रावण ने अग्नि-सम छोड़े अस्त्र रोष से,
 और किया कातर शरों से शक्तिधर को ।
 बोली विजया से तब अभया अधीर हो—
 देख सखि, लङ्का और तीक्ष्णतर बाणों से
 विद्ध करता है क्रूर राक्षस कुमार को !
 हरता है देव-तेज पक्षिराज नभ मे;
 जा तू सखि, शीघ्र वहाँ, चञ्चला की गति से,
 युद्ध से विरत कर सत्वर कुमार को ।
 छाती फटती है हाय । देख कर वत्स के
 कोमल शरीर में से रक्त-धारा बहती ।
 देव सदानन्द भक्तवत्सल हैं, भक्त को
 प्यार करते हैं पुत्र से भी सविशेष वे;
 है दुर्वार रावण इसीसे कालरण मे ।”
 सौरकर रूपिणी सुनीलाम्बर-मार्ग से
 दौड़ गई दूती शीघ्र । आके रणक्षेत्र मे
 कहने लगी यों कर्णामूल मे कुमार के—
 “रोको युद्ध शक्तिधर, शक्ति के निदेश से;
 लङ्केश्वर आज महारुद्रतेजःपूर्ण है !”
 हैंसके फिराया रथ तारकारि स्कन्द ने ।
 कटक असंख्य काट, सिंहनाद करके

दौड़ा शीघ्र रत्नोराज—वर्द्धित कृशानु-सा—
ऐरावत-पृष्ठ पर बज्री जहाँ इन्द्र था ।

घेर लिया रावण को चारों ओर दौड़ के
किन्नर, गन्धर्व तथा वानरों ने वेग से;
घोर हुहुङ्कार कर शूर ने निमेष में
सब को निरस्त किया, जैसे वनराजि को
भस्म करता है वह्नि । लज्जा को जलाञ्जली
देकर सुभट-वृन्द भागा । इन्द्र क्रुद्ध हो
आया, देख पार्थ को ज्यों कर्ण कुरुक्षेत्र मे ।

करके हुङ्कार भीम तोमर तुरन्त ही
ऐरावत-भाल पर मारा राक्षसेन्द्र ने ।
अर्द्ध पथ मे ही उसे काट दिया शक्र ने ।
बोला कबुरेन्द्र गर्व पूर्वक सुरेन्द्र से—
“कोपते सदा थे निज वैजयन्त धाम में
शूर शचीकान्त, तुम नाम से ही जिसके;
मारा गया आज वह रावणि तुम्हारे ही
कौशल से छलमय युद्ध मे इसी से क्या
आये हो अलज्ज, तुम हेमलङ्कापुर मे ?
अमर अवध्य तुम, अन्यथा निमेष में
दमन तुम्हारा यहाँ शमन-समान मैं
करता ! परन्तु तो भी मेरा यह प्रण है—
तुम न बचा सकोगे लक्ष्मण को मुझ से ।”

भीम गदा ले के रथी कूद पड़ा रथ से,
 डगमग डोली धरा पद-युग-भार से,
 कोषगत खड्ग हुआ भ्रन भ्रन पादर्व मे ।
 करके हुँकार वज्र लेने लगा वज्री जो,
 हर लिया देव-तेज वैसे ही गरुड़ ने;
 कुलिश उठा न सका हाथ । स्वयं कुलशो !
 रावण ने भीम गदा मारो गज-भाल मे,
 मारता प्रभञ्जन है जैसे गिरि-शिर मे,—
 अभ्रभेदी वृक्ष को उखाड़ कर आँधी से !
 होकर निरस्त गज वोर घनाघात से
 गिर पड़ा दोनों घुटनों के बल शीघ्र ही ।
 हँस कर राक्षसेन्द्र बैठा निज रथ में ।
 लाया तब दिव्य रथ मातलि मुहूर्त मे;
 वासव ने छोड़ दिया मार्ग अभिमान से ।
 दिव्य रथारूढ़ तब दाशरथि सामने
 आये, सिंहनाद कर, धन्वा लिये हाथ मे ।
 बोला वीर रावण निहार कर उनको—
 “चाहता नहीं मैं आज सीतानाथ, तुमको;
 एक दिन और तुम इस भवधाम में
 जीते रहे निर्भय निरापद हो ! है कहाँ
 अनुज तुम्हारा वह नीच छद्म समरी ?
 मारूँगा उसे मैं, तुम अपने शिविर में

लौट रघुश्रेष्ठ, जाओ ।” दीर्घ धन्वी रोष से
 गरजा विलोक दूर शूर रामानुज को,
 सिंह वृषपाल को ज्यों, शूरशिरोरत्न वे
 राक्षसों को मारते हैं, बैठ कभी रथ मे
 और कभी पैदल, अपूर्व वीर्य्य-बल से ।

पुष्पक सवेग चला घर्घर सु-घोष से,
 अग्नि-चक्र-तुल्य रथ-चक्र लगे छोड़ने
 अग्नि-राशि, धूमकेतु-तुल्य रथ-केतु की
 शोभा हुई । देख कर दूर ज्यों कपोत को,
 फैला कर पङ्क श्येन दौड़ता है शून्य मे,
 दौड़ा राक्षसेन्द्र त्यों ही देख रण-भूमि मे
 पुत्रघाती लक्ष्मण को, दौड़े सब ओर से
 देव-नर गर्ष कर, शूर के बचाने को ।
 दौड़े तथा रक्षोगण देख रक्षोराज को ।

करके पराजित विपत्ती विडालाक्ष को
 दौड़ा वीर आञ्जनेय, घोर प्रभञ्जन-सा
 गर्ष कर, देख कर काल-सम शूर को
 चिल्ला कर भाग उठी राक्षस-अनीकिनी,
 जैसे तूल-राशि उड़ती है वायु-वेग से ।
 क्रोध कर रावण ने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाणों से
 बिद्ध कर शीघ्र किया विचलित वीर को ।
 मारति अधीर हुआ , जैसे भूमि-कम्प में

होता है महीध्र ! घोर सङ्कट में शूर ने
 ध्यान किया अपने पिता के पद युग्म का;
 निज बल दान किया नन्दन को वायु ने,
 देता है स्वतेज जैसे सूर्य्य सुधानिधि को ।
 तेजस्वी परन्तु महारुद्र तेज से रथी
 रावण ने तत्क्षण निवारित किया उसे;
 छोड़ रण-रङ्ग हनूमान भगा हार के ।

किष्किन्ध्या-कलत्र आया, विग्रह मे मार के
 उद्धत उदग्र को । सहास्य उसे देख के
 बोला दशकण्ठ—“किस कु-क्षण में छोड़ के
 राज-सुख-भोग अरे बर्बर, तू आया है
 दूर इस कर्बुरपुरी में ? वह तारा जो
 तारा-तुल्य दीप्तिसारा, तेरी भ्रातृदारा है,
 छोड़ उसे तू क्यों यहाँ आया रथि-वृन्द मे ?
 जा रे, तुझे छोड़ दिया, भाग जा स्वदेश को,
 विधवा बनाने चला मूढ़, फिर क्यों उसे ?
 कोई और देवर है दुर्मेति, क्या उसका ?”
 उत्तर सुकण्ठ ने दिया यों भीसनाह से—
 “तुम्ह-सा अधर्मी कौन है इस जगत में
 रक्षोराज ? दुष्ट, पर-दार-लोभ करके
 झूठा है सर्वश तू । कलङ्क निज कुल का
 है तू नीच ! मेरे हाथ से ही मृत्यु तेरी है ।

मार तुम्हे, मित्र-बधू आज मैं उबारूँगा ।”

कह यों बली ने गिरि-शृङ्ग फेका गर्ज के,
 करके अँधेरा-सा अनम्बर प्रदेश मे
 शिखिर सवेग चला; तीक्ष्ण शर छोड़ के
 काटा उसे रावण ने खण्ड खण्ड करके,
 फिर निज दीर्घ चाप टङ्कारित करके
 घोर हुहुङ्कार कर तीक्ष्णतर बाणों से
 छेद डाला रावण ने रण मे सुकण्ठ को !
 पीठ दे सुमति भागा आर्त घनाघात से !
 भागी रघु-सेना सब ओर भयभीत हो,
 (कल जल-राशि यथा टूटने से बाँध के;)
 देव-दल तेजोहीन होके अहा ! अधुना
 नर-दल-सङ्ग भगा, जैसे वायु-वेग से
 धूम-सङ्ग अग्नि-कण आप उड़ जाते है !
 देवाकृति लक्ष्मण को रावण ने सामने
 देखा ! वीर मद से है दुर्मद समर में
 रक्षोराज, गरजा रथीन्द्र हुहुङ्कार से;
 गरजे सौमित्रि शूर निर्भय हृदय से,
 मत्त करि जैसे मत्तकरि के निनाद से
 नाद करता है ! देवदत्त धन्वा धन्वी ने
 सत्क्षणा सगर्व किया टङ्कारित रोष से ।
 बोला रोषयुक्त रक्षोराज—“अरे, इतनो

देर में तू लक्ष्मण, क्या मेरे हाथ आया है
रण मेरे पामर ? कहीं है अब वृत्रहा
वज्री ? कहीं बर्हिध्वज तारकारि स्कन्द हैं
शक्तिधर ? और कहीं तेरा वह भाई है
राघव ? सुकण्ठ कहीं ? पामर, बता तुझे
कौन बचावेगा ? इस कालासन्न रण में,
जननी सुमित्रा और ऊर्मिल्ला बधू को तू
याद करले रे, अब मरने के पहले !
मांस तेरा दूँगा अभी मांसभोजी जीवों को;
रक्त-स्रोत सोख लेगी पृथ्वी इस देश की ।
कुक्षण में दुर्मति, हुआ है सिन्धु पार तू,
चार-तुल्य होकर प्रविष्ट रक्षोगेह में,
रक्षोरत्न तू ने हरा—जग में अमूल्य जो ।”

गरजा सरोष राजा भैरव विराव से
अग्नि-शिखा-तुल्य शर धन्वा पर रख के;
भीम सिंहनादी वीर लक्ष्मण ने उसको
उत्तर दिया यों भीम सिंहनाद कर के—
“क्षत्र कुल में है जन्म मेरा, कभी रण में,
रक्षोरत्न, काल से भी डरता नहीं हूँ मैं;
फिर किस कारण डरूँगा भला तुझ से ?
कर ले जो साध्य हो सो, पुत्र-शोक से है तू
व्याकुल विशेष आज, तेरा शोक मेढूँगा

भेज तुझे तेरे उस पुत्र के ही पास मैं ।”

होने लगा घोर रण; देव-नर दोनों की
 ओर अति विस्मय के साथ लगे देखने;
 करके हुंकार वार वार बाण वौरी के
 काटे वीर लक्ष्मण ने ! विस्मित हो बोला ये
 रावण—“बड़ाई करता हूँ वार वार मैं
 तेरे शौर्य-वीर्य की हे लक्ष्मण महारथे !
 शक्तिधर से भी शक्ति तुझ मे विशेष है;
 किन्तु तेरी रक्षा नहीं आज मेरे हाथ से !”

याद कर पुत्र को सरोष महाशूर ने
 छोड़ी महाशक्ति ! घोर वज्रनाद करके,
 नम में उजेला कर, दामिनी-सी दारुणा
 छूटी शत्रुनाशिनी ! सकम्प हुए भय से
 देव-नर ! लक्ष्मण कठोर घोराघात से
 गिर पड़े पृथ्वी पर, ज्यों नक्षत्र टूटा हो;
 भून भून अस्त्र हुए, आमाहीन रक्त से
 सम्प्रति । सनाग-नग-तुल्य गिरे धीर धी ।

बिद्ध कर गहन अरण्य में हरिण को
 अपने अमोघ शर द्वारा दौड़ता है ज्यों
 उसको पकड़ने किरात, रथ छोड़ के
 दौड़ा बली रक्षोराज शव के उठाने को !
 चारों ओर आर्तनाद होने लगा सहसा !

घोर हाहाकार कर देव-नर वीरों ने
 घेर लिया लक्ष्मण को । कैलासाद्रि धाम में
 शङ्कर के चरणों में बोली व्यग्र शङ्करी—
 “मारा प्रभो, लक्ष्मण को रावण ने रण में ।
 धूल में सुमित्रा-पुत्र देखो, अब है पड़ा !
 तुष्ट किया राक्षस को भक्तप्रिय, तुमने;
 वासव का सर्व गर्व खर्व किया रण में,
 प्रार्थना है किन्तु विरूपाक्ष, यही दासी की
 रक्षा करो लक्ष्मण के देह की—दया करो !”

शूली हँस बोले तब वीरभद्र शूर से—
 “रोको वीर, रावण को ।” मन की-सी गति से
 वीरभद्र जाकर गभीर धीर वाणी से
 रावण के कान में यों बोला—“हत शत्रु है
 रक्षोरराज, काम क्या है अब रणभूमि में ?
 लौट जाओ वीर वर, हेमलङ्का धाम को ।”

यों कह अदृश्य हुआ देव-दूत स्वप्न-सा ।
 रथ पर बैठा शूर-सिंह सिहनाद से;
 रक्षोरणवाद्य बजे, रक्षोगण गरजे;
 पुर में प्रविष्ट हुई राक्षस-अनोकिनी—
 भीमा जय लाम कर, मानों महा चण्डिका
 मार रक्तबीजासुर, नृत्य करती हुई,
 अट्टहास पूर्वक प्रसन्नसमुल्लास से

लौटी आर्द्र देह वाली शोणित के स्रोत से !
 और ज्यों सती की वन्दना की देव-दल ने,
 भूरि अभिनन्दन किया त्यों जय-गीतों से
 राक्षस चमू का महानन्दी वन्दि-वृन्द ने !
 हो के पराभूत यहाँ, अति अभिमान से,
 सुर-दल-सङ्ग सुरराज गया स्वर्ग को ।

इति श्री मेघनाद-वध काव्ये
 शक्तिनिर्भेदो नाम
 सप्तम, सर्ग.

अष्टम सर्ग

राज-काज साङ्ग कर, जाकर विराम के
मन्दिर मे राजा यथा मुकुट उतार के
रखता है, अस्ताचल-चूड़ा पर सन्ध्या में
मस्तक-किरीट-रवि रक्खा दिनदेव ने,
तारा-दल सङ्ग लिये आई तब यामिनी,
प्राया यामिनी का प्रिय कान्त शान्त चन्द्रमा ।

अग्नि-पुञ्ज जले चारों ओर रणक्षेत्र में
सा सौ, शूर लक्ष्मण पड़े हैं जहाँ पृथ्वी पै;
नोरव पड़े है वहीं सीतापति । अर्खां से
अविरल अश्रुजल वह कर वेग से
मातृ-रक्त-सङ्ग मिल पृथ्वी को भिगोता है,
वह गिरि-गात्र पर गैरिक से मिल के
गिरता है पृथ्वी पर निर्भर का नीर ज्यों !
हो रहे है शूर सब शून्यमना शोक से
सुहृद विभीषण विभीषण समर में,
सुहृद सुकण्ठ शूर, मारुति महाबली,
अङ्गद, कुमुद, नल, नील वीरकेसरी,
शरभ, सुबाहु आदि प्रभु के विपाद से

हो रहे विषण्ण सब साश्रुमुख मौन हैं ।

होकर सचेत नाथ कातर हो बोले यों—
 “छोड़ कर राज्य हुआ जब वनवासी मैं
 लक्ष्मण, कुटी के द्वार पर तुम रात में
 जागते थे धीरे धन्वि, धन्वा लिये हाथ में
 मेरे रक्षणार्थ; आज राक्षसनगर में —
 आज इस राक्षस-नगर में, विपत्तों के
 बीच हो रहा मैं मग्न सङ्कट-समुद्र में;
 तो भी महाबहो, तुम भूल मुझे पृथ्वी पै
 सोते हो पड़े यों ? कौन आज मुझे रक्खेगा
 रक्षित ? उठो कब विरत वीर, तुम हो
 भ्रातृ-आज्ञा पालन में ? किन्तु यदि तुमने
 मेरे भाग्य-दोष से—सदा मैं भाग्यहीन हूँ—
 त्याग दिया प्राणाधिक, मुझको है, तो, कहो,
 किस अपराध से तुम्हारी अपराधिनी
 जानकी अभागिनी है ? याद कर अपने
 श्री सौमित्रि देवर को, रक्षोवन्दिगृह में
 रोती रहती है दिन-रात । कैसे भूले हो
 भाई, तुम आज कैसे भूले हो उसे, कहो ?
 सब कुछ भूल कर, माता-सम जिसकी
 सेवा करते थे सदा आदर से, यत्न से !
 रघुकुल-रत्न, हा ! तुम्हारे कुल की बधू

बाँध रखे पौलस्तेय ? ऐसे दुष्ट दस्यु को
 दे कर न दण्ड यह निद्रा क्या उचित है
 तुमको हे भाई, कहे, शौर्य्य तथा वीर्य्य मे
 सर्गभुक्त-तुल्य तुम दुर्द्धर जो युद्ध मे ?
 रघुकुल-केतु उठो, वीर विजयी, उठो ।
 देखो, मैं तुम्हारे बिना कैसा असहाय हूँ,
 होता है रथोन्द्र जैसे चक्रहीन रथ मे !
 सोने से तुम्हारे हनूमान बलहीन है,
 धनु गुण-हीन यथा, रोता है विषाद से
 अङ्गद; सुकण्ठ मित्र कितना विषयण है ।
 सुहृद विभीषण अधोर हो रहे हैं ये;
 व्याकुल है सैन्य-दल, भाई, उठो अब तो !
 आँखें ये जुड़ाओ तुम, शीघ्र आँखें खोल के !
 किन्तु यदि छान्त हुए तुम इस युद्ध में,
 तो हे धन्वि, लौट चले, आँओ, वनवास को;
 काम नही भाग्यहीना सीता-समुद्धार का
 प्रियतम, काम नही राक्षस-विनाश का ।
 जननी सुमित्रा-पुत्रवत्सला तुम्हारी हा ।
 सरयू किनारे जहाँ रो रही है, जा के मैं
 कैसे वहाँ वत्स, उन्हे मुँह दिखलाऊँगा,
 जाओगे न मेरे सङ्ग यदि तुम लौट के ?
 क्या कहूँगा उनसे मैं, माता जब पूछेगी—

“मेरा नेत्र-रत्न कहाँ अनुज तुम्हारा है
 राम भद्र ?” ऊर्मिला बधू को समभाऊगा
 कह कर क्या मैं ? और पौरजन-वृन्द को
 बोलो ? उठो वत्स, तुम आज उस भाई से
 विमुख हुए क्यों अहो ! प्रेम-वश जिसके
 राज-सुख छोड़ हुए घोर वनवासी हो ?
 रोते समदुःख से थे देख इन आँखों में
 अश्रु तुम; पोंछते थे वार वार उनको;
 किन्तु आज हो रहा हूँ आँसुओं से आर्द्र मैं,
 देखते नहीं हो तुम मेरी ओर फिर भी
 प्राणाधिक ? लक्ष्मण, यही क्या तुम्हे योग्य है,
 (विश्व मे विदित भ्रातृवत्सल जो तुम हो)
 मेरे चिरानन्द भाई, बोलो तुम मुझसे ?
 जन्म से ही मैं ने रख ध्यान मे स्वधर्म को
 पूजा सदा की है देव-कुल की, फल क्या मुझे
 देवों ने दिया है यही ? हे निशे, दयामयी
 तुम हो, शिशिर-वृष्टि करके सदैव ही
 करती हो सरस निदाघ-शुष्क फूलों को;
 मेरी प्रार्थना है, इस फूल को हरा करो !
 तुम हो सुधानिधि सुधांशु, देव, कृपया
 जीवन प्रदायिनी सुधा का दान करके
 लक्ष्मण की रक्षा करो—रक्षा करो राम की

करुणानिधान तुम, राघव मिखारी की ।”

यों बहु विलाप किया रत्नोवंश-वैरी ने
अपने प्रियानुज को गोद में लिये हुए;
उच्छ्वसित वीर हुए चारों ओर शोक से,
होते हैं महीरुह ज्यों उच्छ्वसित रात में,
बहता है वायु जब निविड़ अरण्य में ।

कैलासाद्रि धाम में भवानी निरानन्द है
राघवेन्द्र-वेदना से, रक्खे हुए अङ्क में
शङ्कर के चरण-सरोजों को, भिगोती हैं
अविरल आँसुओं से, जैसे उषा सुन्दरी
शिशिर-कणों से है भिगोती अरविन्दों को !
बोले प्रभु—“देवि, क्यों अधीरा तुम आज हो ?”

“जानते नहीं क्या तुम देव ?” कहा देवी ने—
“लक्ष्मण के शोक-वश रामचन्द्र लङ्का में
करुण विलाप सुनो, करते हैं कितना;
चित्त है अधीर मेरा राम के विलाप से !
कौन अब विश्वनाथ, पूजेगा जगत में
दासी को ? अतीव लज्जा दी है मुझे तुमने
आज; प्रभो, नाम मेरा तुमने डुबो दिया
विषम कलङ्क-जल में है । तपोमङ्ग के
दोष से है दोषी यह दासी, क्या इसी लिए
तापसेन्द्र, दण्ड दिया ऐसा आज मुझको ?

कुक्षण में देवराज मेरे पास आया था ।
कुक्षण मे हाय । मुझे राघव ने पूजा था ।”

मौन महादेवी हुई रो के अभिमान से ।
हँस कर बोले हर—“तुच्छ इस बात से
होती निरानन्द हो क्यों तुम गिरिनन्दिनी ?
भेजे राघवेन्द्र को कृतान्त-पुर मे प्रिये,
माया-सङ्ग; देह धरे, मेरे अनुग्रह से
पावेगा प्रवेश उस प्रेतपुर मे रथी
दाशरथि । और पिता दशरथ उसको
युक्त बता देगे फिर लक्ष्मण के जीने की;
छोड़े निरानन्द यह चन्द्रानने । माया को
दे यह त्रिशूल मेरा, अग्नि-स्तम्भ-सा यही
दीपित करेगा तमःपूर्णा यम-लोक को;
पूजेगा सभक्ति वहाँ प्रेतकुल इसको,
पूजा करती है प्रजा जैसे राजदण्ड की ।”

याद किया अम्बिका ने तत्क्षण ही माया को ।
आके अविलम्ब हुई प्रणत कुहुकिनी;
हैमवती बोली मृदु स्वर से यों उससे—
“जाओ तुम लङ्का में अभी हे विश्वमोहिनी,
रो रहे हैं सीतापति लक्ष्मण के शोक से
कातर हो, सम्बोधन दे कर सुवाणी से,
सङ्ग निज प्रेतपुर ले जाओ उन्हें अभी;

युक्ति बता देंगे पिता दशरथ उनके
 फिर से सुमति शूर लक्ष्मण के जीने की
 और सब वीरों के, मरे जो इस युद्ध में !
 निज कर कञ्ज में लो शूल यह शूली का,
 दीपित करेगा तमःपूर्णा यम-लोक को
 अग्नि-स्तम्भ-तुल्य यही सति, निज तेज से ।”
 माया चली करके प्रणाम महामाया को ।
 छाया-पथ में से भगी छाया दूर म्लान-सी,
 रूप की छटा से । हँसी तारावली आभा से,
 रत्नावली खिलती है जैसे रवि-कान्ति से ।
 पीछे, नभ-ओर, रख रेखा सु-प्रकाश की—
 सिन्धु-जल में ज्यों तरी चलती है—रूपसी
 लङ्कापुर-ओर चली । आई कुछ क्षण में
 देवी जहाँ सैन्य सह क्षुरण रघुरत्न थे ।
 पूर्ण हुई हेमलङ्का स्वर्ग की सुगन्ध से ।

बोली जननी यों तब राघव के कान में—
 “पोंछो रथि, दाशरथि, अश्रु धारा अपनी,
 प्राणप्रिय अनुज बचेगा; सिन्धु तीर्थ में
 स्नान कर, चलो, मेरे सङ्ग यम-लोक को;
 पाओगे प्रवेश तुम शिव के प्रसाद से
 सुमति, शरीर सह आज मेरे साथ में !
 युक्ति बता देंगे पिता दशरथ तुमको

लक्ष्मण सुलक्षण के प्राण पुनः पाने की ।
 सृजन करूँगी मैं सुरङ्ग-पथ उसमे
 निर्भय प्रवेश करो, शीघ्र चलो सुमते ।
 मार्ग दिखलाती हुई तुमको, चलूँगी मैं
 आगे । शूर सुग्रीवादि है जो, कहे सब से—
 सावधान रक्षा करे लक्ष्मण के शव की ।”

विस्मय से राघवेन्द्र—सेनाध्यक्ष शूरों को
 करके सतर्क—चले सिन्धु महातीर्थ को ।
 स्नान कर शीघ्र महाभाग शुचि स्रोत में,
 तृष्ट कर तर्पण से देव-पितरादि को,
 शिविर के द्वार पर आये शीघ्र एकाकी ।
 उज्वल निवेश देखा देवतेजःपुञ्ज से
 सम्प्रति सुधार्मिक ने, भक्ति युक्त पूजा को
 हाथ जोड़, पुष्पाञ्जलि देकर सुदेवी की ।
 रख फिर वीर-वेश वीर-कुल-वन्द्य ने
 निर्भय प्रवेश किया माया के सुरंग में—
 क्या भय उसे है देव जिससे प्रसन्न है ?

रघुकुल-रत्न चले, तिमिर-अरण्य में,—
 जैसे पथी चलता है, जब उस वन मे
 खेलती सुधाकर की किरणें हैं रात में ।
 सङ्ग आगे आगे चली माया मौन भाव से ।
 चौक कुछ देर मे निनाद सुना प्रभु ने,

मानों क्षुब्ध सौ सौ सिन्धु कल्लोलित होते हैं !
 दीख पड़ी सम्मुख कराल पुरी उनको
 चिर तमसावृत ! सदैव वज्रनाद से
 बहती है परिखा-सी वैतरणी तटिनी;
 उठती तरङ्गों हैं सवेग रह रह के,
 जैसे तप्त भाजन में पय है उबलता
 उगल उगल धूम, त्रस्त वह्नि-तेज से !
 होता नहीं उदित दिनेश उस व्योम में,
 किं वा चन्द्र, तारा-वृन्द; पावक उगल के
 घोर घन घूमते हैं नित्य शून्य-पथ में,
 करते कठोर गर्जना हैं, ज्यों प्रलय में
 कुपित पिनाकी, रख विशिख पिनाक पै !

देखा सेतु अद्भुत नदी पर नरेन्द्र ने
 विस्मय के साथ, कभी अग्निमय है, कभी
 धूमावृत और कभी सुन्दर सुवर्ण से
 निर्मित-सा ! लक्ष लक्ष कोटि कोटि प्राणी हैं
 दौड़ते सवेग उस सेतु-ओर सर्वदा—
 हाहाकार-युक्त कोई, कोई समुल्लास से ।

पूछा तब राघव ने—“कहिए कृपामयी,
 रखता है सेतु यह नित्य नाना वेश क्यों ?
 और क्यों असंख्य प्राणी (अग्नि-शिखा देख के
 शलभ-समान) दौड़ने हैं सेतु-ओर क्यों ?”

देवी ने कहा कि—“कामरूपी यह सेतु है
 सीतापते, पापियों के अर्धा अग्निमय है
 धूमावृत, किन्तु पुण्यप्राणी जब आते है,
 होता है सुरम्य यथा स्वर्ग-पथ स्वर्ग में !
 देखते हो जो ये तुम अगणित आत्माएँ,
 आती प्रेतपुर मे हैं, देह तज भव मे,
 कर्म-फल भोगने को; पुण्य-पथगामी जो,
 जीव है, सहर्ष सेतु-पथ से वे जाते हैं,
 उत्तर या पश्चिम या पूर्ण वाले द्वार से;
 और जो हैं पापी, महा क्रेश से वे तरके
 रात-दिन होते नदी पार हैं, पुलिन में
 पीड़ा यमदूत उन्हे देते हैं प्रहारों से,
 जलते हैं प्राण पड़ मानों तप्त तैल मे !
 चलो नररत्न, मेरे साथ, शीघ्र देखोगे
 देखा नर-चक्षुओं ने जिसको नहीं कभी ।”

पीछे रघुवीर चले मन्द मन्द गति से,
 आगे चली काञ्चन की दीवट-सी मोहिनी,
 करके उजेला उस विकट प्रदेश में ।
 सेतु के समीप देखा राघव ने भय से
 दीर्घाकार दण्डपाणि कालदूत है खड़ा ।
 बोला वह वज्रनाद पूर्वक गरज के—
 “कौन तुम साहसि ? सदेह किस बल से

आये हो अगम्य इस आत्ममय देश में ?
 शीघ्र बोलो, अन्यथा मैं घोर दण्डाघात से
 मारूँगा मुहूर्त भर में ही तुम्हे !” हँस के
 देवी ने दिखाया शम्भु-शूल यमदूत को ।
 करके प्रणाम वह बोला नतभाव से—
 “मेरी शक्ति क्या है जो तुम्हारी गति रोक्कूँ मैं ?
 स्वर्णमय सेतु हुआ आप समुद्रास से,
 साध्वि, देखो, व्योम यथा ऊषा के मिलन से !”

वैतरणी-पार हुए दोनों । रघुवीर ने
 लोहे का पुरी का द्वार देखा तब सामने;
 चक्राकृति राशि राशि अग्नि चारों ओर है
 जलती उजेला कर नित्य एक गति से !
 अग्नि-अक्षरोंमें लिखा देखा नररत्न ने
 तोरण-ललाट पर—“पापी इस मार्ग से
 जाते दुःख-देश में हैं चिर दुख भोगने,
 बचो हे प्रवेशि, इस देश के प्रवेश से !”

द्वार पर अस्थि-चर्म-सार ज्वर रोग को
 राघव ने देखा । कमी कौपता है शीत से
 थर थर क्षीण देह; और कमी दाह से
 जलता है, जैसे सिन्धु बड़वानल-ताप से ।
 कफ कमी, पित्त कमी, वात कमी उसको
 घेरते हैं कोप कर सारा ज्ञान हरके ।

पास उसी रोग के है दीर्घाकार धारिणी
 उदरपरायणता;—भोजन अजीर्ण के
 उगल उगल वार वार है निगलती
 लेकर सु-खाद्य दोनों हाथों से अभागिनी !
 उसके समीप है प्रमत्ता प्रमादिनी,
 आधी खुली, आधी मुँदी आँखें लिये हँसती,
 रोती कभी, गाती कभी, नाचती कभी तथा
 बकती कभी है ज्ञानहीना, ज्ञानहारिणी !
 उसके समीप काम, विगलित देह है
 शव-सम, तो भी दुष्ट रत है सुरत में,
 जलता हिया है सदा कामानल-ताप से ।
 उसके समीप बैठी यक्ष्मा महा भीषणा,
 शोणित उगलती है रात-दिन, खोंस के;
 सोंस चलती है शीघ्र शीघ्र, महा पीड़ा है !
 विकटा विशूचिका है ज्योतिर्हीनलोचना;
 रक्त बहता है मुख और मल-द्वार से,
 जैसे जल-स्रोत ! तृषा रूपी रिपु घेरें है;
 अङ्गग्रह नाम घोर यमचर अङ्गों को
 प्रास करता है—यथा व्याघ्र वन-जीव को
 मार कर कौतुक से रह रह उसको
 काटता है । नैठी उस रोग के समीप ही

आहुति से अग्नि यथा; और कभी दुर्बला !
 नाना विध भूषणों से भूषिता कभी; कभी
 नंगी—यथा काली विकराल रण-रङ्ग में !
 गाती कभी गीत करताल दे के उन्मदा;
 रोती कभी, हँसती कभी है घोर हास्य से,
 दाँतों को निकाल कर; काटती है शस्त्र से
 करण कभी अपना स्वयं ही; विष पीती है;
 बाँध निज ग्रीवा कभी डूबती है पानी में !
 और कभी हाव-भाव विभ्रम-विलास से
 कामातुरा कामियों को निकट बुलाती है !
 न कर विचार कुछ मूत्र और मल का
 अन्न में मिला के हाथ ! खाती अनायास है !
 शृङ्खला-निबद्धा कभी, धीरा कभी होती है,
 पवन-विहीन यथा स्रोतोहीन, सरिता !
 गिन सकता है कौन और जो जो रोग हैं ?
 देखा रथी राघव ने अग्निवर्या रथ मे
 (शोणितार्द्रवस्त्र वाले, अस्त्रधारी) रण को !
 आगे मूर्तिमान क्रोध बैठा सूत-वेश मे;
 लम्बी नर-मुण्ड-माला पहने गले में है,
 दीर्घ नर-देह-राशि सामने : उसके !
 दीख पड़ी हत्या खर खड्ग लिये हाथ में,
 ऊर्ध्वावाहू नित्य हाथ । निरत निधन में ।

भूलती है पादप से रस्सी बाँध ग्रीवा में
 मौन आत्महत्या, लोल जिह्वा, घोरलोचना !
 माया महादेवी तब राघव से बोली यों—
 “देखते हो जो ये सब कालदूत सन्मते,
 घूमते हैं नित्य नाना वेश धर लोक में,
 वन मे किरात मृगयार्थ अविश्राम ज्यों !
 सीताकान्त, सम्प्रति कृतान्तपुर में चलो,
 चल कर आज तुम्हे मैं सब दिखाऊँगी,
 कैसे इस जीवलोक मे हैं जीव रहते ।
 दक्षिण का द्वार यह; चौरासी नरक के
 कुण्ड इसमें हैं । शीघ्र आओ, उन्हे देख लो ।”

प्रभु ने प्रवेश किया ऐसे उस पुर में—
 जैसे ऋतुराज दाव-दग्ध वन मे करे,
 अथवा अमृत जैसे जीव-शून्य देह में !
 छाया है अँधेरा वहाँ; होता सब ओर है
 आर्तनाद; चञ्चल जल-स्थल हैं कम्प से;
 मेघाली उगलती है कालानल क्रोध से;
 मारुत दुर्गन्ध पूर्ण बहता सदैव है,
 जलते श्मशान में हों लक्ष लक्ष शव ज्यों !

सम्मुख महाहृद दिखाई पड़ा उनको
 कल्लोलित; जल-मिथ कालानल उसमे
 बहता है ! डूबते करोड़ों जीव हैं वहाँ,

छटपट करते हैं हाहाकार करके !—

“हाय रे ! विधाता, क्रूर, क्या हमें इसी लिए
तू ने है बनाया ! अरे, माँ के ही उदर में
मर न गए क्यों हम लोग जठराग्नि से ?
भास्कर, कहाँ हो तुम ? चन्द्र, तुम हो कहाँ ?
आखिं क्या जुड़ा सकेगे फिर हम तुमको
देख कर देव ? कहाँ पुत्र-दारा आज हैं
आत्मवर्ग ? हाय ! कहाँ अर्थ, जिसके लिए
सर्वदा कुकर्म किये—धर्म छोड़ हमने ?”

बार बार पापी-प्राण यों ही उस हृदय में
करते विलाप है । प्रतिध्वनि-सा शून्य से
भैरव निनाद में यों उत्तर है मिलता—
“करते हो दुर्मते, क्यों व्यर्थनिन्दा विधि की
तुम ? इस देश में स्वकर्म-फल पाते हो !
भूले क्यों स्वधर्म कहो, पाप-लोभ-वश हो ?
विश्व में विदित शुभ विधि विधि-विधि है ।”

भीम यमदूत, दैववाणी पूर्ण होते ही,
करते हैं दण्डाघात माथे पर उनके;
काटते हैं कोटि कोट, विकट प्रहारों से,
वज्रनखी, मांसभोजी पक्षी उड़ उड़ के
टूटते हैं छायामयी देहों पर उनकी
आँति खींचते हैं, मांस काट हुहुङ्कार से !

पूरित है देश पापियों के आर्तनाद से ।

माया कहने लगी कि—“नाम इस कुण्ड का रौरव है, अग्निमय है यह सुधी, यहीं पर-धन हारियों का होता चिर वास है; होकर विचारक करे जो अविचार तो डाल दिया जाता इसी कुण्ड में है वह भो, और जो जो जीव महा पापकारी होते हैं उनका ठिकाना यही । आग कभी इसकी बुझती नहीं है, कोट काटते हैं सर्वदा ! अग्नि नहीं साधारण, रोष सदा विधि का धधक रहा है पापियों को दग्ध करता ! रथिवर, देखो अब कुम्भीपाक चलके; तप्त तैल में है जहाँ पापियों को भूनते नित्य यमदूत । वह क्रन्दन सुनो ज़रा ! रोका है तुम्हारा घ्राण-मार्ग मैं ने शक्ति से, अन्यथा कदापि तुम ठहर न सकते ! किं वा चलो वीर, जहाँ अन्धतम कूप में आत्मघाती पापी चिर बद्ध हुए रोते हैं !”

हाथ जोड़ बोले नर-रत्न—“बस, दास को क्षमा करो क्षेमङ्करि, मैं जो और देखूँगा ऐसे दृश्य, तो अभी मरूँगा पर-दुःख से ! हाय ! मातः, इस भव-मण्डल में स्वेच्छा से

कौन जन्म ले जो यही दुर्दशा हो अन्त में ?
 दुर्बल मनुज कभी कलुष-कुट्टक से
 बच सकता है देवि ?” बोली तब माया यों—
 “ऐसा विष कोई नहीं वीर, इस विश्व में
 जिसकी चिकित्सा न हो । किन्तु यदि उसकी
 कोई अवहेला करे, कौन फिर उसकी
 रक्षा कर सकता है ? लड़ता है पाप से
 कर्म-क्षेत्र में जो धीर, देव-कुल उसके
 नित्य अनुकूल रहता है; वर्मा बन के
 धर्म है बचाता उसे । दण्डस्थल ये सभी
 देखा नहीं चाहते तो आओ इस मार्ग से ।”

चल कुछ दूर, घुसे सीताकान्त वन में
 नीरव, असीम था जो, पत्नी तक जिसमें
 बोलते नहीं थे; नहीं बहता था वायु भी;
 फूलते नहीं थे वन-शोभन प्रसून भी ।
 ठौर ठौर पत्र-पुञ्ज भेद कर रश्मियाँ
 आती थीं,—परन्तु तेजोहीन, रुग्ण-हास्य-सी ।

घेर लिया राघव को लाख लाख जीवों ने
 आकर अचानक सु-विस्मय के साथ मे,
 घेरती हैं मक्खियाँ ज्यों आ के मधु-पात्र को ।
 बोल उठा कोई जन सकरुण कण्ठ से—
 “कौन हो शरीरि, तुम ? किस गुण से कहे,

आये यहाँ ? बोलो शीघ्र, देव हो कि नर हो ?
 वाक्य-सुधा-वृष्टि से दो तृप्ति हम सब को !
 पापी प्राण हरण किये ये यम-दूतो ने
 जिस दिन सुगुणि, हमारे, उस दिन से
 रसना-जनित शब्द हमने नहीं सुना ।
 आँखें आज तृप्त हुईं देख इन अङ्गो को
 शोभनाङ्ग शूर, अब तृप्त करो कानों को !”

बोले प्रभु—“जन्म रघु-वंश में है दास का;
 नाम है पिता का रथी दशरथ, माता का
 पाटेश्वरी कौशल्या; मुझे है राम कहते;
 हाय ! वन-वासी भाग्य-दोष से हूँ आज मैं !
 शम्भु के निदेश से मिलूँगा पितृदेव से,
 आया हूँ इसी से प्रेत-वृन्द, यम-लोक में ।”

बोला एक प्रेत—“जानता हूँ मद्र, तुमको,
 मारा था तुम्हीं ने मुझे पञ्चवटी-वन में !”
 चौंक कर राघव ने देखा खड़ा सामने
 राक्षस मारीच— अब देह से रहित है !
 पूछा रामचन्द्र ने कि—“तुम किस पाप से
 आये इस घोरतर कानन में हो कहे ?”
 “हेतु दुष्ट रावण ही है हा ! इस दण्ड का
 राघवेन्द्र !” शून्यदेह प्राणी कहने लगा—

तुमको छला था, है इसी से यह दुर्दशा !”
 दूषण सहित खर आया (खर खङ्ग-सा
 था जो रण मध्य, जब जीवित था) देख के
 राम को, सरोष, सामिमान दूर हो गया,
 जैसे विष-हीन सर्प देख के नकुल को,
 बिल में, विषाद-वश, छिपता है । सहसा
 पूरित अरण्य हुआ भैरव विराव से,
 भागे भूत चिल्लाकर—जैसे घोर आँधी से
 उड़ते हैं शुष्क पत्र ! माया तब बोली यों—
 राम, यह प्रेतकुल बहुविध कुण्डों में
 वास करता है; यहाँ आकर कभी कभी
 घूमता है नीरव विलाप करता हुआ ।
 देखो, यम-दूत वह निज निज ठौर को
 सबको खदेड़ता है !” देखा तब वैदेही-
 हृदय-सरोज-रवि ने कि श्रेणी-वद्ध हो
 जा रहे हैं भूत, पोछे भीम यमदूत है;
 चिल्लाकर दौड़ते है प्रेत-मृग-यूथ ज्यों
 मागते हैं ऊर्ध्वश्वास, जब है खदेड़ता
 भीमाकृति भूखा सिंह । सजल नयन हो
 देव दयासिन्धु चले सङ्ग सङ्ग माया के ।

आमाहीन, चन्द्रलेखा जैसे दिवा-भाग में !
 खींच कर केश कोई कहती है—“मैं तुम्हें
 बाँधती थी स्निग्ध कर, कामियों के मन को
 बाँधने के अर्थ सदा—भूल धर्म-कर्म को,
 उन्मदा हो यौवन के मद से जगत में !”
 चीर के नखों से वक्ष कहती है कोई यों—
 “तुम्हें के सजा के सदा मोती और हीरों से
 व्यर्थ ही बिताये दिन, अन्त में मिला क्या हा !”
 कोई निज नेत्रों को कुरेद कर खेद से
 (जैसे शव-नेत्र क्रूर गीघ हैं निकालते)
 कहती है—“पापनेत्रों, अञ्जन से मैं तुम्हें
 करके सु-रञ्जित, कटाक्ष-बाण हँस के
 छोड़ती थी चारों ओर, दर्पण में देख के
 आमा मैं तुम्हारी घृणा करती मृगों से थी ।
 उस गरिमा का यही था क्या पुरस्कार हा !”

चली गईं रोती हुईं वामाएँ विषाद से ।
 पीछे है कृतान्त-दृती उनको चला रही,
 साँप फुफकारते हैं कुन्तल-प्रदेश में;
 नख हैं कृपाण-सम; ओष्ठ रुधिराक्त हैं;
 लटक रहे हैं कदाकार कुच भूल के
 नाभि तक; धक धक अग्नि-शिखा नाक से
 निकल रही है, नयनाग्नि मिली उससे ।

पतियों के सङ्ग सुख पूर्णक सदैव ही;
 है यह अतुल धाम स्वर्ग, मर्त्य दोनों में;
 शोभित हैं रम्य हर्म्य सुन्दर विपिन में;
 सुकमल-पूर्णा स्वच्छ सर हैं जहाँ तहाँ;
 बहता वसन्त-वायु सुस्वन से है सदा;
 पञ्चम में कोकिलाएँ कूकती हैं सर्वदा ।
 बजती है वीणा स्वयं, सप्तस्वरा मुरली,
 मधुर मृदङ्ग ! दधि, दुग्ध, घृत आदि के
 कुण्ड सब ओर भरे; फलते हैं वन में
 अद्भुत अमृत फल; करती प्रदान हैं
 चर्ष्या, चोष्य, लेह्य, पेय अन्न स्वयं अन्नदा !
 इष्ट जो जिसे हो वही तत्क्षण है मिलता;
 स्वर्ग में ज्यों कामलता सद्यः फलदायिनी ।
 काम महेष्वास, वहाँ जाने का नहीं, चलो,
 उत्तर के द्वार पर, घूमें वहाँ थोड़ा सा ।
 वत्स, अविलम्ब तुम पितृ-पद देखोगे ।”

उत्तर की ओर चले दोनों शीघ्र गति से ।
 देखीं वहाँ राघव ने सौ सौ गिरि-राजियों
 वन्ध्या, अहा ! दग्ध यथा देवरोषानल से !
 कोई रखती है तुङ्ग शृङ्ग पर हिम की
 राशि; कोई वार वार गरज गरज के
 पाषक उगलती है अग्निमय झोतों से

करके द्रवित शिला-खण्डों को, गगन को
 ढँकती है भस्म-राशि-द्वारा, महानाद से
 करके दिशाएँ दर्शों पूर्ण ! देखे प्रभु ने
 सौ सौ मरुक्षेत्र, नहीं सीमा कहीं जिनकी;
 निरवधि तप्त वायु बह कर वेग से
 बालू को उड़ा कर तरङ्गों-सी उठाती है !
 दीख पड़ा अतट-तड़ाग महासिन्धु-सा;
 आँधी से तरङ्ग उठती हैं कहीं शैल-सी
 करके कठोर नाद; और कहीं जल को
 राशि गतिहीन सड़ती है बँधी उसमें;
 क्रीड़ा करते हैं भीम भेक शोर करके;
 तैरते हैं तत्क्षक अशेष देही शेष-से !
 जलता हलाहल कहीं है, यथा सिन्धु में
 उबल उठा था वह मन्थन-समय में ।
 घूमते हैं पापी जन इन सब देशों में
 चिल्ला कर रोते हुए ! पन्नग हैं डसते;
 बिच्छू डंक मारते हैं—कीट घोर दाँतों के !
 भूपर है आग और घोर शीत शून्य में !
 हाय ! कब कौन इस उत्तर के द्वार में
 पल भर को भी कल पा सकेगा ? सुरथी
 तत्क्षण वहाँ से चले, सङ्ग महामाया के ।
 नाविक सयल जल-राशि पार करके,

तट के समीप जब आ के है पहुँचता,
 पुष्पारण्य-जनित-सुगन्धि-सखा उसको
 भेटता है वायु, और सुन चिरकाल में,
 जन-रव-युक्त जैसे पिक-कुल-कण्ठ को
 डूबता है मोद-जल-मध्य वह; वैसे ही
 अपने समीप सुनी वाद्य-ध्वनि राम ने !
 अद्भुत सुवर्ण-सौध चारों ओर उनको
 दीख पड़े और वहाँ दीख पड़ी सोने के
 पुष्पों से प्रपूर्णा वन-राजि, दीर्घ सरसी,
 अम्बुजों की शाला ! तब माया मृदु स्वर से
 बोली—“इस द्वार मे हे वीर, वे महारथी
 चिर सुख भोगते हैं जो समक्ष युद्ध में
 प्राण तजते हैं । सुख-भोग इस भाग का
 अन्तहीन है हे महामाग ! चलो, वन के
 मार्ग से, यशस्विजन देखोगे यहाँ रथो,
 जिनके सुयश से है सञ्जीवनी नगरी,
 कुञ्ज यथा सौरभ से । इस शुचि भूमि को
 विधि का सुहास्य चन्द्र, सूर्य्य, तारा-रूप में
 करता प्रकाशित सदा है ।” कुतूहल से
 आगे बढ़े शीघ्र रथी, आगे शूलधारिणी
 माया चली ! देखा कुछ देर में नृमणि ने
 आगे रङ्गभूमि का-सा क्षेत्र । किसी स्थल में

शूलों के समूह, शालवन-से, विशाल हैं;
 हींसते कहीं हैं हय, गज हैं गरजते,
 भूषित वे हो रहे है रम्य रण-सज्जा से !
 खेलते कहीं हैं चर्मधारी असि-चर्म से;
 पृथ्वी को कँपा के कहीं लड़ते सु-मल्ल हैं;
 उड़ते है केतु-पट मानों रणानन्द से ।
 कुसुमासनस्थ, स्वर्ण वीणा लिये हाथ मे,
 गाते हैं सुकवि कहीं—मोह श्रोतृ-वृन्द को—
 वीर-कुल-सङ्कीर्तन । मत्त उस गान से
 करता है वीर-शकुल हुंक्रति; सुगन्धि से
 पूर्ण कर देश को न जाने कौन स्वर्ग के
 फूल बरसाता है अपूर्व सब ओर से ।
 नाचती है अप्सराएँ मानसविनोदिनी;
 गाते कल किन्नर हैं जैसे सुरधाम में ।

माया ने बताया तब—“श्रेष्ठ सत्ययुग में
 निहत हुए जो वीर सम्मुख समर मे,
 देखो क्षत्रचूडामण, हैं वे इस क्षेत्र में ।
 वह है निशुम्भ हेमकाय हेमकूट-सा;
 उज्वल किरीट-कान्ति व्योम में है उठती,
 अति ही बली है वीर । देव-तेज-सम्भवा
 चण्डी ने इसे था स्वयं मारा महा युद्ध में ।
 शुम्भ को निहारो, शूलि शम्भु-सा है विक्रमी;

भीषण तुरङ्गदमी महिष असुर को
 देखो, त्रिपुरारि-अरि सुरथी त्रिपुर को;
 विश्व मे विदित वृत्र आदि महा दैत्यों को ।
 भ्रातृ-प्रेम-जल मे निमग्न पुनः देखो हैं
 सुन्द, उपसुन्द ।” पूछा राघव ने देवी से—
 “कहिए दयामयि, दिखाई नही देते क्यों
 शूर कुम्भकर्ण, अतिक्राय, नरान्तक (जो
 रण मे नरान्तक था) इन्द्रजित विक्रमी
 और अन्य रत्नो-वंश-बोर ?” कहा माया ने—
 “राघव, अन्त्येष्टि क्रिया होती नहीं जब लों
 तब लों प्रवेश नही होता इस देश में ।
 घूमते है शहर ही जोव-गण—जितने
 दिन तक बन्धु जन करते क्रिया नहीं—
 यत्न से । सुनो हे वीर सीतानाथ, विधि की
 सुविधि यही है । अब देखो उस वीर को
 आता इसी ओर है जो, मैं अदृश्य भाव से
 साथ मे रहूँगी; करो मिष्टालाप उससे ।”
 यों कह अदृश्य हुई माता मोददायिनी ।

विस्मय सहित देखा प्रभु ने सुवीर को
 तेजस्वी; किरोट पर खेलती है बिजली
 मल मल होते दीर्घ देह में हैं, आँखों को
 चौंधा कर, आभरण । शोभित है हाथ मे

उज्वल विशाल शूल, गति है गजेन्द्र की ।
 अग्रसर हो के शूर बोला रघुवीर से—
 “आज सशरीर यहाँ कैसे तुम आये हो
 रघुकुलचूडामणो, न्यायहीन रण मे
 मारा तुमने था मुझे, तोष दे सुकण्ठ को ।
 किन्तु भय छोड़ो तुम, इस यमपुर मे
 जानते नहीं है हम क्रोध, जितेन्द्रिय हैं ।
 मानवीय जीवन का स्रोत महिलोक मे
 रहता है पङ्किल, परन्तु यहाँ उसकी
 होती है विशुद्ध गति । सन्मते, मैं वालि हूँ ।”
 लज्जायुक्त राघव ने किष्किन्ध्याकलत्र को
 देख, पहचाना ! हँस बोला वह फिर यों—
 “आओ रथि दाशरथि, मेरे साथ, पास हो
 देखते हो देव, वह दिव्य उपवन जो
 हेम-पुष्प-पूर्णा, वहाँ धूमता जटायु है
 वीर, जो तुम्हारा पितृमित्र है महाबली !
 परम प्रसन्न वह होगा तुम्हें देख के ।
 जीवन का दान दिया धर्म-हेतु उसने
 अबला सती का त्राण करने में पापी से;
 गौरव असीम है इसीसे उस साधु का ।”
 पूछा राक्षसारि ने कि—“वीर, कहे कृपया
 क्या सम सुखी हो सब तुम इस देश मे ?”

“खान मे” कहा सुवीर वालि ने कि “सैकड़ों होते हैं सुरल राम, किन्तु उन सबकी तुल्य कान्ति होती नहीं; आभाहीन फिर भी होता कहो, कौन ?” चले दोनों प्रेम-भाव से ।

रम्य वन में कि जहाँ बहती सदैव है
तटिनी अमृततोया, कल कल नाद से,
देखा वहाँ प्रभु ने सुराकृति जटायु को;
हस्तिदन्त-रचित अनेक रम्य रत्नों से
खचित वरासन पै गैठा वर वीर है !
वीणाध्वनि हो रही है चारों ओर उसके ।
पद्म-पर्या-वर्ण विभा-राशि वहाँ फैली है,
सौर-कर-राशि यथा चन्द्रातप भेद के
फैलती है उत्सव-निकेत मे । वसन्त का
चिर मधु-गन्ध-पूर्णा बहता समीर है !
आदर के साथ रथी राघव से बोला यों—
“रघुकुल-रत्न, मित्र-पुत्र, अहा ! तुमने
शीतल की आँखों आज मेरी; तुम धन्य हो !
रक्खा था सुलभ में तुम्हारी धन्य माता ने
गर्भ में तुम्हें हे तात, धन्य दशरथ हैं
मित्र मेरे, वत्स, जन्मदाता जो तुम्हारे हैं !
देवकुल-प्रिय हो, सदेह तभी आये हो
तुम इस देश मे । कहो हे वत्स, मैं सुनूँ

युद्ध का क्या हाल है ? मरा क्या महायुद्ध में
दुष्टमति रावण ?” प्रणाम कर प्रभु ने
मधुर गिरा से कहा—“आपके प्रसाद से
मारा बहु राक्षसों को मैं ने महा युद्ध में;
एकाकी बचा है अब लङ्काधिप लङ्का में ।
बाण से उसीके देव, आज हतजीव है
लक्ष्मण अनुज; इस दुर्गम प्रदेश मे
आया इसी हेतु दास, शिव के निदेश से ।
कृपया बत्ताओ, तवमित्र पिता हैं कहाँ ?”

बोला यों जटायु बली—“पश्चिम के द्वार में
रहते राजर्षि राज-ऋषियों के साथ हैं ।
मुझको निषेध नहीं वत्स, वहाँ जाने का;
आओ शत्रुनाशी, वहाँ मैं ही तुम्हे ले चूँ ।”

बहु विध रम्य देश देखे दिव्यमति ने;
सौध बहु स्वर्ण-वर्ण; देवाकृति सुरथी;
सुन्दर सरोवर-किनारे, पुष्प-वन में,
क्रीड़ा करते हैं जीव, हर्ष से, विनोद से,
जैसे मधु मास मे मिलिन्द-शृन्द कुञ्जों में
गूँज कर; किं वा ज्योतिरिङ्गण त्रियामा में,
करके समुज्वल दिशाएँ दशों आभा से !
जाने लगे देनों शीघ्र गति से, निहारते;
घेर लिया राघव को लक्ष लक्ष जीवों ने ।

बोला तब सब से जटायु—“रघुकुल में
 जन्म इस वीर का है ! शिव के निदेश से,
 पितृपद दर्शनार्थ इस यमपुर में
 आया है सदेह यह; तुम सब इसको
 दे के शुभाशीष लौट जाओ निज स्थान को ।”
 प्राणित्तल आशीर्वाद दे कर चला गया ।
 आगे बढ़े दोनों जन शीघ्र महा मोद से !
 छूते कनकाङ्ग गिरि अम्बर को हैं कही
 वृक्षचूड़, दीर्घ जटाधारी ज्यों कपर्दी हों ।
 बहती प्रवाहिणी है स्वच्छ, कल नाद से;
 हीरा, मणि, मुक्ता, दिव्य जल मे हैं फलते !
 शोभित कहीं है—निम्न देश मे—प्रसूनो से
 श्यामला धरित्री, वहाँ पद्म-पूर्णा सर हैं ।
 ब्रजती निरन्तर हैं कोकिलाएँ वन में ।
 नैनतेय-नन्दन यों बोला राघवेन्द्र से—
 “पश्चिम का द्वार रघुरत्न, देखो सोने का;
 हीरों की गृहावली है वत्स, इस भाग में ।
 देखो, स्वर्ण-वृक्ष तले, मरकत-पत्र का
 छत्र उष शीर्ष पर शोभित है जिनके,
 कनकासनस्थ ये दिलीप महाराज हैं;
 सङ्ग में सुदक्षिणा सती है ! भक्ति-भाव से
 पूजा करो वत्स, निज वंश के निदान की ।

रहते राजर्षि है असंख्य इस देश मे,
विश्रुत इक्ष्वाकु तथा मान्धाता, नहुष त्यों !
आगे बढ़ पूजा महाबाहो, पितामह को ।”

बढ़ के, साष्टाङ्ग हो, प्रणाम किया प्रभु ने
दम्पती के पुण्यपद-पद्मों मे; दिलोप ने
दे के शुभाशीष पूछा—“भद्र, तुम कौन हो ?
कैसे सशरीर प्रेतनगरी मे आये हो
देवाकृति वीर ? तव चन्द्रानन देख के
मग्न हुआ मेरा मन मोद-महासिन्धु मे !”
बोली श्री सुदक्षिणा—“सुभग, कहे शीघ्र ही,
कौन हो अहो, तुम ? विदेश में स्वदेश के
जन को निहार यथा आँखों सुख पाती है,
तुमको विलोक मेरी दृष्टि सुख पाती है !
रक्खा गर्भ मे है तुम्हे धीर, किस साध्वी ने ?
देवाकृति, देव-कुल-जात यदि तुम हो,
करते हो वन्दना तो कैसे हम दोनों की ?
देव जो नहीं तो तो बताओ, किस कुल को
उज्वल किया है नर-देव-रूप, तुमने ?”

हाथ जोड़ दाशरथि बोले नत भाव से—
“विश्व मे विदित रघु नाम पुत्र आपके
राजर्षी, जिन्होंने विश्व जीता बाहु-बल से;
पुत्र उन दिग्जयी के पूज्य वर अज थे

पृथ्वीपाल, इन्दुमती देवी ने वरा उन्हे;
 जन्मे रथी दशरथ दिव्यमति उनसे,
 पाटेश्वरी उनकी हुईं हे तात, कौशल्या;
 जन्म इस दास का है उनके उदर से ।
 लक्ष्मण-शत्रुघ्न पुत्र है सुमित्रा माता के
 रण मे शत्रुघ्न है जो ! मध्यमा माँ केकयी,
 जननी प्रभो, है प्रिय भ्राता भरताख्य की ।”

राजऋषि बोले—“वत्स राम, चिरजीवी हो,
 तुम हो इक्ष्वाकु-कुल-शेखर, सुखी रहो;
 फैलेगी तुम्हारी कीर्ति नित्य नई विश्व में
 कीर्तिमान । चन्द्र-सूर्य्य जब तक व्योम मे
 समुदित होंगे । कुल उज्वल हमारा है
 सुगुणि, तुम्हारे सुगुणों से धराधाम मे ।
 देखते हो वत्स, वह ऊँचा हेम-गिरि जो,
 उसके समीप सुप्रसिद्ध इस पुर में,
 वैतरणी-तट पर अक्षय सु-वट है ।
 नीचे उसी वट के तुम्हारे पिता नित्य हैं
 करते तुम्हारे अर्थ पूजा धर्मराज की;
 जाओ, महाबाहो रघुरत्न, तुम उनके
 पास । वे अधीर है तुम्हारे दुःख-शोक से ।”

कर पद-वन्दना सुवीर महानन्द से,
 देकर जटायु को विदा, चले अकेले ही,

(अन्तरीक्ष में है सङ्ग माया) स्वर्ण-शैल के
सुन्दर प्रदेश में विलोका सूक्ष्मदर्शी ने
वैतरणी-तट पर अक्षय सु-वट को
अतुल अमृततोया पृथ्वी पर; सोने की
ढालें उसकी है, अहा ! पन्ने के सु-पत्र हैं;
और फल ? हाय ! फल-शोभा कहूँ कैसे मैं ?
देवाराध्य वृक्षराज मुक्ति-फल-दाता है ।

देखकर राजऋषि दूर से ही प्राणों के
पुत्र को पसार भुज (भौंग अश्रु-जल से)
बोले—“आ गया क्या इस दुर्गम प्रदेश में
इतने दिनों के बाद, देवों के प्रसाद से
प्राणाधिक, आँखें ये जुड़ाने के लिए ? तुम्हें
आज मेरे खोये धन, पा लिया क्या मैं ने है ?
हाय ! सहा तेरे विना कितना, सो क्या कहूँ ?
कैसे कहूँ ? रामभद्र ! लौह अभि तेज से
जैसे गलता है, देह वैसे ही अकाल में
तेरे शोक मे है तजा मैं ने ! नेत्र मूँदे ये
घोर मनोज्वाला-वश । निर्दय विधाता ने
मेरे कर्म-दोष से लिखा है महा कष्ट हा ।
तेरे इस भाल में ! तू धर्म-पथ-गामी है;
घटना तभी है यह घटित हुई; तमी
जीवन-अरण्य-शोभा आशा-लता मेरी हा !

तोड़ी केकयी ने, मत्त करिणी के रूप में !”
 रोये राज-राज-रथी दशरथ शोक से;
 रोये मौन दाशरथि, रोता देख उनको ।

बोले फिर राघव—“अकूल पारावार में
 तात, यह दास आज हो रहा निमग्न है;
 कौन इस आपदा मे रक्तक है दास का ?
 होता भव-मण्डल मे जो कुछ है सो सभी
 होता इस देश मे है ज्ञात अनायास ही
 तो इन पदों में नहीं अत्रिदित है कि क्यों
 आया यह दास यहाँ । हाय, घोर रण मे
 हत हुआ प्राणानुज सहसा, अकाल मे !
 पाये विना उसके न लौटूँगा वहाँ कभी
 होते जहाँ शोभित दिनेश, चन्द्र, तारे है ।
 आज्ञा दो, मरूँ मैं अभी तात, इन पैरों मे ?
 रख सकता मैं नहीं प्राण उसके विना !”
 रोये नररत्न निज पितृपद-पद्मों मे ।

राजऋषि बोले, सुत-शोक से अधोर हो—
 “हेतु जानता हूँ वत्स, मैं तुम्हारे आने का ।
 दे के सुख-भोग को जलाञ्जलि मैं सर्वदा
 पूजता तुम्हारे मङ्गलार्थ धर्मराज को ।
 लक्ष्मण को पात्रोगे सुलक्षण, अवश्य ही;
 प्राण अब भी है बद्ध उसके शरीर मे !—

भग्न कारागार मे भी शृङ्खलित बन्दी-सा ।
 शैल गन्धमादन है, शृङ्ग पर उसके
 फलती विशल्यकरणी है महा ओषधी
 हेमलता । उसको मँगा कर अनुज की
 रक्षा करो । हो कर प्रसन्न यमराज ने
 आप यह यत्न मुझे आज बतलाया है ।
 सेवक तुम्हारा वायु-पुत्र वायुगामी है
 हनुमान; भेजो उसे, लावेगा मुहूर्त में
 ओषधि, प्रभञ्जन-समान भीम विक्रमी ।
 घोर रणमध्य तुम रावण को मारोगे;
 होगा दुष्ट दुर्मति सर्वश नष्ट शीघ्र ही
 तनय, तुम्हारे तीक्ष्ण बाणों से समर में ।
 पुत्र-बधू मेरी वह लक्ष्मी रघुकुल की
 उज्वल करेगी रघु-गेह फिर लौट के;
 किन्तु सुख-भोग नहीं है तुम्हारे भाग्य है !
 जल कर गन्ध रस जैसे धूपदान मे
 आमोदित करता है देश तात, वैसे ही
 सह बहु क्लेश तुम भारत को यश से
 पूरित करोगे ! तुम्हे दण्ड दिया विधि ने
 मेरे पाप-हेतु,—निज पाप से मरा हूँ मैं
 प्राणाधिक पुत्रवर, विरह तुम्हारे मे ।

“आधी रात सम्प्रति हुई है धरातल में ।

लौट जाओ शीघ्र तुम देव-बल से बली,
लङ्का नगरी में; शीघ्र भेजो हनुमान को;
औषध मँगा कर बचाओ प्रियानुज को;
रात रहते ही तात, आ जावे महोषधी ।”

आशीर्वाद पुत्र को पिता ने दिया प्रेम से ।
पुत्र ने पवित्र पद-पद्म-धूलि लेने को
स्वकर सरोरुह बढ़ाये; किन्तु व्यर्थ ही !
कर न सके वे पद-स्पर्श । मृदु स्वर से
बोले यों रघुज-अज-आत्मज स्रजात से—
“भूत पूर्व देह नहीं देखते हो यह जो
प्राणाधिक, छाया मात्र ! कैसे, फिर इसको
छू सकोगे नश्वर शरीरी तुम ? विम्ब ज्यों
दर्पण में, जल में वा, देह यह मेरी है ।
जाओ अविलम्ब प्रिय वत्स, लङ्काधाम को ।”

करके सविस्मय प्रणाम चले सुरथी;
सङ्ग चली माया । बली शीघ्र पहुँचे वहाँ
लक्ष्मण सुलक्षण पड़े थे जहाँ क्षेत्र में;
चारों ओर वीर-वृन्द जागता था शोक से ।

इति श्री मेघनाद-वध काव्ये

प्रेतपुरी नाम

भट्टमः सर्गः

नवम सर्ग

बीती निशा, आई उषा; 'जै जै राम'-नाद से
गरजी विकट सेना, चारों ओर लङ्का के ।

छोड़ कनकासन, मही पर, विषाद से
बैठा जहाँ रक्षोराज रावण था, सिन्धु के
गर्जन-समान भीम शब्द वहाँ पहुँचा !

विस्मय के साथ बली सारण से बोला यों—

“मन्त्रिवर, शत्रु-दल नाद करता है क्यों,
था जो निरानन्द निशाकाल मे विषाद से ?

शीघ्र कहे ! छद्मयोद्धा मूढ़ रामानुज ने
पाये फिर प्राण है क्या ? कौन जाने ऐसा ही
जो हुआ हो, देव-कुल दक्षिण है वैरी के !

बाँधा अविरामगतिस्त्रोत जिस राम ने
कौशल से, जिसके अपूर्ण माया-बल से
तैरी हैं शिलाएँ सिन्धु-जल मे; बचा है जो
दो दो वार मर कर युद्ध मे, असाध्य क्या
उसके लिए है ? कहे बुधवर, क्या हुआ ?”

हाथ जोड़ बोला तब सारण सखेद यों—

“कौन जानता है देव, मायामय विश्व में

देवों की अपार माया ? शैलपति देवात्मा
 आप गन्धमादन ने आके गत रात्रि मे,
 देकर महौषध बचाया फिर है प्रभो,
 लक्ष्मण को । वीरी इस हेतु है गरजते
 हृषयुत । दूना तेज पाकर हिमान्त मे
 सोप ज्यों गरजता है, मन्त वीर-मद से
 सिंहनाद लक्ष्मण विलक्षण है करता ।
 गर्जता सुकण्ठ युत दाक्षिणात्य दल है
 जैसे करि-यूथ नाथ, यूथनाथ-नाद से !”

आह भर बोला तब लङ्कापति सुरथी—
 “मेट सकता है कौन विधि के विधान को ?
 अमरों-मरों को कर विमुख समर मे
 मारा जिस शत्रु को था मैं ने बाहु-बल से,
 बच गया देव-बल से है वह ? काल भी
 भूल गया कर्म्म निज मेरे भाग्य-दोष से !
 छोड़ता है सिंह कभी मृग को पकड़ के ?
 किन्तु लाभ क्या है इस व्यर्थ के विलाप से
 जान लिया मैं ने यह निश्चय कि डूबेगा
 कर्तुरों के गौरव का भानु अन्धकार मे ।
 भाई कुम्भकर्णा मेरा शूलधर शम्भु-सा
 रण में हुआ है हत, और हुआ हत है
 शक्तिधर दूसरा कुमार शक्रविजयी !

रक्खूँ किस साध से हे सारण, ये प्राण मैं ?
 पा सकूँगा लोक मे क्या फिर उन दोनों को ?
 जाओ बुधश्रेष्ठ, रथी राघवेन्द्र है जहाँ;
 तुम उनसे यों कहना कि—‘हे महारथे,
 रत्नोराज रावण है भिक्षा यही मोगता
 तुम से कि सात दिन शत्रुभाव छोड़ के
 ठहरो ससैन्य तुम शूर, इस देश में ।
 राजा किया चाहते है सत्क्रिया कुमार की
 विधियुत । वीर-धर्मा पाला तुम धीरधी ।
 करते समादर है वीर वीरी वीर का ।
 वीर-शून्य है अब तुम्हारे बाहु-बल से
 वीरयोनि स्वर्ण लङ्का ! धन्य वीरकुल मे
 तुम हो । सुलग्न में चढ़ाया चाप तुमने ।
 तुम पर दैव शुभ-दाता अनुकूल हैं;
 दैव-वश रत्नोराज सङ्कट मे है पड़ा,
 पूर्ण करो पूर्णकाम, आज पर-कामना ।’
 जाओ शीघ्र मन्त्रिवर, राघव-शिविर मे ।”

करके प्रणाम राक्षसेन्द्र महाशूर को,
 सङ्गि-दल-सङ्ग चला सारण तुरन्त ही ।
 घोर नादयुक्त द्वार खोला द्वारपालों ने ।
 राक्षस सचिव चला मन्द मन्द शोक से—
 सिन्धु के किनारे—चिर कोलाहल-पूर्ण जो ।

रघुकुलरत्न प्रभु बैठे हैं शिविर मे
 मग्न मोद-सागर में; लक्ष्मण रथीन्द्र हैं
 सम्मुख, हिमानी-हीन नवरस-वृक्ष ज्यों;
 किं वा पूर्णिमा का चारु हास्य-पूर्ण चन्द्रमा;
 अथवा प्रफुल्ल पद्म यामिनी के अन्त मे !
 दाईं ओर रक्षोवीर मित्र विभीषण है,
 और सब सेनापति दुर्द्धर समर में,—
 देव-रथी-वृन्द यथा घेर देव-इन्द्र को !

शीघ्र समाचार दिया आकर सुदूत ने—
 “रक्षःकुल-मन्त्री प्रभो, विश्रुत जगत् मे
 सारण, खड़ा है आज बाहर शिविर के
 सङ्गि-दल सङ्ग लिये; आपकी क्या आज्ञा है ?”
 प्रभु ने निदेश दिया—“सादर सुमन्त्री को
 लाओ यहाँ शीघ्र । इसे कौन नहीं जानता,
 होता है अवध्य दूत-वृन्द रण-क्षेत्र मे ?”

फरके प्रवेश तब सारण शिविर में,
 (राजचरणों में झुक) बोला—“हे महारथे,
 रक्षोराज रावण है भिक्षा यहो माँगता
 तुम से कि—‘सात दिन शत्रुभाव छोड़ के,
 ठहरो ससैन्य तुम शूर, इस देश में !
 राजा किया चाहते हैं सत्क्रिया कुमार की
 विधियुत । वीर-धर्म पालो तुम धोरधी !

करने समादर हैं वीर वौरी वीर का ।
 वीर-शून्य है अब तुम्हारे बाहु-बल से
 वीर-योनि स्वर्णलङ्का; धन्य वीर-कुल मे
 तुम हो । सुलग्न में चढ़ाया चाप तुमने !
 तुम पर दैव शुभ-दाता अनुकूल है;
 दैव-वश रक्षोराज सङ्कट में है पड़ा;
 पूर्ण करो पूर्णकाम, आज पर-कामना ।”

उत्तर मे बोले प्रभु—“मेरा महा वौरी है
 सारण, तुम्हारा प्रभु रावण; तथापि मैं
 दुःखित हूँ दुःख यह देख कर उसका !
 राहु-मस्त रवि को निहार कर किसकी
 छाती नहीं फटती है ? उसके सु-तेज से
 जलता जो वृक्ष है, मलीन उस काल में
 होता वह भी है ! पर, अपर विपत्ति में
 मेरे लिए एक-से है ! लौट-स्वर्णलङ्का में
 जाओ सुधि, सैन्य युत सात दिन अस्त्र मैं
 धारण करूँगा नही । रक्षःबुलराज से
 कहना सुभाषि, तुम—धार्मिक कमी नहीं
 करता प्रहार धर्म-कर्म-रत जन पै !”

रक्षोराज-मन्त्री फिर बोला नत भाव से—
 “रघुकुल-रत्न, तुम नरकुल-रत्न हो;
 अतुल जगत मे हो विद्या, बुद्धि, बल में !

उचित यही है तुम्हें, अनुचित कर्म क्या करते कभी है साधु ? रक्षोदल पति है रावण ज्यों, देव, तुम नर-दल-पति हो ! कुक्षण मे—मुझको हे दुरथे, क्षमा करो, प्रार्थना है चरणों में—कुक्षण मे दोनों ने दोनों से किया है वैर । किन्तु विधि विधि की तोड़ सकता है कौन ? देव, जिस विधि ने वायु को बनाया सिन्धु-वैरी, मृगराज को हाय । गजराज-वैरी, और विहगेन्द्र को भीम भुजगेन्द्र-वैरी; माया से उसी की हैं वैरी राम-रावण । भला मैं किसे दोष दूँ ?”

पाकर प्रसाद दूत सत्वर चला गया
बैठा जहाँ रावण था मौन सुत-शोक में—
वसन भिगोता हुआ अश्रु-वारि-धारा से !
आज्ञा सैन्यनायकों को राघव ने दी यहाँ;
छोड़ रण-सज्जा सब वीर कुतूहल से
करने विश्राम लगे शिविरों में अपने ।

बैठी हैं अशोक-वाटिका में यहाँ मैथिली—
अतल प्रयोधितल मे ज्यों हाय । कमला
विंरह विषयणा सती, आई वहाँ सरमा—
रक्ष कुल राजलक्ष्मी रक्षोबधू-वेश में ।
कर पद-पद्मों मे प्रणाम बैठी ललना

पैरों के समीप । देवी बोली मृदुस्वर से—
 “चन्द्रमुखि, मुझको बताओ, पुर-वासी क्यों
 दो दिन से हाहाकार करते हैं लङ्का में ?
 दिन भर मैं ने रण-नाद कल है सुना;
 कोंपा वन वार वार, मानों महि-कम्प से,
 दूर शूर-वृन्द-पद-भार से; गगन में
 अग्नि-शिखा-तुल्य देखे विशिख; दिनान्त में
 रक्षोदल लौट आया जैजैकार करके,
 रक्षो वाद्य-वृन्द बजा भैरव निनाद से ।
 कौन जीता ? कौन हारा ? शीघ्र कहो सरमे !
 आकुल ये प्राण हा । प्रबोध नहीं मानते;
 जान नहीं पड़ता है पूछें यहाँ किससे ?
 पाती नहीं उत्तर जो चेरियों से पूछें मैं ।
 लाल नेत्र वाली यह त्रिजटा भयङ्करी
 चासुण्डा-समान, खर खड्ग लिये हाथ में,
 आई मुझे मारने को हाथ । कल रात में
 अन्वी बन क्रोध-वश ! चेरियों ने उसको
 रोका किसी भौंति; बचे प्राण ये इसी लिए !
 अब भी जी कोंपता है याद कर दुष्टा को !”

बोली सती सरमा मनोज्ञ मृदु वाणी से,—
 “मारा गया भाग्यवति, भाग्य से तुम्हारे है
 इन्द्रजित युद्ध में, इसीसे दिन-रात यों

करती विलाप हेमलङ्का है विषाद से ।
 इतने दिनों मे हुआ देवि, गतबल है
 कर्बुरकुलेन्द्र बली । मन्दादरी रोती है;
 रत्नः-कुल-नारि-कुल व्याकुल है शोक से,
 और निरानन्द हुए रत्नोरथी रोते हैं ।
 पद्मदल-लोचने, तुम्हारे पुण्य बल से,
 देवर तुम्हारे रथी लक्ष्मण ने रण में
 देवों से असाध्य कर्म सिद्ध किया, मारा है
 जग में अजेय उस वासवविजेता को !”

बोली प्रियभाषिणी कि—“रत्नोबधू, लङ्का में
 तुम ‘शुभ सूचनी’ हो मेरे लिए सर्वथा !
 धन्य मेरे देवर हैं वीर-कुल-केसरी !
 ऐसे शूर सुत को सुमित्रा सास ने सती,
 रक्खा शुभ योग में था अपने सुगर्भ में !
 जान पड़ता है, अब कृपया विधाता ने
 खोला सखि, मेरा यह कारागार-द्वार है !
 एकाकी रहा है अब रावण ही लङ्का में,
 दुर्गति महारथी है । क्या हो अब, देखूँ मैं,—
 और क्या क्या दुःख-भोग हैं इस कपाल में ?
 किन्तु सुनो, हाहाकार बढ़ता है क्रम से !”
 कहने लगी यों तब सरमा सुवचनी—
 “सन्धि कर देवि, कर्बुरेन्द्र राघवेन्द्र से,

सिन्धु के किनारे लिये जाता है तनय को
 प्रेत-क्रिया हेतु । अस्त्र लेगा नहीं कोई भी
 सात दिन-रात यहाँ अब अरिभाव से—
 माना अनुरोध यह रावण का राम ने
 देवि, दयासिन्धु कौन राघव-सा और है ?
 दैत्यबाला सुन्दरी प्रमीला—हाय ! उसकी
 याद ही से साध्वि, आज छाती फटी जाती है !—
 सुन्दरी प्रमीला देह छोड़ दाहस्थल में,
 होगी पति-सङ्ग सती प्रेयसी पतिव्रता !
 देवि, जब काम हर-कोपानल में जला
 तब क्या हुई थी सती रति, पति-सङ्ग में ?”

रोने लगी रक्षोबधू भींग आश्रु-जल से
 शोकाकुला । भूतल में मूर्तिमती करुणा
 सीता के स्वरूप में, सदा पर-दुःख से
 कातरा, सनीरनेत्रा बोली उस आली से—
 “कुक्षण में जन्म हुआ मेरा सखि सरमे,
 सुख का प्रदीप मैं बुझाती हूँ सदैव ही
 जाती जिस गेह में हूँ हाय ! मैं अमङ्गला ।
 मेरे दग्ध भाल मे लिखा है यही विधि ने !
 पति पुरुषोत्तम वे मेरे वन-वासी हैं !
 देखो, वन-वासी हाय, देवर वे मेरे हैं
 लक्ष्मण सुलक्षण ! मरे हैं पुत्र-शोक से

ससुर । अयोध्यापुरी अन्धकाराच्छन्न है;
 शून्य राज-सिंहासन है ! मरा जटायु है
 विकट विपक्ष से, सुभीम भुज-बल से
 मान रखने को इस दासी का ! सखी, यहाँ
 देखो, मरा इन्द्रजित, दोष से अभागी के,
 और मरे रक्षारथी कौन जाने कितने !
 मरती है आज दैत्यबाला, विश्व में है जो
 अद्वितीया तेजस्विनी—अद्वितीया सुन्दरी !
 हाय रे ! वसन्तारम्भ में ही यह कलिका
 खिलती हुई ही सखि, शुष्क हुई सहसा !”
 “दोष क्या तुम्हारा ?” अश्रु पोछ बोली सरमा—
 “कहती हो तुम क्या विषाद-वश सुन्दरी ?
 कौन यह स्वर्ण-वल्ली तोड़ यहाँ लाया है
 देवि, कर वञ्चित रसाल वर को, कहे ?
 राघव के मानस का पद्म कौन तोड़ के
 लाया इस राक्षसों के देश में है चोरी से ?
 डूबता है लङ्कापति आप निज पापों से;
 और यह किङ्किरी कहे क्या ?” सती सरमा
 रोई सविषाद ! रोई रक्षःकुल-शोक से,
 पर-दुख-दुःखिनी, अशोकारण्यवासिनी,
 मूर्तिमती करुणा, विशुद्धा राम-कामना ।
 पश्चिम का द्वार खुला अशानिनिनाद से ।

लक्ष लक्ष रक्षोवीर निकले, लिये हुए
 हाथों में सुवर्ण-दण्ड, जिनमें लगे हुए
 कौशिक-पताका-पट, व्योम में है उड़ते ।
 नोरव पताकीवृन्द राज-पथ-पाश्र्वों में
 चलते हैं श्रेणीबद्ध । आगे अहा ! सबसे
 दुन्दुभि गभीर वजती है गज-पृष्ठ पै,
 पूर्ण कर सारा देश ! पैदल पदाति है
 पक्तिबद्ध, वाजिराजि-सङ्ग गज-राजि है;
 सुरथी रथों में चलते हैं मृदु गति से;
 सकरुण निकरुण से वजते सुवाद्य है ।
 चलती जहाँ तक है दृष्टि, सिन्धु-ओर को,
 जाता निरानन्द रक्षोवृन्द मन्द मन्द है ।
 भ्रुक भ्रुक स्वर्ण-वर्म आँखें चौंधयाते है;
 हेमध्वजदण्ड भानु-रश्मियों की आभा से
 चमक रहे हैं; शीर्ष-रत्न शीर्षदेशों में,
 म्यान कटिबन्धों में, सुदीर्घ शूल हाथों में;
 विगलित अश्रु-धारा हो रही है आँखों से !

निकली सुवीराङ्गना (किङ्करी प्रमोला की)
 विक्रम में भीमा-समा, विद्याधरी रूप में,
 कृष्ण हयारूढ़ा, अति रम्य रण-वेश में,
 विगलितकेशिनी, नृमुण्डमालिनी अहा !
 मुख है मलिन ज्यों सुधाशुकलामाव से

होती रजनी है । अश्रु बहते हैं आँखों से
 अविरल, आर्द्र कर वस्त्र, अश्रु, पृथ्वी को !
 लेती है उसीस कोई वामा, मौन कोई है
 रोती, और देखती है कोई रघु-सैन्य की
 ओर अग्नि-नेत्रों से, सरोष यथा सिंहिनी
 (जालावृत) देख के अदूर व्याध-वर्ग को !
 हाय रे ! कहाँ है वह हास्यच्छटा-चञ्चला !
 और वह विकट कटान्त-शर हैं कहाँ,
 सर्गभेदी थे जो सदा मन्मथ-समर मे ?

चेरियों के बीच मे है शून्यपृष्ठा बड़वा,
 कुसुम-विहीन अहा ! शोभाहीन वृन्त ज्यों !
 चारों ओर चामर डुला रही हैं दासियाँ;
 रोता हुआ वामादल पैदल है चलता
 सङ्ग सङ्ग, कोलाहल उठता है व्योम में !
 भलमल वीरभूषा होती है प्रमीला की
 बड़वा की पीठ पर—चर्म, असि, मेखला,
 तूण, चाप, मुकुट अमूल्य—जड़ा रत्नों से;
 मणिमय सारसन, कवच सुवर्ण का,
 दोनों हैं मनोहत-से—सारसन सोच के
 हाय ! वह सूक्ष्म कटि ! कवच विचार के
 उन्नत उरोज युग वे हा ! गिरि-शृङ्ग-से !
 दासियाँ बिखेरती हैं रौप्य, स्वर्ण मुद्राएँ

और खीले; गायिकाएँ सकरुण गाती हैं;
छाती कूट कूट कर राक्षसियों रोती है !

निकला रथों के बीच रथ वर, मेघ-सा;
चक्रों में छटा है चञ्चला की; रथ-केतु है
इन्द्र-चाप रूपी, किन्तु कान्तिहीन आज है,
प्रतिमा-विमान ज्यों विसर्जन के अन्त में
प्रतिमा-विहीन, शून्य-कान्ति आप होता है !
रो रहे हैं रक्षोःरथी घोर कोलाहल से,
छाती कूट, माथा पीट करते विलाप हैं
ज्ञान-शून्य; रक्खी है सुवीर-भूषा रथ में,—
ढाल, तलवार, तूण, चाप आदि अस्त्र हैं;
सौरकर-राशि-सा किरीट है, सुवर्म है;
रक्षोदुःख गा रही हैं सकरुण गीतों से,
रोती हुई गायिकाएँ ! कोई स्वर्ण-मुद्राएँ
ऐसे है विखेरता कि जैसे वृक्षं मंमता के
भोकेों से विखेरता है फूल-राशि; मार्ग में
गन्ध-वारि वारि-वाही जन हैं छिड़कते,
उच्चगामी रेणु को दबाते हुए, जो नहीं
सह सकती है पद-भार महा भीड़ का ।
सिन्धु-तीर ओर रथ मन्द मन्द जाता है ।

स्वर्ण-शिविका में गन्धपुष्पावृत शब के
निकट प्रमीला सती मूर्तिमती बैठी है,

रति मृत काम-सहगामिनी-सी मर्त्या में !
 माल पर सुन्दर सिन्दूर-विन्दु, कण्ठ मे
 फूलमाला, कङ्कण मृणाल-सी भुजाओं में,
 विविध विभूषणों से है बधू विभूषिता ।
 रोती हुई चामर डुला रही हैं चेरियाँ,
 रोती हुई पुष्प-वृष्टि करती है वामाएँ,
 रत्नः कुल-नारि-कुल व्याकुल विषाद से
 करता है द्वाहाकार । हाय, कहाँ आज है
 आभा वह जो थो मुख-चन्द्र पर राजती
 सर्वदा ? कहाँ है वह हास्य मनोहारी जो
 ओठों पर खेला करता था सदा, भानु का
 रम्य रश्मि-जाल अथि कमलिनि, विम्बा-से
 तोरे अधरों पर है खेलता प्रभात मे ?
 मौनव्रत धारण किये है विधुवदनी—
 मानों देह छोड़ कर उड़ गये प्राण है
 पति के समीप, जहाँ पति है विराजता !
 वृक्ष वर सूखे तो स्वयंवरा लता-बधू
 सूखती है आप । सङ्ग रचोरथी पंक्ति से
 चलते हैं, कोष-शून्य खड्ग लिये हाथों में,
 जिन पर भानु-कर चम चम होते हैं;
 चक्षु चौंधयाती है सुवर्ण कञ्चुकच्छटा !
 उच्चारण करते हैं उच्च देव-मन्त्रों का

चारों ओर वेद-विद, शान्ति पाठ करके
 होतृजन करते हविर्वाह वहन हैं,
 नाना वस्त्र, भूषण, प्रसून, हिमबालुका,
 केसर,अगर, मृगगन्ध आदि सोने के
 पात्रों में लिये है क्रव्य-बधुएँ; सुवर्ग के
 कलसों में पुण्य जल-राशि सुरसरि की ।
 चारों ओर स्वर्ग-दीप जलते हैं सैकड़ों ।
 बजते हैं ढोल, ढाँक, ढक्का और भेरियाँ,
 शङ्ख और भालार, मृदङ्ग, वेणु, तुम्बकी;
 करती शुभ-ध्वनि है रत्नः स्त्रियाँ सधवा,
 भोंग भोंग वार वार अश्रु-वारि-धारा में—
 मङ्गल-निनाद हा ! अमङ्गल-दिवस में !

निकला पदव्रज निशाचरेन्द्र सुरथी
 रावण;— विशद वस्त्र-उत्तरीय धारके
 माला हो धतूरे की गले में यथा शम्भु के;
 चारों ओर मन्त्रि-दल दूर नतभाव से
 चलता है । मौन कर्बुरेन्द्र आर्द्रनेत्र है;
 मौन हैं सचिव, मौन अन्य अधिकारी हैं ।
 रोते हुए पीछे पुर-वासी चले जाते हैं—
 बालक, जरठ, युवा, नर तथा नारियाँ;
 करके पुरी को शून्य अन्धकारमय ज्यों
 गोकुल हुआ था कृष्णचन्द्र विना सहसा !

सिन्धु के किनारे सब मन्द मन्द गति से
चलते हैं, ओंसुओ से भींगते हुए तथा
हाहाकार-द्वारा देश पूर्ण करते हुए !

बोले प्रभु अङ्गद से सुमधुर स्वर से—
“दश शत शूर साथ लेकर महारथी,
तुम युवराज, जाओ, नैर-भाव भूल के,
रक्षोराज सङ्ग सङ्ग तीर पर सिन्धु के;
सादर, सतर्क और मित्रभाव रख के ।
व्याकुल हैं मेरे प्राण रक्ष कुल-शोक से !
मानता नहीं हूँ मैं परापर विपत्ति में ।
लक्ष्मण को भेजता मैं, किन्तु उन्हे देखके,
पूर्वकथा सोच कहीं राक्षसेन्द्र रुष्ट हो;
जाओ युवराज, तुम्हीं, राज-कुल-केसरी,
प्रबल तुम्हारे पिता वालि ने समर में
विमुख किया था उसे, आज शिष्टाचार से,
शिष्टाचारवाले तुम, तुष्ट करो उसको !”

दश शत रथियों के सङ्ग चला सुरथी
अङ्गद समुद्र के किनारे, यथारीति से ।
देव-गण आये व्योमयानों पर व्योम में;
ऐरावत हाथी पर, चिर नवयौवना
इन्द्राणी-सहित इन्द्र आया; शिखिध्वज में
आये स्कन्द तारकारि-सुरकुल सेनानी;

आया रथी चित्ररथ चित्रित सुरथ मे;
 आये वीर वायुराज मृग पर बैठ के;
 आये भीम भैसे पर आप यमराज मी;
 आये अलकेश यक्ष पुष्पक विमान में;
 आया सुधा-धाम निशाकान्त शान्त चन्द्रमा,
 आभाहीन, मास्कर के तेज के प्रताप से;
 अश्विनीकुमार आये, और सब देवता ।
 किन्नर, गन्धर्व आये; आईं देवबालाएँ,
 आईं अप्सराएँ; दिव्य बाजे बजे व्योम में ।
 वीणा लिये देवऋषि आये कुतूहल से,
 त्रिदिव-निवासी और जो थे सब आये वे !

आके सिन्धु-तीर पर सत्वर चिता रची
 विधियुत राक्षसों ने चन्दन-अगर की,
 छोड़ा घृत । गङ्गा के पवित्र पुण्य जल से
 शूर-शव धोकर निशाचरों ने उसको
 पट पहनाया पूत, और उठा यत्न से
 लेटाया चिता पर; गभीर धीर वाणी से
 राक्षस-पुरोहितों ने मन्त्र पढ़े विधि से ।
 देह अवगाह कर सिन्धु महा तीर्थ, में
 पतिगतप्राणा, सती, सुन्दरी, प्रमीला ने,
 खोल रत्न-भूषण वितीर्ण किये सबको ।
 करके प्रणाम गुरु लोगों को, सुभाषिणी

बोली मृदु वचनों से दैत्यबाला-वृन्द से—
 “प्यारी सखियो, लो, आज जीव-लीला-लोक मे
 पूरी हुई मेरी जीव-लीला । दैत्य-देश को
 तुम सब लौट जाओ ! और सब बातें ये
 कहना पिता के चरणों मे; तुम वासन्ती,
 मेरी जननी से” हाय । आँसू बहे सहसा,
 मौन हुई साध्वी, भर आया गला उसका !
 रोया दैत्यबाला-वृन्द हाहाकार करके !

शोक रोक क्षण मे सती ने फिर यों कहा—
 “मेरी जननी से कहना कि इस दासी के
 भाग्य में लिखा था जो विधाता ने, वही हुआ !
 दासी को समर्पित किया था पिता-माता ने
 जिसके करों में, आज सङ्ग सङ्ग उसके
 जा रही है दासी यह, एक पति के बिना
 गति अबला की नहीं दूसरी जगत में ।
 और क्या कहूँ मैं भला ? भूलना न मुझको,
 तुम सबसे है यही याचना प्रमीला की !”

चढ़के चिता पर (प्रसूनासन पै यथा)
 चौंठी महानन्दमति पति-पद-प्रान्त मे;
 कवरी-प्रवेश में प्रफुल्ल फूलमाला थी ।
 राक्षसों के बाजे बजे; बंद पाठ हो उठा
 स्वर सह; रत्नोत्तारियों ने शुभ ध्वनि की;

मिल उस शब्द-सङ्ग, गूँज उठा व्योम मे
 हाहाकार ! चारों ओर वृष्टि हुई फूलों की ।
 कुंकुम, कपूर, तिल, गन्धसार, कस्तूरी,
 और बहु वस्त्र-अलङ्कार यातु-बालाएँ
 देने लगी सविधि । सुतीक्ष्ण तलवारों से
 काट पशु-कुल को, घृताक्त कर उसको
 रक्खा सब ओर राक्षसों ने, महाशक्ति, ज्यों
 रखने तुम्हारे पीठतल मे है भक्ति से
 शाक्त, वलिदान महा नवमी दिवस मे ।

आगे बढ़ बैला तब रक्षोराज शोक से—
 “मेघनाद, आशा थी कि अन्त मे ये आँखें मैं
 मूँदूँगा तुम्हारे ही समक्ष, तुम्हें सौंप के
 राज्य-भार, पुत्र, महा यात्रा कर जाऊँगा !
 किन्तु विधि ने हा !— कौन जानता है उसकी
 लीला ? भला कैसे उसे जान सकता था मैं ?—
 भङ्ग किया मेरा सुख-स्वप्न वह आज यों ।
 आशा थी कि रक्षःकुल-राज-सिंहासन पै
 देख कर तुमको ये आँखें मैं जुड़ाऊँगा,
 रक्षःकुल-लक्ष्मी, राक्षसेश्वरी के रूप मे,
 वाईं ओर पुत्रबधू । व्यर्थ आशा । पूर्ण के
 पाप-वश देखता हूँ आज तुम दोनों को
 इत विरुराल काल-आसन पै । क्या कहूँ ?

देखता हूँ यातुधान-वंश-मान-भानु मैं
 आज चिर राहुग्रस्त ! की थी शम्भु-सेवा क्या
 यत्न कर मैं ने फल पाने के लिए यही ?
 कैसे मैं फिरूँगा—मुझे कौन बतलावेगा—
 कैसे मैं फिरूँगा हाय ! शून्य लङ्का-धाम में ?
 दूँगा सान्त्वना क्या मैं तुम्हारी उस माता को,
 कौन बतलावेगा मुझे हे वत्स ? पूछेगी
 मन्दादरी रानी जब कह यह मुझसे—
 'पुत्र कहाँ मेरा ? कहाँ पुत्रबधू मेरी है ?
 रत्नःकुलराज, सिन्धुतीर पर दोनों को
 किस सुख-सङ्ग कहो, छोड़ तुम आये हो ?'
 किस मिस से मैं उसे जा के समझाऊँगा—
 कहके क्या उससे हा ! कहके क्या उससे ?
 हा सुत ! हा वीरश्रेष्ठ ! चिर रणविजयी !
 हाय ! बधू, रत्नोलक्ष्मि, रावण के भाल मे
 विधि ने लिखी है यह पीड़ा किस पाप से
 दारुण ?”

अधोर हुए कैलासाद्रि घाम में
 शूली ! हुई भाल पर लोडित जटावली;
 गरजा फणोन्द्र-वृन्द भीम फुफकार से;
 धक धक भाल-बहि-ज्वाला उठी काल-सी;
 कल्लोलित गङ्गा हुई भैरव निनाद से,—

मानों गिरि-कन्दरा में स्रोतस्वती वर्षा मे
वेगवती ! थर्रा उठा कैलासाद्रि ! मय से
काँप उठा सारा विश्व; समया हो अभया
साध्वी हाथ जोड़ कर बोली महा रुद्र से—

“प्रभु क्यों सरोष हुए, दासी से कहो, अहो ?
मारा गया मेघनाद विधि के विधान से;
दोषी नहीं रघुरथी ! तो भी अविचार से
मारने चले हो उसे, तो मुझे ही पहले
भस्म करो !” घर लिये पद युग अम्बा ने ।

सादर सती को उठा ईश कहने लगे—
“झातो फटती है हाय ! मेरी गिरिनन्दिनी,
रक्षोदुःख देख कर ! जानती हो तुम, मैं
चाहता हूँ कितना रथोन्द्र नैऋषेय को !
क्षेमङ्करि, केवल तुम्हारे अनुरोध से
करता क्षमा हूँ राम-लक्ष्मण को आज मैं ।”

आज्ञा दी त्रिशूली ने सखेद अग्निदेव को,—
“सर्वशुचि, करके पवित्र निज स्पर्श से,
रक्षोदम्पती को शीघ्र लाओ इस धाम में ।”

दौड़ा अग्नि भू पर इरम्मद के रूप में !
जल उठी दीर्घ चिता धक धक सहस्रा ।
देखा दिव्य अग्निरथ सबने चकित हो;
कनकासनस्थ उसी रम्य रथ में अहा !

वासव-विजेता; दिव्य मूर्ति देखी सबने !
 बाईं ओर सुन्दरी प्रमीला पतिप्राणा है,
 यौवन अनन्त है, अनन्तकान्ति तनु में;
 चिर सुख हासराशि होठों पर राजती !

रथ वर वेग युक्त व्योम-पथ से चला;
 अम्बर से अमर जनों ने पुष्प-वृष्टि की,
 पूर्ण हुआ सारा विश्व पुरयानन्द नाद से !

दुग्ध-धारा-द्वारा शुचि वह्नि यातुधानों ने
 विधि से बुझाई; भस्म-राशि उठा यज्ञ से
 कर दां विसर्जित पयोनिधि के तल मे ।
 धौत कर दाहस्थल जाह्नवी के जल से,
 लक्ष लक्ष रक्षः शिल्पियों ने शोघ्न मिल के
 सु-मठ चिता पर बनाया 'स्वर्ण-ईंटों' से—
 अभ्रमेदी रत्न-मठ-शृंग उठा व्योम में ।

स्नान कर सागर में लौटा अब लङ्का को
 राक्षस-समूह, आर्द्र आँसुओं की धारा से—
 मानों दशमी के दिन प्रतिमा विसर्ज के !
 सात दिन-रात लङ्का रोया की विषाद से ।

इति श्री मेघनाद-वध काव्ये

संस्कृत्या नाम

नवमः सर्गः